





# Holy Bible

*Aionian* Edition®

उर्दू बाइबिल, देवनागरी

**Urdu Bible, Devanagari**

**New Testament**

*Holy Bible Aionian Edition* ®

उर्दू बाइबिल, देवनागरी  
Urdu Bible, Devanagari  
New Testament

CC Attribution ShareAlike 4.0, 2018-2024

Source text: eBible.org

Source version: 7/13/2024

Source copyright: CC Attribution ShareAlike 4.0

Bridge Connectivity Solutions, 2017

Formatted by Speedata Publisher 4.19.18 (Pro) on 7/19/2024

100% Free to Copy and Print

TOR Anonymously

<https://AionianBible.org>

Published by Nainoia Inc

<https://Nainoia-Inc.signedon.net>

We pray for a modern public domain translation in every language

Report content and format concerns to Nainoia Inc

Volunteer help is welcome and appreciated!

*Celebrate Jesus Christ's victory of grace!*



# तारुफ

उद्देश at [AionianBible.org/Preface](http://AionianBible.org/Preface)

The *Holy Bible Aionian Edition* ® is the world's first Bible *un-translation*! What is an *un-translation*? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are *Christ*, *baptism*, *angel*, and *apostle*. The meaning is then preserved more accurately through context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven additional Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are *aiōn*, *aiōnios*, and *aiōdios*, typically translated as *eternal* and also *world* or *eon*. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of *aiōnios*. Consider that researchers question if *aiōn* and *aiōnios* actually mean *eternal*. Translating *aiōn* as *eternal* in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word for *eternal* is *aiōdios*, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon imprisonment. Yet what about *aiōnios* in John 3:16? Certainly we do not question whether salvation is eternal! However, *aiōnios* means something much more wonderful than infinite time! Ancient Greeks used *aiōn* to mean *eon* or *age*. They also used the adjective *aiōnios* to mean *entirety*, such as *complete* or even *consummate*, but never infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So *aiōnios* is the perfect description of God's Word which has *everything* we need for life and godliness! And the *aiōnios* life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life in the future, but the invitation through faith to the *consummate* life beginning now!

The next seven words are *Sheol*, *Hadēs*, *Geenna*, *Tartaroō*, *Abyssos*, and *Limnē Pyr*. These words are often translated as *Hell*, the place of eternal punishment. However, *Hell* is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, *Sheol* is the abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as *Hell*. *Hadēs* is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. *Geenna* is the Valley of Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. *Tartaroō* is a prison for demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. *Abyssos* is a temporary prison for the Beast and Satan. Translators are also inconsistent because *Hell* is used by the King James Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible zero times. Finally, *Limnē Pyr* is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The eleventh word, *eleēsē*, reveals the grand conclusion of grace in Romans 11:32. Take the time to understand these eleven words. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our sources at [eBible.org](http://eBible.org), [Crosswire.org](http://Crosswire.org), [unbound.Biola.edu](http://unbound.Biola.edu), [Bible4u.net](http://Bible4u.net), and [NHEB.net](http://NHEB.net). The Aionian Bible is copyrighted with [creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0), allowing 100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's Guide and read online at [AionianBible.org](http://AionianBible.org), with Android, and TOR network. Why purple? King Jesus' Word is royal... and purple is the color of royalty!

# History

उद् at [AionianBible.org/History](https://AionianBible.org/History)

- 04/15/85 - Aionian Bible conceived as B. and J. pray.
- 12/18/13 - Aionian Bible announced as J. and J. pray.
- 06/21/15 - Aionian Bible birthed as G. and J. pray.
- 01/11/16 - AionianBible.org domain registered.
- 06/21/16 - 30 translations available in 12 languages.
- 12/07/16 - Nainoia Inc established as non-profit corporation.
- 01/01/17 - Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 license added.
- 01/16/17 - Aionian Bible Google Play Store App published.
- 07/01/17 - 'The Purple Bible' nickname begins.
- 07/30/17 - 42 translations now available in 22 languages.
- 02/01/18 - Holy Bible Aionian Edition® trademark registered.
- 03/06/18 - Aionian Bibles available in print at Amazon.com.
- 10/20/18 - 70 translations now available in 33 languages.
- 11/17/18 - 104 translations now available in 57 languages.
- 03/24/19 - 135 translations now available in 67 languages.
- 10/28/19 - Aionian Bible nursed as J. and J. pray.
- 10/31/19 - 174 translations now available in 74 languages.
- 02/22/20 - Aionian Bibles available in print at Lulu.com.
- 05/25/20 - Illustrations by Gustave Doré, La Grande Bible de Tours, Felix Just.
- 08/29/20 - Aionian Bibles now available in ePub format.
- 12/01/20 - Right to left and Hindic languages now available in PDF format.
- 03/31/21 - 214 translations now available in 99 languages.
- 11/17/21 - Aionian Bible Branded Leather Bible Covers now available.
- 12/20/21 - Social media presence on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc.
- 01/01/22 - 216 translations now available in 99 languages.
- 01/09/22 - StudyPack resources for Bible translation study.
- 02/14/22 - Strong's Concordance from Open Scriptures and STEP Bible.
- 02/14/23 - Aionian Bible published on the TOR Network.
- 12/04/23 - Eleēsē added to the Aionian Glossary.
- 02/04/24 - 352 translations now available in 135 languages.
- 05/01/24 - 371 translations now available in 151 languages.



# फहरीस्त

नया अहदनामा

मती .....	1
मरकुस .....	26
लूका .....	42
यूहन्ना .....	70
आमाल .....	92
रोमियो .....	118
1 कुरिन्थियों .....	129
2 कुरिन्थियों .....	140
गलातियों .....	147
इफिसियों .....	151
फिलिप्पियों .....	155
कुलुस्सियों .....	158
1 थिस्सलुनीकियों .....	161
2 थिस्सलुनीकियों .....	164
1 तीमुथियुस .....	166
2 तीमुथियुस .....	169
तीतुस .....	171
फिलेमोन .....	173
इब्रानियों .....	174
याकूब .....	184
1 पतरस .....	187
2 पतरस .....	190
1 यूहन्ना .....	192
2 यूहन्ना .....	195
3 यूहन्ना .....	196
यहूदाह .....	197
मुकाशफा .....	198

मनसलकात

रीडर्स गाईड

लगत

नक्शे

मुकर्रर

मिसाल, Doré







ईसा ने कहा, “ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि यह जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं।”

उन्होंने पची डाल कर उस के कपड़े आपस में बाँट लिए।

लूका 23:34

# मती

**1** ईसा मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहीम का नसबनामा। 2 इब्राहीम से इज्हाक पैदा हुआ, और इज्हाक से याकूब पैदा हुआ, और या'कूब से यहदा और उस के भाई पैदा हुए; 3 और यहदा से फारस और जारह तमर से पैदा हुए, और फारस से हसरोंन पैदा हुआ, और हसरोंन से राम पैदा हुआ; 4 और राम से अम्मिनदाब पैदा हुआ, और अम्मिनदाब से नहसोन पैदा हुआ, और नहसोन से सलमोन पैदा हुआ; 5 और सलमोन से बो'अज़ राहब से पैदा हुआ, और बो'अज़ से ओबेद स्त से पैदा हुआ, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ; 6 और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। और दाऊद से सुलैमान उस 'औरत से पैदा हुआ जो पहले ऊरिय्याह की बीवी थी; 7 और सुलैमान से रहब'अम पैदा हुआ, और रहब'अम से अबिय्याह पैदा हुआ, और अबिय्याह से आसा पैदा हुआ; 8 और आसा से यहसफत पैदा हुआ, और यहसफत से यूराम पैदा हुआ, और यूराम से उज्जियाह पैदा हुआ; 9 उज्जियाह से यूताम पैदा हुआ, और यूताम से आखज़ पैदा हुआ, और आखज़ से हिज़कियाह पैदा हुआ; 10 और हिज़कियाह से मनस्सी पैदा हुआ, और मनस्सी से अमू पैदा हुआ, और अमू से यूसियाह पैदा हुआ; 11 और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के ज़माने में यूसियाह से यकुनियाह और उस के भाई पैदा हुए; 12 और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकुनियाह से सियालतीएल पैदा हुआ, और सियालतीएल से ज़रूबाबुल पैदा हुआ। 13 और ज़रूबाबुल से अबीहद पैदा हुआ, और अबीहद से इलियाक्रीम पैदा हुआ, और इलियाक्रीम से आजोर पैदा हुआ; 14 और आजोर से सदोक पैदा हुआ, और सदोक से अखीम पैदा हुआ, और अखीम से इलीहद पैदा हुआ; 15 और इलीहद से इलीअज़र पैदा हुआ, और अलीअज़र से मतान पैदा हुआ, और मतान से याकूब पैदा हुआ; 16 और याकूब से यूसुफ़ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर था जिस से ईसा पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। 17 पस सब पुरतें इब्राहीम से दाऊद तक चौदह पुरतें हुईं, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक चौदह पुरतें, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक चौदह पुरतें हुईं। 18 अब ईसा मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उस की माँ मरियम की मंगनी यूसुफ़ के साथ हो गई: तो उन के एक साथ होने से पहले वो रूह — उल कुदूस की कुदरत से हामिला पाई गई। 19 पस उस के शौहर यूसुफ़ ने जो रास्तबाज़ था, और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। 20 वो ये बातें सोच ही रहा था, कि खुदावन्द के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ़ “इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर; क्योंकि जो उस के पेट में है, वो रूह — उल — कुदूस की कुदरत से

है। 21 उस के बेटा होगा और तू उस का नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उन के गुनाहों से नजात देगा।” 22 यह सब कुछ इस लिए हुआ कि जो खुदावन्द ने नबी के ज़रिए कहा था, वो पूरा हो कि। 23 “देखो एक कुँवारी हामिला होगी। और बेटा जनेगी और उस का नाम इम्मानुएल रखेंगे,” जिसका मतलब है — खुदा हमारे साथ। 24 पस यूसुफ़ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावन्द के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले गया। 25 और उस को न जाना जब तक उस के बेटा न हुआ और उस का नाम ईसा रखवा।

**2** जब ईसा हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैत — लहम में पैदा हुआ। तो देखो कई मजूसी पूरब से येरूशलेम में ये कहते हुए आए। 2 “यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उस का सितारा देखकर हम उसे सज्दा करने आए हैं।” 3 यह सुन कर हेरोदेस बादशाह और उस के साथ येरूशलेम के सब लोग घबरा गए। 4 और उस ने क्रौम के सब सरदार काहिनों और आलिमों को जमा करके उन से पूछा, “मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए?” 5 उन्होंने ने उस से कहा, यहूदिया के बैत-लहम में, क्योंकि नबी के ज़रिए यूँ लिखा गया है कि, 6 “ऐ बैत-लहम, यहूदिया के 'इलाके तू यहूदाह के हाकिमों में हरगिज़ सब से छोटा नहीं। क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी क्रौम इज़्राईल की निगहबानी करेगा।” 7 इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुला कर उन से मालूम किया कि वह सितारा किस वक़्त दिखाई दिया था। 8 और उन्हें ये कह कर “बैतलहम भेजा कि जा कर उस बच्चे के बारे में ठीक — ठीक मालूम करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आ कर उसे सिज्दा करूँ।” 9 वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था; वो उनके आगे — आगे चला; यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। 10 वो सितारे को देख कर निहायत ख़ुश हुए। 11 और उस घर में पहुँचकर बच्चे को उस की माँ मरियम के पास देखा; और उसके आगे गिर कर सिज्दा किया। और अपने डिब्बे खोल कर सोना, और लुबान और मुर उसको नज़ किया। 12 और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। 13 जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावन्द के फरिश्ते ने यूसुफ़ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, “उठ बच्चे और उस की माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा: और जब तक कि मैं तुझ से न कहूँ वहीं रहना; क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है, ताकि इसे हलाक करे।” 14 पस वो उठा और रात के वक़्त बच्चे और उस की माँ को साथ ले कर मिस्र के लिए रवाना हो गया। 15 और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावन्द ने नबी के ज़रिए कहा

था, वो पूरा हो “कि मिश्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया।” 16 जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हँसी की तो निहायत गुस्सा हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अन्दर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो दो — दो बरस के या इस से छोटे थे, उस वक़्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहक़ीक़ की थी। 17 उस वक़्त वो बात पूरी हुई जो यर्मियाह नबी के ज़रिए कही गई थी। 18 “रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखिल अपने बच्चे को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है।” 19 जब हेरोदेस मर गया, तो देखो ख़ुदावन्द के फ़रिश्ते ने मिश्र में यूसूफ़ को ख़्वाब में दिखाई देकर कहा कि। 20 उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राईल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान लेने वाले थे वो मर गए 21 पस वो उठा और बच्चे और उस की माँ को ले कर मुल्क — ए — इस्राईल में लौट आया। 22 मगर जब सुना कि अख़िलास अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा, और ख़्वाब में हिदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया। 23 और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मारिफ़त कहा गया था वो पूरा हो, “वह नासरी कहलाएगा।”

**3** उन दिनों में यहून्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के वीराने में ये ऐलान करने लगा कि, 2 “तौबा करो, क्योंकि आस्मान की बादशाही नज़दीक आ गई है।” 3 ये वही है जिस का ज़िक्र यसायाह नबी के ज़रिए यँ हुआ कि वीराने में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, कि ख़ुदावन्द की राह तैयार करो! उसके रास्ते सीधे बनाओ। 4 ये यहून्ना ऊँटों के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बाँधे रहता था। और इसकी ख़ुराक टिट्टियाँ और जंगली शहद था। 5 उस वक़्त येरूशलेम, और सारे यहूदिया और यरदन और उसके आस पास के सब लोग निकल कर उस के पास गए। 6 और अपने गुनाहों का इक्रार करके। यरदन नदी में उस से बपतिस्मा लिया? 7 मगर जब उसने बहुत से फ़रीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि, ऐ सोंप के बच्चो तुम को किस ने बता दिया कि आने वाले ग़ज़ब से भागो? 8 पस तौबा के मुताबिक़ फ़ल लाओ। 9 और अपने दिलों में ये कहने का खयाल न करो कि अब्रहाम हमारा बाप है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि ख़ुदा “इन पत्थरों से अब्रहाम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। 10 अब दरख़्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखवा हुआ है पस, जो दरख़्त अच्छा फ़ल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। 11 “मैं तो तुम को तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझ से बड़ा है; मैं उसकी ज़ूतियाँ उठाने के लायक़ नहीं। वो तुम को रूह

— उल कुददूस और आग से बपतिस्मा देगा। 12 उस का छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को ख़ूब साफ़ करेगा, और अपने गेहूँ को तो खिते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने वाली नहीं।” 13 उस वक़्त ईसा गलील से यर्दन के किनारे यहून्ना के पास उस से बपतिस्मा लेने आया। 14 मगर यहून्ना ये कह कर उसे मनह करने लगा, “मैं आप तुझ से बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, और तू मेरे पास आया है?” 15 ईसा ने जवाब में उस से कहा, “अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाज़ी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उस ने होने दिया।” 16 और ईसा बपतिस्मा लेकर फ़ौरन पानी के ऊपर आया। और देखो, उस के लिए आस्मान खुल गया और उस ने ख़ुदा की रूह को कबूतर की शक़्त में उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 और देखो आसमान से ये आवाज़ आई: “ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं ख़ुश हूँ।”

**4** उस वक़्त रूह ईसा को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 2 और चालीस दिन और चालीस रात फ़ाका कर के आखिर को उसे भूख लगी। 3 और आजमाने वाले ने पास आकर उस से कहा “अगर तू ख़ुदा का बेटा है तो फ़रमा कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाएँ।” 4 उस ने जवाब में कहा, “लिखा है आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जिन्दा न रहेगा; बल्कि हर एक बात से जो ख़ुदा के मुँह से निकलती है।” 5 तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उस से कहा। 6 “अगर तू ख़ुदा का बेटा है तो अपने आपको नीचे गिरा दे; क्योंकि लिखा है कि वह तेरे बारे में अपने फ़रिश्तों को हुक़म देगा, और वह तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा न हो कि तेरे पैर को पत्थर से ठेस लगे।” 7 ईसा ने उस से कहा, “ये भी लिखा है; तू ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा की आजमाइश न कर।” 8 फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले गया, और दुनिया की सब सलतनतें और उन की शान — ओ शौक़त उसे दिखाई। 9 और उससे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सज्दा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूँगा। 10 ईसा ने उस से कहा, “ऐ शैतान दूर हो क्योंकि लिखा है, तू ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा को सज्दा कर और सिर्फ़ उसी की इबादत कर।” 11 तब इब्लीस उस के पास से चला गया; और देखो फ़रिश्ते आ कर उस की ख़िदमत करने लगे। 12 जब उस ने सुना कि यहून्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ; 13 और नासरत को छोड़ कर कफ़रनहम में जा बसा जो झील के किनारे ज़बलून और नफ़ताली की सरहद पर है। 14 ताकि जो यसायाह नबी की मारिफ़त कहा गया था, वो पूरा हो। 15 “ज़बलून का इलाका, और नफ़ताली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, ग़ैर क्रौमों की गलील: 16 यांनी जो लोग अन्धेरे में बैठे थे, उन्हें बड़ी रौशनी देखी; और जो मौत के मुल्क

और साए में बैठे थे, उन पर रोशनी चमकी।” 17 उस वक्त से फेंका जाए और आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। 14 तुम ईसा ने एलान करना और ये कहना शुरू किया “तौबा करो, क्योंकि आस्मान की बादशाही नज़दीक आ गई है।” 18 उस ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों या'नी शमौन को जो पतरस कहलाता है; और उस के भाई अन्द्रियास को। झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछली पकड़ने वाले थे। 19 और उन से कहा, “मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम को आदमी पकड़ने वाला बनाऊँगा।” 20 वो फ़ौरन जाल छोड़ कर उस के पीछे हो लिए। 21 वहाँ से आगे बढ़ कर उस ने और दो भाइयों या'नी, जब्दी के बेटे याक़ब और उस के भाई यूहन्ना को देखा। कि अपने बाप जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। और उन को बुलाया। 22 वह फ़ौरन नाव और अपने बाप को छोड़ कर उस के पीछे हो लिए। 23 ईसा पुरे गलील में फिरता रहा, और उनके इबादतखानों में तालीम देता, और बादशाही की ख़ुशख़बरी का एलान करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। 24 और उस की शोहरत पुरे सब — ए — सूरिया में फैल गई, और लोग सब बिमारों को जो तरह — तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ़्तार थे; और उन को जिन में बदर्हूहें थी, और मिरगी वालों और मफ़्लज़ों को उस के पास लाए और उसने उन को अच्छा किया। 25 और गलील, और दिकपुलिस, और येरुशलेम, और यहूदिया और यर्दन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली।

**5** वो इस भीड़ को देख कर ऊँची जगह पर चढ़ गया। और जब बैठ गया तो उस के शागिर्द उस के पास आए। 2 और वो अपनी ज़बान खोल कर उन को यूँ तालीम देने लगा। 3 मुबारिक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आस्मान की बादशाही उन्हीं की है। 4 मुबारिक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएँगे। 5 मुबारिक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। 6 मुबारिक है वो जो रास्तबाज़ी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो सेरे होंगे। 7 मुबारिक है वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। 8 मुबारिक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वह ख़ुदा को देखेंगे। 9 मुबारिक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वह ख़ुदा के बेटे कहलाएँगे। 10 मुबारिक है वो जो रास्तबाज़ी की वजह से सताए गए हैं, क्योंकि आस्मान की बादशाही उन्हीं की है। 11 जब लोग मेरी वजह से तुम को लान — तान करेंगे, और सताएँगे; और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्वत नाहक कहेंगे; तो तुम मुबारिक होंगे। 12 ख़ुशी करना और निहायत शादमान होना क्योंकि आस्मान पर तुम्हारा अज़्र बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को जो तुम से पहले थे, इसी तरह सताया था। 13 तुम ज़मीन के नमक हो। लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इस के कि बाहर

से फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है; कि तेरे आ'जा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में न जाए।” (Geenna

g1067) 31 ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। 32 लेकिन मैं तुम से ये कहता हूँ, कि जो कोई अपनी बीवी को हारामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे वो उस से जिना करता है; और जो कोई उस छोड़ी हुई से शादी करे वो भी जिना करता है। 33 “फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था ‘झूठी कसम न खाना; बल्कि अपनी कसमें खुदाबन्द के लिए पूरी करना।’ 34 लेकिन मैं तुम से ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम न खाना न तो आस्मान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, 35 न जमीन की, क्योंकि वो उस के पैरों की चौकी है। न येस्थलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। 36 न अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। 37 बल्कि तुम्हारा कलाम ‘हाँ — हाँ’ या ‘नहीं — नहीं में’ हो क्योंकि जो इस से ज्यादा है वो बदी से है।” 38 “तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख, और दाँत के बदले दाँत। 39 लेकिन मैं तुम से ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबिला न करना बल्कि जो कोई तेरे दहने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ न फेर दे। 40 और अगर कोई तुझ पर नालिश कर के तेरा कुरता लेना चाहे; तो चोगा भी उसे ले लेने दे। 41 और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए; उस के साथ दो कोस चला जा। 42 जो कोई तुझ से माँगे उसे दे; और जो तुझ से कर्ज चाहे उस से मुँह न मोड़।” 43 “तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मुँह रख और अपने दुश्मन से दुश्मनी। 44 लेकिन मैं तुम से ये कहता हूँ, अपने दुश्मनों से मुहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। 45 ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है, बेटे ठहरो; क्योंकि वो अपने सूरज को बर्दों और नेकों दोनों पर चमकाता है; और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मेंह बरसाता है। 46 क्योंकि अगर तुम अपने मुहब्बत रखने वालों ही से मुहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अन्न है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते।” 47 अगर तुम सिर्फ अपने भाइयों को सलाम करो; तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? 48 पस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आस्मानि बाप कामिल है।

**6** “खबरदार! अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखावे के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है; तुम्हारे लिए कुछ अन्न नहीं है।” 2 पस जब तुम खैरात करो तो अपने आगे नरसिंगा न बजाओ, जैसा रियाकार 'इबादतखानों और कूचों में करते हैं; ताकि लोग उनकी बड़ाई करें मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वो अपना अन्न पा चुके। 3 बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है; उसे तेरा बाँया हाथ न

जाने। 4 ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, इस सूत में तेरा आसमानि बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 5 जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह न बनो; क्योंकि वो 'इबादतखानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसन्द करते हैं; ताकि लोग उन को देखें; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वो अपना बदला पा चुके। 6 बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने आसमानि बाप से जो पोशीदगी में है; दुआ कर इस सूत में तेरा आसमानि बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 7 और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक — बक न करो क्योंकि वो समझते हैं; कि हमारे बहुत बोलने की वजह से हमारी सुनी जाएगी। 8 पस उन की तरह न बनो; क्योंकि तुम्हारा आसमानि बाप तुम्हारे माँगने से पहले ही जानता है कि तुम किन — किन चीजों के मोहताज हो। 9 पस तुम इस तरह दुआ किया करो, “ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। 10 तेरी बादशाही आए। तेरी मर्जी जैसी आस्मान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। 11 हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। 12 और जिस तरह हम ने अपने कुसुरवारों को मु'आफ किया है; तू भी हमारे कुसूरों को मु'आफ कर। 13 और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा; क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं; आमीन।” 14 इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कुसूर मु'आफ करोगे तो तुम्हारा आसमानि बाप भी तुम को मु'आफ करेगा। 15 और अगर तुम आदमियों के कुसूर मु'आफ न करोगे तो तुम्हारा आसमानि बाप भी तुम को मु'आफ न करेगा। 16 जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूत उदास न बनाओ; क्योंकि वो अपना मुँह बिगाड़ते हैं; ताकि लोग उन को रोजादार जाने। मैं तुम से सच कहता हूँ कि वो अपना अन्न पा चुके। 17 बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर पर तेल डाल और मुँह धो। 18 ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 19 अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहाँ पर कीड़ा और जँग खराब करता है; और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। 20 बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो; जहाँ पर न कीड़ा खराब करता है; न जँग और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। 21 क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। 22 बदन का चराग आँख है। पस अगर तेरी आँख दुस्त हो तो तेरा पूरा बदन रोशन होगा। 23 अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। पस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीक हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। 24 कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता; क्योंकि या तो एक से दुश्मनी रखे और दूसरे से मुहब्बत या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा; तुम खुदा और



दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। 25 इसलिए मैं तुम से आसमान पर है; अपने माँगे वालों को अच्छी चीजें क्यों देगा। कहता हूँ; कि अपनी जान की फ़िक्र न करना कि हम क्या खाएँगे 12 पस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी या क्या पीएँगे, और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे; क्या जान उनके साथ करो; क्योंकि तौरत और नबियों की ता'लीम यही है। 13 ख़राक से और बदन पोशाक से बढ़ कर नहीं। 26 हवा के परिन्दों तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है, और वो को देखो कि न बोते हैं न काटते न कोठियाँ में जमा करते हैं; तोभी रास्ता चौड़ा है जो हलाकत को पहुँचाता है; और उससे दाखिल तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है क्या तुम उस से ज्यादा होने वाले बहुत हैं। 14 क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता कद्र नहीं रखते? 27 तुम में से ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी सुकड़ा है जो ज़िन्दगी को पहुँचाता है और उस के पाने वाले थोड़े उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके? 28 और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र है। 15 झूठे नबियों से खबरदार रहो! जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेस करते हो; जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस में आते हैं; मगर अन्दर से फाड़ने वाले भेड़िये की तरह हैं। 16 तरह बढ़ते हैं; वो न मेहनत करते हैं न कातते हैं। 29 तोभी मैं तुम से उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे; क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 17 इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। 18 घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी; ऐसी पोशाक अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, न बुरा दरख्त अच्छा पहनाता है, तो ऐ कम इमान वाले “तुम को क्यों न पहनाएगा? 19 फल ला सकता है। 19 जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट “इस लिए फ़िक्रमन्द होकर ये न कहो, हम क्या खाएँगे? या क्या कर आग में डाला जाता है। 20 पस उनके फलों से तुम उनको पिँगे? या क्या पहनेगे?” 32 क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में पहचान लोगे। 21 “जो मुझ से ऐ खुदावन्द! ‘ऐ खुदावन्द!’ कहते गौर क्रौमें रहती हैं; और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है, कि तुम इन हैं उन में से हर एक आस्मान की बादशाही में दाखिल न होगा। सब चीजों के मोहताज हो। 33 बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही मगर वही जो मेरे आस्मानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। 22 उस और उसकी रास्बाज़ी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम को दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, ‘ऐ खुदावन्द! खुदावन्द! क्या हम ने मिल जाएँगी। 34 पस कल के लिए फ़िक्र न करो क्योंकि कल का तेरे नाम से नबुव्वत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा; आज के लिए आज ही का निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजिजे नहीं दिखाए?’ 23 उस दुः ख काफी है। दिन मैं उन से साफ़ कह दूँगा, मेरी तुम से कभी वाकफ़ियत न थी, ऐ बदकारो! मेरे सामने से चले जाओ।” 24 “पस जो कोई मेरी यह बातें सुनता और उन पर अमल करता है वह उस अक्लमन्द आदमी की तरह ठहरेगा जिस ने चट्टान पर अपना घर बनाया। 25 और मेंह बरसा और पानी चढ़ा और आन्धियाँ चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं; लेकिन वो न गिरा क्योंकि उस की बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। 26 और जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वह उस बेवकूफ़ आदमी की तरह ठहरेगा जिस ने अपना घर रेत पर बनाया। 27 और मेंह बरसा और पानी चढ़ा और आन्धियाँ चलीं, और उस घर को सदमा पहुँचा और वो गिर गया, और बिल्कुल बरबाद हो गया।” 28 जब ईसा ने यह बातें खत्म कीं तो ऐसा हुआ कि भीड़ उस की तालीम से हैरान हुईं। 29 क्योंकि वह उन के आलिमों की तरह नहीं बल्कि साहिब — ए — इख्तियार की तरह उनको ता'लीम देता था।

**7** बुराई न करो, कि तुम्हारी भी बुराई न की जाए। 2 क्योंकि जिस तरह तुम बुराई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी बुराई की जाएगी और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। 3 तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शहतीर पर गौर नहीं करता? 4 और जब तेरी ही आँख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, 'ला, तेरी आँख में से तिनका निकाल दूँ? 5 ऐ रियाकार, पहले अपनी आँख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आँख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकता है। 6 पाक चीज कुतों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वो उनको पाँव के तले रौंदें और पलट कर तुम को फाड़ें। 7 माँगो तो तुम को दिया जाएगा। ढूँडो तो पाओगे; दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है; और जो ढूँडता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 9 तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, कि अगर उसका बेटा उससे रोटी माँगे तो वो उसे पत्थर दे? 10 या अगर मछली माँगे तो उसे सोंप दे! 11 पस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो

**8** जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उस के पीछे हो ली। 2 और देखो: एक कौढ़ी ने पास आकर उसे सज्दा किया और कहा, “ऐ खुदावन्द! अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकता है।” 3 उसने हाथ बढ़ा कर उसे छुआ और कहा, “मैं चाहता हूँ, तू पाक — साफ़ हो जा।” वह फौरन कौढ़ से पाक — साफ़

हो गया। 4 ईसा ने उस से कहा, “खबरदार! किसी से न कहना बल्कि जाकर अपने आप को काहिन को दिखा; और जो नज़्र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुज़रान; ताकि उन के लिए गवाही हो।” 5 जब वो कफ़रनहम में दाखिल हुआ तो एक सबेदार उसके पास आया; और उसकी मिन्नत करके कहा। 6 “ऐ ख़ुदावन्द, मेरा खादिम फ़ालिज का मारा घर में पड़ा है; और बहुत ही तकलीफ़ में है।” 7 मिज़ाज थे कि कोई उस रास्ते से गुज़र नहीं सकता था। 29 और उस ने उस से कहा, “मैं आ कर उसे शिफा दूँगा।” 8 सबेदार ने जवाब में कहा “ऐ ख़ुदावन्द, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए; बल्कि सिर्फ़ ज़बान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। 9 क्योंकि मैं भी दूसरे के इख़्तियार में हूँ; और सिपाही मेरे मातहत हैं; जब एक से कहता हूँ, जा! तो वह जाता है और दूसरे से ‘आ!’ तो वह आता है। और अपने नौकर से ‘ये कर’ तो वह करता है।” 10 ईसा ने ये सुनकर त’अज्ज़ुब किया और पीछे आने वालों से कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मैं ने इस्राइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। 11 और मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत सारे पूरब और पश्चिम से आ कर अब्रहाम, इज़्हाक और याक़ूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। 12 मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाँएंगे; जहाँ रोना और दाँत पीसना होगा।” 13 और ईसा ने सबेदार से कहा, “जा! जैसा तू ने यकीन किया तेरे लिए वैसा ही हो।” और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। 14 और ईसा ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को बुखार में पड़ी देखा। 15 उस ने उसका हाथ छुआ और बुखार उस पर से उतर गया; और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। 16 जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए; जिन में बदर्हें थी उसने बदर्हों को ज़बान ही से कह कर निकाल दिया; और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। 17 ताकि जो यसायाह नबी के ज़रिए कहा गया था, वो पूरा हो: “उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले लीं और बीमारियाँ उठा लीं।” 18 जब ईसा ने अपने चारों तरफ़ बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। 19 और एक आलिम ने तैरे पास आकर उस से कहा “ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तैरे पीछे चलूँगा।” 20 ईसा ने उस से कहा, “लोमडियों के भठ होते हैं और हवा के परिन्दों के घोंसले, मगर इबने आदम के लिए सर रखने की भी जगह नहीं।” 21 एक और शागिर्द ने उस से कहा, “ऐ ख़ुदावन्द, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूँ।” 22 ईसा ने उससे कहा, “तू मेरे पीछे चल और मुर्दा को अपने मुर्दे दफन करने दे।” 23 जब वो नाव पर चढ़ा तो उस के शागिर्द उसके साथ हो लिए। 24 और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि नाव लहरों से छिप गई, मगर वो सोता रहा। 25 उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा “ऐ ख़ुदावन्द, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं।” 26 उसने उससे कहा, “ऐ कम ईमान वालो!

डरते क्यों हो?” तब उसने उठकर हवा और पानी को डाँटा और बड़ा अमन हो गया। 27 और लोग ता’अज्ज़ुब करके कहने लगे “ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी सब इसका हुक्म मानते हैं।” 28 जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुँचा तो दो आदमी जिन में बदर्हें थी; कन्नौ से निकल कर उससे मिले: वो ऐसे तंग मिज़ाज थे कि कोई उस रास्ते से गुज़र नहीं सकता था। 29 और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा “ऐ ख़ुदा के बेटे हमें तुझ से क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्रत से पहले हमें ऐज़ाब में डाले?” 30 उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का गोल चर रहा था। 31 पस बदर्हों ने उसकी मिन्नत करके कहा “अगर तू हम को निकालता है तो हमें सूअरों के गोल में भेज दे।” 32 उसने उनसे कहा “जाओ।” वो निकल कर सूअरों के अन्दर चली गई; और देखो; सारा गोल किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। 33 और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनके हालात जिन में बदर्हें थी बयान किया। 34 और देखो सारा शहर ईसा से मिलने को निकला और उसे देख कर मिन्नत की, कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा।

9 फिर वो नाव पर चढ़ कर पार गया; और अपने शहर में आया। 2 और देखो, लोग एक फ़ालिज के मारे हुए को जो चारपाई पर पड़ा हुआ था उसके पास लाए; ईसा ने उसका ईमान देखकर मफ़्लूज से कहा “बेटा, इत्मीनान रख। तेरे गुनाह मु’आफ़ हुए।” 3 और देखो कुछ आलिमों ने अपने दिल में कहा, “ये कुफ़्र बकता है” 4 ईसा ने उनके खयाल मा’लूम करके कहा, “तुम क्यों अपने दिल में बुरे खयाल लाते हो? 5 आसान क्या है? ये कहना तेरे गुनाह मु’आफ़ हुए; या ये कहना; उठ और चल फिर। 6 लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इबने आदम को ज़मीन पर गुनाह मु’आफ़ करने का इख़्तियार है,” उसने फ़ालिज का मारे हुए से कहा, “उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा।” 7 वो उठ कर अपने घर चला गया। 8 लोग ये देख कर डर गए; और ख़ुदा की बड़ाई करने लगे; जिसने आदमियों को ऐसा इख़्तियार बख़्शा। 9 ईसा ने वहाँ से आगे बढ़कर मती नाम एक शाख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा; और उस से कहा, “मेरे पीछे हो ले।” वो उठ कर उसके पीछे हो लिया। 10 जब वो घर में खाना खाने बैठा; तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर ईसा और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। 11 फ़रीसियों ने ये देख कर उसके शागिर्दों से कहा, “तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है?” 12 उसने ये सुनकर कहा, “तन्दस्त्वों को हकीम की ज़रत नहीं बल्कि बीमारों को। 13 मगर तुम जाकर उसके माने मा’लूम करो: मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसन्द करता हूँ। क्योंकि मैं रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने

आया हैं।” 14 उस वक्त यहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, “क्या वजह है कि हम और फ़रीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते?” 15 ईसा ने उस से कहा, “क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है, मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएँगे; कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा; उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। 16 कोरे कपड़े का पैवन्द पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता क्योंकि वो पैवन्द पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। 17 और नई मय पुरानी मशकों में नहीं भरते वर्ना मशकें फट जाती हैं; और मय बह जाती है, और मशकें बरबाद हो जाती हैं; बल्कि नई मय नई मशकों में भरते हैं; और वो दोनों बची रहती है।” 18 वो उन से ये बातें कह ही रहा था, कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सज्दा किया और कहा, “मेरी बेटी अभी मरी है लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो ज़िन्दा हो जाएगी।” 19 ईसा उठ कर अपने शागिर्दों समेत उस के पीछे हो लिया। 20 और देखो; एक औरत ने जिसके बारह बरस से खून जारी था; उसके पीछे आकर उस की पोशाक का किनारा छुआ। 21 क्योंकि वो अपने जी में कहती थी; अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी “तो अच्छी हो जाऊँगी।” 22 ईसा ने फिर कर उसे देखा और कहा, “बेटी, इत्मीनान रख! तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया।” पस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। 23 जब ईसा सरदार के घर में आया और बाँसुरी बजाने वालों को और भीड़ को शोर मचाते देखा। 24 तो कहा, “हट जाओ! क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है।” वो उस पर हँसने लगे। 25 मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उस ने अन्दर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। 26 और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। 27 जब ईसा वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अन्धे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले “ऐ इब्न — ए — दाऊद, हम पर रहम कर।” 28 जब वो घर में पहुँचा तो वो अन्धे उसके पास आए और ईसा ने उनसे कहा “क्या तुम को यक्रीन है कि मैं ये कर सकता हूँ?” उन्होंने ने उस से कहा “हाँ खुदावन्द।” 29 फिर उस ने उन की आँखें छू कर कहा, “तुम्हारे यक्रीन के मुताबिक तुम्हारे लिए हो।” 30 और उन की आँखें खुल गई और ईसा ने उनको ताकीद करके कहा, “खबरदार, कोई इस बात को न जाने!” 31 मगर उन्होंने निकल कर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। 32 जब वो बाहर जा रहे थे, तो देखो लोग एक ग़ौं को जिस में बदरूह थी उसके पास लाए। 33 और जब वो बदरूह निकाल दी गई तो ग़ौं बोलने लगा; और लोगों ने ता’अज्जब करके कहा, “इसाईल में ऐसा कभी नहीं देखा गया।” 34 मगर फ़रीसियों ने कहा, “ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है।” 35 ईसा सब शहरों और गाँव में फिरता रहा, और उनके इबादतखानों में ता’लीम देता और बादशाही की

ख़ुशखबरी का एलान करता और — और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। 36 और जब उसने भीड़ को देखा तो उस को लोगों पर तरस आया; क्योंकि वो उन भेड़ों की तरह थे जिनका चरवाहा न हो बुरी हालत में पड़े थे। 37 उस ने अपने शागिर्दों से कहा, “फसल बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। 38 पस फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे।”

**10** फिर उस ने अपने बारह शागिर्दों को पास बुला कर उनको बदरूहों पर इख्तियार बख़्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। 2 और बारह रसूलों के नाम ये हैं; पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है और उस का भाई अन्द्रियास जब्दी का बेटा या’कूब और उसका भाई यहन्ना। 3 फिलिप्पुस, बरतुल्माई, तोमा, और मत्ती महसूल लेने वाला। 4 हलफ़ी का बेटा या’कूब और त्दी शमौन कनानी और यहदाह इस्करियोती जिस ने उसे पकड़वा भी दिया। 5 इन बारह को ईसा ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, “गैर क्रौमों की तरफ़ न जाना और सामरियों के किसी शहर में भी दाख़िल न होना। 6 बल्कि इस्राईल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। 7 और चलते — चलते ये एलान करना आस्मान की बादशाही नज़दीक आ गई है। 8 बीमारों को अच्छा करना; मुर्दों को ज़िलाता कौड़ियों को पाक साफ़ करना बदरूहों को निकालना; तुम ने मुफ़्त पाया मुफ़्त ही देना। 9 न सोना अपने कमरबन्द में रखना — न चाँदी और न पैसे। 10 रास्ते के लिए न झोली लेना न दो — दो कुरते न जूतियाँ न लाठी; क्योंकि मजदूर अपनी ख़राक का हकदार है।” 11 “जिस शहर या गाँव में दाख़िल हो मालूम करना कि उस में कौन लायक है और जब तक वहाँ से खाना न हो उसी के यहाँ रहना। 12 और घर में दाख़िल होते वक्त उसे दु’आ — ए — ख़ैर देना। 13 अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे; और अगर लायक न हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। 14 और अगर कोई तुम को कुबूल न करे, और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पैरों की धूल झाड़ देना। 15 मैं तुम से सच कहता हूँ, कि ‘अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सद्म और अमूरूके इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाशत के लायक होगा।” 16 “देखो, मैं तुम को भेजता हूँ; गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच पस साँपों की तरह होशियार और कबूतरों की तरह सीधे बनो। 17 मगर आदिमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वह तुम को अदालतों के हवाले करेंगे; और अपने इबादतखानों में तुम को कोड़े मारेंगे। 18 और तुम मेरी वजह से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाज़िर किए जाओगे; ताकि उनके और गैर क्रौमों के लिए गवाही हो। 19 लेकिन जब वो तुम को पकड़वाएँगे; तो फ़िक्र न करना कि हम किस तरह

कहें या क्या कहें; क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी वक्त तुम को बताया जाएगा। 20 क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे आसमानी बाप का रूह है; जो तुम में बोलता है।” 21 “भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप और बेटा अपने माँ बाप के बरखिलाफ़ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। 22 और मेरे नाम के ज़रिए से सब लोग तुम से अदावत रखेंगे; मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। 23 लेकिन जब तुम को एक शहर सताए तो दूसरे को भाग जाओ; क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम इस्राईल के सब शहरों में न फिर चूके होगे कि 'इब्न — ए — आदम आजाएगा।’” 24 “शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, न नौकर अपने मालिक से। 25 शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की तरह हो; और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की तरह जब उन्होंने घर के मालिक को बाँलजबूल कहा; तो उसके घराने के लोगों को क्यूँ न कहेंगे।” 26 “पस उनसे न डरो; क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली न जाएगी और न कोई चीज़ छिपी है जो जानी न जाएगी। 27 जो कुछ मैं तुम से अन्धैरे में कहता हूँ; उजाले में कहो और जो कुछ तुम कान में सुनते हो छतों पर उसका एलान करो। 28 जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उन से न डरो बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। (Geenna 9:1067) 29 क्या पैसे की दो चिड़ियाँ नहीं बिकती? और उन में से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बग़ैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती। 30 बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। 31 पस डरो नहीं; तुम्हारी कद्र तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है।” 32 “पस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा; मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। 33 मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इन्कार करेगा मैं भी अपने बाप के जो आस्मान पर है उसका इन्कार करूँगा।” 34 “ये न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह करवाने आया हूँ; सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। 35 क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ, कि आदमी को उसके बाप से और बेटे को उस की माँ से और बहु को उसकी सास से जुदा कर दूँ। 36 और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे।” 37 “जो कोई बाप या माँ को मुझ से ज्यादा अज़ीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं; और जो कोई बेटे या बेटे को मुझ से ज्यादा अज़ीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। 38 जो कोई अपनी सलीब न उठाए और मेरे पीछे न चले वो मेरे लायक नहीं। 39 जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा; और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा।” 40 “जो तुम को कुबूल करता है वो मुझे कुबूल करता है और जो मुझे कुबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कुबूल करता है। 41 जो नबी के नाम से नबी को कुबूल

करता है; वो नबी का अज़्र पाएगा; और जो रास्तबाज़ के नाम से रास्तबाज़ को कुबूल करता है वो रास्तबाज़ का अज़्र पाएगा। 42 और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ़ एक प्याला ठन्डा पानी ही पिलाएगा; मैं तुम से सच कहता हूँ वो अपना अज़्र हरगिज़ न खोएगा।”

**11** जब ईसा अपने बारह शागिर्दों को हुक्म दे चुका, तो ऐसा हुआ कि वहाँ से चला गया ताकि उनके शहरों में ता'लीम दे और एलान करे। 2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कैदखाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों के ज़रिए उससे पुछवा भेजा। 3 “आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें?” 4 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। 5 कि अन्धे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं; कौड़ी पाक साफ़ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे ज़िन्दा किए जाते हैं और गरीबों को खुशख़बरी सुनाई जाती है। 6 और मुबारिक वो है जो मेरी वजह से ठोकर न खाए।” 7 जब वो रवाना हो लिए तो ईसा ने यूहन्ना के बारे में लोगों से कहना शुरू किया कि “तुम वीराने में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? 8 तो फिर क्या देखने गए थे क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। 9 तो फिर क्यूँ गए थे? क्या एक नबी को देखने? हाँ मैं तुम से कहता हूँ बल्कि नबी से बड़े को। 10 ये वही है जिसके बारे में लिखा है कि देख मैं अपना पैग़म्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरा रास्ता तेरे आगे तैयार करेगा।” 11 “मैं तुम से सच कहता हूँ; जो औरतों से पैदा हुए हैं, उन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उस से बड़ा है। 12 और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है; और ताक़तवर उसे छीन लेते हैं। 13 क्योंकि सब नबियों और तौरत ने यूहन्ना तक नबुव्वत की। 14 और चाहो तो मानो; एलियाह जो आनेवाला था; यही है। 15 जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले!” 16 “पस इस ज़माने के लोगों को मैं किस की मिसाल दूँ? वो उन लड़कों की तरह हैं, जो बाज़ारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं। 17 हम ने तुम्हारे लिए बाँसुरी बजाई और तुम न नाचे। हम ने मातम किया और तुम ने छाती न पीटी। 18 क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता और वो कहते हैं उस में बदरूह है। 19 इब्न — ए — आदम खाता पीता आया। और वो कहते हैं, देखो खाऊ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। मगर हिक्मत अपने कामों से रास्त साबित हुई है।” 20 वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अकसर मोज़िज़े जाहिर हुए थे; क्योंकि उन्होंने तौबा न की थी। 21 “ए ख़राज़ीन, तुज़्र पर

अफसोस! ऐ बैत — सैदा, तुझ पर अफसोस! क्योंकि जो मोजिजे तुम बहुत ही ज्यादा है; इसलिए सबत के दिन नेकी करना जायज है।”  
 में हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक 13 तब उसने उस आदमी से कहा “अपना हाथ बढा।” उस ने बढाया  
 में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। 22 मैं तुम से सच कहता हूँ; और वो दूसरे हाथ की तरह दुस्त हो गया। 14 इस पर फरीसियों ने  
 कि 'अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह  
 बर्दाशत के लायक होगा। 23 और एकफरनहम, क्या तू आस्मान हलाक करे। 15 ईसा ये मा'लूम करके वहाँ से रवाना हुआ; और  
 तक बुलन्द किया जाएगा? तू तो आलम — ए अर्वाह में उतरेगा बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सब को अच्छा कर  
 क्योंकि जो मोजिजे तुम में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज दिया, 16 और उनको ताकीद की, कि मुझे जाहिर न करना। 17  
 तक काईम रहता। (Hadēs g86) 24 मगर मैं तुम से कहता हूँ कि ताकि जो यसायाह नबी की मा'रिफत कहा गया था वो पूरा हो। 18  
 'अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तैरे हाल से ज्यादा बर्दाशत 'देखो, ये मेरा खादिम है जिसे मैं ने चुना मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल  
 के लायक होगा।” 25 उस वक्त ईसा ने कहा, “ऐ बाप, आस्मान खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूँगा, और ये गैर कौमों को इन्साफ  
 — ओ — जमीन के खुदावन्द मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तू ने यह की खबर देगा। 19 ये न झगडा करेगा न शोर, और न बाजारों में  
 बातें समझदारों और अकलमन्दों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर कोई इसकी आवाज सुनेगा। 20 ये कुचले हुए सरकंडे को न तोडेगा  
 की। 26 हॉ ए बाप!, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसन्द आया।” 27 “मेरे और धुर्वॉ उठते हुए सन को न बुझाएगा; जब तक कि इन्साफ की  
 बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं फतह न कराए। 21 और इसके नाम से गैर कौमों उम्मीद रखेंगी।  
 जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के 22 उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूँगे को लाए; उसने उसे  
 और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे।” 28 “ऐ मेहनत अच्छा कर दिया चुर्वाँचे वो गूँगा बोलने और देखने लगा। 23 “सारी  
 उठाने वालो और बोझ से दबे हुए लोगो, सब मेरे पास आओ! मैं तुम भीड हैरान होकर कहने लगी; क्या ये इब्न — ए — आदम है?”  
 को आराम दूँगा। 29 मेरा जूआ अपने ऊपर उठा लो और मुझ से 24 फरीसियों ने सुन कर कहा, “ये बदरूहों के सरदार बा'लजबूल  
 सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने की मदद के बौर बदरूहों को नहीं निकालता।” 25 उसने उनके  
 आराम पाएँगी, 30 क्योंकि मेरा जूआ मुलायम है और मेरा बोझ खयालों को जानकर उनसे कहा, “जिस बादशाही में फूट पडती है  
 हल्का।”

**12** उस वक्त ईसा सबत के दिन खेतों में हो कर गया, और  
 उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालियां तोड — तोड  
 कर खाने लगे। 2 फरीसियों ने देख कर उससे कहा “देख तैरे शागिर्द  
 वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना जायज नहीं।” 3 उसने  
 उनसे कहा “क्या तुम ने ये नहीं पढा कि जब दाऊद और उस के  
 साथी भूखा थे; तो उसने क्या किया? 4 वो क्योंकिर खुदा के घर में  
 गया और नज्ज की रोटियाँ खाई जिनको खाना उसको जायज न था;  
 न उसके साथियों को मगर सिर्फ काहिनों को? 5 क्या तुम ने तौरत  
 में नहीं पढा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती  
 करते हैं; और बेकूसूर रहते हैं? 6 लेकिन मैं तुम से कहता हूँ कि  
 यहाँ वो है जो हैकल से भी बडा है। 7 लेकिन अगर तुम इसका  
 मतलब जानते कि, मैं क़ुर्बानी नहीं बल्कि, रहम पसन्द करता हूँ। तो  
 बेकूसूरों को कूसूरवार न ठहराते। 8 क्योंकि इब्न — ए — आदम  
 सबत का मालिक है।” 9 वो वहाँ से चलकर उन के इबादतखाने में  
 गया। 10 और देखो; वहाँ एक आदमी था जिस का हाथ सूखा हुआ  
 था उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के 'इरादे से ये पुछा, “क्या सबत  
 के दिन शिफा देना जायज है।” 11 उसने उनसे कहा, “तुम में ऐसा  
 कौन है जिसकी एक भेड हो और वो सबत के दिन गड्डे में गिर जाए  
 तो वो उसे पकडकर न निकाले? 12 पस आदमी की कद तो भेड से

बहुत ही ज्यादा है; इसलिए सबत के दिन नेकी करना जायज है।”  
 13 तब उसने उस आदमी से कहा “अपना हाथ बढा।” उस ने बढाया  
 और वो दूसरे हाथ की तरह दुस्त हो गया। 14 इस पर फरीसियों ने  
 बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह  
 हलाक करे। 15 ईसा ये मा'लूम करके वहाँ से रवाना हुआ; और  
 बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सब को अच्छा कर  
 दिया, 16 और उनको ताकीद की, कि मुझे जाहिर न करना। 17  
 ताकि जो यसायाह नबी की मा'रिफत कहा गया था वो पूरा हो। 18  
 'देखो, ये मेरा खादिम है जिसे मैं ने चुना मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल  
 खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूँगा, और ये गैर कौमों को इन्साफ  
 की खबर देगा। 19 ये न झगडा करेगा न शोर, और न बाजारों में  
 कोई इसकी आवाज सुनेगा। 20 ये कुचले हुए सरकंडे को न तोडेगा  
 और धुर्वॉ उठते हुए सन को न बुझाएगा; जब तक कि इन्साफ की  
 फतह न कराए। 21 और इसके नाम से गैर कौमों उम्मीद रखेंगी।  
 22 उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूँगे को लाए; उसने उसे  
 अच्छा कर दिया चुर्वाँचे वो गूँगा बोलने और देखने लगा। 23 “सारी  
 भीड हैरान होकर कहने लगी; क्या ये इब्न — ए — आदम है?”  
 24 फरीसियों ने सुन कर कहा, “ये बदरूहों के सरदार बा'लजबूल  
 की मदद के बौर बदरूहों को नहीं निकालता।” 25 उसने उनके  
 खयालों को जानकर उनसे कहा, “जिस बादशाही में फूट पडती है  
 वो वीरान हो जाती है और जिस शहर या घर में फूट पडेगी वो काईम  
 न रहेगा। 26 और अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो आप ही  
 अपना मुखालिफ हो गया; फिर उसकी बादशाही क्योंकिर काईम  
 रहेगी? 27 अगर मैं बा'लजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता  
 हूँ तो तुम्हारे बेटे किस की मदद से निकालते हैं? पस वही तुम्हारे  
 मुन्सिफ होंगे। 28 लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों  
 को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। 29  
 या क्योंकिर कोई आदमी किसी ताकतवर के घर में घुस कर उसका  
 माल लूट सकता है; जब तक कि पहले उस ताकतवर को न बाँध  
 ले? फिर वो उसका घर लूट लेगा। 30 जो मेरे साथ नहीं वो मेरे  
 खिलाफ है और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। 31  
 इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो  
 मुआफ किया जाएगा; मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो मु'आफ  
 न किया जाएगा।” 32 “और जो कोई इब्न — ए — आदम के  
 खिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे मु'आफ की जाएगी; मगर जो  
 कोई रूह — उल — कूदूस के खिलाफ कोई बात कहेगा; वो उसे  
 मु'आफ न की जाएगी न इस आलम में न आने वाले में।” (aiōn  
 g165) 33 “या तो दरख्त को भी अच्छा कहे; और उसके फल को  
 भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहे और उसके फल को भी  
 बुरा; क्योंकि दरख्त फल से पहचाना जाता है। 34 ए सौँप के बच्चो!

तुम बुरे होकर क्योंकर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुँह पर आता है। 35 अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है; बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। 36 मैं तुम से कहता हूँ, कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे; 'अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। 37 क्योंकि तू अपनी बातों की वजह से रास्तबाज़ ठहराया जाएगा; और अपनी बातों की वजह से कुसूरवार ठहराया जाएगा।' 38 इस पर कुछ आलिमों और फ़रीसियों ने जवाब में उससे कहा, "ए उस्ताद हम तुझ से एक निशान देखना चाहते हैं।" 39 उस ने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और बेईमान लोग निशान तलब करते हैं; मगर यहन्ना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा। 40 क्योंकि जैसे यहन्ना तीन रात तीन दिन मछली के पेट में रहा; वैसे ही इबने आदम तीन रात तीन दिन ज़मीन के अन्दर रहेगा। 41 निनवे शहर के लोग 'अदालत के दिन इस ज़माने के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएँगे; क्योंकि उन्होंने यहन्ना के प्लान पर तौबा कर ली; और देखो, यह वो है जो यहन्ना से भी बड़ा है। 42 दक्खिन की मलिका 'अदालत के दिन इस ज़माने के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरिम ठहराएँगी; क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलैमान की हिक्मत सुनने को आई; और देखो यहाँ वो है जो सुलैमान से भी बड़ा है। 43 "जब बद्रुह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूँडती फिरती है, और नहीं पाती। 44 तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊँगी जिससे निकली थी। और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। 45 फिर जा कर और सात रूहें अपने से बुरी अपने साथ ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती है; और उस आदमी का पिछला हाल पहले से बदतर हो जाता है, इस ज़माने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा।" 46 जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे, और उससे बात करना चाहते थे। 47 किसी ने उससे कहा, "देख तेरी माँ और भाई बाहर खड़े हैं और तुझ से बात करना चाहते हैं।" 48 उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा "कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई?" 49 फिर अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ा कर कहा, "देखो, मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं।" 50 क्योंकि जो कोई मेरे आस्मानी बाप की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और माँ है।"

**13** उसी रोज़ ईसा घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा।

2 उस के पास एसी बड़ी भीड़ जमा हो गई, कि वो नाव पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। 3 और उसने उनसे बहुत सी बातें मिसालों में कहीं "देखो एक बोनो वाला बीज बोने निकला। 4 और बोते वक़्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिन्दों ने आकर उन्हें चुग लिया। 5 और कुछ पथरीली ज़मीन पर

गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने की वजह से जल्द उग आए। 6 और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने की वजह से सूख गए। 7 और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़ कर उनको दबा लिया। 8 और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरे और फल लाए; कुछ सौ गुना कुछ साठ गुना कुछ तीस गुना। 9 जो सुनना चाहता है वो सुन ले!" 10 शागिर्दों ने पास आ कर उससे पूछा "तू उनसे मिसालों में क्या बातें करता है?" 11 उस ने जवाब में उनसे कहा "इसलिए कि तुम को आस्मान की बादशाही के राज़ की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। 12 क्योंकि जिस के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा; और जिसके पास नहीं है उस से वो भी ले लिया जाएगा; जो उसके पास है। 13 मैं उनसे मिसालों में इसलिए बातें कहता हूँ; कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। 14 उनके हक में यसायाह की ये नबूवत पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ न समझोगे, और आँखों से देखोगे और हरगिज़ मा'लूम न करोगे।" 15 "क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊँचा सुनते हैं; और उन्होंने अपनी आँखें बन्द कर ली हैं; ताकि ऐसा न हो कि आँखों से मा'लूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रूजू लाएँ और मैं उनको शिफा बख्जूँ।" 16 "लेकिन मुबारिक है तुम्हारी आँखें क्योंकि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। 17 क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाज़ों की आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर न देखा और जो बातें तुम सुनते हो सुनें मगर न सुनी।" 18 "पस बोनोवाले की मिसाल सुनो। 19 जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शैतान छीन ले जाता है ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। 20 और वो पथरीली ज़मीन में बोया गया; ये वो है जो कलाम को सुनता है, और उसे फ़ौरन ख़ुशी से कुबूल कर लेता है। 21 लेकिन अपने अन्दर जड़ नहीं रखता बल्कि चन्द रोज़ा है, और जब कलाम के वजह से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फ़ौरन ठोकर खाता है। 22 और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है; और वो बे फल रह जाता है। (aiōn

g165) 23 और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है; कोई सौ गुना फलता है, कोई साठ गुना, और कोई तीस गुना।" 24 उसने एक और मिसाल उनके सामने पेश करके कहा, "आस्मान की बादशाही उस आदमी की तरह है; जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 मगर लोगों के सोते में उसका दूश्मन आया और गेहूँ में कड़वे दाने भी बो गया। 26 पस जब पतियाँ निकलीं और बालें आईं तो वो

कड़वे दाने भी दिखाई दिए। 27 नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, 'ए खुदाबन्द क्या तू ने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उस में कड़वे दाने कहाँ से आ गए?' 28 उस ने उनसे कहा, 'ये किसी दुश्मन का काम है, नौकरों ने उससे कहा, 'तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें।' 29 उस ने कहा, 'नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। 30 कटाई तक दोनों को इकट्ठा करने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूँगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गेहूँ बाँध लो और गेहूँ मेरे खिते में जमा कर दो।' 31 उसने एक और मिसाल उनके सामने पेश करके कहा, 'आसमान की बादशाही उस राई के दानेकी तरह है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। 32 वो सब बीजों से छोटा तो है मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है, कि हवा के परिन्दे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं।' 33 उस ने एक और मिसाल उनको सुनाई। 'आसमान की बादशाही उस खमीर की तरह है जिसे किसी 'औरत ने ले कर तीन पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते — होते सब खमीर हो गया।' 34 ये सब बातें ईसा ने भीड़ से मिसालों में कहीं और बगैर मिसालों के वो उनसे कुछ न कहता था। 35 ताकि जो नबी के ज़रिए कहा गया था वो पूरा हो 'मैं मिसालों में अपना मुँह खोलूँगा; में उन बातों को जाहिर करूँगा जो बिना — ए — आलम से छिपी रही हैं।' 36 उस वक्त वो भीड़ को छोड़ कर घर में गया और उस के शागिर्दों ने उस के पास आकर कहा, 'खेत के कड़वे दाने की मिसाल हमें समझा दे।' 37 उस ने जवाब में उन से कहा, 'अच्छे बीज का बोने वाला इबने आदम है। 38 और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फ़र्ज़न्द और कड़वे दाने उस शैतान के फ़र्ज़न्द हैं। 39 जिस दुश्मन ने उन को बोया वो इब्लीस है। और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फ़रिश्ते हैं। (aiōn g165) 40 पास जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं। (aiōn g165) 41 इब्न — ए — आदम अपने फ़रिश्तों को भेजेगा; और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ें और बदकारों को उस की बादशाही में से जमा करेंगे। 42 और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा। 43 उस वक्त रास्तबाज़ अपने बाप की बादशाही में सूरज की तरह चमकेगे; जिसके कान हों वो सुन ले।' 44 'आसमान की बादशाही खेत में छिपे खज़ाने की तरह है जिसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था; बेच डाला और उस खेत को खरीद लिया।' 45 'फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की तरह है, जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। 46 जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उस ने जाकर जो कुछ उस का था बेच डाला और उसे खरीद

लिया।' 47 'फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की तरह है; जो दरिया में डाला गया और उस ने हर किस्म की मछलियाँ समेट लीं। 48 और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए; और बैठ कर अच्छी — अच्छी तो बरतनों में जमा कर लीं और जो खराब थी फेंक दी। 49 दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा; फ़रिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाज़ों से जुदा करेंगे; और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। (aiōn g165) 50 वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा।' 51 'क्या तुम ये सब बातें समझ गए?' उन्होंने उससे कहा, 'हाँ। 52 उसने उससे कहा, 'इसलिए हर आलिम जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की तरह है जो अपने खज़ाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है।' 53 जब ईसा ये मिसाल खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया। 54 और अपने वतन में आकर उनके इबादतखाने में उनको ऐसी ता'लीम देने लगा; कि वो हैरान होकर कहने लगे, इस में ये हिक्मत और मोजिजे कहाँ से आए? 55 क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और इस की माँ का नाम मरियम और इस के भाई या'कूब और यूसुफ़ और शमौन और यहूदा नहीं? 56 और क्या इस की सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इस में कहाँ से आया? 57 और उन्होंने उसकी वजह से ठोकर खाई मगर ईसा ने उन से कहा 'नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा कहीं बेइज़्जत नहीं होता।' 58 और उसने उनकी बेऐ'तिकादी की वजह से वहाँ बहुत से मोजिजे न दिखाए।

**14** उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने ईसा की शोहरत सुनी। 2 और अपने खादिमों से कहा 'ये यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला है वो मुर्दों में से जी उठा है; इसलिए उससे ये मोजिजे जाहिर होते हैं।' 3 क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास की वजह से यूहन्ना को पकड़ कर बाँधा और कैद खाने में डाल दिया था। 4 क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे जायज नहीं। 5 और वो हर चन्द उसे कल्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। 6 लेकिन जब हेरोदेस की साल गिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदेस को खुश किया। 7 इस पर उसने कसम खाकर उससे वा'दा किया 'जो कुछ तू माँगोगी तुझे दूँगा।' 8 उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, 'मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मँगवा दे।' 9 बादशाह गम्गीन हुआ; मगर अपनी कसमों और मेहमानों की वजह से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए। 10 और आदमी भेज कर कैद खाने में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। 11 और उस का सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया; और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। 12 और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया, और जा कर ईसा को खबर दी। 13 जब ईसा ने ये सुना तो वहाँ से नाव पर अलग

किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर — ने जवाब में उनसे कहा “तुम अपनी रिवायात से ख़ुदा का हुक्म क्यों शहर से पैदल उसके पीछे गए। 14 उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी टाल देते हो? 4 क्योंकि ख़ुदा ने फ़रमाया है, तू अपने बाप की और और उसे उन पर तरस आया; और उसने उनके बीमारों को अच्छा अपनी माँ की 'इज़्जत करना, और 'जो बाप या माँ को बुरा कहे वो कर दिया। 15 जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे ज़रूर जान से मारा जाए।’ 5 मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप “जगह वीरान है और वक़्त गुज़र गया है लोगों को स़ख़्त कर दे या माँ से कहे, 'जिस चीज़ का तुझे मुझ से फ़ाइदा पहुँच सकता ताकि गाँव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें।” 16 ईसा ने उनसे था, वो ख़ुदा की नज़्र हो चुकी, 6 तो वो अपने बाप की इज़्जत न कहा, “इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम ही इनको खाने को दो।” 17 करे; पस तुम ने अपनी रिवायत से ख़ुदा का कलाम बातिल कर उन्होंने उससे कहा “यहाँ हमारे पास पाँच रोटियाँ और दो मछलियों दिया। 7 ऐ रियाकारो! यसायाह ने तुम्हारे हक़ में क्या ख़ूब नबुव्वत के सिवा और कुछ नहीं।” 18 उसने कहा “वो यहाँ मेरे पास ले की है, 8 ये उम्मत ज़बान से तो मेरी 'इज़्जत करती है मगर इन आओ,” 19 और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। का दिल मुझ से दूर है। 9 और ये बेफ़ाइदा मेरी इबादत करते हैं क्योंकि इंसानी अहक़ाम की ता'लीम देते हैं।” 10 फिर उस ने लोगों की तरफ़ देख कर बर्क़त दी और रोटियाँ तोड़ कर शागिर्दों को दी को पास बुला कर उनसे कहा, “सुनो और समझो। 11 जो चीज़ और शागिर्दों ने लोगों को। 20 और सब खाकर सेर हो गए; और मुँह में जाती है, वो आदमी को नापाक नहीं करती मगर जो मुँह से उन्होंने बिना इस्तेमाल बचे हुए खाने से भरी हुई बारह टोक़रियाँ निकलती है वही आदमी को नापाक करती है।” 12 इस पर शागिर्दों उठाई। 21 और खानेवाले औरतों और बच्चों के सिवा पाँच हज़ार ने उसके पास आकर कहा, “क्या तू जानता है कि फ़रीसियों ने ये मर्द के करीब थे। 22 और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि बात सुन कर ठोकर खाई?” 13 उसने जवाब में कहा, जो पौदा नाव में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएँ जब तक वो लोगों मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया, जड़ से उखाड़ा जाएगा। 14 को स़ख़्त करे। 23 और लोगों को स़ख़्त करके तन्हा हुआ करने “उन्हें छोड़ दो, वो अन्धे राह बताने वाले हैं; और अगर अन्धे को के लिए पहाड़ पर चढ़ गया; और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला अन्धा राह बताएगा तो दोनों ग़ड्ढे में गिरेगे।” 15 पतरस ने जवाब में था। 24 मगर नाव उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से उससे कहा “ये मिसाल हमें समझा दे।” 16 उस ने कहा, “क्या तुम डगमगा रही थी; क्योंकि हवा मुख़ालिफ़ थी। 25 और वो रात के भी अब तक नासमझ हो? 17 क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुँह चोथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। 26 शागिर्द उसे में जाता है; वो पेट में पड़ता है और गंदगी में फेंका जाता है? 18 झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे “भूत है,” मगर जो बातें मुँह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। 19 क्योंकि बुरे खयाल, खून रेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी, गवाहियाँ, बदगोइयाँ, और डर कर चिल्ला उठे। 27 ईसा ने फ़ौरन उन से कहा “इत्मीनान दिल ही से निकलती हैं।” 20 “यही बातें हैं जो आदमी को नापाक रखो! मैं हूँ। डरो मत।” 28 पतरस ने उससे जवाब में कहा “ऐ करती हैं, मगर बग़ैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता।” 21 फिर ईसा वहाँ से निकल कर सूँ और सैदा के इलाके ख़ुदावन्द, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तैरे पास को रवाना हुआ। 22 और देखो, एक कनानी 'औरत उन सरहदों से आऊँ।” 29 उस ने कहा, “आ।” पतरस नाव से उतर कर ईसा के निकली और पुकार कर कहने लगी, “ऐ ख़ुदावन्द! इबने दाऊद पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। 30 मगर जब हवा देखी तो मुझ पर रहम कर! एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है।” 23 डर गया और जब इबने लगा तो चिल्ला कर कहा “ऐ ख़ुदावन्द, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया “उसके शागिर्दों ने पास आकर मुझे बचा!” 31 ईसा ने फ़ौरन हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ लिया। और उससे ये अर्ज़ किया कि; उसे स़ख़्त कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे उससे कहा, “ऐ कम ईमान तूने क्यों शक़ किया?” 32 जब वो नाव चिल्लाती है।” 24 उसने जवाब में कहा, “मैं इज़्राईल के घराने की पर चढ़ आए तो हवा थम गई; 33 जो नाव पर थे, उन्होंने सज़्दा खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया।” 25 करके कहा “यकीनन तू ख़ुदा का बेटा है!” 34 वो नदी पार जाकर मगर उसने आकर उसे सज़्दा किया और कहा “ऐ ख़ुदावन्द, मेरी गनेसरत के इलाके में पहुँचे। 35 और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान मदद कर!” 26 उस ने जवाब में कहा “लड़कों की रोटी लेकर कर उससे इलाके में खबर भेजी; और सब बीमारों को उस के कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।” 27 उसने कहा “हाँ ख़ुदावन्द, का किनारा ही छू लें और जितनों ने उसे छुआ वो अच्छे हो गए। क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं।” 28 इस पर ईसा ने जवाब में कहा, “ऐ 'औरत,



तेरा ईमान बहुत बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो; और न ये कि कितने टोकरे उठाए। 11 क्या वजह है कि तुम ये नहीं उस की बेटी ने उसी वक्त शिफा पाई।” 29 फिर ईसा वहाँ से चल समझते कि मैंने तुम से रोटी के बारे में नहीं कहा फ़रीसियों और कर गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़ कर सद्कियों के ख़मीर से होशियार रहो।” 12 जब उनकी समझ में न वही बैठ गया। 30 और एक बड़ी भीड़ लंगडों, अन्धों, गूँगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई सद्कियों की ता'लीम से ख़बरदार रहने को कहा था। 13 जब ईसा और उनको उसके पाँव में डाल दिया; उसने उन्हें अच्छा कर दिया। कैसरिया फ़िलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये 31 चुनौचे जब लोगों ने देखा कि गूँगे बोलते, टुंडा तन्दस्त होते, पूछा, “लोग इन्हें — ए — आदम को क्या कहते हैं?” 14 उन्होंने लंगडे चलते फिरते और अन्धे देखते हैं तो ता'ज्जुब किया; और कहा, कुछ यहून्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। “कुछ एलियाह और कुछ यरमियाह या नबियों में से कोई।” 15 उसने उनसे कहा, “मगर तुम मुझे क्या कहते हो?” 16 शमौन पतरस ने जवाब में कहा, “तू जिन्ददा खुदा का बेटा मसीह है।” 17 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “मुबारिक है तू शमौन बर — यहून्ना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है; तुझ पर जाहिर की है। 18 और मैं भी तुम से कहता हूँ; कि तू पतरस है; और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा। और आलम — ए — अरवाह के दरवाजे उस पर गा़लिब न आएँगे। (Hadēs g86) 19 मैं आसमान की बादशाही की कुन्जियाँ तुझे दूँगा; और जो कुछ तू ज़मीन पर बाँधे गा वो आसमान पर बाँधेगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोले गा वो आसमान पर खुलेगा।” 20 उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ। 21 उस वक्त से ईसा अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा “कि उसे ज़रूर है कि येरुशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और आलिमों की तरफ से बहुत दुःख उठाए; और क़त्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे।” 22 इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा “ए खुदावन्द, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का।” 23 उसने फिर कर पतरस से कहा, “ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो! तू मेरे लिए ठोकर का बा'इस है; क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख़याल रखता है।” 24 उस वक्त ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, “अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपका इन्कार करे; अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25 क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा; और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। 26 अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुक़सान उठाए तो उसे क्या फ़ाइदा होगा? 27 क्योंकि इन्हें — ए — आदम अपने बाप के जलाल में अपने फ़रिशतों के साथ आएगा; उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। 28 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उन में से कुछ ऐसे हैं कि जब तक इन्हें — ए — आदम को उसकी बादशाही में आते हुए न देख लेंगे; मौत का मज़ा हरगिज़ न चखेंगे।”

**16** फिर फ़रीसियों और सद्कियों ने 'ईसा के पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की; कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। 2 उसने जवाब में उनसे कहा “शाम को तुम कहते हो, खुला रहेगा, क्योंकि आसमान लाल है 3 और सुबह को ये कि आज आन्धी चलेगी क्योंकि आसमान लाल धुन्धला है तुम आसमान की सूरत में तो पहचान करना जानते हो मगर ज़मानो की अलामतों में पहचान नहीं कर सकते। 4 इस ज़माने के बुरे और बे'ईमान लोग निशान तलब करते हैं; मगर यहून्ना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा।” और वो उनको छोड़ कर चला गया। 5 शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। 6 ईसा ने उन से कहा, “ख़बरदार, फ़रीसियों और सद्कियों के ख़मीर से होशियार रहना।” 7 वो आपस में चर्चा करने लगे, “हम रोटी नहीं लाए।” 8 ईसा ने ये मालूम करके कहा, “ए कम — ऐ'तिकारदों तुम आपस में क्यूँ चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? 9 क्या अब तक नहीं समझते और उन पाँच हज़ार आदमियों की पाँच रोटियाँ तुम को याद नहीं? और न ये कि कितनी टोकरियाँ उठाई? 10 और न उन चार हज़ार आदमियों की सात रोटियाँ? और

**17** छः दिन के बाद ईसा ने पतरस, को और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊँचे पहाड़ पर ले गया। 2 और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई; और उसका चेहरा सूरज की तरह चमका और उसकी पोशाक नूर की तरह सफेद हो गई। 3 और देखो; मूसा और एलियाह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 4 पतरस ने ईसा से कहा “ऐ खुदावन्द, हमारा यहाँ रहना अच्छा है; मर्जी हो तो मैं यहाँ तीन डेरे बनाऊँ। एक तेरे लिए; एक मूसा के लिए; और एक एलियाह के लिए।” 5 वो ये कह ही रहा था कि देखो; “एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई; ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ; उसकी सुनो।” 6 शागिर्द ये सुनकर मुँह के बल गिरे और बहुत डर गए। 7 ईसा ने पास आ कर उन्हें छुआ और कहा, “उठो, डरो मत।” 8 जब उन्होंने अपनी आँखें उठाई तो ईसा के सिवा और किसी को न देखा। 9 जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो ईसा ने उन्हें ये हुक्म दिया “जब तक इब्न — ए — आदम मुर्दा में से जी न उठे; जो कुछ तुम ने देखा है किसी से इसका जिक्र न करना।” 10 शागिर्दों ने उस से पूछा, “फिर आलिम क्यों कहते हैं कि एलियाह का पहले आना ज़रूर है?” 11 उस ने जवाब में कहा, “एलियाह अलबत्ता आया और सब कुछ बहाल करेगा। 12 लेकिन मैं तुम से कहता हूँ; कि एलियाह तो आ चुका और उन्होंने ने उसे नहीं पहचाना बल्कि जो चाहा उसके साथ किया; इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुः ख उठाएगा।” 13 और शागिर्द समझ गए; कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा है। 14 और जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक आदमी उसके पास आया; और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा। 15 “ऐ खुदावन्द, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुः ख उठाता है; इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। 16 और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था; मगर वो उसे अच्छा न कर सके।” 17 ईसा ने जवाब में कहा, “ऐ बे ऐतिक्राद और टेढ़ी नस्ल मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ।” 18 ईसा ने उसे झिड़का और बद्रूह उससे निकल गई; वो लडका उसी वक्त अच्छा हो गया। 19 तब शागिर्दों ने ईसा के पास आकर तन्हाई में कहा “हम इस को क्यों न निकाल सके?” 20 उस ने उनसे कहा, “अपने ईमान की कमी की वजह से ‘क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ, कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा’ तो इस पहाड़ से कह सकोगे; यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा; और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन न होगी।” 21 (लेकिन ये क्रिस्म दुआ और रोज़े के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती) 22 जब वो गलील में ठहरे हुए थे, ईसा ने उनसे

कहा, “इब्न — ए — आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा। 23 और वो उसे कल्ल करेगे और तीसरे दिन जिन्दा किया जाएगा।” इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। 24 और जब कफ़रनहम में आए तो नीम मिस्काल लेनेवालों ने पतरस के पास आकर कहा, “क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता?” 25 उसने कहा, “हाँ देता है।” और जब वो घर में आया तो ईसा ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ “शमौन तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किनसे महसूल या जिज़िया लेते हैं; अपने बेटों से या गैरों से?” 26 जब उसने कहा, “गैरों से,” तो ईसा ने उनसे कहा, “पस बेटे बरी हुए। 27 लेकिन मुबाद हम इनके लिए ठोकर का बा'इस हों तू झील पर जाकर बन्सी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले और जब तू उसका मुँह खोलेगा; तो एक चाँदी का सिक्का पाएगा; वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे।”

**18** उस वक्त शागिर्द ईसा के पास आ कर कहने लगे, “पस आस्मान की बादशाही में बड़ा कौन है?” 2 उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया। 3 और कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की तरह न बनो तो आस्मान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगे। 4 पस जो कोई अपने आपको इस बच्चे की तरह छोटा बनाएगा; वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। 5 और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कुबूल करता है; वो मुझे कुबूल करता है।” 6 “लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं; किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुन्दर में डुबो दिया जाए। 7 ठोकरों की वजह से दुनिया पर अपसोस है; क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है; लेकिन उस आदमी पर अपसोस है; जिसकी वजह से ठोकर लगे।” 8 “पस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे; टुंडा या लंगड़ा होकर जिन्दगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है; कि दो हाथ या दो पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। (aiōnios g166) 9 और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने से फेंक दे; काना हो कर जिन्दगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आँखें रखता हुआ तू जहन्नुम कि आग में डाला जाए।” (Geenna g1067) 10 “खबरदार! इन छोटों में से किसी को नाचीज़ न जानना। क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ; कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुँह हर वक्त देखते हैं। 11 क्योंकि इब्न — ए — आदम खोए हुआँ को ढूँडने और नजात देने आया है।” 12 “तुम क्या समझते हो? अगर किसी आदमी की सौ भेड़ें हों और उन में से एक भटक जाए; तो क्या वो निनानवें को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न

हुँडेगा? 13 और अगर ऐसा हो कि उसे पाए; तो मैं तुम से सच कहता हूँ; कि वो उन निनानवें से जो भटकी हुई नहीं इस भेड़ की ज्यादा खूशी करेगा। 14 इस तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो।” 15 “अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और अकेले में बात चीत करके उसे समझा; और अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। 16 और अगर न सुने, तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात दो तीन गवाहों की ज़बान से साबित हो जाए। 17 और अगर वो उनकी भी सुनने से इन्कार करे, तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की भी सुनने से इन्कार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान।” 18 “मैं तुम से सच कहता हूँ; कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बाँधोगे वो आसमान पर बाँधेगा; और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे; वो आसमान पर खुलेगा। 19 फिर मैं तुम से कहता हूँ; कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इतफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है, उनके लिए हो जाएगी। 20 क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ।” 21 उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा “ऐ खुदावन्द, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे, तो मैं कितनी मर्ताबा उसे मु'आफ़ करूँ? क्या सात बार तक?” 22 ईसा ने उससे कहा, “मैं तुझ से ये नहीं कहता कि सात बार, बल्कि सात दफा के सत्तर बार तक।” 23 “पस आसमान की बादशाही उस बादशाह की तरह है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। 24 और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाज़िर किया गया; जिस पर उसके दस हजार चाँदी के सिक्के आते थे। 25 मगर चूँकि उसके पास अदा करने को कुछ न था; इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि, ये और इसकी बीवी और बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। 26 पस नौकर ने गिरकर उसे सज्दा किया और कहा, ‘ऐ खुदावन्द मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्जा अदा करूँगा।’ 27 उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और उसका कर्ज बख़्श दिया।” 28 “जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके सौ चाँदी के सिक्के आते थे। उसने उसको पकड़ कर उसका गला घोंटा और कहा, ‘जो मेरा आता है अदा कर दे!’ 29 पस उसके हमखिदमत ने उसके सामने गिरकर मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे; मैं तुझे अदा कर दूँगा। 30 उसने न माना; बल्कि जाकर उसे कैदखाने में डाल दिया; कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। 31 पस उसके हमखिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए; और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था; सुना दिया। 32 इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुला कर उससे

कहा, ‘ऐ शरीर नौकर; मैं ने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए मु'आफ़ कर दिया; कि तूने मेरी मिन्नत की थी। 33 क्या तुझे ज़रूरी न था, कि जैसे मैं ने तुझ पर रहम किया; तू भी अपने हमखिदमत पर रहम करता?’ 34 उसके मालिक ने खफ़ा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया; कि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे।” 35 “मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा; अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मु'आफ़ न करे।”

**19** जब ईसा ये बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील को रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया। 2 और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली; और उस ने उन्हें वहीं अच्छा किया। 3 और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे “क्या हर एक वजह से अपनी बीवी को छोड़ देना जायज़ है?” 4 उस ने जवाब में कहा, “क्या तुम ने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने शुरू ही से उन्हें मर्द और 'औरत बना कर कहा? 5 'कि इस वजह से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा; और वो दोनों एक जिस्म होंगे।’ 6 पस वो दो नहीं, बल्कि एक जिस्म है; इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे।” 7 उन्होंने उससे कहा, “फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है; कि तलाक नामा देकर छोड़ दी जाए?” 8 उस ने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से तुम को अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी; मगर शुरू से ऐसा न था। 9 “और मैं तुम से कहता हूँ; कि जो कोई अपनी बीवी को हारामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे; और दूसरी शादी करे, वो जिना करता है; और जो कोई छोड़ी हुई से शादी कर ले, वो भी जिना करता है।” 10 शागिर्दों ने उससे कहा, “अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है, तो शादी करना ही अच्छा नहीं।” 11 उसने उनसे कहा, सब इस बात को क़बूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये क़ुदरत दी गई है। 12 क्योंकि कुछ खोजे ऐसे हैं 'जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और कुछ खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया; और कुछ खोजे ऐसे हैं, जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया, जो क़बूल कर सकता है करे। 13 उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए, ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। 14 लेकिन ईसा ने उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मनह न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। 15 और वो उन पर हाथ रखकर वहीं से चला गया। 16 और देखो; एक शख्स ने पास आकर उससे कहा “मैं कौन सी नेकी करूँ, ताकि हमेशा की ज़िन्दगी पाऊँ?” (aiōnios g166) 17 उसने उससे कहा, “तू मुझ से नेकी की वजह क्यों पछता है? नेक तो एक ही है लेकिन अगर तू ज़िन्दगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर

अमल कर।” 18 उसने उससे कहा, “कौन से हुक्म पर?” ईसा ने उनको एक — एक दीनार मिला। 10 जब पहले मजदूर आए तो कहा, “ये कि खून न कर जिना न कर चोरी न कर, झूठी गवाही न उन्होंने ये समझा कि हम को ज्यादा मिलेगा; और उनको भी एक दे। 19 अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से ही दीनार मिला। 11 जब मिला तो घर के मालिक से ये कह कर अपनी तरह मुहब्बत रख।” 20 उस जवान ने उससे कहा कि “मैंने शिकायत करने लगे, 12 इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया है उन सब पर अमल किया है अब मुझ में किस बात की कमी है?” और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर बोझ उठाया 21 ईसा ने उससे कहा, “अगर तू कामिल होना चाहे तो जा अपना और सख्त धूप सही?” 13 उसने जवाब देकर उन में से एक से कहा, माल — ओ — अस्बाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ‘मियाँ, मैं तेरे साथ बे इन्साफी नहीं करता; क्या तेरा मुझ से एक खजाना मिलेगा; और आकर मेरे पीछे होले।” 22 मगर वो जवान ये दीनार नहीं ठहरा था? 14 जो तेरा है उठा ले और चला जा मेरी बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूँ। 23 ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा “मैं तुम से सच कहता हूँ कि 15 क्या मुझे ठीक नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? तू दौलतमन्द का आस्मान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नजर से देखता है। 16 इसी तरह आखिर 24 और फिर तुम से कहता हूँ, ‘कि ऊँट का सूई के नाके में से निकल पहले हो जाएँगे और पहले आखिर।” 17 और येरूशलेम जाते हुए ईसा बारह शागिर्दों को अलग ले गया; और रास्ते में उनसे कहा। 18 “देखो; हम येरूशलेम को जाते हैं; और इबने आदम सरदार काहिनों कौन नजात पा सकता है?” 26 ईसा ने उनकी तरफ देखकर कहा और फकीहों के हवाले किया जाएगा; और वो उसके कत्ल का “ये आदमियों से तो नहीं हो सकता; लेकिन ख़ुदा से सब कुछ हुक्म देंगे। 19 और उसे गैर क्रौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे हो सकता है।” 27 इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा “देख ठडों में उडाएँ, और कोडे मारें और मस्लूब करें और वो तीसरे दिन ज़िन्दा किया जाएगा।” 20 उस वक्त ज़ब्दी की बीबी ने अपने बेटों हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं; पस हम को क्या के साथ उसके सामने आकर सिज्दा किया और उससे कुछ अर्ज मिलेगा?” 28 ईसा ने उस से कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब करने लगी। 21 उसने उससे कहा, “तू क्या चाहती है?” उस ने इबने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख़्त पर बैठेगा, तो तुम उससे कहा, “फ़रमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दहनी भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बारह तख़्तों पर बैठ कर इम्प्राइल के और बाई तरफ बैठें।” 22 ईसा ने जवाब में कहा, “तुम नहीं जानते कि क्या माँगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते बारह कबीलों का इन्साफ़ करोगे। 29 और जिस किसी ने घरों, या हो?” उन्होंने उससे कहा, “पी सकते हैं।” 23 उसने उससे कहा भाइयों, या बहनों, या बाप, या माँ, या बच्चों, या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको सौ गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िन्दगी का वारिस होगा। (aiōnios g166) 30 लेकिन बहुत से “मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दहने बाएँ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं; मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है।” 24 जब शागिर्दों ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफ़ा हुए। 25 मगर ईसा ने उन्हें पास बुलाकर कहा “तुम जानते हो कि गैर क्रौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। 26 तुम में ऐसा न होगा; बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा ख़ादिम बने। 27 और जो तुम में अक्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। 28 चुनौते; इबने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले; बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहतों के बदले फ़िदया में दें।” 29 जब वो यरीह से निकल रहे थे; एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 30 और देखा; दो अँधों ने जो रास्ते के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि ‘ईसा जा रहा है चिल्ला कर कहा, “ऐ ख़ुदाबन्द इबन — ए — दाऊद हम पर रहम कर।” 31 लोगों ने उन्हें डौटा कि चुप रहें; लेकिन वो और भी चिल्ला कर कहने लगे, “ऐ ख़ुदाबन्द इबने दाऊद हम पर रहम कर।” 32 ईसा ने खडे होकर उन्हें बुलाया और कहा, “तुम क्या

**20** “क्योंकि आस्मान की बादशाही उस घर के मालिक की तरह है, जो सबेरे निकला ताकि अपने बाग में मजदूर लगाए। 2 उसने मजदूरों से एक दीनार रोज तय करके उन्हें अपने बाग में भेज दिया। 3 फिर पहर दिन चढ़ने के करीब निकल कर उसने औरों को बाज़ार में बेकार खडे देखा, 4 और उन से कहा, ‘तुम भी बाग में चले जाओ, जो वाज़िब है तुम को दूँगा। पस वो चले गए। 5 फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकल कर वैसे ही किया। 6 और कोई एक घंटा दिन रहे फिर निकल कर औरों को खडे पाया, और उनसे कहा, ‘तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खडे हो?’ 7 उन्होंने उससे कहा, ‘इस लिए कि किसी ने हम को मजदूरी पर नहीं लगाया। उस ने उनसे कहा, ‘तुम भी बाग में चले जाओ।” 8 “जब शाम हुई तो बाग के मालिक ने अपने कारिन्दे से कहा, ‘मजदूरों को बुलाओ और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दो। 9 जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो

चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ?” 33 उन्होंने उससे कहा “ऐ 9165) 20 शागिर्दों ने ये देख कर ताअ'ज्जुब किया और कहा “ये ख़ुदाबन्द हमारी आँखें खुल जाएँ।” 34 ईसा को तरस आया। और उसने उन की आँखों को छुआ और वो फ़ौरन देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।

**21** जब वो येरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफ़िगे के पास आए; तो ईसा ने दो शागिर्दों को ये कह कर भेजा, 2 “अपने सामने के गाँव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधे की बँधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। 3 और अगर कोई तुम से कुछ कहे तो कहना कि ख़ुदाबन्द को इन की ज़रूरत है। वो फ़ौरन इन्हें भेज देगा।” 4 ये इसलिए हुआ जो नबी की मारिफ़त कहा गया था वो पूरा हो: 5 “सिय्यून की बेटी से कहो, देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है; वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर।” 6 पस शागिर्दों ने जाकर जैसा ईसा ने उनको हुक्म दिया था; वैसा ही किया। 7 गधे और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उस पर बैठ गया। 8 और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए; औरों ने दरख़्तों से डालियाँ काट कर राह में फैलाईं। 9 और भीड़ जो उसके आगे — आगे जाती और पीछे — पीछे चली आती थी पुकार — पुकार कर कहती थी “इबने दाऊद को हो शाना! मुबारिक है वो जो ख़ुदाबन्द के नाम से आता है। आलम — ऐ बाला पर होशना।” 10 और वो जब येरूशलेम में दाख़िल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे “ये कौन है?” 11 भीड़ के लोगों ने कहा “ये गलील के नासरत का नबी ईसा है।” 12 और ईसा ने ख़ुदा की हैकल में दाख़िल होकर उन सब को निकाल दिया; जो हैकल में खरीद — ओ फ़रोख़्त कर रहे थे; और सराफ़ों के तख़्त और कबूतर फ़रोशों की चौकियाँ उलट दीं। 13 और उन से कहा, “लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मगर तुम उसे डाकूओं की खो बनाते हो।” 14 और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए, और उसने उन्हें अच्छा किया। 15 लेकिन जब सरदार काहिनों और फ़कीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए; और लड़कों को हैकल में इबने दाऊद को हो शाना पुकारते देखा तो खफ़ा होकर उससे कहने लगे, 16 “तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं?” ईसा ने उन से कहा, “हाँ; क्या तुम ने ये कभी नहीं पढ़ा: ‘बच्चों और शीरख़वारों के मुँह से तुम ने हम्द को कामिल कराया?’” 17 और वो उन्हें छोड़ कर शहर से बाहर बैत अन्नियाह में गया; और रात को वहीं रहा। 18 और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था; तो उसे भूख लगी। 19 और रास्ते के किनारे अंजीर का एक दरख़्त देख कर उसके पास गया; और पत्तों के सिवा उस में कुछ न पाकर उससे कहा; “आइन्दा कभी तुझ में फल न लगे!” और अंजीर का दरख़्त उसी दम सूख गया। (aion

लिहाज करेंगे।’ 38 जब बागबानों ने बेटे को देखा, तो आपस में कहा, ‘ये ही वारिस है! आओ इसे कत्ल करके इसी की जायदाद पर कब्जा कर लें।’ 39 और उसे पकड़ कर बाग से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया।’ 40 “पस जब बाग का मालिक आया, तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा?” 41 उन्होंने उससे कहा, “उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा; और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा, जो मौसम पर उसको फल दें।” 42 ईसा ने उन से कहा, “क्या तुम ने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा: ‘जिस पत्थर को मैं मारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया; ये खुदावन्द की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है?’” 43 “इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुम से ले ली जाएगी और उस क्रौम को जो उसके फल लाए, दे दी जाएगी। 44 और जो इस पत्थर पर गिरेगा; टुकड़े — टुकड़े हो जाएगा; लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा।” 45 जब सरदार काहिनों और फ्रीसियों ने उसकी मिसाल सुनी, तो समझ गए, कि हमारे हक में कहता है। 46 और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे; क्योंकि वो उसे नबी जानते थे।

**22** और ईसा फिर उनसे मिसालों में कहने लगा, 2 “आस्मान की बादशाही उस बादशाह की तरह है जिस ने अपने बेटे की शादी की। 3 और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुआओ को शादी में बुला लाएँ, मगर उन्होंने आना न चाहा। 4 फिर उस ने और नौकरों को ये कह कर भेजा, ‘बुलाए हुआओ से कहो: देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर जबह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है; शादी में आओ।’ 5 मगर वो बे परवाई करके चल दिए; कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। 6 और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़ कर बे’इज्जत किया और मार डाला। 7 बादशाह ग़ज़बानाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया, और उन का शहर जला दिया। 8 तब उस ने अपने नौकरों से कहा, शादी का खाना तो तैयार है ‘मगर बुलाए हुए लायक न थे। 9 पस रास्तों के नाकों पर जाओ, और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ।’ 10 और वो नौकर बाहर रास्तों पर जा कर, जो उन्हें मिले क्या बुरे क्या भले सब को जमा कर लाए और शादी की महफ़िल मेहमानों से भर गई।” 11 “जब बादशाह मेहमानों को देखने को अन्दर आया, तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा, जो शादी के लिबास में न था। 12 उसने उससे कहा ‘मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बग़ैर यहाँ क्यों कर आ गया?’ लेकिन उस का मुँह बन्द हो गया। 13 इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा ‘उस के हाथ पाँव बाँध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा।’ 14 क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, मगर चुने हुए थोड़े।” 15 उस वक़्त फ्रीसियों ने जा कर मशवरा

किया कि उसे क्यों कर बातों में फँसाएँ। 16 पस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उस के पास भेजा, और उन्होंने कहा “ऐ उस्ताद हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। और किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि तू किसी आदमी का तरफ़दार नहीं। 17 पस हमें बता तू क्या समझता है? कैसर को जिज़िया देना जायज़ है या नहीं?” 18 ईसा ने उन की शरारत जान कर कहा, “ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? 19 जिज़िए का सिक्का मुझे दिखाओ वो एक दीनार उस के पास लाए।” 20 उसने उससे कहा “ये सूत और नाम किसका है?” 21 उन्होंने उससे कहा, “कैसर का।” उस ने उससे कहा, “पस जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो।” 22 उन्होंने ये सुनकर ता’अज्जब किया, और उसे छोड़ कर चले गए। 23 उसी दिन सद्की जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी उसके पास आए, और उससे ये सवाल किया। 24 “ऐ उस्ताद, मूसा ने कहा था, कि अगर कोई बे औलाद मर जाए, तो उसका भाई उसकी बीवी से शादी कर ले, और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 25 अब हमारे दर्मियान सात भाई थे, और पहला शादी करके मर गया; और इस वजह से कि उसके औलाद न थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। 26 इसी तरह दूसरा और तीसरा भी सातवें तक। 27 सब के बाद वो ‘औरत भी मर गई। 28 पस वो कयामत में उन सातों में से किसकी बीवी होगी? क्योंकि सब ने उससे शादी की थी।” 29 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “तुम गुमराह हो; इसलिए कि न किताबे मुकद्दस को जानते हो न खुदा की कुदरत को। 30 क्योंकि कयामत में शादी बारात न होगी; बल्कि लोग आस्मान पर फरिशतों की तरह होंगे। 31 मगर मुर्दों के जी उठने के बारे में खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुम ने वो नहीं पढ़ा? 32 मैं इब्राहीम का खुदा, और इज्हाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिन्दों का खुदा है।” 33 लोग ये सुन कर उसकी ता’लीम से हैरान हुए। 34 जब फ्रीसियों ने सुना कि उसने सद्कियों का मुँह बन्द कर दिया, तो वो जमा हो गए। 35 और उन में से एक आलिम — ऐ शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा; 36 “ऐ उस्ताद, तौरत में कौन सा हुकम बड़ा है?” 37 उसने उस से कहा “खुदावन्द अपने खुदा से अपने सारे दिल, और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मुहब्बत रख। 38 बड़ा और पहला हुकम यही है। 39 और दूसरा इसकी तरह ये है कि ‘अपने पड़ोसी से अपने बराबर मुहब्बत रख।’ 40 इन्ही दो हुकमों पर तमाम तौरत और अम्बिया के सहीफों का मदार है।” 41 जब फ्रीसी जमा हुए तो ईसा ने उससे ये पूछा; 42 “तुम मसीह के हक में क्या समझते हो? वो किसका बेटा है?” उन्होंने उससे कहा “दाऊद का।” 43 उसने उससे कहा, “पस दाऊद रुह की हिदायत से क्योंकर उसे खुदावन्द

कहता है, 44 'खुदावन्द ने मेरे खुदावन्द से कहा, मेरी दहनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूँ। 45 पस जब दाऊद उसको खुदावन्द कहता है तो वो उसका बेटा क्यूँकर ठहरा?" 46 कोई उसके जवाब में एक हर्फ न कह सका, और न उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुरअत की।

**23** उस वक़्त ईसा ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही, 2 "फकीह और फरीसीसा के शरी'अत की गधी पर बैठे हैं। 3 पस जो कुछ वो तुम्हें बताएँ वो सब करो और मानो, लेकिन उनकी तरह काम न करो; क्यूँकि वो कहते हैं, और करते नहीं। 4 वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है, बाँध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर खुद उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। 5 वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं; क्यूँकि वो अपने ता'वीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। 6 ज़ियाफ़तों में सद नशीनी और इबादतखानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ। 7 और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसन्द करते हैं। 8 मगर तुम रब्बी न कहलाओ, क्यूँकि तुम्हारा उसताद एक ही है और तुम सब भाई हो 9 और ज़मीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्यूँकि तुम्हारा 'बाप' एक ही है जो आसमानी है। 10 और न तुम हादी कहलाओ, क्यूँकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। 11 लेकिन जो तुम में बड़ा है, वो तुम्हारा ख़ादिम बने। 12 जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा; और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा।" 13 "ए रियाकार; आलिमों और फरीसियों तुम पर अफ़सोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बन्द करते हो, क्यूँकि न तो आप दाखिल होते हो, और न दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। 14 ए रियाकार; आलिमों और फरीसियों तुम पर अफ़सोस, कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो, और दिखावे के लिए इबादत को तुल देते हो; तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी।" 15 "ए रियाकार; फकीहो और फरीसियो तुम पर अफ़सोस, कि एक मुरीद करने के लिए तरी और ख़ुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूगना जहन्नुम का फ़र्ज़न्द बना देते हो।" (Geenna g1067) 16 "ए अंधे राह बताने वालो, तुम पर अफ़सोस! जो कहते हो, अगर कोई मक़दिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं; लेकिन अगर मक़दिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबन्द होगा। 17 ए अहमक़ों! और अँधों सोना बड़ा है, या मक्दिस जिसने सोने को मुक़द्दस किया। 18 फिर कहते हो 'अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं; लेकिन जो नज़्र उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबन्द होगा।' 19 ए अंधो! नज़्र बड़ी है या कुर्बानगाह जो नज़्र को मुक़द्दस करती है? 20 पस, जो कुर्बानगाह की कसम खाता है, वो उसकी और उन सब

चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है। 21 और जो मक़दिस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहनेवाले की कसम खाता है। 22 और जो आस्मान की कसम खाता है वह खुदा के तख़्त की और उस पर बैठने वाले की कसम भी खाता है।" 23 "ए रियाकार; आलिमों और फरीसियो तुम पर अफ़सोस कि पुदीना सौफ़ और ज़िर पर तो दसवाँ हिस्सा देते हो, पर तुम ने शरी'अत की ज़्यादा भारी बातों यानी इन्साफ़, और रहम, और इमान को छोड़ दिया है; लाज़िम था ये भी करते और वो भी न छोड़ते।" 24 "ए अंधे राह बताने वालो; जो मच्छर को तो छानते हो, और ऊँट को निगल जाते हो। 25 ए रियाकार; आलिमों और फरीसियो तुम पर अफ़सोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ़ करते हो, मगर वो अन्दर लूट और ना'परहेज़गारी से भरे हैं। 26 ए अंधे फरीसी; पहले प्याले और रकाबी को अन्दर से साफ़ कर ताकि ऊपर से भी साफ़ हो जाए।" 27 "ए रियाकार; आलिमों और फरीसियो तुम पर अफ़सोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की तरह हो, जो ऊपर से तो ख़ूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अन्दर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नापाकी से भरी हैं। 28 इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज़ दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो।" 29 "ए रियाकार; आलिमों और फरीसियो तुम पर अफ़सोस, कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाज़ों के मक़बरे आरास्ता करते हो। 30 और कहते हो, 'अगर हम अपने बाप दादा के ज़माने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक न होते।' 31 इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो, कि तुम नबियों के कातिलों के फ़र्ज़न्द हो। 32 मगर अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। 33 ए सौंपों, ए अफ़'ई के बच्चो; तुम जहन्नुम की सज़ा से क्यूँकर बचोगे? (Geenna g1067) 34 इसलिए देखो मैं नबियों, और दानाओ और आलिमों को तुम्हारे पास भेजता हूँ, उन में से तुम कुछ को क़त्ल और मस्लूब करोगे, और कुछ को अपने इबादतखानों में कोड़े मारोगे, और शहर ब शहर सताते फिरोगे। 35 ताकि सब रास्तबाज़ों का खून जो ज़मीन पर बहाया गया तुम पर आए, रास्तबाज़ हाबिल के खून से लेकर बरकियाह के बेटे ज़करियाह के खून तक जिसे तुम ने मक़दिस और कुर्बानगाह के दर्मियान क़त्ल किया। 36 मैं तुम से सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इसी ज़माने के लोगों पर आएगा।" 37 "ए यस्शलीम ए यस्शलीम तू जो नबियों को क़त्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए, उनको संगसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुरी'अत अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूँ; मगर तुम ने न चाहा। 38 देखो; तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। 39 क्यूँकि मैं तुम से कहता हूँ, कि अब से मुझे फिर हरगिज़ न देखोगे; जब तक न कहोगे कि मुबारिक है वो जो दावन्द के नाम से आता है।"

24 और ईसा हैकल से निकल कर जा रहा था, कि उसके शागिर्द उसके पास आए, ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएँ। 2 कर पच्छिम तक दिखाई देती हैं वैसे ही इबने आदम का आना होगा। उसने जवाब में उनसे कहा, “क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुम से सच कहता हूँ, कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाक्री न रहेगा; जो गिराया न जाएगा।” 3 जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, “हम को बता ये बातें कब होंगी? और तैरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा?” (aiōn g165) 4 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “खबरदार! कोई तुम को गुमराह न कर दे, 5 क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएँगे और कहेंगे, ‘मैं मसीह हूँ।’ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। 6 और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह से सुनोगे, खबरदार, घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़े होना जरूर है। 7 क्योंकि कौम पर कौम और सलतनत पर सलतनत चढ़ाई करेगी, और जगह — जगह काल पड़ेंगे, और भुन्चाल आएँगे। 8 तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। 33 इसी तरह जब तुम इन लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। 9 उस वक़्त लोग तुम को तकलीफ़ देने के लिए पकड़वाएँगे, और तुम को कल्ल करेगें; और मेरे नाम की खातिर सब कौमों तुम से दुश्मनी रखेंगे। 10 और उस वक़्त बहुत से ठोकर खाएँगे, और एक दूसरे को पकड़वाएँगे; और एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे। 11 और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, और बहुतों को गुमराह करेंगे। 12 और बेदीनी के बड़ जाने से बहुतेरों की मुहब्बत ठन्डी पड़ जाएगी। 13 लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। 14 और बादशाही की इस ख़ुशाख़बरी का एलान तमाम दुनिया में होगा, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब ख़ातिमा होगा।” 15 “पस जब तुम उस उजाड़ने वाली मक़रूह चीज़ जिसका ज़िक्र दानीएल नबी की ज़रिए हुआ, मुक़द्दस मुक़ामों में खड़ा हुआ देखो (पढ़ने वाले समझ लें) 16 तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएँ। 17 जो छत पर हो वो अपने घर का माल लेने को नीचे न उतरे। 18 और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे।” 19 “मगर अफ़सोस उन पर जो उन दिनों में हामिला हों और जो दुध पिलाती हों। 20 पस, दुआ करो कि तुम को जाड़ों में या सबत के दिन भागना न पड़े। 21 क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। 22 अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर न बचता मगर चुने हुवों की खातिर वो दिन घटाए जाएँगे। 23 उस वक़्त अगर कोई तुम को कहे, देखो, मसीह ‘यहाँ है’ या ‘वह वहाँ है’ तो यक़ीन न करना।” 24 “क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएँगे कि अगर मुम्किन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। 25 देखो, मैं ने पहले ही तुम को कह दिया है। 26 पस अगर वो तुम से कहें, देखो, वो वीरानों में है तो बाहर न जाना। या देखो, कोठरियों में है तो यक़ीन न करना।” 27 “क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौध कर पच्छिम तक दिखाई देती है वैसे ही इबने आदम का आना होगा। 28 जहाँ मुर्दार है, वहाँ गिद्ध जमा हो जाएँगे।” 29 “फ़ौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। और चाँद अपनी रौशनी न देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आस्मान की कुव्वतें हिलाई जाएँगी। 30 और उस वक़्त इब्न — ए — आदम का निशान आस्मान पर दिखाई देगा। और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमों छाती पीटेंगी; और इबने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। 31 और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फ़रिशतों को भेजेगा और वो उसके चुने हुवों को चारों तरफ़ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे।” 32 “अब अंज़ीर के दरख़्त से एक मिसाल सीखो, जैसे ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। 33 इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़े पर है। 34 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें ये नस्त हरगिज़ तमाम न होगी। 35 आसमान और ज़मीन टल जाएँगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी।” 36 “लेकिन उस दिन और उस वक़्त के बारे में कोई नहीं जानता, न आसमान के फ़रिशते न बेटा मगर, सिर्फ़ बाप। 37 जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इबने आदम के आने के वक़्त होगा। 38 क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह नाव में दाख़िल हुआ। 39 और जब तक तूफ़ान आकर उन सब को बहा न ले गया, उन को खबर न हुई, उसी तरह इबने आदम का आना होगा। 40 उस वक़्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, 41 दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 42 पस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ख़ुदाबन्द किस दिन आएगा 43 लेकिन ये जान रखो, कि अगर घर के मालिक को मा'लूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नक़ब न लगाने देता। 44 इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम को गुमान भी न होगा इबने आदम आ जाएगा।” 45 “पस वो इमानदार और अक्लमन्द नौकर कौन सा है, जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुक़र्र किया ताकि वक़्त पर उनको खाना दे। 46 मुबारिक है वो नौकर जिसे उस का मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। 47 मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वो उसे अपने सारे माल का मुख़्तर कर देगा। 48 लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कह कर कि मेरे मालिक के आने में देर है। 49 अपने हमखिदमतों को मारना शुरू करे, और शराबियों के साथ खाए पिए। 50 तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी



राह न देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो आ मौजूद होगा। 51 और खूब कोड़े लगा कर उसको रियाकारों में शामिल करेगा वहाँ रोना और दौँत पीसना होगा।”

**25** “उस वक़्त आसमान की बादशाही उन दस कुँवारियों की तरह होगी जो अपनी मशा'लें लेकर दुल्हा के इस्तक्रबाल को निकलीं। 2 उन में पाँच बेवकूफ और पाँच अक्लमन्द थीं। 3 जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मशा'लें तो ले लीं मगर तेल अपने साथ न लिया। 4 मगर अक्लमन्दों ने अपनी मशा'लों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। 5 और जब दुल्हा ने दर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं।” 6 “आधी रात को धूम मची, देखो! दुल्हा आ गया, उसके इस्तक्रबाल को निकलो! 7 उस वक़्त वो सब कुँवारियाँ उठकर अपनी — अपनी मशा'लों को दुस्त करने लगीं। 8 और बेवकूफों ने अक्लमन्दों से कहा, ‘अपने तेल में से कुछ हम को भी दे दो, क्योंकि हमारी मशा'लें बुझी जाती हैं।’ 9 ‘अक्लमन्दों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी न हो बेहतर; ये है कि बेचने वालों के पास जाकर, अपने लिए मोल ले लो। 10 जब वो मोल लेने जा रही थी, तो दुल्हा आ पहुँचा और जो तैयार थी, वो उस के साथ शादी के ज़र्र में अन्दर चली गई, और दरवाज़ा बन्द हो गया। 11 फिर वो बाकी कुँवारियाँ भी आईं और कहने लगीं ‘ऐ खुदावन्द ऐ खुदावन्द। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे।’ 12 उसने जवाब में कहा ‘मैं तुम से सच कहता हूँ कि मैं तुम को नहीं जानता।’ 13 पस जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस वक़्त को।” 14 “क्योंकि ये उस आदमी जैसा हाल है, जिसने परदेस जाते वक़्त अपने घर के नौकरों को बुला कर अपना माल उनके सुपर्द किया। 15 एक को पाँच चाँदी के सिक्के दिए, दूसरे को दो, और तीसरे को एक या'नी हर एक को उसकी काबलियत के मुताबिक दिया और परदेस चला गया। 16 जिसको पाँच सिक्के मिले थे, उसने फ़ौरन जाकर उनसे लेन देन किया, और पाँच तोड़े और पैदा कर लिए। 17 इसी तरह जिसे दो मिले थे, उसने भी दो और कमाए। 18 मगर जिसको एक मिला था, उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का स्पए छिपा दिया।” 19 “बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। 20 जिसको पाँच तोड़े मिले थे, वो पाँच सिक्के और लेकर आया, और कहा, ‘ऐ खुदावन्द! तूने पाँच सिक्के मुझे सुपर्द किए थे; देख, मैंने पाँच सिक्के और कमाए।’ 21 उसके मालिक ने उससे कहा, ‘ऐ अच्छे और ईमानदार नौकर शाबाश; तू थोड़े में ईमानदार रहा मैं तुझे बहुत चीजों का मुख़्तार बनाऊँगा; अपने मालिक की खुशी में शरीक हो।’” 22 “और जिस को दो सिक्के मिले थे, उस ने भी पास आकर कहा, ‘तूने दो सिक्के मुझे सुपर्द किए थे, देख मैंने दो सिक्के और कमाए।’ 23 उसके मालिक ने उससे कहा, ‘ऐ

अच्छे और दियानतदार नौकर शाबाश; तू थोड़े में ईमानदार रहा मैं तुझे बहुत चीजों का मुख़्तार बनाऊँगा; अपने मालिक की खुशी में शरीक हो।’” 24 “और जिसको एक तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन्द! मैं तुझे जानता था, कि तू सख़्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता है। 25 पस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छिपा दिया देख, ‘जो तेरा है वो मौजूद है।’ 26 उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ‘ऐ शरीर और सुस्त नौकर तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता हूँ; 27 पस तुझे लाजिम था, कि मेरा स्पए साहकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। 28 पस इससे वो सिक्का ले लो और जिस के पास दस सिक्के हैं उसे दे दो। 29 क्योंकि जिस के पास है उसे दिया जाएगा और उस के पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिस के पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा। 30 और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, और वहाँ रोना और दौँत पीसना होगा।’” 31 “जब इनने आदम अपने जलाल में आणा, और सब फ़रिशते उसके साथ आएँगे; तब वो अपने जलाल के तख़्त पर बैठेगा। 32 और सब क्रौमैं उस के सामने जमा की जाएँगी। और वो एक को दूसरे से चुदा करेगा। 33 और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएँ जमा करेगा। 34 उस वक़्त बादशाह अपनी तरफ वालों से कहेगा ‘आओ, मेरे बाप के मुबारिक लोगो, जो बादशाही दुनिया बनाने से पहले से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में ले लो। 35 क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया; मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया; मैं परदेसी था तूने मुझे अपने घर में उतारा। 36 नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए।’” 37 “तब रास्तबाज़ जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन्द, हम ने कब तुझे भूखा देख कर खाना खिलाया, या प्यासा देख कर पानी पिलाया? 38 हम ने कब तुझे मुसाफ़िर देख कर अपने घर में उतारा? या नंगा देख कर कपड़ा पहनाया। 39 हम कब तुझे बीमार या कैद में देख कर तैरे पास आए। 40 बादशाह जवाब में उन से कहेगा, ‘मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम ने मेरे सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सुलूक किया, तो मेरे ही साथ किया।’ 41 फिर वो बाएँ तरफ वालों से कहेगा, ‘मला'ऊनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, जो इब्लीस और उसके फ़रिशतों के लिए तैयार की गई है। (aiōnios g166) 42 क्योंकि, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना न खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी न पिलाया। 43 मुसाफ़िर था, तुम ने मुझे घर में न उतारा नंगा था, तुम ने मुझे कपड़ा न पहनाया, बीमार और कैद में था, तुम ने मेरी खबर न ली।’” 44 “तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन्द हम ने कब तुझे भूखा, या

प्यासा, या मुसाफिर, या नंगा, या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की? 45 उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, 'मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तुम ने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक न किया, तो मेरे साथ न किया।' 46 और ये हमेशा की सजा पाएँगे, मगर रास्तबाज़ हमेशा की जिन्दगी।' (aiōnios g166)

**26** जब ईसा ये सब बातें खत्म कर चुका, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा। 2 "तुम जानते हो कि दो दिन के बाद ईद — ए — फ़सह होगी। और इब्रन — ए — आदम मस्लूब होने को पकड़वाया जाएगा।" 3 उस वक्त सरदार काहिन और क्रौम के बुज़ुर्ग काइफ़ा नाम सरदार काहिन के दिवान खाने में जमा हुए। 4 और मशवरा किया कि ईसा को धोखे से पकड़ कर कत्ल करें। 5 मगर कहते थे, "ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए।" 6 और जब ईसा बैत अन्नियाह में शौमीन जो पहले कौढी था के घर में था। 7 तो एक 'औरत संग — मरमर के इन्द्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उस के सिर पर डाला। 8 शागिर्द ये देख कर खफ़ा हुए और कहने लगे, "ये किस लिए बरबाद किया गया? 9 ये तो बड़ी कीमत में बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था।" 10 ईसा' ने ये जान कर उन से कहा, "इस 'औरत को क्यूँ दुखी करते हो? इस ने तो मेरे साथ भलाई की है। 11 क्यूँकि गरीब गुरबे तो हमेशा तुम्हारे पास हैं लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूँगा। 12 और इस ने तो मेरे दफ़न की तैयारी के लिए इत्र मेरे बदन पर डाला। 13 मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी का एलान किया जाएगा, ये भी जो इस ने किया; इस की यादगारी में कहा जाएगा।" 14 उस वक्त उन बारह में से एक ने जिसका नाम यहूदाह इस्करियोती था; सरदार काहिनों के पास जा कर कहा, 15 "अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँ तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे तीस रुपए तौल कर दे दिया।" 16 और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौक़ा ढूँढ़ने लगा। 17 ईद — 'ए — फ़ितर के पहले दिन शागिर्दों ने ईसा के पास आकर कहा, "तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फ़सह के खाने की तैयारी करें।" 18 उस ने कहा, "शहर में फ़लों शख्स के पास जा कर उससे कहना 'उस्ताद फ़रमाता है' कि मेरा वक्त नजदीक है मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद'ए फ़सह करूँगा।" 19 और जैसा ईसा ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फ़सह तैयार किया। 20 जब शाम हुई तो वो बारह शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। 21 जब वो खा रहा था, तो उसने कहा, "मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।" 22 वो बहुत ही गमगीन हुए और हर एक उससे कहने लगे "ख़ुदाबन्द, क्या मैं हूँ?" 23 उस ने जवाब में कहा, "जिस ने मेरे साथ रकाबी में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा।

24 इबने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है लेकिन उस आदमी पर अफ़सोस जिसके वसीले से इबने आदम पकड़वाया जाता है अगर वो आदमी पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा होता।" 25 उसके पकड़वाने वाले यहूदाह ने जवाब में कहा "ऐ रब्बी क्या मैं हूँ?" उसने उससे कहा "तूने ख़ुद कह दिया।" 26 जब वो खा रहे थे तो ईसा' ने रोटी ली और — और बर्कत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, "लो, खाओ, ये मेरा बदन है।" 27 फिर प्याला लेकर शुक़ किया और उनको देकर कहा "तुम सब इस में से पियो। 28 क्यूँकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहनों के गुनाहों की मु'आफ़ी के लिए बहाया जाता है। 29 मैं तुम से कहता हूँ, कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी न पियूँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया न पियूँ।" 30 फिर वो हम्द करके बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। 31 उस वक्त ईसा' ने उनसे कहा "तुम सब इसी रात मेरी वजह से ठोकर खाओगे क्यूँकि लिखा है; मैं चरवाहे को मारूँगा और गल्ले की भेंडे बिखर जाएँगी। 32 लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊँगा।" 33 पतरस ने जवाब में उससे कहा, "चाहे सब तेरी वजह से ठोकर खाएँ, लेकिन मैं कभी ठोकर न खाऊँगा।" 34 ईसा' ने उससे कहा, "मैं तुझसे सच कहता हूँ, इसी रात मुर्ग के बाँग देने से पहले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा।" 35 पतरस ने उससे कहा, "अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े। तोभी तेरा इन्कार हरगिज़ न करूँगा।" और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। 36 उस वक्त ईसा' उनके साथ गतसिमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा। "यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दूआ करूँ।" 37 और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेक्रार होने लगा। 38 उस वक्त उसने उनसे कहा, "मेरी जान निहायत गमगीन है यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है, तुम यहाँ ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो।" 39 फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुँह के बल गिर कर यूँ दूआ की, "ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये दुःख का प्याला मुझ से टल जाए, तोभी न जैसा मैं चाहता हूँ; बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।" 40 फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, "क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? 41 जागते और दूआ करते रहो ताकि आजमाइश में न पड़ो, रूह तो मुस्त'इद है मगर जिस्म कमज़ोर है।" 42 फिर दोबारा उसने जाकर यूँ दूआ की "ऐ मेरे बाप अगर ये मेरे पिए बग़ैर नहीं टल सकता तो तेरी मज़ी पूरी हो।" 43 और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्यूँकि उनकी आँखें नींद से भरी थीं। 44 और उनको छोड़ कर फिर चला गया, और फिर वही बात कह कर तीसरी बार दूआ की। 45 तब शागिर्दों के पास आकर उसने कहा "अब सोते रहो, और आराम करो, देखो वक्त आ पहुँचा है,

और इबने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। 46 उठो चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुँचा है।” 47 वो ये कह ही रहा था, कि यहदाह जो उन बारह में से एक था, आया, उसके मुँह पर थूका और उसके मुक्के मारे और कुछ ने तमाचे मार और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों लिए सरदार काहिनों और क्रौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुँची। 48 और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था, जिसका मैं बोसा लूँ वही है उसे पकड़ लेना। 49 और फ़ौरन उसने ईसा के पास आ कर कहा, “ऐ रब्बी सलाम!” और उसके बोसे लिए। 50 ईसा ने उससे कहा, “मियाँ! जिस काम को आया है वो कर ले”। इस पर उन्होंने पास आकर ईसा पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। 51 और देखो, ईसा के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चला कर उसका कान उड़ा दिया। 52 ईसा ने उससे कहा, “अपनी तलवार को मियान में कर क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएँगे। 53 क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ, और वो फ़रिश्तों के बारह पलटन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? 54 मगर वो लिखे हुए का यूँ ही होना ज़रूर है क्या कर पूरे होंगे?” 55 उसी वक़्त ईसा ने भीड़ से कहा, “क्या तुम तलवारों और लाठियों लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था, और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। 56 मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों की नबुव्वत पूरी हों।” इस पर सब शागिर्द उसे छोड़ कर भाग गए। 57 और ईसा के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहाँ आलिम और बुजुर्ग जमा हुए थे। 58 और पतरस दूर — दूर उसके पीछे — पीछे सरदार काहिन के दिवानखाने तक गया, और अन्दर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। 59 सरदार काहिन और सब सद्दे — ए 'अदालत वाले ईसा को मार डालने के लिए उसके खिलाफ़ झूठी गवाही ढूँढ़ने लगे। 60 मगर न पाई, गरचे बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार दो गवाहों ने आकर कहा, 61 “इस ने कहा है, कि मैं खुदा के मक़दिस को ढा सकता और तीन दिन में उसे बना सकता हूँ।” 62 और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, “तू जवाब नहीं देता? ये तेरे खिलाफ़ क्या गवाही देते हैं?” 63 मगर ईसा खामोश ही रहा, सरदार काहिन ने उससे कहा, “मैं तुझे जिन्दा खुदा की कसम देता हूँ, कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हम से कह दे?” 64 ईसा ने उससे कहा, “तू ने खुद कह दिया बल्कि मैं तुम से कहता हूँ, कि इसके बाद इबने आदम को कादिर — ए मुतल्लिक की दहनी तरफ़ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे।” 65 इस पर सरदार काहिन ने ये कह कर अपने कपड़े फाड़े “उसने कुफ़्र बका है अब हम को गवाहों की क्या ज़रूरत रही? देखो, तुम ने अभी ये कुफ़्र सुना है। 66 तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है।” 67 इस पर उन्होंने उसके मुँह पर थूका और उसके मुक्के मारे और कुछ ने तमाचे मार कर कहा। 68 “ऐ मसीह, हमें नबुव्वत से बता कि तुझे किस ने मारा।” 69 पतरस बाहर सहन में बैठा था, कि एक लौड़ी ने उसके पास आकर कहा, “तू भी ईसा गलीली के साथ था।” 70 उसने सबके सामने ये कह कर इन्कार किया “मैं नहीं जानता तू क्या कहती है।” 71 और जब वो डेवढी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा, और जो वहाँ थे, उनसे कहा, “ये भी ईसा नासरी के साथ था।” 72 उसने कसम खा कर फिर इन्कार किया “मैं इस आदमी को नहीं जानता।” 73 थोड़ी देर के बाद वो वहाँ खड़े थे, उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, “बेशक तू भी उन में से है, क्योंकि तेरी बोली से भी ज़ाहिर होता है।” 74 इस पर वो ला'नत करने और कसम खाने लगा “मैं इस आदमी को नहीं जानता!” और फ़ौरन मुर्ग ने बाँग दी। 75 पतरस को ईसा की वो बात याद आई जो उसने कही थी: “मुर्ग के बाँग देने से पहले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा।” और वो बाहर जाकर ज़ार ज़ार रोया।

**27** जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और क्रौम के बुजुर्गों ने ईसा के खिलाफ़ मशवरा किया कि उसे मार डालें। 2 और उसे बाँध कर ले गए, और पीलातुस हाकिम के हवाले किया। 3 जब उसके पकड़वाने वाले यहदाह ने ये देखा, कि वो मुजरिम ठहराया गया, तो अप्सोस किया और वो तीस स्पे सरदार काहिन और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा। 4 “मैंने गुनाह किया, कि बेकुसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया।” उन्होंने ने कहा “हमें क्या! तू जान।” 5 वो स्पेएऊँ को मक़दिस में फेंक कर चला गया। और जाकर अपने आपको फाँसी दी। 6 सरदार काहिन ने स्पेए लेकर कहा “इनको हैकल के ख़जाने में डालना जायज़ नहीं; क्योंकि ये खून की क्रीमत है।” 7 पर उन्होंने मशवरा करके उन स्पेएऊँ से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफ़न करने के लिए खरीदा। 8 इस वजह से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। 9 उस वक़्त वो पूरा हुआ जो यरमियाह नबी के ज़रिए कहा गया था कि जिसकी क्रीमत ठहराई गई थी, “उन्होंने उसकी क्रीमत के वो तीस स्पेए ले लिए, (उसकी क्रीमत कुछ बनी इस्राईल ने ठहराई थी) 10 और उसको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावन्द ने मुझे हुक्म दिया।” 11 ईसा हाकिम के सामने खड़ा था, और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? ईसा ने उस से कहा, “तू खुद कहता है।” 12 जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब न दिया। 13 इस पर पीलातुस ने उस से कहा “क्या तू नहीं सुनता, ये तेरे खिलाफ़ कितनी गवाहियाँ देते हैं?” 14 उसने एक बात का भी उसको जवाब न दिया, यहाँ तक कि

हाकिम ने बहुत ता'ज्जुब किया। 15 और हाकिम का दस्त्र था, कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। 16 उस वक़्त बरअब्बा नाम उन का एक मशहूर कैदी था। 17 पस जब वो इकट्ठे हुए तो पीलातुस ने उस से कहा, "तुम किसे चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूँ? बरअब्बा को या ईसा को जो मसीह कहलाता है?" 18 क्योंकि उसे मालूम था, कि उन्होंने उसको जलन से पकड़वाया है। 19 और जब वो तख़्त — ए आदालत पर बैठा था तो उस की बीबी ने उसे कहला भेजा "तू इस रास्तबाज़ से कुछ काम न रख क्योंकि मैंने आज ख़्वाब में इस की वजह से बहुत दुःख उठाया है।" 20 लेकिन सरदार काहिनो और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा को मॉंग लें, और ईसा को हलाक कराएँ। 21 हाकिम ने उनसे कहा इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूँ? उन्होंने कहा "बरअब्बा को।" 22 पीलातुस ने उनसे कहा "फिर ईसा को जो मसीह कहलाता है क्या करूँ?" सब ने कहा "वो मस्लूब हो।" 23 उसने कहा "क्यों? उस ने क्या बुराई की है?" मगर वो और भी चिल्ला — चिल्ला कर कहने लगे "वो मस्लूब हो!" 24 जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है तो पानी लेकर लोगों के स्बस् अपने हाथ धोए "और कहा, मैं इस रास्तबाज़ के खून से बरी हूँ; तुम जानो।" 25 सब लोगों ने जवाब में कहा "इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर।" 26 इस पर उस ने बरअब्बा को उनकी खातिर छोड़ दिया, और ईसा को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मस्लूब हो। 27 इस पर हाकिम के सिपाहियों ने ईसा को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके आस पास जमा की। 28 और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिज़ी चोगा पहनाया। 29 और काँटों का ताज़ बना कर उसके सिर पर रखवा, और एक सरकंडा उस के दहने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठठ्ठों में उड़ाने लगे; "ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब!" 30 और उस पर थूका, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। 31 और जब उसका ठठ्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए; और मस्लूब करने को ले गए। 32 जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा, कि उसकी सलीब उठाए। 33 और उस जगह जो गुल्गुता या'नी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुँचकर। 34 पित मिली हुई मय उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना न चाहा। 35 और उन्होंने उसे मस्लूब किया; और उसके कपड़े पची डाल कर बाँट लिए। 36 और वहाँ बैठ कर उसकी निगहबानी करने लगे। 37 और उस का इल्ज़ाम लिख कर उसके सिर से ऊपर लगा दिया "कि ये यहूदियों का बादशाह ईसा है।" 38 उस वक़्त उसके साथ दो डाकू मस्लूब हुए, एक दहने और एक बाएँ। 39 और राह

चलने वाले सिर हिला — हिला कर उसको ला'न ता'न करते और कहते थे। 40 "ऐ मक़दिस के ढानेवाले और तीन दिन में बनाने वाले अपने आप को बचा; अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ।" 41 इसी तरह सरदार काहिन भी फ़कीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठठ्ठे से कहते थे, 42 "इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इस्राईल का बादशाह है; अब सलीब पर से उतर आए, तो हम इस पर ईमान लाएँ। 43 इस ने खुदा पर भरोसा किया है, अगरचे इसे चाहता है तो अब इस को छुड़ा ले, क्योंकि इस ने कहा था, मैं खुदा का बेटा हूँ।" 44 इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मस्लूब हुए थे, उस पर ला'न ता'न करते थे। 45 और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अन्धेरा छाया रहा। 46 और तीसरे पहर के करीब ईसा ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा "एली, एली, लमा शबक़तनी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया?" 47 जो वहाँ खड़े थे उन में से कुछ ने सुन कर कहा "ये एलियाह को पुकारता है।" 48 और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और सोखते को लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। 49 मगर बाकियों ने कहा, "ठहर जाओ, देखें तो एलियाह उसे बचाने आता है या नहीं।" 50 ईसा ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर जान दे दी। 51 और मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया, और ज़मीन लरज़ी और चट्टानें तड़क गईं। 52 और कब्रें खुल गईं। और बहुत से जिस्म उन मुक़दसों के जो सो गए थे, जी उठे। 53 और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर मुक़दस शहर में गए, और बहुतों को दिखाई दिए। 54 पस सुबेदार और जो उस के साथ ईसा की निगहबानी करते थे, भुन्चाल और तमाम माजरा देख कर बहुत ही डर कर कहने लगे "बै — शक ये खुदा का बेटा था।" 55 और वहाँ बहुत सी औरतें जो गलील से ईसा की खिदमत करती हुई उसके पीछे — पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। 56 उन में मरियम मगदलिनी थी, और या'क़ूब और योसेस की माँ मरियम और ज़ब्दी के बेटों की माँ। 57 जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतियाह का एक दौलतमन्द आदमी आया जो खुद भी ईसा का शागिर्द था। 58 उस ने पीलातुस के पास जा कर ईसा की लाश मॉंगी, इस पर पीलातुस ने दे देने का हुक्म दे दिया। 59 यूसुफ ने लाश को लेकर साफ़ महीन चादर में लपेटा। 60 और अपनी नई कब्र में जो उस ने चट्टान में खुदवाई थी रखवा, फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुँह पर लुढ़का कर चला गया। 61 और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थीं। 62 दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन और फ़रीसियों ने पीलातुस के पास जमा होकर कहा। 63 खुदावन्द हमें याद है "कि उस धोखेबाज़ ने जीते जी कहा था, मैं तीन दिन के बाद जी उठूँगा। 64 पस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी

की जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएँ, और लोगों से कह दें, वो मुर्दा में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो।” 65 पीलातुस ने उनसे कहा “तुम्हारे पास पहरे वाले हैं जाओ, जहाँ तक तुम से हो सके उसकी निगहबानी करो।” 66 पस वो पहरेदारों को साथ लेकर गए, और पत्थर पर मुहर करके कब्र की निगहबानी की।

**28** सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन धूप निकलते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। 2 और देखो, एक बड़ा भुन्चाल आया क्योंकि खूदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया; और उस पर बैठ गया। 3 उसकी सूरत बिजली की तरह थी, और उसकी पोशाक बर्फ की तरह सफेद थी। 4 और उसके डर से निगहबान काँप उठे, और मुर्दा से हो गए। 5 फरिश्ते ने औरतों से कहा, “तुम न डरो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ईसा को ढूँड रही हो जो मस्लूब हुआ था। 6 वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है; आओ ये जगह देखो जहाँ खूदावन्द पड़ा था। 7 और जल्दी जा कर उस के शागिर्दों से कहो वो मुर्दा में से जी उठा है, और देखो; वो तुम से पहले गलील को जाता है वहाँ तुम उसे देखोगे, देखो मैंने तुम से कह दिया है।” 8 और वो खौफ और बड़ी ख़ुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ीं। 9 और देखो ईसा उन से मिला, और उस ने कहा, “सलाम।” उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सज्दा किया। 10 इस पर ईसा ने उन से कहा, “डरो नहीं। जाओ, मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएँ, वहाँ मुझे देखेंगे।” 11 जब वो जा रही थी, तो देखो; पहरेदारों में से कुछ ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। 12 और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा स्पे दे कर कहा, 13 “ये कह देना, कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। 14 अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुँची तो हम उसे समझाकर तुम को खतरे से बचा लेंगे” 15 पस उन्होंने स्पे लेकर जैसा सिखाया गया था, वैसा ही किया; और ये बात यहूदियों में मशहूर है। 16 और ग्यारह शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए, जो ईसा ने उनके लिए मुकर्रर किया था। 17 उन्होंने उसे देख कर सज्दा किया, मगर कुछ ने शक किया। 18 ईसा ने पास आ कर उन से बातें की और कहा “आस्मान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। 19 पस तुम जा कर सब क्रौमों को शागिर्द बनाओ और उन को बाप और बेटे और रूह — उल — क़दूस के नाम से बपतिस्मा दो। 20 और उन को ये ता'लीम दो, कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम को हुक्म दिया; और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।” (aiōn g165)

# मरकुस

**1** ईसा मसीह इब्न — ए खुदा की खुशखबरी की शुरूआत। 2 जैसा यसायाह नबी की किताब में लिखा है: “देखो, मैं अपना पैगम्बर पहले भेजता हूँ, जो तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। 3 वीराने में पूकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदाबन्द के लिए राह तैयार करो, और उसके रास्ते सीधे बनाओ।” 4 यहून्ना आया और वीरानों में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी। के लिए तौबा के बपतिस्मे का ऐलान करता था 5 और यहूदिया के मुल्क के सब लोग, और येरूशलेम के सब रहनेवाले निकल कर उस के पास गए, और उन्होंने अपने गुनाहों को कुबूल करके दरिया — ए — यर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। 6 ये यहून्ना ऊँटों के बालों से बनी पोशाक पहनता और चमड़े का पट्टा अपनी कमर से बाँधे रहता था। और वो टिट्टियाँ और जंगली शहद खाता था। 7 और ये ऐलान करता था, “कि मेरे बाद वो शख्स आनेवाला है जो मुझे से ताकतवर है मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जृतियों का फ्रीता खोलूँ। 8 मैंने तो तुम को पानी से बपतिस्मा दिया मगर वो तुम को रूह — उल — कुदूस से बपतिस्मा देगा।” 9 उन दिनों में ऐसा हुआ कि ईसा ने गलील के नासरत नाम कि जगह से आकर यरदन नदी में यहून्ना से बपतिस्मा लिया। 10 और जब वो पानी से निकल कर ऊपर आया तो फौरन उसने आसमान को खुलते और रूह को कबूतर की तरह अपने ऊपर आते देखा। 11 और आसमान से ये आवाज़ आई, “तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझ से मैं खुश हूँ।” 12 और उसके बाद रूह ने उसे वीराने में भेज दिया। 13 और वो उस सूनसान जगह में चालीस दिन तक शैतान के जरिए आजमाया गया, और वह जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। 14 फिर यहून्ना के पकड़वाए जाने के बाद ईसा गलील में आया और खुदा की खुशखबरी का ऐलान करने लगा। 15 और उसने कहा कि “बक़्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ।” 16 गलील की झील के किनारे — किनारे जाते हुए, शमौन और शमौन के भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा; क्योंकि वो मछली पकड़ने वाले थे। 17 और ईसा ने उन से कहा, “मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम को आदमी पकड़ने वाला बनाऊँगा।” 18 वो फौरन जाल छोड़ कर उस के पीछे हो लिए। 19 और थोड़ी दूर जाकर कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यहून्ना को नाव पर जालों की मरम्मत करते देखा। 20 उसने फौरन उनको अपने पास बुलाया, और वो अपने बाप जब्दी को नाव पर मजदूरों के साथ छोड़ कर उसके पीछे हो लिए। 21 फिर वो कफ़रनहम में दाखिल हुए, और वो फौरन सबत के दिन इबादतखाने

में जाकर ता'लीम देने लगा। 22 और लोग उसकी ता'लीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको आलिमों की तरह नहीं बल्कि इख्तियार के साथ ता'लीम देता था। 23 और फौरन उनके इबादतखाने में एक आदमी ऐसा मिला जिस के अंदर बदरूह थी वो यूँ कह कर पुकार उठा। 24 “ऐ ईसा नासरी हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें तबाह करने आया है मैं तुझको जानता हूँ कि तू कौन है? खुदा का कुदूस है।” 25 ईसा ने उसे झिडक कर कहा, “चुप रह, और इस में से निकल जा!” 26 तब वो बदरूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर उस में से निकल गई। 27 और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कह कर बहस करने लगे “ये कौन है। ये तो नई ता'लीम है? वो बदरूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है, और वो उसका हुक्म मानती हैं।” 28 और फौरन उसकी शोहरत गलील के आस पास में हर जगह फैल गई। 29 और वो फौरन इबादतखाने से निकल कर शमौन और अन्दियास के घर आए। 30 शमौन की सास बुखार में पड़ी थी, और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। 31 उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया, और बुखार उस पर से उतर गया, और वो उठकर उसकी खिदमत करने लगी। 32 शाम को सूरज डूबने के बाद लोग बहुत से बीमारों को उसके पास लाए। 33 और सारे शहर के लोग दरवाजे पर जमा हो गए। 34 और उसने बहुतों को जो तरह — तरह की बीमारियों में गिरफ़्तार थे, अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। 35 और सुबह होने से बहुत पहले वो उठा, और एक वीरान जगह में गया, और वहाँ दुआ की। 36 और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। 37 और जब वो मिला तो उन्होंने उससे कहा, “सब लोग तुझे ढूँड रहे हैं।” 38 उसने उनसे कहा “आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी ऐलान करूँ, क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूँ।” 39 और वो पूरे गलील में उनके इबादतखाने में जा जाकर ऐलान करता और बदरूहों को निकालता रहा। 40 और एक कौद्दी ने उस के पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उस से कहा “अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकता है।” 41 उसने उसपर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उस से कहा। “मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ़ हो जा।” 42 और फौरन उसका कौद्द जाता रहा और वो पाक साफ़ हो गया। 43 और उसने उसे हिदायत कर के फौरन सख़्त किया। 44 और उससे कहा “ख़बरदार! किसी से कुछ न कहना जाकर अपने आप को इमामों को दिखा, और अपने पाक साफ़ हो जाने के बारे में उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की हैं नज़र गुज़ार ताकि उनके लिए गवाही हो।” 45 लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा, और इस बात को इस कदर मशहूर किया कि ईसा शहर में फिर खुलेआम दाखिल न हो

सका; बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा, और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे।

**2** कई दिन बाद जब 'ईसा कफ़रनहम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। 2 फिर इतने आदमी जमा हो गए, कि दरवाज़े के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। 3 और लोग एक फ़ालिज के मारे हुए को चार आदमियों से उठवा कर उस के पास लाए। 4 मगर जब वो भीड़ की वजह से उसके नज़दीक न आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था, खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर फ़ालिज का मारा हुआ लेटा था, लटका दिया। 5 'ईसा' ने उन लोगों का ईमान देख कर फ़ालिज के मारे हुए से कहा, "बेटा, तैरे गुनाह मु'आफ़ हुए।" 6 मगर वहाँ कुछ आलिम जो बैठे थे, वो अपने दिलों में सोचने लगे। 7 "ये क्यूँ ऐसा कहता है? कुफ़्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मु'आफ़ कर सकता है।" 8 और फ़ौरन 'ईसा' ने अपनी रूह में मा'लूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं उनसे कहा, "तुम क्यूँ अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? 9 आसान क्या है' फ़ालिज के मारे हुए से ये कहना कि तैरे गुनाह मु'आफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। 10 लेकिन इस लिए कि तुम जानों कि इब्न — ए आदम को ज़मीन पर गुनाह मु'आफ़ करने का इख़्तियार है" (उसने उस फ़ालिज के मारे हुए से कहा)। 11 "मैं तुम से कहता हूँ उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा।" 12 और वो उठा; फ़ौरन अपनी चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया, चुनौचे वो सब हैरान हो गए, और खुदा की तमज़ीद करके कहने लगे "हम ने ऐसा कभी नहीं देखा था!" 13 वो फिर बाहर झील के किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको ता'लीम देने लगा। 14 जब वो जा रहा था, तो उसने हलफ़ी के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उस से कहा "मेरे पीछे हो ले।" पस वो उठ कर उस के पीछे हो लिया। 15 और यूँ हुआ कि वो उस के घर में खाना खाने बैठा। बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग 'ईसा' और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्यूँकि वो बहुत थे, और उसके पीछे हो लिए थे। 16 फ़रीसियों ने फ़कीहों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, "ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है।" 17 'ईसा' ने ये सुनकर उनसे कहा, "तन्दरूतों को हकीम की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को; मैं रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ।" 18 और यहून्ना के शागिर्द और फ़रीसी रोज़े से थे, उन्होंने आकर उस से कहा, "यहून्ना के शागिर्द और फ़रीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं? लेकिन तैरे शागिर्द क्यूँ रोज़ा नहीं रखते।" 19 'ईसा' ने उनसे कहा "क्या बाराती जब तक

दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक़्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते। 20 मगर वो दिन आएँगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। 21 कोरे कपड़े का पैवन्द पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता नहीं तो वो पैवन्द उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, या'नी नया पुरानी से और वो ज़ियादा फट जाएगी। 22 और नई मय को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता नहीं तो मशकें मय से फट जाएँगी और मय और मशकें दोनों बरबाद हो जाएँगी बल्कि नई मय को नई मशकों में भरते हैं।" 23 और यूँ हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द राह में चलते होए बालें तोड़ने लगे। 24 और फ़रीसियों ने उस से कहा "देख ये सबत के दिन वो काम क्यूँ करते हैं जो जाएज़ नहीं।" 25 उसने उनसे कहा, "क्या तुम ने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उस को और उस के साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए? 26 वो क्यूँकर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया, और उस ने नज़्म की रोटियों खाई जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को जाएज़ नहीं था और अपने साथियों को भी दी?" 27 और उसने उनसे कहा "सबत आदमी के लिए बना है न आदमी सबत के लिए। 28 इस लिए इब्न — ए — आदम सबत का भी मालिक है।"

**3** और वो इबादतखाने में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था, जिसका हाथ सूखा हुआ था। 2 और वो उसके इतिज़ार में रहे, कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएँ। 3 उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा "बीच में खडा हो।" 4 और उसने कहा "सबत के दिन नेकी करना जाएज़ है या बर्दी करना? जान बचाना या कत्ल करना?" वो चुप रह गए। 5 उसने उनकी सख्त दिली की वजह से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नज़र करके उस आदमी से कहा, "अपना हाथ बढ़ा।" उस ने बढ़ा दिया, और उसका हाथ दुस्त हो गया। 6 फिर फ़रीसी फ़ौरन बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके खिलाफ मशवरा करने लगे। कि उसे किस तरह हलाक करें। 7 और 'ईसा' अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 8 और यहूदिया और येरूशलेम इद्मया से और यरदन के पार सूर और सैदा के शहरों के आस पास से एक बड़ी भीड़ ये सुन कर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आईं। 9 पस उसने अपने शागिर्दों से कहा भीड़ की वजह से एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे "ताकि वो मुझे दबा न दें।" 10 क्यूँकि उस ने बहुत लोगों को अच्छा किया था, चुनौचे जितने लोग जो सख्त बीमारियों में गिरफ़्तार थे, उस पर गिरे पड़ते थे, कि उसे छू लें। 11 और बद्रस्सू जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी, "तू खुदा का बेटा है।" 12

और वो उनको बड़ी ताक़ीद करता था, मुझे जाहिर न करना। 13 फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले गए। 14 और उसने बारह को मुक़र्र किया, ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मनादी करें। 15 और बदरूहों को निकालने का इख़्तियार रखे। 16 वो ये हैं शमौन जिसका नाम पतरस रखा। 17 और जब्दी का बेटा याक़ूब और याक़ूब का भाई यहूना जिस का नाम बु'आनर्गिस या'नी गरज के बेटे रखा। 18 और अन्द्रियास, फिलिप्पुस, बरतुल्माई, और मनी, और तोमा, और हलफ़ी का बेटा और तद्दी और शमौन कना'नी। 19 और यहूदाह इस्करियोती जिस ने उसे पकड़वा भी दिया। 20 वो घर में आया और इतने लोग फिर जमा हो गए, कि वो खाना भी न खा सके। 21 जब उसके अर्जीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्यूँकि वो कहते थे "वो बेखुद है।" 22 और आलिम जो येरूशलेम से आए थे, ये कहते थे "उसके साथ बा'लजबूल है" और ये भी कि "वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है।" 23 वो उनको पास बुलाकर उनसे मिसालों में कहने लगा "कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है? 24 और अगर किसी सलतनत में फूट पड़ जाए तो वो सलतनत काईम नहीं रह सकती। 25 और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर काईम न रह सकेगा। 26 और अगर शैतान अपना ही मुख़ालिफ़ होकर अपने में फूट डाले तो वो काईम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खातिमा हो जाएगा।" 27 "लेकिन कोई आदमी किसी ताक़तवर के घर में घुसकर उसके माल को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस ताक़तवर को न बाँध ले तब उसका घर लूट लेगा।" 28 "मैं तुम से सच कहता हूँ, कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ़्र वो बकते हैं मु'आफ़ किया जाएगा। 29 लेकिन जो कोई रूह — उल — कुदूस के हक में कुफ़्र बके वो हमेशा तक मु'आफ़ी न पाएगा; बल्कि वो हमेशा गुनाह का कुसूरवार है।" (aiōn g165, aiōnios g166) 30 क्यूँकि वो कहते थे, कि उस में बदरूह है। 31 फिर उसकी माँ और भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। 32 और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, उन्होंने उस से कहा "देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं" 33 उसने उनको जवाब दिया "मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं?" 34 और उन पर जो उसके पास बैठे थे नज़र करके कहा "देखो, मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। 35 क्यूँकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है।"

**4** वो फिर झील के किनारे ता'लीम देने लगा; और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई, वो झील में एक नाव में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। 2 और वो उनको मिसालों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी ता'लीम में उनसे

कहा। 3 "सुनो! देखो; एक बोने वाला बीज बोने निकला। 4 और बोते वक़्त यूँ हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिन्दों ने आकर उसे चुग लिया। 5 और कुछ पत्थरीली ज़मीन पर गिरा, जहाँ उसे बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने की वजह से जल्द उग आया। 6 और जब सुरज निकला तो जल गया और जड़ न होने की वजह से सूख गया। 7 और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर दबा लिया, और वो फल न लाया। 8 और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला; और कोई तीस गुना कोई साठ गुना कोई सौ गुना फल लाया।" 9 "फिर उसने कहा! जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले।" 10 जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन बारह समेत उसे इन मिसालों के बारे में पूछा? 11 उसने उनसे कहा "तुम को खुदा की बादशाही का भी राज दिया गया है; मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें मिसालों में होती हैं 12 ताकि वो देखते हुए देखें और मा'लूम न करें" और सुनते हुए सुनें और न समझें" ऐसा न हो कि वो फिर जाएँ और मु'आफ़ी पाएँ।" 13 फिर उसने उनसे कहा "क्या तुम ये मिसाल नहीं समझे? फिर सब मिसालों को क्यूँकर समझोगे? 14 बोनेवाला कलाम बोता है। 15 जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फ़ौरन आकर उस कलाम को जो उस में बोया गया था, उठा ले जाता है। 16 और इसी तरह जो पत्थरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुन कर फ़ौरन खुशी से कबूल कर लेते हैं। 17 और अपने अन्दर जड़ नहीं रखते, बल्कि चन्द रोज़ा हैं, फिर जब कलाम की वजह से मुसीबत या ज़ुल्म बर्पा होता है तो फ़ौरन टोकर खाते हैं। 18 और जो झाड़ियों में बोए गए, वो और हैं ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना। 19 और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का धोखा और और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है।" (aiōn g165) 20 और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं; कोई तीस गुना कोई साठ गुना और कोई सौ गुना।" 21 और उसने उनसे कहा "क्या चराग इसलिए जलाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखवा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखवा जाए।" 22 क्यूँकि कोई चीज़ छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई, मगर इसलिए कि सामने में आए। 23 अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन लें।" 24 फिर उसने उनसे कहा "खबरदार रहो; कि क्या सुनते हो जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुम को ज़्यादा दिया जाएगा। 25 क्यूँकि जिस के पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उस से वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा।" 26 और उसने कहा "खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले। 27 और रात को सोए और



दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो न जाने। रहा था। 12 पस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा, “हम को उन 28 ज़मीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती फिर बालों में खिन्जीरों यनी [सूवरों] में भेज दे, ताकि हम इन में दाखिल हों।” तैयार दाने। 29 फिर जब अनाज पक चुका तो वो फ़ौरन दरान्ती 13 पस उसने उनको इजाज़त दी और बदरूहें निकल कर खिन्जीरों लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुँचा।” 30 फिर उसने कहा यनी [सूवरों] में दाखिल हो गई, और वो गोल जो कोई दो हजार का “हम खुदा की बादशाही को किससे मिसाल दें और किस मिसाल में था किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। उसे बयान करें? 31 वो राई के दाने की तरह है कि जब ज़मीन में 14 और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है। 32 मगर पहुँचाई। 15 पस लोग ये माजरा देखने को निकलकर ईसा के पास जब बो दिया गया तो उग कर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है आए, और जिस में बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि हवा के परिन्दे उसके साए बैठे और कपड़े पहने और होश में देख कर डर गए। 16 देखने वालों ने उसका हाल जिस में बदरूहें थीं और खिन्जीरों यनी [सूवरों] का 17 वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। 18 जब वो नाव में दाखिल होने लगा तो जिस में बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की “मै तेरे साथ रहूँ।” 19 जब शाम हुई तो उसने उससे कहा “आओ पार चलें।” 36 और वो लेकिन उसने उसे इजाज़त न दी बल्कि उस से कहा “अपने लोगों भीड़ को छोड़ कर उसे जिस हाल में वो था, नाव पर साथ ले चले, के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदाबन्द ने तेरे लिए और उसके साथ और नावें भी थीं। 37 तब बड़ी आँधी चली और कैसे बड़े काम किए, और तुझ पर रहम किया।” 20 वो गया और लहरें नाव पर यहाँ तक आई कि नाव पानी से भरी जाती थी। 38 दिकपुलिस में इस बात की चर्चा करने लगा, कि ईसा ने उसके लिए और वो खुद पीछे की तरफ गढ़ी पर सो रहा था “पस उन्होंने उसे कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताअज्जुब करते थे। 21 जब जगा कर कहा? ऐ उस्ताद क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक ईसा फिर नाव में पार आया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। 22 और इबादतखाने के सरदारों में से एक शख्स याईर नाम का आया और उसे देख कर उसके कदमों में गिरा। 23 और ये कह कर मिन्नत की, “मेरी छोटी बेटी मरने को है तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिन्दा रहे।” 24 पस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। 25 फिर एक औरत जिसके बारह बरस से खून जारी था। 26 और कई हकीमो से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ाइदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। 27 ईसा का हाल सुन कर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। 28 क्योंकि वो कहती थी, “अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी होजाऊँगी” 29 और फ़ौरन उसका खून बहना बन्द हो गया और उसने अपने बदन में माँलूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। 30 ईसा को फ़ौरन अपने में माँलूम हुआ कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़ कर कहा, “किसने मेरी पोशाक छुई?” 31 उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है फिर तू कहता है, “मुझे किसने छुआ?” 32 उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया; उसे देखे। 33 वो औरत जो कुछ उससे हुआ था, महसूल करके डरती और काँपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। 34 उसने उससे कहा, “बेटी तेरे इमान से तुझे शिफा मिली;

**5** और वो झील के पार गिरासीनियों के इलाके में पहुँचे। 2 जब वो नाव से उतरा तो फ़ौरन एक आदमी जिस में बदरूह थी, कब्रों से निकल कर उससे मिला। 3 वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बाँध सकता था। 4 क्योंकि वो बार बार बेडियों और जंजीरों से बाँधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेडियों के टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में न ला सकता था। 5 वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आपको पत्थरों से ज़ख्मी करता था। 6 वो ईसा को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सज्दा किया। 7 और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा “ऐ ईसा खुदा ताँला के फ़र्ज़न्द मुझे तुझ से क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे ऐजाब में न डाल।” 8 क्योंकि उस ने उससे कहा था, “ऐ बदरूह! इस आदमी में से निकल आ।” 9 फिर उसने उससे पूछा “तेरा नाम क्या है?” उस ने उससे कहा “मेरा नाम लश्कर, है क्योंकि हम बहुत हैं।” 10 फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की, कि हमें इस इलाके से बाहर न भेज। 11 और वहाँ पहाड़ पर खिन्जीरों यनी [सूवरों] का एक बड़ा गोल चर

सलामती से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा।” 35 वो ये कह ही रहा था कि इबादतखाने के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा, “तेरी बेटी मर गई अब उस्ताद को क्यूँ तकलीफ देता है?” 36 जो बात वो कह रहे थे, उस पर ईसा ने गौर न करके 'इबादतखाने के सरदार से कहा, “खौफ न कर, सिर्फ ऐतिकाद रख।” 37 फिर उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी। 38 और वो इबादतखाने के सरदार के घर में आए, और उसने देखा कि शोर हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं 39 और अन्दर जाकर उसने कहा, “तुम क्यूँ शोर मचाते और रोते हो, लडकी मरी नहीं बल्कि सोती है।” 40 वो उस पर हँसने लगे, लेकिन वो सब को निकाल कर लडकी के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लडकी पड़ी थी अन्दर गया। 41 और लडकी का हाथ पकड़ कर उससे कहा, “तलीता कुमी” जिसका तर्जुमा, “ऐ लडकी! मैं तुझ से कहता हूँ उठ।” 42 वो लडकी फौरन उठ कर चलने फिरने लगी, क्यूँकि वो बारह बरस की थी इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। 43 फिर उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया; लडकी को कुछ खाने को दिया जाए।

**6** फिर वहाँ से निकल कर 'ईसा अपने शहर में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। 2 जब सबत का दिन आया “तो वो इबादतखाने में ता'लीम देने लगा और बहुत लोग सुन कर हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इस में कहाँ से आ गई? और ये क्या हिक्मत है जो इसे बख़्शी गई और कैसे मोजिजे इसके हाथ से जाहिर होते हैं? 3 क्या ये वही बढई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और योसेस और यहूदाह और शमौन का भाई है और क्या इसकी बहने यहाँ हमारे हों नहीं?” पस उन्होंने उसकी वजह से ठोकर खाई। 4 ईसा ने उन से कहा, “नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता।” 5 और वो कोई मोजिजा वहाँ न दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा कर दिया। 6 और उस ने उनकी बे'ऐतिकादी पर ता'अज्जब किया और वो चारों तरफ के गाँव में ता'लीम देता फिरा। 7 उसने बारह को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया और उनको बदरूहों पर इख्तियार बख़्शा। 8 और हुक्म दिया “रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ न लो, न रोटी, न झोली, न अपने कमरबन्द में पैसे। 9 मगर जूतियाँ पहनों और दो दो कुरते न पहनों।” 10 और उसने उनसे कहा, “जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो, जब तक वहाँ से खाना न हो। 11 जिस जगह के लोग तुम्हें कबूल न करें और तुम्हारी न सुनें, वहाँ से चलते वक़्त अपने तलुओं की मिट्टी झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो।” 12 और बारह शागिर्दों ने खाना होकर ऐलान किया, कि “तौबा

करो।” 13 और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा कर दिया। 14 और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना “क्यूँकि उसका नाम मशहूर होगया था और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला मुर्दों में से जी उठा है, क्यूँकि उससे मोजिजे जाहिर होते हैं।” 15 मगर बा'ज़ कहते थे, एलियाह है और बा'ज़ ये नबियों में से किसी की मानिन्द एक नबी है। 16 मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा, “यूहन्ना जिस का सिर मैंने कटवाया वही जी उठा है” 17 क्यूँकि हेरोदेस ने अपने आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास की वजह से उसे कैदखाने में बाँध रखा था, क्यूँकि हेरोदेस ने उससे शादी कर ली थी। 18 और यूहन्ना ने उससे कहा था, “अपने भाई की बीवी को रखना तुझे जाएज़ नहीं।” 19 पस हेरोदियास उस से दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे क़त्ल कराए, मगर न हो सका। 20 क्यूँकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज़ और मुक़द्दस आदमी जान कर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुन कर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। 21 और मौक़े के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिराह में अमीरों और फ़ौजी सरदारों और गलील के रईसों की दावत की। 22 और उसी हेरोदियास की बेटी अन्दर आई और नाच कर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया तो बादशाह ने उस लडकी से कहा, “जो चाहे मुझ से माँग मैं तुझे दूँगा।” 23 और उससे क़सम खाई “जो कुछ तू मुझ से माँगगी अपनी आधी सल्तन्त तक तुझे दूँगा।” 24 और उसने बाहर आकर अपनी माँ से कहा, “मैं क्या माँगू?” उसने कहा, “यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर।” 25 वो फ़ौरन बादशाह के पास जल्दी से अन्दर आई और उस से अर्ज किया, “मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में अभी मुझे मँगवा दे।” 26 बादशाह बहुत ग़मगीन हुआ मगर अपनी क़समों और मेहमानों की वजह से उसे इन्कार करना न चाहा। 27 पस बादशाह ने फ़ौरन एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सिर लाए, उसने जाकर कैद खाने में उस का सिर काटा। 28 और एक थाल में लाकर लडकी को दिया और लडकी ने माँ को दिया। 29 फिर उसके शागिर्द सुन कर आए, उस की लाश उठा कर कब्र में रखवी। 30 और रसूल ईसा के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उससे बयान किया। 31 उसने उनसे कहा, “तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने को भी फुरसत न मिलती थी।” 32 पस वो नाव में बैठ कर अलग एक वीरान जगह में चले आए। 33 लोगों ने उनको जाते देखा और बहुतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे हो कर पैदल उधर दौड़े और उन से पहले जा पहुँचे। 34 और उसने उतर कर बडी भीड़ देखी और उसे उनपर

तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिन्द थे, जिनका चरवाहा न शागिर्द नापाक या'नी बिना धोए हाथों से खाना खाते हैं 3 क्योंकि हो; और वो उनको बहुत सी बातों की ता'लीम देने लगा। 35 जब फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, अपने हाथ खूब न धोले नहीं खाते। 4 और बाज़ार से आकर जब “ये जगह वीरान है, और दिन बहुत ढल गया है। 36 इनको सख्त तक गुस्ल न कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गाँव में जाकर, अपने लिए उनको पहुँची है पाबन्द है, जैसे प्यालों और लोटों और तॉबे के कुछ खाना मोल लें।” 37 उसने उनसे जवाब में कहा, “तुम ही इन्हें बरतनों को धोना। 5 पस फरीसियों और आलिमों ने उस से पूछा, खाने को दो।” उन्होंने उससे कहा “क्या हम जाकर दो सौ दिन की क्या वजह है कि “तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते मज़दूरी से रोटियाँ मोल लाएँ और इनको खिलाएँ?” 38 उसने उनसे बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं?” 6 उसने उनसे कहा, पूछा, “तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं?” उन्होंने दरियापत करके “यसा'याह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की; जैसे कहा, “पाँच और दो मछलियाँ।” 39 उसने उन्हें हुक्म दिया कि, लिखा है कि: ये लोग होंटों से तो मेरी ता'जिम करते हैं लेकिन इनके “सब हरी घास पर कतार में होकर बैठ जाएँ।” 40 पस वो सौ सौ दिल मुझ से दूर है। 7 ये बे फ़ाइदा मेरी इबादत करते हैं, क्योंकि और पचास पचास की कतारें बाँध कर बैठ गए। 41 फिर उसने वो इनसानी अहकाम की ता'लीम देते हैं। 8 तुम खुदा के हुक्म को पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ लीं और आसमान की तरफ देखकर छोड़ करके आदमियों की रिवायत को काईम रखते हो।” 9 उसने बर्कत दी; और रोटियाँ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया कि उनके उनसे कहा, “तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म आगे रखें, और वो दो मछलियाँ भी उन सब में बाँट दीं। 42 पस वो बिल्कुल रद्द कर देते हो। 10 क्योंकि मूसा ने फ़रमाया है, अपने वो सब खाकर सेर हो गए। 43 और उन्होंने बे इस्तेमाल खाने और बाप की अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को मछलियों से बारह टोक़रियाँ भरकर उठाई। 44 और खानेवाले पाँच बुरा कहे, वो ज़रूर जान से मारा जाएँ।” 11 लेकिन तुम कहते हो, हज़ार मर्द थे। 45 और फ़ौरन उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया 'अगर कोई बाप या माँ से कहे' कि जिसका तुझे मुझ से फ़ाइदा पहुँच कि नाव पर बैठ कर उस से पहले उस पार बैत सैदा को चले जाएँ सकता था, 'वो कुर्बान या'नी खुदा की नज़्र हो चुकी। 12 तो तुम उसे जब तक वो लोगों को सख्त करे। 46 उनको सख्त करके पहाड़ फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। 13 यूँ तुम खुदा के पर दुआ करने चला गया। 47 जब शाम हुई तो नाव झील के बीच में कलाम को अपनी रिवायत से, जो तुम ने जारी की है बेकार कर देते थी और वो अकेला ख़ुशकी पर था। 48 जब उसने देखा कि वो खेने हो, और ऐसे बहुतेरे काम करते हो।” 14 और वो लोगों को फिर पास बुला कर उनसे कहने लगा, “तुम सब मेरी सुनो और समझो। पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे 15 कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं आगे निकल जाना चाहता था। 49 लेकिन उन्होंने उसे झील पर कर सकती मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको चलते देखकर खयाल किया कि “भूत है” और चिल्ला उठे। 50 नापाक करती हैं। 16 [अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन क्योंकि सब उसे देख कर घबरा गए थे, मगर उसने फ़ौरन उनसे बातें लें।]” 17 जब वो भीड़ के पास से घर में आया “तो उसके शागिर्दों की और कहा, “मृतमईन रहो! मैं हूँ डरो मत।” 51 फिर वो नाव पर ने उससे इस मिसाल का मतलब पूछा?” 18 उस ने उनसे कहा, उनके पास आया और हवा थम गई। और वो अपने दिल में निहायत “क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई हैरान हुए। 52 इसलिए कि वो रोटियों के बारे में न समझे थे, बल्कि चीज़ जो बाहर से आदमी के अन्दर जाती है उसे नापाक नहीं कर उनके दिल सख्त हो गए थे। 53 और वो पार जाकर गनेसरत के सकती? 19 इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती इलाके में पहुँचे और नाव किनारे पर लगाई। 54 और जब नाव पर से है और गंदगी में निकल जाती है। ये कह कर उसने तमाम खाने की उतरे तो फ़ौरन लोग उसे पहचान कर। 55 उस सारे इलाके में चारों चीज़ों को पाक ठहराया। 20 फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से तरफ़ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डाल कर जहाँ कहीं सुना निकलता है वही उसको नापाक करता है। 21 क्योंकि अन्दर से, कि वो है वहाँ लिए फिरे। 56 और वो गाँव शहरों और बस्तियों या'नी आदमी के दिल से बुरे खयाल निकलते हैं हरामकारियाँ 22 में जहाँ कहीं जाता था लोग बीमारों को राहों में रख कर उसकी चोरियाँ, खून रेज़ियाँ, जिनाकारियाँ। लालच, बदियाँ, मक्कारी, मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ़ उसकी पोशाक का किनारा छू लें और शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवक़्फ़ी। 23 ये सब बुरी जितने उसे छूते थे शिफ़ा पाते थे। 24 फिर

**7** फिर फरीसी और कुछ आलिम उसके पास जमा हुए, वो वहाँ से उठ कर सूँ और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में येरूशलेम से आए थे। 2 और उन्होंने देखा कि उसके कुछ

सका। 25 बल्कि फ़ौरन एक औरत जिसकी छोटी बेटी में बदरूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। 26 ये 'औरत यूनानी थी और क्रौम की सूस्फेनेकी। उसने उससे दरखास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। 27 उसने उससे कहा, "पहले लड़कों को सेर होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।" 28 उस ने जवाब में कहा "हाँ ख़ुदावन्द, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं।" 29 उसने उससे कहा "इस कलाम की खातिर जा बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है।" 30 और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। 31 और वो फिर सूर शहर की सरहदों से निकल कर सैदा शहर की राह से दिकपुलिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुँचा। 32 और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। 33 वो उसको भीड़ में से अलग ले गया, और अपनी उंगलियों उसके कानों में डाली और थक कर उसकी ज़बान छूई। 34 और आसमान की तरफ नज़र करके एक आह भरी और उससे कहा "इफ़क्तह!" यानी "खुल जा!" 35 और उसके कान खुल गए, और उसकी ज़बान की गिरह खुल गई और वो साफ़ बोलने लगा। 36 उसने उसको हुक्म दिया कि किसी से न कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज़्यादा वो चर्चा करते रहे। 37 और उन्होंने ने निहायत ही हैरान होकर कहा "जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया वो बहरों को सुनने की और गूँगों को बोलने की ताकत देता है।"

**8** उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई, और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा। 2 "मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। 3 अगर मैं इनको भूखा घर को स्रख़्त करूँ तो रास्ते में थक कर रह जाएँगे और कुछ इन में से दूर के हैं।" 4 उस के शागिर्दों ने उसे जवाब दिया, "इस वीराने में कहाँ से कोई इतनी रोटियाँ लाए कि इनको खिला सके?" 5 उसने उनसे पूछा, "तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं?" उन्होंने कहा, "सात।" 6 फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएँ। उसने वो सात रोटियाँ ली और शक़्र करके तोड़ीं, और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दीं। 7 उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थीं उसने उन पर बर्क़त देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। 8 पास वो खा कर सेर हुए और बचे हुए वे इस्तेमाल खाने के सात टोकरे उठाए। 9 और वो लोग चार हज़ार के करीब थे, फिर उसने उनको स्रख़्त किया। 10 वो फ़ौरन अपने शागिर्दों के साथ नाव में बैठ कर दलमनूता के सूबा में गया। 11 फिर फ़रसी

निकल कर उस से बहस करने लगे, और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। 12 उसने अपनी रूह में आह खींच कर कहा, "इस ज़माने के लोग क्यूँ निशान तलब करते हैं? मैं तुम से सच कहता हूँ, कि इस ज़माने के लोगों को कोई निशान न दिया जाएगा।" 13 और वो उनको छोट कर फिर नाव में बैठा और पार चला गया। 14 वो रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक से ज़्यादा रोटी न थी। 15 और उसने उनको ये हुक्म दिया; "खबरदार, फ़रसियों के तालीम और हेरोदेस की तालीम से होशियार रहना।" 16 वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे, "हमारे पास रोटियाँ नहीं।" 17 मगर ईसा ने ये मा'लूम करके कहा, "तुम क्यूँ ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते, और नहीं समझते हो? क्या तुम्हारा दिल सख़्त हो गया है? 18 आँखें हैं और तुम देखते नहीं कान हैं और सुनते नहीं और क्या तुम को याद नहीं। 19 जिस वक़्त मैंने वो पाँच रोटियाँ पाँच हज़ार के लिए तोड़ी तो तुम ने कितनी टोकरियाँ बे इस्तेमाल खाने से भरी हुई उठाई?" उन्होंने ने उस से कहा "बारह"। 20 "और जिस वक़्त सात रोटियाँ चार हज़ार के लिए तोड़ी तो तुम ने कितने टोकरे बे इस्तेमाल खाने से भरे हुए उठाए?" उन्होंने ने उस से कहा "सात।" 21 उस ने उनसे कहा "क्या तुम अब तक नहीं समझते?" 22 फिर वो बैत सैदा में आये और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की, कि उसे छूए। 23 वो उस अंधे का हाथ पकड़ कर उसे गाँव से बाहर ले गया, और उसकी आँखें में थक कर अपने हाथ उस पर रखे और उस से पूछा, "क्या तू कुछ देखता है?" 24 उसने नज़र उठा कर कहा "मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख़्त।" 25 उसने फिर दोबारा उसकी आँखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ़ साफ़ देखने लगा। 26 फिर उसने उसको उसके घर की तरफ़ रवाना किया और कहा, "इस गाँव के अन्दर कदम न रखना।" 27 फिर ईसा और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गाँव में चले आए और रास्ते में उसने अपने शागिर्दों से पूछा, "लोग मुझे क्या कहते हैं?" 28 उन्होंने ने जवाब दिया, "यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला; कुछ एलियाह और कुछ नबियों में से कोई।" 29 उसने उनसे पूछा, "लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?" पतरस ने जवाब में उस से कहा, "तू मसीह है।" 30 फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरे बारे में किसी से ये न कहना। 31 फिर वो उनको तालीम देने लगा, कि ज़सर है कि इबने आदम बहुत दुः ख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और आलिम उसे रड़ करें, और वो कल्ल किया जाए, और तीन दिन के बाद जी उठे। 32 उसने ये बात साफ़ साफ़ कही पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा। 33 मगर उसने मुड़ कर

अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, और आलिम लोग उनसे बहस कर रहे हैं। 15 और फौरन सारी भीड़ “ए-ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो; क्योंकि तू ख़ुदा की बातों का नहीं उसे देख कर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़ कर उसे बल्कि आदमियों की बातों का खयाल रखता है।” 34 फिर उसने सलाम करने लगे। 16 उसने उनसे पूछा, “तुम उन से क्या बहस भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुला कर उनसे कहा, “अगर करते हो?” 17 और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, ए-एस्ताद! कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इन्कार करे और अपनी मैं अपने बेटे को जिसमें गूँगी रह है तेरे पास लाया था। 18 वो जहाँ सलीब उठाए, और मेरे पीछे हो ले। 35 क्योंकि जो कोई अपनी जान उसे पकड़ती है, पटक देती है; और वो क़फ़ भर लाता और दौँत बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इन्जिल की पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था, “वो उसे खातिर अपनी जान खोएगा, वो उसे बचाएगा। 36 आदमी अगर निकाल दें मगर वो न निकाल सके।” 19 उसने जवाब में उनसे सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुक़सान उठाए, तो कहा, “ए-बेऐ-तिक़ाद क्रौम! मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब उसे क्या फ़ाइदा होगा? 37 और आदमी अपनी जान के बदले क्या तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा उसे मेरे पास लाओ।” 20 पस वो उसे दे? 38 क्योंकि जो कोई इस बे इमान और बुरी क्रौम में मुझ से और उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फ़ौरन रह ने उसे मेरी बातों से शरमाए गा, इबने आदम भी अपने बाप के जलाल में मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और क़फ़ भर लाकर लोटने लगा। पाक फ़रिशतों के साथ आएगा तो उस से शरमाएगा।”

**9** और उसने उनसे कहा “मै तुम से सच कहता हूँ, जो यहाँ खडे 21 उसने उसके बाप से पूछा “ये इस को कितनी मुइत से है?” उसने है उन में से कुछ ऐसे हैं जब तक ख़ुदा की बादशाही को कुदरत कहा “बचपन ही से। 22 और उसने उसे अक्सर आग और पानी में के साथ आया हुआ देख न लें मौत का मज़ा हरगिज़ न चखेंगे।” डाला ताकि उसे हलाक करे लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो 2 छः दिन के बाद ईसा ने पतरस और याक़ूब यूहन्ना को अपने हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर।” 23 ईसा ने उस से कहा साथ लिया और उनको अलग एक ऊँचे पहाड़ पर तन्हाई में ले “क्या जो तू कर सकता है जो ऐतिक़ाद रखता है? उस के लिए सब गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। 3 उसकी पोशाक कुछ हो सकता है।” 24 उस लड़के के बाप ने फ़ौरन चिल्लाकर ऐसी नूरानी और निहायत सफ़ेद हो गई, कि दुनिया में कोई धोबी कहा. “मै ऐतिक़ाद रखता हूँ, मेरी बे ऐतिक़ादी का इलाज कर।” 25 जब ईसा ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। 4 और एलियाह मूसा के साथ उनको बदन रुह को झिड़क कर कहा, “मै तुझ से कहता हूँ, इस में से बाहर दिखाई दिया, और वो ईसा से बातें करते थे। 5 पतरस ने ईसा से आ और इस में फिर दाखिल न होना।” 26 वो चिल्लाकर और उसे कहा “रब्बी हमारा यहाँ रहना अच्छा है पस हम तीन तम्बू बनाएँ बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया “ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया।” 27 मगर ईसा ने उसका हाथ एक तेरे लिए एक मूसा के लिए, और एक एलियाह के लिए।” 28 जब वो घर में पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। 28 जब वो घर में क्योंकि वो जानता न था कि क्या कहे इसलिए कि वो बहुत डर गए आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उस से पूछा “हम उसे क्यों न थे। 7 फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल निकाल सके?” 29 उसने उनसे कहा, “ये सिर्फ़ दूआ के सिवा और में से आवाज़ आई “ये मेरा प्यारा बेटा है; इसकी सुनो।” 8 और किसी तरह नहीं निकल सकती।” 30 फिर वहाँ से रवाना हुए और उन्होंने ने यकायक जो चारों तरफ़ नज़र की तो ईसा के सिवा और गलील से हो कर गुज़रे और वो न चाहता था कि कोई जाने। 31 किसी को अपने साथ न देखा। 9 जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को ता’लीम देता और उनसे कहता उसने उनको हुक्म दिया कि “जब तक इबने आदम मुर्दों में से जी न था, “इन् — ए आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उठे जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना।” 10 उन्होंने इस उसे क़त्ल करेंगे और वो क़त्ल होने के तीन दिन बाद जी उठेगा।” कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे, कि मुर्दों में से 32 लेकिन वो इस बात को समझते न थे, और उस से पूछते हुए डरते जी उठने के क्या मतलब हैं। 11 फिर उन्होंने ने उस से ये पूछा, थे। 33 फिर वो कफ़रनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने “आलिम क्यों कहते हैं कि एलियाह का पहले आना ज़रूर है?” 12 उनसे पूछा, “तुम रास्ते में क्या बहस करते थे?” 34 वो चुप रहे उसने उनसे कहा, “एलियाह अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल क्योंकि उन्होंने रास्ते में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन करेगा मगर क्या वजह है कि इबने आदम के हक़ में लिखा है कि वो है? 35 फिर उसने बैठ कर उन बारह को बुलाया और उनसे कहा बहुत से दुः ख उठाएगा और जलील किया जाएगा? 13 लेकिन मै “अगर कोई अब्बल होना चाहे तो वो सब से पिछला और सब का तुम से कहता हूँ, कि एलियाह तो आ चुका और जैसा उसके हक़ में खादिम बने।” 36 और एक बच्चे को लेकर उन के बीच में खड़ा लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया।” 14 जब वो किया फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा। 37 “जो कोई मेरे नाम पर शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ़ बड़ी भीड़ है,

ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिस ने मुझे भेजा है कबूल करता है।” 38 यहन्ना ने उस से कहा “ए उस्ताद हम ने एक शख्स को तेरे नाम से बदरहों को निकालते देखा और हम उसे मनह करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था।” 39 लेकिन ईसा ने कहा “उसे मनह न करना क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजिजे दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके। 40 क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। 41 जो कोई एक प्याला पानी तुम को इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वो अपना अन्न हरगिज न खोएगा।” 42 “और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुन्दर में फेंक दिया जाए। 43 अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल टुंडा हो कर जिन्दगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। (Geenna g1067) 44 जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 45 और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल लंगडा हो कर जिन्दगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पाँव होते जहन्नुम में डाला जाए। (Geenna g1067) 46 जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 47 और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल काना हो कर जिन्दगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आँखें होते जहन्नुम में डाला जाए। (Geenna g1067) 48 जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 49 क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा [और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी]। 50 नमक अच्छा है लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो।”

**10** फिर वो वहाँ से उठ कर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई और वो अपने दस्तर के मुवाफिक फिर उनको तालीम देने लगा। 2 और फरीसियों ने पास आकर उसे आज्ञामने के लिए उससे पूछा, “क्या ये जायज है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे?” 3 उसने जवाब में कहा, “मूसा ने तुम को क्या हुक्म दिया है?” 4 उन्होंने ने कहा, “मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाक नामा लिख कर छोड़ दें?” 5 मगर ईसा ने उनसे कहा, “उस ने तुम्हारी सख्तदिली की वजह से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था। 6 लेकिन पैदाइश के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। 7 इस लिए मर्द अपने — बाप से और माँ से जुदा हो कर अपनी बीवी के साथ रहेगा। 8 और वो और

उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे’ पस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। 9 इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे।” 10 और घर में शागिर्दों ने उससे इसके बारे में फिर पूछा। 11 उसने उनसे कहा “जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से शादी करे वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है। 12 और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से शादी करे तो जिना करती है।” 13 फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए मगर शागिर्दों ने उनको झिडका। 14 ईसा ये देख कर खफा हुआ और उन से कहा “बच्चों को मेरे पास आने दो उन को मनह न करो क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। 15 मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कुबूल न करे वो उस में हरगिज दाखिल नहीं होगा।” 16 फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बर्कत दी। 17 जब वो बाहर निकल कर रास्ते में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा “ऐ नेक उस्ताद; मैं क्या करूँ कि हमेशा की जिन्दगी का वारिस बनूँ?” (aiōnios g166) 18 ईसा ने उससे कहा “तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक या’नी खुदा। 19 तू हुक्मों को तो जानता है खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, धोखा देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर।” 20 उसने उससे कहा “ऐ उस्ताद मैंने बचपन से इन सब पर अमल किया है।” 21 ईसा ने उसको देखा और उसे उस पर प्यार आया, और उससे कहा, “एक बात की तुझ में कमी है; जा, जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले।” 22 इस बात से उसके चहरे पर उदासी छा गई, और वो गमगीन हो कर चला गया; क्योंकि बड़ा मालदार था। 23 फिर ईसा ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, “दौलतमन्द का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है।” 24 शागिर्द उस की बातों से हैरान हुए ईसा ने फिर जवाब में उनसे कहा, “बच्चो जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उन के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। 25 ऊँट का सूई के नाके में से गुजर जाना इस से आसान है कि दौलतमन्द खुदा की बादशाही में दाखिल हो।” 26 वो निहायत ही हैरान हो कर उस से कहने लगे, “फिर कौन नजात पा सकता है?” 27 ईसा ने उनकी तरफ नजर करके कहा, “ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से हो सकता है क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है।” 28 पतरस उस से कहने लगा “देख हम ने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं।” 29 ईसा ने कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इन्जील की खातिर छोड़ दिया

हो। 30 और अब इस ज़माने में सौ गुना न पाए घर और भाई और बहनें और माँए और बच्चे और खेत मगर ज़ुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िन्दगी। (aiōn g165, aiōnios g166) 31 लेकिन बहुत से अब्बल आखिर हो जाँएँ और आखिर अब्बल। 32 और वो येरुशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और ईसा उनके आगे जा रहा था वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे पस वो फिर उन बारह को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थी, 33 “देखो हम येरुशलेम को जाते हैं और इब्न — ए आदम सरदार काहिनों फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके क़त्ल का हुकम देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे। 34 और वो उसे ठठेंगे में उड़ाएँगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और क़त्ल करेंगे और वो तीन दिन के बाद जी उठेगा।” 35 तब ज़ब्दी के बेटों या'क़ूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा “ए उस्ताद हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझ से दरख़ास्त करें तू हमारे लिए करे।” 36 उसने उससे कहा “तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ?” 37 उन्होंने उससे कहा “हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक बाई तरफ बैठे।” 38 ईसा ने उनसे कहा “तुम नहीं जानते कि क्या माँगते हो? जो प्याला में पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने को हूँ तुम ले सकते हो?” 39 उन्होंने उससे कहा, “हम से हो सकता है।” ईसा ने उनसे कहा, “जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पीोगे? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे। 40 लेकिन अपनी दाहिनी या बाई तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं मगर जिन के लिए तैयार किया गया उन्ही के लिए है।” 41 जब उन दसों ने ये सुना तो या'क़ूब और यूहन्ना से खफ़ा होने लगे। 42 ईसा ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, “तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख़्तियार जताते हैं। 43 मगर तुम में ऐसा कौन है बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने। 44 और जो तुम में अब्बल होना चाहता है वो सब का गुलाम बने। 45 क्योंकि इब्न — ए आदम भी इसलिये नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिये कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फ़िदया में दे।” 46 और वो यरीह में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीह से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फ़कीर रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। 47 और ये सुनकर कि ईसा नासरी है चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, ए इब्न — “ए दाऊद ऐ ईसा मुझ पर रहम कर!” 48 और बहुतों ने उसे डाँटा कि चुप रह, मगर वो और ज़्यादा चिल्लाया, “ए इब्न — ए दाऊद मुझ पर रहम कर!” 49 ईसा ने खड़े होकर कहा, “उसे बुलाओ।” पस उन्होंने ने उस अंधे को ये कह कर बुलाया, कि

“इत्मीनान रख। उठ, वो तुझे बुलाता है।” 50 वो अपना चोगा फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। 51 ईसा ने उस से कहा, “तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ?” अंधे ने उससे कहा, “ए रब्बूनी, ये कि मैं देखने लगूँ।” 52 ईसा ने उस से कहा “जा तेरे इमान ने तुझे अच्छा कर दिया” और वो फ़ौरन देखने लगा और रास्ते में उसके पीछे हो लिया।

**11** जब वो येरुशलेम के नज़दीक ज़ैतून के पहाड़ पर बैतफ़िगे और बैत अनियाह के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से दो को भेजा। 2 और उनसे कहा, “अपने सामने के गाँव में जाओ और उस में दाखिल होते ही एक गध़ी का जवान बच्चा बाँधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ; उसे खोल लाओ। 3 और अगर कोई तुम से कहे, तुम ये क्यों करते हो?” तो कहना, ख़ुदावन्द को इस की ज़रूरत है।” वो फ़ौरन उसे यहाँ भेजेगा।” 4 पस वो गए, और बच्चे को दरवाज़े के नज़दीक बाहर चौक में बाँधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। 5 मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उन में से कुछ ने उन से कहा “ये क्या करते हो? कि गध़ी का बच्चा खोलते हो?” 6 उन्होंने ने जैसा ईसा ने कहा था, वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। 7 पस वो गध़ी के बच्चे को ईसा के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। 8 और बहुत लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियाँ काट कर फैला दीं। 9 जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे ये पुकार पुकार कर कहते जाते थे “होशना मुबारिक है वो जो ख़ुदावन्द के नाम से आता है। 10 मुबारिक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलम — ए बाला पर होशना।” 11 और वो येरुशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीज़ों का मुआइना करके उन बारह के साथ बैत'अनियाह को गया क्योंकि शाम हो गई थी। 12 दूसरे दिन जब वो बैत'अनियाह से निकले तो उसे भूख लगी। 13 और वो दूर से अंजीर का एक दरख़्त जिस में पत्ते थे देख कर गया कि शायद उस में कुछ पाए मगर जब उसके पास पहुँचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया क्योंकि अंजीर का मोसम न था। 14 उसने उस से कहा “आइन्दा कोई तुझ से कभी फ़ल न खाए!” और उसके शागिर्दों ने सुना। (aiōn g165) 15 फिर वो येरुशलेम में आए, और ईसा हैकल में दाखिल होकर उन को जो हैकल में ख़रीदो फ़रोख़्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफ़ों के तख़्त और कबूतर फ़रोशों की चौकियों को उलट दिया। 16 और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बरतन ले जाने न दिया। 17 और अपनी ता'लीम में उनसे कहा, “क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुम ने उसे डाकूओं की खोह बना दिया है।” 18 और सरदार काहिन

और फकीह ये सुन कर उसके हलाक करने का मौका ढूँडने लगे बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था उसने आखिर उसे उनके पास ये क्यूँकि उस से डरते थे इसलिए कि सब लोग उस की ता'लीम से कह कर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। 7 लेकिन उन हैरान थे। 19 और हर रोज़ शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था, 20 फिर सुबह को जब वो उधर से गुज़रे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। 21 पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा “ऐ रब्बी देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने ला'नत की थी सूख गया है।” 22 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “खुदा पर ईमान रखो। 23 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुन्द्र में जा पड़’ और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। 24 इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में माँगते हो यकीन करो कि तुम को मिल गया और वो तुम को मिल जाएगा। 25 और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मु'आफ़ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मु'आफ़ करे। 26 [अगर तुम मु'आफ़ न करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मु'आफ़ न करेगा।]” 27 वो फिर येरूशलेम में आए और जब वो हैकल में टहेल रहा था तो सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए। 28 और उससे कहने लगे, “तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है? या किसने तुझे इख्तियार दिया है कि इन कामों को करे?” 29 ईसा ने उनसे कहा, “मैं तुम से एक बात पूछता हूँ तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊँगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। 30 यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या ईसान की तरफ से? मुझे जवाब दो।” 31 वो आपस में कहने लगे, अगर हम कहे आसमान की तरफ से’ तो वो कहेगा ‘फिर तुम ने क्यूँ उसका यकीन न किया?’ 32 और अगर कहे ईसान की तरफ से? तो लोगों का डर था इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे 33 पस उन्होंने जवाब में ईसा से कहा, हम नहीं जानते। ईसा ने उनसे कहा “मैं भी तुम को नहीं बताता, कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ।”

**12** फिर वो उनसे मिसालों में बातें करने लगा “एक शख्स ने बाग लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। 2 फिर फल के मोसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से बाग के फलों का हिसाब ले ले। 3 लेकिन उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। 4 उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा मगर उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और बे'इज्जत किया। 5 फिर उसने एक और को भेजा उन्होंने उसे कत्ल किया फिर और बहुतेरों को भेजा उन्होंने उन में से कुछ को पीटा और कुछ को कत्ल किया। 6 अब एक



हो।” 28 और आलिमों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको अच्छा जवाब दिया है “वो पास आया और उस से पूछा? सब हुक्मों में पहला कौन सा है।” 29 ईसा ने जवाब दिया “पहला ये है ‘ऐ इस्राइल सुन! खुदावन्द हमारा खुदा एक ही खुदावन्द है। 30 और तू खुदावन्द अपने खुदा से अपने सारे दिल, और अपनी सारी जान सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मुहब्बत रख।’ 31 दूसरा हुक्म ये है: ‘अपने पड़ोसी से अपने बराबर मुहब्बत रख’ इस से बड़ा कोई हुक्म नहीं।” 32 अलिम ने उससे कहा ऐ उस्ताद “बहुत खूब; तू ने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा कोई नहीं 33 और उसे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मुहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मुहब्बत रखना सब सोख्तीनी कुर्बानियों और जबीहों से बढ़ कर है।” 34 जब ईसा ने देखा कि उसने अक्लमन्दी से जवाब दिया तो उससे कहा, “तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं।” और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर’अत न की। 35 फिर ईसा ने हैकल में तालीम देते वक़्त ये कहा, “फ़क़ीह क्यूँकर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? 36 दाऊद ने खुद रूह — उल — कुदूस की हिदायत से कहा है खुदावन्द ने मेरे खुदावन्द से कहा, “मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे की चौकी न कर दूँ।” 37 दाऊद तो आप से खुदावन्द कहता है, फिर वो उसका बेटा कहाँ से ठहरा?” आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। 38 फिर उसने अपनी तालीम में कहा “आलिमों से खबरदार रहो, जो लम्बे लम्बे जामे पहन कर फिरना और बाज़ारों में सलाम। 39 और इबादतखानों में आला दर्जे की कुर्सियों और ज़ियाफतों में सद नशीनी चाहते हैं। 40 और जो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए लम्बी लम्बी दुआँएँ करते हैं।” 41 फिर वो हैकल के खज़ाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खज़ाने में पैसे किस तरह डालते हैं और बहुतेरे दौलतमन्द बहुत कुछ डाल रहे थे। 42 इतने में एक कंगाल बेवा ने आ कर दो दमडियॉ या’नी एक धेला डाला। 43 उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो हैकल के खज़ाने में डाल रहे हैं इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला। 44 क्यूँकि सभों ने अपने माल की ज़ियादती से डाला; मगर इस ने अपनी गरीबी की हालत में जो कुछ इस का था या’नी अपनी सारी रोज़ी डाल दी।”

**13** जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा “ऐ उस्ताद देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं!” 2 ईसा ने उनसे कहा, “तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है? यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए।” 3 जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और या’क़ूब और यूहन्ना और अन्द्रियास ने तन्हाई

में उससे पूछा। 4 “हमें बता कि ये बातें कब होंगी? और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक़्त का क्या निशान है।” 5 ईसा ने उनसे कहना शुरू किया “खबरदार कोई तुम को गुमराह न कर दे। 6 बहुतेरे मेरे नाम से आँएँगे और कहेंगे ‘वो मैं ही हूँ। और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। 7 जब तुम लडाइयॉ और लडाइयॉ की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना इनका वाक़े होना ज़रूर है लेकिन उस वक़्त खातिमा न होगा। 8 क्यूँकि क्रौम पर क्रौम और सलतनत पर सलतनत चढ़ाई करेगी जगह जगह भुन्चाल आँएँगे और काल पड़ेगे ये बातें मुसीबतों की शुरूआत ही होंगी।” 9 “लेकिन तुम खबरदार रहो क्यूँकि लोग तुम को अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादतखानों में पीटे जाओगे; और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाज़िर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। 10 और ज़रूर है कि पहले सब क्रौमों में इन्जील की मनादी की जाए। 11 लेकिन जब तुम्हें ले जा कर हवाले करें तो पहले से फ़िक्र न करना कि हम क्या कहें बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही करना क्यूँकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह — उल कुदूस है। 12 भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ़ खड़े हो कर उन्हें मरवा डालेंगे। 13 और मेरे नाम की वजह से सब लोग तुम से अदावत रखेंगे मगर जो आखिर तक बर्दाशत करेगा वो नजात पाएगा।” 14 “पस जब तुम उस उजाड़ने वाली नापसन्द चीज़ को उस जगह खड़ी हुई देखो जहाँ उसका खड़ा होना जायज़ नहीं पढ़ने वाला समझ ले उस वक़्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएँ। 15 जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को न नीचे उतरे न अन्दर जाए। 16 और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लोटे। 17 मगर उन पर अफ़सोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों। 18 और दूआ करो कि ये जाड़ों में न हो। 19 क्यूँकि वो दिन एसी मुसीबत के होंगे कि पैदाइश के शुरू से जिसे खुदा ने पैदा किया न अब तक हुई है न कभी होगी। 20 अगर खुदावन्द उन दिनों को न घटाता तो कोई इंसान न बचता मगर उन चुने हुवों की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। 21 और उस वक़्त अगर कोई तुम से कहे ‘देखो, मसीह यहाँ है’, या ‘देखो वहाँ है’ तो यकीन न करना। 22 क्यूँकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएँगे ताकि अगर मुम्किन हो तो चुने हुवों को भी गुमराह कर दें। 23 लेकिन तुम खबरदार रहो; देखो मैंने तुम से सब कुछ पहले ही कह दिया है।” 24 “मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज अँधेरा हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी न देगा। 25 और आसमान के सितारे गिरने लगेंगे और जो ताकते आसमान में हैं वो हिलाई जाएँगी। 26 और उस वक़्त लोग इब्न — ए आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ

बादलों में आते देखेंगे। 27 उस वक्त वो फरिश्तों को भेज कर अपने चुने हुए को ज़मीन की इन्तिहा से आसमान की इन्तिहा तक चारों तरफ से जमा करेगा।” 28 “अब अंजीर के दरख्त से एक तम्सील सीखो; जूँ ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। 29 इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़े पर है। 30 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हों लें ये नस्ल हरगिज़ खत्म न होगी। 31 आसमान और ज़मीन टल जाएँगे लेकिन मेरी बातें न टलेंगी।” 32 “लेकिन उस दिन या उस वक्त के बारे कोई नहीं जानता न आसमान के फरिश्ते न बेटा मगर बाप। 33 खबरदार; जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। 34 ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया और उस ने घर से सख्त होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया या'नी हर एक को उस का काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। 35 पस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बाँग देते वक्त या सुबह को। 36 ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम को सोते पाए। 37 और जो कुछ मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ जागते रहो!”

**14** दो दिन के बाद फ़सह और 'ईद — ए — फ़ितर होने वाली थी और सरदार काहिन और फ़कीह मौका ढूँढ रहे थे कि उसे क्यूँकर धोखे से पकड़ कर क़त्ल करें। 2 क्यूँकि कहते थे 'ईद में नहीं' “ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए” 3 जब वो बैत अन्नियाह में शमौन जो पहले कौट्टी था उसके घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशक्रीमती इत्र संगे मरमर के इत्र दान में लाई और इत्र दान तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर डाला। 4 मगर कुछ अपने दिल में खफा हो कर कहने लगे “ये इत्र किस लिए ज़ाया किया गया। 5 क्यूँकि ये इत्र तकरीबन तीन सौ दिन की मज़दूरी से ज़्यादा की कीमत में बिक कर ग़रीबों को दिया जा सकता था” और वो उसे मलामत करने लगे। 6 ईसा ने कहा “उसे छोड़ दो उसे क्यूँ दिक़ करते हो उसने मेरे साथ भलाई की है। 7 क्यूँकि ग़रीब और ग़ुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं जब चाहो उनके साथ नेक़ी कर सकते हो; लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूँगा। 8 जो कुछ वो कर सकी उसने किया उसने दफ़न के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। 9 मैं तुम से सच कहता हूँ कि, तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इन्ज़ील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इस ने किया उस की यादगारी में बयान किया जाएगा।” 10 फिर यहदाह इस्करियोती जो उन बारह में से था, सरदार काहिन के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। 11 वो ये सुन कर ख़ुश हुए और उसको स्पेए देने का इक्कार किया और वो मौका ढूँढने लगा

कि किस तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। 12 ईद 'ए फ़ितर के पहले दिन या'नी जिस रोज़ फ़सह को जबह किया करते थे “उसके शागिर्दों ने उससे कहा? तू कहीं चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फ़सह खाने की तैयारी करें।” 13 उसने अपने शागिर्दों में से दो को भेजा और उनसे कहा “शहर में जाओ एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। 14 और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना ‘उस्ताद कहता है? मेरा मेहमानखाना जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फ़सह खाऊँ कहीं है।’ 15 वो आप तुम को एक बड़ा मेहमानखाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा वही हमारे लिए तैयारी करना।” 16 पस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा ईसा ने उन से कहा था वैसा ही पाया और फ़सह को तैयार किया। 17 जब शाम हुई तो वो उन बारह के साथ आया। 18 और जब वो बैठे खा रहे थे तो ईसा ने कहा “मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा।” 19 वो दुखी होकर और एक एक करके उससे कहने लगे, “क्या मैं हूँ?” 20 उसने उनसे कहा, “वो बारह में से एक है जो मेरे साथ थाल में हाथ डालता है। 21 क्यूँकि इब्न — ए आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है लेकिन उस आदमी पर अफ़सोस जिसके वसीले से इब्न — ए आदम पकड़वाया जाता है, अगर वो आदमी पैदा ही न होता तो उसके लिए अच्छा था।” 22 और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बर्क़त देकर तोड़ी और उनको दी और कहा “लो ये मेरा बदन है।” 23 फिर उसने प्याला लेकर शुक़ किया और उनको दिया और उन सभों ने उस में से पिया। 24 उसने उनसे कहा “ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। 25 मैं तुम से सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी न पिऊँगा; उस दिन तक कि ख़ुदा की बादशाही में नया न पिऊँ।” 26 फिर हम्द गा कर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। 27 और ईसा ने उनसे कहा “तुम सब ठोकर खाओगे क्यूँकि लिखा है, ‘मैं चरवाहे को मारूँगा और भेड़ें इधर उधर हो जाएँगी।’ 28 मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले ग़लील को जाऊँगा।” 29 पतरस ने उससे कहा, “चाहे सब ठोकर खाएँ लेकिन मैं न खाऊँगा।” 30 ईसा ने उससे कहा, “मैं तुझ से सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ग के दो बार बाँग देने से पहले तीन बार मेरा इन्कार करेगा।” 31 लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, “अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तोभी तेरा इन्कार हरगिज़ न करूँगा।” इसी तरह और सब ने भी कहा। 32 फिर वो एक जगह आए जिसका नाम ग़तसिमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, “यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूँ।” 33 और पतरस और या'क़ूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा। 34 और उसने कहा “मेरी जान निहायत गमगिनी है यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच

गई है तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो।” 35 और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिर कर दुआ करने लगा, कि अगर हो सके तो ये वक्त मुझ पर से टल जाए। 36 और कहा “ऐ अब्बा ऐ बाप तुझ से सब कुछ हो सकता है इस प्याले को मेरे पास से हटा ले तोभी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो।” 37 फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा “ऐ शमौन तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका। 38 जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में न पड़ो रूह तो मुसतैद है मगर जिस्म कमजोर है।” 39 वो फिर चला गया और वही बात कह कर दुआ की। 40 और फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आँखें नींद से भरी थीं और वो न जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। 41 फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा “अब सोते रहो और आराम करो बस वक्त आ पहुँचा है देखो; इब्न — ए आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। 42 उठो चलो देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुँचा है।” 43 वो ये कह ही रहा था कि फ़ौरन यहदाह जो उन बारह में से था और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों लिए हुए सरदार काहिनों और फ़कीरों की तरफ से आ पहुँची। 44 और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था जिसका मैं बोसा लूँ वही है उसे पकड़ कर हिफ़ाज़त से ले जाना। 45 वो आकर फ़ौरन उसके पास गया और कहा, “ऐ रब्बी!” और उसके बोसे लिए। 46 उन्होंने उस पर हाथ डाल कर उसे पकड़ लिया। 47 उन में से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। 48 ईसा ने उनसे कहा “क्या तुम तलवारों और लाठियों लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? 49 मैं हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था, और तुम ने मुझे नहीं पकड़ा लेकिन ये इसलिए हुआ कि लिखा हुआ पूरा हों।” 50 इस पर सब शगिर्द उसे छोड़कर भाग गए। 51 मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, उसे लोगों ने पकड़ा। 52 मगर वो चादर छोड़ कर नंगा भाग गया। 53 फिर वो ईसा को सरदार काहिन के पास ले गए; और अब सरदार काहिन और बुज़ुर्ग और फ़कीर उसके यहाँ जमा हुए। 54 पतरस फ़ासले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दिवानखाने के अन्दर तक गया और सिपाहियों के साथ बैठ कर आग तापने लगा। 55 और सरदार काहिन सब सद्दे — अदालत वाले ईसा को मार डालने के लिए उसके खिलाफ़ गवाही दूँदने लगे मगर न पाई। 56 क्योंकि बहुतेरों ने उस पर झूठी गवाहियाँ तो दीं लेकिन उनकी गवाहियाँ सहीह न थीं। 57 फिर कुछ ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी। 58 “हम ने उसे ये कहते सुना है मैं इस मक़दिस को जो हाथ से बना है ढाँकूँगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊँगा जो हाथ से न बना हो।” 59 लेकिन इस पर भी उसकी गवाही सहीह न निकली।

60 “फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े हो कर ईसा से पूछा तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तेरे खिलाफ़ क्या गवाही देते हैं।” 61 “मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब न दिया? सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा क्या तू उस यूसुफ़ का बेटा मसीह है।” 62 ईसा ने कहा, “हाँ मैं हूँ। और तुम इब्न — ए आदम को क़ादिर ए मुतल्लिक़ की दहनी तरफ़ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे।” 63 सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा “अब हमें गवाहों की क्या ज़रूरत रही। 64 तुम ने ये कुफ़्र सुना तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो क़त्ल के लायक है।” 65 तब कुछ उस पर थूकने और उसका मुँह ढाँपने और उसके मुक़के मारने और उससे कहने लगे “नबुव्वत की बातें सुना! और सिपाहियों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने क़ब्ज़े में लिया।” 66 जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौडियों में से एक वहाँ आई। 67 और पतरस को आग तापते देख कर उस पर नज़र की और कहने लगी “तू भी उस नासरी ईसा के साथ था।” 68 उसने इन्कार किया और कहा “मैं तो न जानता और न समझता हूँ।” कि तू क्या कहती है फिर वो बाहर सहन में गया [और मुर्ग ने बाँग दी]। 69 वो लौड़ी उसे देख कर उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी “ये उन में से है।” 70 “मगर उसने फिर इन्कार किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा बेशक तू उन में से है क्योंकि तू गलीली भी है।” 71 “मगर वो ला'नत करने और क़सम खाने लगा में इस आदमी को जिसका तुम ज़िक्र करते हो नहीं जानता।” 72 और फ़ौरन मुर्ग ने दूसरी बार बाँग दी पतरस को वो बात जो ईसा ने उससे कही थी याद आई “मुर्ग के दो बार बाँग देने से पहले तू तीन बार इन्कार करेगा” और उस पर गौर करके रो पड़ा।

**15** और फ़ौरन सुबह होते ही सरदार काहिनों ने और बुज़ुर्गों और फ़कीरों और सब सद्दे 'ए अदालत वालों समेत सलाह करके ईसा को बन्धवाया और ले जा कर पीलातुस के हवाले किया। 2 और पीलातुस ने उससे पूछा, “क्या तू यहूदियों का बादशाह है?” उसने जवाब में उस से कहा, “तू खुद कहता है।” 3 और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इज़्ज़ाम लगाते रहे। 4 पीलातुस ने उस से दोबारा सवाल करके ये कहा “तू कुछ जवाब नहीं देता देख ये तुझ पर कितनी बातों का इज़्ज़ाम लगाते हैं।” 5 ईसा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया यहाँ तक कि पीलातुस ने ताअ'ज्जुब किया। 6 और वो 'इद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज़ करते थे छोड़ दिया करता था। 7 और बर'अब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। 8 और भीड़ उस पर चढ़कर उस से अर्ज़ करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। 9 पीलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, “क्या तुम

चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहदियों के बादशाह को छोड़ दूँ?” पास खड़े थे उन में से कुछ ने ये सुनकर कहा “देखो ये एलियाह को 10 क्योंकि उसे मा'लूम था कि सरदार काहिन ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। 11 मगर सरदार काहिनो ने भीड़ को उभारा ताकि पीलातुस उनकी खातिर बर'अब्बा ही को छोड़ दे। 12 “पीलातुस ने दोबारा उनसे कहा फिर जिसे तुम यहदियों का बादशाह कहते हो? उसे मैं क्या करूँ।” 13 वो फिर चिल्लाए “वो मस्लूब हो।” 14 पीलातुस ने उनसे कहा “क्यों? उस ने क्या बुराई की है?” वो और भी चिल्लाए “वो मस्लूब हो!” 15 पीलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बर'अब्बा को छोड़ दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मस्लूब हो। 16 और सिपाही उसको उस सहन में ले गए, जो प्रैतोरियुन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। 17 और उन्होंने ने उसे इर्गवानी चोगा पहनाया और काँटों का ताज बना कर उसके सिर पर रखवा। 18 और उसे सलाम करने लगे “ऐ यहदियों के बादशाह! आदाब।” 19 और वो उसके सिर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सज्दा करते रहे। 20 और जब उसे ठठों में उड़ा चुके तो उस पर से इर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए फिर उसे मस्लूब करने को बाहर ले गए। 21 और शमौन नाम एक कुरेनी आदमी सिकन्दर और फ्रस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। 22 और वो उसे मुकाम'ए गुल्गुता पर लाए जिसका तरजुमा (खोपड़ी की जगह) है। 23 और मूर मिली हुई मय उसे देने लगे मगर उसने न ली। 24 और उन्होंने उसे मस्लूब किया और उसके कपड़ों पर पचीं डाली कि किसको क्या मिले उन्हें बाँट लिया। 25 और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मस्लूब किया। 26 और उसका इल्जाम लिख कर उसके ऊपर लगा दिया गया: “यहदियों का बादशाह।” 27 और उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मस्लूब किया। 28 [तब इस मजूमन का वो लिखा हुआ कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ] 29 “और राह चलनेवाले सिर हिला हिला कर उस पर लानत करते और कहते थे वाह मकदिस के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले। 30 सलीब पर से उतर कर अपने आप को बचा!” 31 “इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठठे से कहते थे इसने औरों को बचाया अपने आप को नहीं बचा सकता। 32 इस्राईल का बादशाह मसीह; अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देख कर ईमान लाएँ और जो उसके साथ मस्लूब हुए थे वो उस पर लानतान करते थे।” 33 जब दो पहर हुई तो पूरे मुल्क में अँधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। 34 तीसरे पहर ईसा बड़ी आवाज़ से चिल्लाया, “इलोही, इलोही लमा शबकतनी?” जिसका तरजुमा है, “ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?” 35 जो

पास खड़े थे उन में से कुछ ने ये सुनकर कहा “देखो ये एलियाह को बुलाता है।” 36 और एक ने दौड़ कर सोखते को सिरके में डबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा, “ठहर जाओ देखें तो एलियाह उसको उतारने आता है या नहीं।” 37 फिर ईसा ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर जान दे दिया। 38 और हैकल का पर्दा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया। 39 और जो सिपाही उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूँ जान देते हुए देखकर कहा “बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था।” 40 कई औरतें दूर से देख रही थीं उन में मरियम मगदलिनी और छोटे या'कूब और योसेस की माँ मरियम और सलोमी थीं 41 जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लीं और उसकी खिदमत करती थीं और और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ येरुशलेम से आई थीं। 42 जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत से एक दिन पहले होता है। 43 अरिमतियाह का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुन्तज़िर था और उसने हिम्मत से पीलातुस के पास जाकर ईसा की लाश माँगी 44 और पीलातुस ने ता'अज्जुब किया कि वो ऐसे जल्द मर गया? और सिपाही को बुला कर उस से पूछा उसको मेरे देर हो गई? 45 जब सिपाही से हाल मा'लूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। 46 उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अन्दर जो चट्टान में खोदी गई थी रखवा और कब्र के मुँह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। 47 और मरियम मगदलिनी और योसेस की माँ मरियम देख रही थीं कि वो कहाँ रखवा गया है।

**16** जब सबत का दिन गुज़र गया तो मरियम मगदलिनी और या'कूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। 2 वो हफ्ते के पहले दिन बहुत संवरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं। 3 और आपस में कहती थीं “हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुँह पर से कौन लुढ़काएगा?” 4 जब उन्होंने ने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। 5 कब्र के अन्दर जाकर उन्होंने ने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दहनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुईं। 6 उसने उनसे कहा ऐसी हैरान न हो तुम ईसा नासरी को “जो मस्लूब हुआ था तलाश रही हो; जी उठा है वो यहाँ नहीं है देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखवा था। 7 लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुम से पहले गलील को जाएगा तुम वही उसको देखोगे जैसा उसने तुम से कहा।” 8 और वो निकल कर कब्र से भागीं क्योंकि कपकपी और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि वो डरती थीं। 9 (note: The most reliable and earliest manuscripts do not include Mark 16:9-20.) हफ्ते के पहले दिन जब वो संवरे जी उठा तो पहले मरियम

मगदलिनी को जिस में से उसने सात बदस्हें निकाली थी दिखाई दिया। 10 उसने जाकर उसके शागिर्दों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। 11 उन्होंने ये सुनकर कि वो जी उठा है और उसने उसे देखा है यकीन न किया। 12 इसके बाद वो दूसरी सूरत में उन में से दो को जब वो देहात की तरफ जा रहे थे दिखाई दिया। 13 उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी; मगर उन्होंने उन का भी यकीन न किया। 14 फिर वो उन गयारह शागिर्दों को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बे'ऐतिकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन न किया था। 15 और उसने उनसे कहा, “तुम सारी दुनियाँ में जाकर सारी मखलूक के सामने इन्जील की मनादी करो। 16 जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। 17 और ईमान लाने वालों के दर्मियान ये मोजिजे होंगे वो मेरे नाम से बदस्हों को निकालेंगे; नई नई ज़बाने बोलेंगे। 18 साँपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पीएँगे तो उन्हें कुछ तकलीफ न पहुँचेगी वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएँगे।” 19 गरज़ ख़ुदावन्द उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और ख़ुदा की दहनी तरफ बैठ गया। 20 फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मनादी की और ख़ुदावन्द उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजिज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा; आमीन।

# लूका

**1** चूँकि बहुतों ने इस पर कम्पन बाँधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक्रे' हुईं उनको सिलसिलावार बयान करें। 2 जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खूद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुँचाया। 3 इसलिए ऐ मु'अज्जिज़ थियुफिलस! मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक — ठीक मालूम करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूँ। 4 ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। 5 यहदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाने में अबिय्याह के फरीके में से ज़करियाह नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हासून की औलाद में से थी और उसका नाम इलीशिबा था। 6 और वो दोनों खूदा के सामने रास्तबाज़ और खूदावन्द के सब अहकाम — ओ — क़वानीन पर बे — 'ऐब चलने वाले थे। 7 और उनके औलाद न थी क्योंकि इलीशिबा' बाँझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। 8 जब वो खूदा के हज़ूर अपने फरीके की बारी पर इमामत का काम अन्जाम देता था तो ऐसा हुआ, 9 कि इमामत के दस्तूर के मुवाफ़िक़ उसके नाम की पचीं निकली कि खूदावन्द के हज़ूरी में जाकर खुशबू जलाए। 10 और लोगों की सारी जमा 'अत खुशबू जलाते वक़्त बाहर दुआ कर रही थी। 11 अचानक खूदा का एक फ़रिश्ता जाहिर हुआ जो खुशबू जलाने की कुर्बानगाह के दहनी तरफ़ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। 12 उसे देख कर ज़करियाह घबराया और बहुत डर गया। 13 लेकिन फ़रिश्ते ने उस से कहा, ज़करियाह, मत डर! खूदा ने तेरी दुआ सुन ली है। तेरी बीवी इलीशिबा के बेटा होगा। उस का नाम यहून्ना रखना। 14 वह न सिर्फ़ तेरे लिए खुशी और मुस्रत का बाइस होगा, बल्कि बहुत से लोग उस की पैदाइश पर खुशी मनाएँगे। 15 क्योंकि वह खूदा के नज़दीक अज़ीम होगा। ज़रूरी है कि वह मय और शराब से परहेज़ करे। वह पैदा होने से पहले ही रूह — उल — कुदूस से भरपूर होगा। 16 और इस्राईली कौम में से बहुतों को खूदा उन के खूदा के पास वापस लाएगा। 17 वह एलियाह की रूह और कुव्वत से खूदावन्द के आगे आगे चलेगा। उस की खिदमत से वालिदों के दिल अपने बच्चों की तरफ़ माइल हो जाएँगे और नाफरमान लोग रास्तबाज़ों की अक्लमन्दी की तरफ़ फिरेंगे। यूँ वह इस कौम को खूदा के लिए तय्यार करेगा।" 18 ज़करियाह ने फ़रिश्ते से पूछा, "मैं किस तरह जानूँ कि यह बात सच है? मैं खूद बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी भी उम्र रसीदा है।" 19 फ़रिश्ते ने जवाब दिया, "मैं जिब्राईल हूँ जो खूदावन्द के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे इसी मक़सद के लिए भेजा गया है कि तुझे यह खुशख़बरी सुनाऊँ। 20 लेकिन तूने मेरी बात का यक़ीन नहीं किया इस लिए तू ख़ामोश रहेगा और उस वक़्त तक बोल नहीं सकेगा जब तक तेरे बेटा पैदा न

हो। मेरी यह बातें अपने वक़्त पर ही पूरी होंगी।" 21 इस दौरान बाहर के लोग ज़करियाह के इन्तिज़ार में थे। वह हैरान होते जा रहे थे कि उसे वापस आने में क्यूँ इतनी देर हो रही है। 22 आखिरकार वह बाहर आया, लेकिन वह उन से बात न कर सका। तब उन्होंने ने जान लिया कि उस ने खूदा के घर में ख़्वाब देखा है। उस ने हाथों से इशारे तो किए, लेकिन ख़ामोश रहा। 23 ज़करियाह अपने वक़्त तक खूदा के घर में अपनी खिदमत अन्जाम देता रहा, फिर अपने घर वापस चला गया। 24 थोड़े दिनों के बाद उस की बीवी इलीशिबा हामिला हो गई और वह पाँच माह तक घर में छुपी रही। 25 उस ने कहा, "खूदावन्द ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि अब उस ने मेरी फ़िक्र की और लोगों के सामने से मेरी स्त्वाई दूर कर दी।" 26 इलीशिबा छः माह से हामिला थी जब खूदा ने जिब्राईल फ़रिश्ते को एक कुँवारी के पास भेजा जो नासरत में रहती थी। नासरत गलील का एक शहर है और कुँवारी का नाम मरियम था। 27 उस की मंगनी एक मर्द के साथ हो चुकी थी जो दाऊद बादशाह की नस्ल से था और जिस का नाम यूसुफ़ था। 28 फ़रिश्ते ने उस के पास आ कर कहा, "एरे ख़ातून जिस पर खूदा का ख़ास फ़ज़ल हुआ है, सलाम! खूदा तेरे साथ है।" 29 मरियम यह सुन कर घबरा गई और सोचा, यह किस तरह का सलाम है? 30 लेकिन फ़रिश्ते ने अपनी बात जारी रखी और कहा, "एरे मरियम, मत डर, क्योंकि तुझ पर खूदा का फ़ज़ल हुआ है। 31 तू हामिला हो कर एक बेटे को पैदा करेगी। तू उस का नाम ईसा (नजात देने वाला) रखना। 32 वह बड़ा होगा और खूदावन्द का बेटा कहलाएगा। खूदा हमारा खूदा उसे उस के बाप दाऊद के तख़्त पर बिठाएगा 33 और वह हमेशा तक इस्राईल पर हुकूमत करेगा। उस की सल्तनत कभी ख़त्म न होगी।" (aiōn g165) 34 मरियम ने फ़रिश्ते से कहा, "यह क्यूँकर हो सकता है? अभी तो मैं कुँवारी हूँ।" 35 फ़रिश्ते ने जवाब दिया, "रूह — उल — कुदूस तुझ पर नाज़िल होगा, खूदावन्द की कुदरत का साया तुझ पर छा जाएगा। इस लिए यह बच्चा कुदूस होगा और खूदा का बेटा कहलाएगा। 36 और देख, तेरी रिश्तेदार इलीशिबा के भी बेटा होगा हालाँकि वह उम्ररसीद है। गरचे उसे बाँझ करार दिया गया था, लेकिन वह छः माह से हामिला है। 37 क्योंकि खूदा के नज़दीक कोई काम नामुमकिन नहीं है।" 38 मरियम ने जवाब दिया, "मैं खूदा की खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। मेरे साथ वैसा ही हो जैसा आप ने कहा है।" इस पर फ़रिश्ता चला गया। 39 उन दिनों में मरियम यहदिया के पहाड़ी इलाके के एक शहर के लिए रवाना हुईं। उस ने जल्दी जल्दी सफ़र किया। 40 वहाँ पहुँच कर वह ज़करियाह के घर में दाख़िल हुईं और इलीशिबा को सलाम किया। 41 मरियम का यह सलाम सुन कर इलीशिबा का बच्चा उस के पेट में उछल पड़ा और इलीशिबा खूद रूह — उल — कुदूस से भर गई।

42 उस ने बुलन्द आवाज़ से कहा, “तू तमाम औरतों में मुबारिक है और मुबारिक है तेरा बच्चा! 43 मैं कौन हूँ कि मेरे खुदावन्द की माँ मेरे पास आई! 44 जैसे ही मैं ने तेरा सलाम सुना बच्चा मेरे पेट में खुशी से उछल पड़ा। 45 तू कितनी मुबारिक है, क्योंकि तू ईमान लाई कि जो कुछ खुदा ने फरमाया है वह पूरा होगा।” 46 इस पर मरियम ने कहा, “मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है 47 और मेरी रूह मेरे मुन्जी खुदावन्द से बहुत खुश है। 48 क्योंकि उस ने अपनी खादिमा की पस्ती पर नज़र की है। हाँ, अब से तमाम नसलें मुझे मुबारिक कहेंगी, 49 क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े — बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है। 50 और ख़ौफ़ रहम उन पर जो उससे डरते हैं, पुरत — दर — पुरत रहता है। 51 उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने आपको बड़ा समझते थे उनको तितर बितर किया। 52 उसने इख्तियार वालों को तख़्त से गिरा दिया, और पस्तहालों को बुलन्द किया। 53 उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सेर कर दिया, और दौलतमन्दों को ख़ाली हाथ लौटा दिया। 54 उसने अपने खादिम इस्राईल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फ़रमाए। 55 जो अब्रहाम और उसकी नस्ल पर हमेशा तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप — दादा से कहा था।” (aiōn g165) 56 और मरियम तीन महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। 57 और इलीशिबा' के वज़'ए हम्ल का वक़्त आ पहुँचा और उसके बेटा हुआ। 58 उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावन्द ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। 59 और आठवें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का ख़तना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर ज़करियाह रखने लगे। 60 मगर उसकी माँ ने कहा, “नहीं बल्कि उसका नाम युहन्ना रखा जाए।” 61 उन्होंने कहा, “तेरे खानदान में किसी का ये नाम नहीं।” 62 और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? 63 उसने तख़्ती माँग कर ये लिखा, उसका नाम युहन्ना है, और सब ने ता'ज्जुब किया। 64 उसी दम उसका मुँह और ज़बान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। 65 और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों की चर्चा फैल गई। 66 और उनके सब सुनने वालों ने उनको सोच कर दिलों में कहा, “तो ये लड़का कैसा होने वाला है?” क्योंकि खुदावन्द का हाथ उस पर था। 67 और उस का बाप ज़करियाह रूह — उल — कूदूस से भर गया और नबुव्वत की राह से कहने लगा कि: 68 “खुदावन्द इस्राईल के खुदा की हम्द हो क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जुह करके उसे छुटकारा दिया। 69 और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, 70 (जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था

जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं) (aiōn g165) 71 या'नी हम को हमारे दुश्मनों से और सब बुज़्ज रखने वालों के हाथ से नजात बख़्शी। 72 ताकि हमारे बाप — दादा पर रहम करे और अपने पाक 'अहद को याद फ़रमाए। 73 या'नी उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्रहाम से खाई थी, 74 कि वो हमें ये बख़्शिश देगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर, 75 उसके सामने पाकीज़गी और रास्तबाज़ी से उग्र भर बेख़ौफ़ उसकी इबादत करें 76 और ऐ लड़के तू खुदा ता'ला का नबी कहलाएगा क्योंकि तू खुदावन्द की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, 77 ताकि उसकी उम्मत को नजात का 'इल्म बख़्शे जो उनको गुनाहों की मु'आफ़ी से हासिल हो। 78 ये हमारे खुदा की रहमत से होगा; जिसकी वजह से 'आलम — ए — बाला का सूरज हम पर निकलेगा, 79 ताकि उनको जो अन्धेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख़्शे, और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले।” 80 और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया, और इस्राईल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा।

**2** उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनियाँ के लोगों के नाम लिखे जाएँ। 2 ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिन्युस के 'अहद में हुई। 3 और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने — अपने शहर को गए। 4 पस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। 5 ताकि अपनी होने वाली बीवी मरियम के साथ जो हामिला थी, नाम लिखवाए। 6 जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा — ए — हम्ल का वक़्त आ पहुँचा, 7 और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखवा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। 8 उसी 'इलाके में चरवाहे थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। 9 और खुदावन्द का फ़रिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन्द का जलाल उनके चारोंतरफ़ चमका, और वो बहुत डर गए। 10 मगर फ़रिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत! क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, 11 कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्जी पैदा हुआ है, या'नी मसीह खुदावन्द। 12 इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। 13 और यकायक उस फ़रिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि: 14 “आलम — ए — बाला पर खुदा की तम्जीद हो और ज़मीन पर आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह।” 15 जब फ़रिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ

कि चरवाहों ने आपस में कहा, “आओ, बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन्द ने हम को खबर दी है देखें।” 16 पस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और इस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। 17 उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, 18 और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ता'ज्जुब किया। 19 मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। 20 और चरवाहे, जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुन कर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। 21 जब आठ दिन पुरे हुए और उसके खतने का वक़्त आया, तो उसका नाम ईसा रखवा गया। जो फ़रिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखवा था। 22 फिर जब मूसा की शरी'अत के मुवाफ़िक़ उनके पाक होने के दिन पुरे हो गए, तो वो उसको येरूशलेम में लाए ताकि खुदावन्द के आगे हाज़िर करें 23 (जैसा कि खुदावन्द की शरी'अत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावन्द के लिए मुक़द्दस ठहरेगा) 24 और खुदावन्द की शरी'अत के इस कौल के मुवाफ़िक़ कुबीनी करें, कि फ़ाख़ला का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे लाओ। 25 और देखो, येरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज़ और खुदातरस और इसाईल की तसल्लि का मुन्तज़िर था और रूह — उल — कुद्दूस उस पर था। 26 और उसको रूह — उल — कुद्दूस से अगवाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन्द के मसीह को देख न ले, मौत को न देखेगा। 27 वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक़्त माँ — बाप उस लड़के ईसा को अन्दर लाए ताकि उसके शरी'अत के दस्तूर पर 'अमल करें। 28 तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा: 29 “ऐ मालिक अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुवाफ़िक़ सलामती से सख़्त करता है, 30 क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी नजात देख ली है, 31 जो तूने सब उम्मतों के रू — ब — रू तैयार की है, 32 ताकि ग़ैर कौमों को रौशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसाईल का जलाल बने।” 33 और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी, ता'ज्जुब करते थे। 34 और शमौन ने उनके लिए दु'आ — ए — ख़ैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, “देख, ये इसाईल में बहतों के गिरने और उठने के लिए मुकर्रर हुआ है, जिसकी मुखाफ़िक़त की जाएगी। 35 बल्कि तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिली ख़याल खुल जाएँ।” 36 और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फ़नूएल की बेटी एक नबीया थी — वो बहुत बूढ़ी थी — और उसने अपने कूँवारेपन के बाद सात बरस एक शौहर के साथ गुज़ारे थे। 37 वो चौरासी बरस से बेवा थी, और हैकल से जुदा न होती थी बल्कि रात दिन रोज़ों और

दु'आओं के साथ इबादत किया करती थी। 38 और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शक्र करने लगी और उन सब से जो येरूशलेम के छुटकारे के मुन्तज़िर थे उसके बारे में बातें करने लगी। 39 और जब वो खुदावन्द की शरी'अत के मुवाफ़िक़ सब कुछ कर चुके तो ग़लील में अपने शहर नासरत को लौट गए। 40 और वो लड़का बढ़ता और ताक़त पाता गया और हिक्मत से मा'मूर होता गया और खुदा का फ़ज़ल उस पर था। 41 उसके माँ — बाप हर बरस 'इद — ए — फ़सह पर येरूशलेम को जाया करते थे। 42 और जब वो बारह बरस का हुआ तो वो 'इद के दस्तूर के मुवाफ़िक़ येरूशलेम को गए। 43 जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का ईसा येरूशलेम में रह गया — और उसके माँ — बाप को खबर न हुई। 44 मगर ये समझ कर कि वो काफ़िले में है, एक मज़िल निकल गए — और उसके रिश्तेदारों और उसके जान पहचानों में दूँडने लगे। 45 जब न मिला तो उसे दूँडते हुए येरूशलेम तक वापस गए। 46 और तीन रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। 47 जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। 48 और वो उसे देखकर हैरान हुए। उसकी माँ ने उससे कहा, “बेटा, तू ने क्यों हम से ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं घबराते हुए तुझे दूँडते थे?” 49 उसने उनसे कहा, “तुम मुझे क्यों दूँडते थे? क्या तुम को मा'लूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है?” 50 मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो न समझे। 51 और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके साथ' रहा और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रख लीं। 52 और ईसा हिक्मत और क़द — ओ — कियामत में और खुदा की और इंसान की मक़बूलियत में तरक्की करता गया।

**3** तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के पंदहवें बरस पुनित्युस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, हेरोदेस ग़लील का और उसका भाई फ़िलिप्पुस इतुरिय्या और ख़ोनीतिस का और लिसानियास अबलेने का हाकिम था। 2 और हन्ना और काइफ़ा सरदार काहिन थे, उस वक़्त खुदा का कलाम वीराने में ज़करियाह के बेटे युहन्ना पर नाज़िल हुआ। 3 और वो यरदन के आस पास में जाकर गुनाहों की मु'आफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे का एलान करने लगा। 4 जैसा यसा'याह नबी के कलाम की किताब में लिखा है: “वीराने में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, 'खुदावन्द की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। 5 हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा; और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊँचा — नीचा है बराबर रास्ता बनेगा। 6 और हर बशर खुदा की नजात देखेगा।” 7 पस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आते थे वो उनसे कहता था, “ऐ सॉप के बच्चो! तुम्हें



किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो?" 8 पस तौबा के मुवाफिक फल लाओ — और अपने दिलों में ये कहना शुरू न करो कि अब्रहाम हमारा बाप है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्रहाम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। 9 और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखवा है पस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। 10 लोगों ने उस से पूछा, "हम क्या करें?" 11 उसने जवाब में उनसे कहा, "जिसके पास दो कुरते हों वो उसको जिसके पास न हो बाँट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे।" 12 और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा, "ऐ उस्ताद, हम क्या करें?" 13 उसने उनसे कहा, "जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा न लेना।" 14 और सिपाहियों ने भी उससे पूछा, "हम क्या करें?" उसने उनसे कहा, "न किसी पर तुम जुल्म करो और न किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनखाह पर किरफायत करो।" 15 जब लोग इन्तिज़ार में थे और सब अपने अपने दिल में यहन्ना के बारे में सोच रहे थे कि आया वो मसीह है या नहीं। 16 तो यहन्ना ने उन से जवाब में कहा, "मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझ से ताकतवर है वो आनेवाला है, मैं उसकी जूती का फ्रीता खोलने के लायक नहीं; वो तुम्हें रूह — उल — कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। 17 उसका सूप उसके हाथ में है; ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूँ को अपने खित्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं।" 18 पस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सूनाता रहा। 19 लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास की वजह से और उन सब बुराइयों के बा'इस जो हेरोदेस ने की थीं, यहन्ना से मलामत उठाकर, 20 इन सब से बढकर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। 21 जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और ईसा भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया, 22 और रूह — उल — कुद्स जिस्मानि सूत में कबूतर की तरह उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से ये आवाज़ आई: "तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझे से मैं खुश हूँ।" 23 जब ईसा खुद ता'लीम देने लगा, करीबन तीस बरस का था और (जैसा कि समझा जाता था) यूसुफ का बेटा था; और वो 'एली का, 24 और वो मतात का, और वो लावी का, और वो मल्की का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, 25 और वो मत्तितियाह का, और वो 'आमूस का और नाहम का, और वो असलियाह का, और वो नोगा का, 26 और वो माअत का, और मत्तितियाह का, और वो शिम'ई का, और वो योसेख का, और वो यहूदाह का, 27 और वो यहन्ना का, और वो रोसा का, और वो ज़रूबाबुल का, और वो सियालतीएल का और वो नेरी का, 28 और वो मल्की का, और वो

अदी का, और वो क्रोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो 'एर का, 29 और वो यशु'अ का, और वो इली'अजर का, और वो योरीम का, और वो मतात का, और वो लावी का, 30 और वो शमौन का, और वो यहूदाह का, और वो यूसुफ का, और वो योनाम का और वो इलियाक्रीम का, 31 और वो मलेआह का, और वो मिन्नाह का, और वो मत्तितियाह का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, 32 और वो यस्सी का, और वो ओबेद का, और वो बो'अज का, और वो सल्मोन का, और वो नहसोन का, 33 और वो 'अम्मीनदाब का, और वो अदमीन का, और वो अरनी का, और वो हसोन का, और वो फारस का, और वो यहूदाह का, 34 और वो याकूब का, और वो इज़हाक का, और वो इज़ाहीम का, और वो तारह का, और वो नहर का, 35 और वो सरूज का, और वो र'ऊ का, और वो फलज का, और वो इबर का, और वो सिलह का, 36 और वो क्रीनान का और वो अर्फ़क्सद का, और वो सिम का, और वो नूह का, और वो लमक का, 37 और वो मत्सिलह का और वो हनूक का, और वो यारिद का, और वो महल्ल — एल का, और वो क्रीनान का, 38 और वो अनूस का, और वो सेत का, और आदम खुदा से था।

**4** फिर ईसा रूह — उल — कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा, और चालीस दिन तक रूह की हिदायत से वीराने में फिरता रहा; 2 और शैतान उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। 3 और शैतान ने उससे कहा, "अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए।" 4 ईसा ने उसको जवाब दिया, "कलाम में लिखा है कि, आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जीता न रहेगा।" 5 और शैतान ने उसे ऊँचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई। 6 और उससे कहा, "ये सारा इख्तियार और उनकी शान — ओ — शौकत मैं तुझे दे दूँगा, क्योंकि ये मेरे सुपर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। 7 पस अगर तू मेरे आगे सज्दा करे, तो ये सब तेरा होगा।" 8 ईसा ने जवाब में उससे कहा, "लिखा है कि, तू खुदावन्द अपने खुदा को सिज्दा कर और सिर्फ़ उसकी इबादत कर।" 9 और वो उसे येरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आपको यहाँ से नीचे गिरा दे। 10 क्योंकि लिखा है कि, वो तेरे बारे में अपने फ़रिशतों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाज़त करें। 11 और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, काश की तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। 12 ईसा ने जवाब में उससे कहा, "फ़रमाया गया है कि, तू खुदावन्द अपने खुदा की आजमाइश न कर।" 13 जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चूका तो कुछ अर्से के लिए उससे जुदा हुआ। 14 फिर ईसा पाक रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और आसपास में उसकी शोहरत फैल गई। 15 और वो उनके 'इबादतखानों में ता'लीम देता

रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। 16 और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुवाफिक सबत के दिन 'इबादतखाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। 17 और यसायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो वर्का खोला जहाँ ये लिखा था: 18 "खुदावन्द का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसह किया; उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अन्धों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊँ, कुचले हुआँ को आज़ाद करूँ। 19 और खुदावन्द के साल — ए — मकबूल का ऐलान करूँ।" 20 फिर वो किताब बन्द करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया; जितने 'इबादतखाने में थे सबकी आँखें उस पर लगी थीं। 21 वो उनसे कहने लगा, "आज ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने पूरा हुआ।" 22 और सबने उस पर गवाही दी और उन पुर फ़ज़ल बातों पर जो उसके मुँह से निकली थी, ता'ज्जुब करके कहने लगे, "क्या ये यूसुफ़ का बेटा नहीं?" 23 उसने उनसे कहा "तुम अलबन्ता ये मिसाल मुझ पर कहोगे कि, 'ऐ हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर! जो कुछ हम ने सुना है कि कफ़रनहम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर'।" 24 और उसने कहा, "मैं तुम से सच कहता हूँ, कि कोई नबी अपने वतन में मक़बूल नहीं होता। 25 और मैं तुम से कहता हूँ, कि एलियाह के दिनों में जब साढ़े तीन बरस आसमान बन्द रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख़्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएँ इस्त्राईल में थीं। 26 लेकिन एलियाह उनमें से किसी के पास न भेजा गया, मगर मुल्क — ए — सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास 27 और इलिशा नबी के वक्त में इस्त्राईल के बीच बहुत से कौड़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ़ न किया गया मगर ना'मान सूरयानी।" 28 जितने 'इबादतखाने में थे, इन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए, 29 और उठकर उस को बाहर निकाले और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसको सिर के बल गिरा दें। 30 मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। 31 फिर वो गलील के शहर कफ़रनहम को गया और सबत के दिन उन्हें ता'लीम दे रहा था। 32 और लोग उसकी ता'लीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख़्तियार के साथ था। 33 इबादतखाने में एक आदमी था, जिसमें बदरूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा कि, 34 "ऐ ईसा नासरी हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है — खुदा का क़ुद्स है।" 35 ईसा ने उसे झिड़क कर कहा, "चुप रह और उसमें से निकल जा।" इस पर बदरूह उसे बीच में पटक कर बग़ैर नुक्सान पहुँचाए उसमें से निकल गई। 36 और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, "ये कैसा कलाम है? क्योंकि वो इख़्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक़म देता है

और वो निकल जाती है।" 37 और आस पास में हर जगह उसकी धूम मच गई। 38 फिर वो 'इबादतखाने से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी और उन्होंने उस के लिए उससे 'अर्ज़ की। 39 वो खड़ा होकर उसकी तरफ़ झुका और बुखार को झिड़का तो वो उतर गया, वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। 40 और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह — तरह की बीमारियों के मरीज़ थे, उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा किया। 41 और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कहकर कि, "तू खुदा का बेटा है" बहुताँ में से निकल गई, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने न देता था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये मसीह है। 42 जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसको ढूँडती हुई उसके पास आई, और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। 43 उसने उनसे कहा, "मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूँ।" 44 और वो गलील के 'इबादतखानों में एलान करता रहा।

**5** जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था तो ऐसा हुआ कि 2 उसने झील के किनारे दो नाव लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे 3 और उसने उस नावों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल और वो बैठकर लोगों को नाव पर से ता'लीम देने लगा। 4 जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, "गहरे में ले चल, और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो।" 5 शमौन ने जवाब में कहा, "ऐ खुदावन्द! हम ने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ।" 6 ये किया और वो मछलियों का बड़ा घेर लाए, और उनके जाल फ़टने लगे। 7 और उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। पस उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर दीं कि डूबने लगीं। 8 शमौन पतरस ये देखकर ईसा के पाँव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन्द! मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ।" 9 क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। 10 और वैसे ही ज़ब्दी के बेटे या'कूब और यूहन्ना भी जो शमौन के साथी थे, हैरान हुए। ईसा ने शमौन से कहा, "खौफ़ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा।" 11 वो नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 12 जब वो एक शहर में था, तो देखो, कौढ से भरा हुआ एक आदमी ईसा को देखकर मुँह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, "ऐ खुदावन्द,

अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है।” 13 उसने हाथ बढ़ाए और उसे छुआ और कहा, “मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा।” और फ़ौरन उसका कौढ़ जाता रहा। 14 और उसने उसे ताकीद की, “किस्सी से न कहना बल्कि जाकर अपने आपको काहिन को दिखा। वो दिन आएँगे; और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब उन में गुज़रान ताकि उनके लिए गवाही हो।” 15 लेकिन उसकी चर्चा ज़्यादा फ़ैली और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुनें और अपनी बीमारियों से शिफ़ा पाएँ 16 मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। 17 और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ता'लीम दे रहा था और फ़रीसी और शरा के मु'अल्लिम वहाँ बैठे हुए थे जो ग़लील के हर गाँव और यहूदिया और येरूशलेम से आए थे। और ख़ुदावन्द की कुदरत शिफ़ा बख़्शने को उसके साथ थी। 18 और देखो, कोई मर्द एक आदमी को जो फ़ालिज का मारा था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अन्दर लाकर उसके आगे रखें। 19 और जब भीड़ की वजह से उसको अन्दर ले जाने की राह न पाई तो छत पर चढ़ कर खपैरल में से उसको खटोले समेत बीच में ईसा के सामने उतार दिया। 20 उसने उनका ईमान देखकर कहा, “ऐ आदमी! तैरे गुनाह मु'आफ़ हुए!” 21 इस पर फ़क़ीह और फ़रीसी सोचने लगे, “ये कौन है जो कुफ़्र बकता है? ख़ुदा के सिवा और कौन गुनाह मु'आफ़ कर सकता है?” 22 ईसा ने उनके खयालों को मा'लूम करके जवाब में उनसे कहा, “तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? 23 आसान क्या है? ये कहना कि 'तैरे गुनाह मु'आफ़ हुए' या ये कहना कि 'उठ और चल फिर'? 24 लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्न — ए — आदम को ज़मीन पर गुनाह मु'आफ़ करने का इस्त्रियार है,” (उसने मफ़लूज से कहा) मैं तुझ से कहता हूँ, उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर जा।” 25 वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर ख़ुदा की तम्जीद करता हुआ अपने घर चला गया। 26 वो सब के सब बहुत हैरान हुए और ख़ुदा की तम्जीद करने लगे, और बहुत डर गए और कहने लगे, “आज हम ने अजीब बातें देखीं!” 27 इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम के एक महसूल लेनेवाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, “मेरे पीछे हो ले।” 28 वो सब कुछ छोड़कर उठा, और उसके पीछे हो लिया। 29 फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की; और महसूल लेनेवालों और औरों की जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे, बड़ी भीड़ थी। 30 और फ़रीसी और उनके आल्लिम उसके शागिर्दों से ये कहकर बुदबुदाने लगे, “तुम क्यूँ महसूल लेनेवालों और गुनाहगारों के साथ खाते — पीते हो?” 31 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “तन्दस्तों को हकीम की ज़रूरत नहीं है बल्कि बीमारों को। 32 मैं रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ।” 33 और

उन्होंने उससे कहा, “यहून्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते और दु'आएँ किया करते हैं, और इसी तरह फ़रीसियों के भी; मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं।” 34 ईसा ने उनसे कहा, “क्या तुम बरातियों से, जब तक दुल्हा उनके साथ हैं, रोज़ा रखवा सकते हो? 35 मगर वो दिन आएँगे; और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब उन लगाता, वर्ना नई भी फटेगी और उसका पैवन्द पुरानी में मेल भी न खाएगा। 37 और कोई शख्स नई मय पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मय मशकों को फाड़ कर ख़ुद भी बह जाएगी और मशकें भी बरबाद हो जाएँगी। 38 बल्कि नई मय नई मशकों में भरना चाहिए। 39 और कोई आदमी पुरानी मय पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्यूँकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है।”

**6** फिर सबत के दिन यँ हुआ कि वो खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द बालें तोड़ — तोड़ कर और हाथों से मल — मलकर खाते जाते थे। 2 और फ़रीसियों में से कुछ लोग कहने लगे, “तुम वो काम क्यूँ करते हो जो सबत के दिन करना ठीक नहीं।” 3 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “क्या तुम ने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? 4 वो क्यूँकर ख़ुदा के घर में गया, और नज़्र की रोटियों लेकर खाई जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को ठीक नहीं, और अपने साथियों को भी दी।” 5 फिर उसने उनसे कहा, “इब्न — ए — आदम सबत का मालिक है।” 6 और यँ हुआ कि किसी और सबत को वो 'इबादतरखाने में दाखिल होकर ता'लीम देने लगा। वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। 7 और आल्लिम और फ़रीसी उसकी ताक में थे, कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इज़्ज़ाम लगाने का मौक़ा पाएँ। 8 मगर उसको उनके खयाल मा'लूम थे; पस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, “उठ, और बीच में खड़ा हो।” 9 ईसा ने उनसे कहा, “मैं तुम से ये पूछता हूँ कि आया सबत के दिन नेकी करना ठीक है या बदी करना? जान बचाना या हलाक करना?” 10 और उन सब पर नज़र करके उससे कहा, “अपना हाथ बढ़ा।” उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुस्त हो गया। 11 वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम ईसा के साथ क्या करें। 12 और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और ख़ुदा से दुआ करने में सारी रात गुज़ारी। 13 जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से बारह चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया: 14 या'नी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखवा, और अन्दियास, और या'कूब, और यहून्ना, और फिलिप्पस, और बरतुल्माई, 15 और मर्ती, और तोमा, और हलफ़ा का बेटा या'कूब,

और शमौन जो जेलोतेस कहलाता था, 16 और या'कूब का बेटा यहूदाह, और यहूदाह इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। 17 और वो उनके साथ उतर कर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमा'अत और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी, जो सारे यहूदिया और येरूशलेम और सूर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। 18 और जो बदरूहों से दुःख पाते थे वो अच्छे किए गए। 19 और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कृत्वत उससे निकलती और सब को शिफा बख्शाती थी। 20 फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नज़र करके कहा, "मुबारिक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि ख़ुदा की बादशाही तुम्हारी है।" 21 "मुबारिक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे "मुबारिक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हँसोगे 22 "जब इब्न — ए — आदम की वजह से लोग तुम से 'दुश्मनी रखेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और ला'न — ता'न करेंगे।" 23 "उस दिन खुश होना और ख़ुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अज़्र बड़ा है; क्योंकि उनके बाप — दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। 24 "मगर अफ़सोस तुम पर जो दौलतमन्द हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। 25 "अफ़सोस तुम पर जो अब सेर हो, क्योंकि भूखे होगे। "अफ़सोस तुम पर जो अब हँसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। 26 "अफ़सोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें अच्छा कहें, क्योंकि उनके बाप — दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे।" 27 "लेकिन मैं सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मुहब्बत रखो, जो तुम से 'दुश्मनी रखें उसके साथ नेकी करो। 28 जो तुम पर ला'न करें उनके लिए बर्कत चाहो, जो तुमसे नफ़रत करें उनके लिए दुआ करो। 29 जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुरता लेने से भी मनह' न कर। 30 जो कोई तुझ से मॉगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब न कर। 31 और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।" 32 "अगर तुम अपने मुहब्बत रखनेवालों ही से मुहब्बत रखो, तो तुम्हारा क्या अहसान है? क्योंकि गुनाहगार भी अपने मुहब्बत रखनेवालों से मुहब्बत रखते हैं। 33 और अगर तुम उन ही का भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या अहसान है? क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। 34 और अगर तुम उन्हीं को कर्ज़ दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या अहसान है? गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज़ देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें 35 मगर तुम अपने दुश्मनों से मुहब्बत रखो, और नेकी करो, और बग़ैर न उम्मीद हुए कर्ज़ दो तो तुम्हारा अज़्र बड़ा होगा और तुम ख़ुदा के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो न — शक़ों और बदों पर

भी महरबान है। 36 जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो।" 37 "ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी 'ऐबजोई न की जाएगी। मुजरिम न ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। इज्जत दो, तुम भी इज्जत पाओगे। 38 दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब — दाब कर और हिला — हिला कर और लबरेज़ करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा।" 39 "और उसने उनसे एक मिसाल भी दी "क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गधे में न गिरेंगे?" 40 शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। 41 तू क्यूँ अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है, और अपनी आँख के शहतीर पर गौर नहीं करता? 42 और जब तू अपनी आँख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यूँकर कह सकता है, कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आँख में है निकाल दूँ? ऐ रियाकार। पहले अपनी आँख में से तो शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आँख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। 43 "क्यूँकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और न कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए।" 44 हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्यूँकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। 45 "अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खज़ाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खज़ाने से बुरी चीज़ें निकालता है; क्यूँकि जो दिल में भरा है वही उसके मुँह पर आता है।" 46 "जब मेरे कहने पर 'अमल नहीं करते तो क्यूँ मुझे 'ख़ुदावन्द, ख़ुदावन्द' कहते हो। 47 जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर 'अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसकी तरह है। 48 वो उस आदमी की तरह है जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली, जब तूफ़ान आया और सैलाब उस घर से टकराया, तो उसे हिला न सका क्यूँकि वो मज़बूत बना हुआ था। 49 लेकिन जो सुनकर 'अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की तरह है जिसने ज़मीन पर घर को बे — बुनियाद बनाया, जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फ़ौरन गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बरबाद हुआ।"

**7** जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफ़रनहूम में आया। 2 और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको 'प्यारा था, बीमारी से मरने को था। 3 उसने ईसा की ख़बर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख़्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। 4 वो ईसा के पास आए और उसकी बड़ी ख़ुशामद कर के कहने लगे, "वो इस लायक है कि तू उसकी ख़ातिर ये करे। 5 क्यूँकि वो हमारी कौम से मुहब्बत रखता है और हमारे 'इबादतखाने को उसी ने बनवाया।" 6 ईसा उनके साथ

चला मगर जब वो घर के करीब पहुँचा तो सबेदार ने कुछ दोस्तों के बादशाही महलों में होते हैं। 26 तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या जरिए उसे ये कहला भेजा, “ऐ खुदावन्द तकलीफ न कर, क्योंकि मैं एक नबी? हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। 27 ये इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। 7 इसी वजह से मैंने वही है जिसके बारे में लिखा है: “देख, मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक न समझा, बल्कि ज़बान भेजता हूँ, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा।” 28 “मैं तुम से से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। 8 क्योंकि मैं भी दूसरे के कहता हूँ कि जो 'औरतों से पैदा हुए है, उनमें यहून्ना बपतिस्मा ताबे में हूँ, और सिपाही मेरे मातहत हैं; जब एक से कहता हूँ कि 'जा' देनेवाले से कोई बड़ा नहीं लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ 'आ' तो वो आता है, और अपने है वो उससे बड़ा है।” 29 और सब 'आम लोगों ने जब सुना, तो नौकर से कि 'ये कर' तो वो करता है।” 9 इसा ने ये सुनकर उस पर उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यहून्ना का बपतिस्मा लेकर ता'ज्जुब किया, और मुड़ कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी खुदा को रास्तबाज़ मान लिया। 30 मगर फ़रीसियों और शार' के कहा, “मैं तुम से कहता हूँ कि मैंने ऐसा इमान इझाईल में भी नहीं 'आलिमों ने उससे बपतिस्मा न लेकर खुदा के इरादे को अपनी पाया।” 10 और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर निस्वत बातिल कर दिया। 31 “पस इस ज़माने के आदमियों को मैं को तन्दस्त पाया। 11 थोड़े 'अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाईन किससे मिसाल दूँ, वो किसकी तरह है? 32 उन लड़कों की तरह है नाम एक शहर को गया। उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके जो बाज़ार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हम ने हमराह थे। 12 जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुँचा तो देखो, तुम्हारे लिए बाँसुरी बजाई और तुम न नाचे, हम ने मातम किया और एक मुर्द को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था तुम न रोए। 33 क्योंकि यहून्ना बपतिस्मा देनेवाला न तो रोटी खाता और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। 13 उसे हुआ आया न मय पीता हुआ और तुम कहते हो कि उसमें बदरूह है। देखकर खुदावन्द को तरस आया और उससे कहा, “मत रो!” 14 34 इन्न — ए — आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो, खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। 35 लेकिन हिक्मत अपने सब लड़कों की तरफ से रास्त साबित हुई।” 36 फिर किसी फ़रीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा, पस वो उस फ़रीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। 37 तो देखो, एक बदचलन 'औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फ़रीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संग — ए — सारे यहूदिया और तमाम आस पास में फैल गई। 18 और यहून्ना को मरमर के 'इन्द्रदान में 'इन्न लाई; 38 और उसके पाँव के पास रोती हुई उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। 19 इस पर यहून्ना ने पीछे खड़े होकर, उसके पाँव आँसुओं से भिगोने लगी और अपने अपने शागिर्दों में से दो को बुला कर खुदावन्द के पास ये पूछने को भेजा, कि “आने वाला तू ही है, या हम किसी दूसरे की राह देखें।” पर इन्न डाला। 39 उसकी दा'वत करने वाला फ़रीसी ये देख कर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी “होता तो जानता कि 20 उन्होंने उसके पास आकर कहा, यहून्ना बपतिस्मा देनेवाले ने हमें जो उसे छूती है वो कौन और कैसी 'औरत है, क्योंकि बदचलन राह देखें। 21 उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों में डाला है।” 40 इसा, ने जवाब में उससे कहा, “ऐ शमौन! मुझे तुझे से कुछ और बदरूहों से नजात बख्शी और बहुत से अन्धों को बीनाई 'अता कहना है।” उसने कहा, “ऐ उस्ताद कह।” 41 “किसी साहकार के की। 22 उसने जवाब में उनसे कहा, “जो कुछ तुम ने देखा और दो कर्जदार थे, एक पाँच सौ दीनार का दूसरा पचास का। 42 जब सुना है जाकर यहून्ना से बयान कर दो कि अन्धे देखते, लंगड़े चलते उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्शा फिरते हैं, कौड़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं मुर्दे जिन्दा दिया। पस उनमें से कौन उससे ज़्यादा मुहब्बत रखेगा?” 43 शमौन किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। 23 मुबारिक है ने जवाब में कहा, “मेरी समझ में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा।” वो जो मेरी वजह से ठोकर न खाए।” 24 जब यहून्ना के कासिद उसने उससे कहा, “तू ने ठीक फैसला किया है।” 44 और उस चले गए तो इसा यहून्ना' के हक में कहने लगा, “तुम वीराने में क्या 'औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, “क्या तू इस 'औरत को देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को?” 25 तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो दिया; मगर इसने मेरे पाँव आँसुओं से भिगो दिए, और अपने बालों चमकदार पोशाक पहनते और 'ऐश — ओ — अशरत में रहते हैं, वो से पोंछे। 45 तू ने मुझ को बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया

हूँ मेरे पाँव चूमना न छोडा। 46 तू ने मेरे सिर में तेल न डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर 'इत्र डाला है। 47 इसी लिए मैं तुझ से कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मु'आफ़ हुए क्योंकि इसने बहुत मुहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह मु'आफ़ हुए वो थोड़ी मुहब्बत करता है।" 48 और उस 'औरत से कहा, "तैरे गुनाह मु'आफ़ हुए।" 49 इसी पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, "ये कौन है जो गुनाह भी मु'आफ़ करता है?" 50 मगर उसने 'औरत से कहा, "तैरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा।"

**8** थोड़े 'अरसे के बाद यूँ हुआ कि वो ऐलान करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर — शहर और गाँव — गाँव फिरने लगा, और वो बारह उसके साथ थे। 2 और कुछ 'औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बिमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से सात बद्रूहें निकली थीं, 3 और युहन्ना हेरोदेस के दिवान खूजा की बीवी, और सुसन्ना, और बहुत सी और 'औरतें भी थीं; जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। 4 फिर जब बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने मिसाल में कहा, 5 "एक बोने वाला अपने बीज बोने निकला, और बोते वक़्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिन्दों ने उसे चुग लिया। 6 और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको नमी न पहुँची। 7 और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ — साथ बढ़कर उसे दबा लिया। 8 और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उग कर सौ गुना फल लाया।" ये कह कर उसने पुकारा, "जिसके सुनने के कान हों वो सुन लो।" 9 उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये मिसाल क्या है। 10 उसने कहा, "तुम को खुदा की बादशाही के राज़ों की समझ दी गई है, मगर औरों को मिसाल में सुनाया जाता है, ताकि 'देखते हुए न देखें, और सुनते हुए न समझें। 11 वो मिसाल ये है, कि "बीज खुदा का कलाम है। 12 राह के किनारे के वो हैं, जिन्होंने सुना फिर शैतान आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है ऐसा न हो कि वो ईमान लाकर नजात पाएँ। 13 और चट्टान पर वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कुबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ते मगर कुछ 'अरसे तक ईमान रख कर आजमाइश के वक़्त मुड़ जाते हैं। 14 और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं, जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिन्दगी की फ़िक्रों और दौलत और 'ऐश — ओ — अशरत में फँस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। 15 मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं, जो कलाम को सुनकर 'उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं।" 16 "कोई शरख़ चराग जला कर बरतन से नहीं छिपाता न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि अन्दर आने वालों को रौशनी दिखाई दे। 17 क्योंकि कोई

चीज़ छिपी नहीं जो जाहिर न हो जाएगी, और न कोई ऐसी छिपी बात है जो मौँलूम न होगी और सामने न आए। 18 पस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो? क्योंकि जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है।" 19 फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ की वजह से उस तक न पहुँच सके। 20 और उसे खबर दी गई, "तेरी माँ और तैरे भाई बाहर खड़े हैं, और तुझ से मिलना चाहते हैं।" 21 उसने जवाब में उनसे कहा, "मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं, जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर 'अमल करते हैं।" 22 फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द नाव में सवार हुए। उसने उनसे कहा, "आओ, झील के पार चलें" वो सब रवाना हुए। 23 मगर जब नाव चली जाती थी तो वो सो गया। और झील पर बड़ी आँधी आई और नाव पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। 24 उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, "साहेब! साहेब! हम हलाक हुए जाते हैं!" उसने उठकर हवा को और पानी के जोर — शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। 25 उसने उनसे कहा, "तुम्हारा ईमान कहाँ गया?" वो डर गए और ता'अज्जुब करके आपस में कहने लगे, "ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुकम देता है और वो उसकी मानते हैं!" 26 फिर वो गिरासीनियों के 'इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। 27 जब वो किनारे पर उतरा तो शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बद्रूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। 28 वो ईसा को देख कर चिल्लाया और उसके आगे गिर कर बुलन्द आवाज़ से कहने लगा, "ऐ ईसा! खुदा के बेटे, मुझे तुझ से क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे 'ऐज़ाब में न डाल।" 29 क्योंकि वो उस बद्रूह को हुकम देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था; और हर चन्द लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बद्रूह उसको वीरानों में भगाए फिरती थी। 30 ईसा ने उससे पूछा, "तेरा क्या नाम है?" उसने कहा, "लश्कर!" क्योंकि उसमें बहुत सी बद्रूहें थीं। 31 और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि "हमें गहरे गड्ढे में जाने का हुकम न दे।" (Abyssos g12) 32 वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गोल चर रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अन्दर जाने दे, उसने उन्हें जाने दिया। 33 और बद्रूहें उस आदमी में से निकल कर सूअरों के अन्दर गईं और गोल किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। 34 ये माजरा देख कर चराने वाले भागे और जाकर शहर और गाँव में खबर दी। 35 लोग उस माजरे को देखने को निकले, और ईसा के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बद्रूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में ईसा के पाँव के पास

बैठे पाया और डर गए। 36 और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। 37 गिरासीनियों के आस पास के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा; क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। पस वो नाव में बैठकर वापस गया। 38 लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर ईसा ने उसे सख्त करके कहा, 39 “अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर, कि ख़ुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।” वो खाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि ईसा ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। 40 जब ईसा वापस आ रहा था तो लोग उससे ख़ुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह देखते थे। 41 और देखो, याईर नाम एक शख्स जो 'इबादतखाने का सरदार था, आया और ईसा के कदमों पे गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, 42 क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो तकरीबन बारह बरस की थी, मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। 43 और एक औरत ने जिसके बारह बरस से खून जारी था, और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी, और किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी; 44 उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा हुआ, और उसी दम उसका खून बहना बन्द हो गया। 45 इस पर ईसा ने कहा, “वो कौन है जिसने मुझे छुआ?” जब सब इन्कार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, “ए साहेब! लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं।” 46 मगर ईसा ने कहा, “किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मा'लूम किया कि कुव्वत मुझ से निकली है।” 47 जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो वो काँपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस वजह से तुझे छुआ, और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। 48 उसने उससे कहा, “बेटी! तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा।” 49 वो ये कह ही रहा था कि 'इबादतखाने के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई: उस्ताद को तकलीफ न दे।” 50 ईसा ने सुनकर जवाब दिया, “ख़ौफ न कर; फ़क़त 'ऐतिक़ाद रख, वो बच जाएगी।” 51 और घर में पहुँचकर पतरस, यहून्ना और या'क़ूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अन्दर न जाने दिया। 52 और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, “मातम न करो! वो मर नहीं गई बल्कि सोती है।” 53 वो उस पर हँसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। 54 मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, “ए लड़की, उठ!” 55 उसकी रूह वापस आई और वो उसी दम उठी। फिर ईसा ने हुक्म दिया, लड़की को कुछ खाने को दिया जाए।” 56 माँ बाप हैरान हुए। उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना।

9 फिर उसने उन बारह को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख़्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। 2 और उन्हें ख़ुदा की बादशाही का ऐलान करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, 3 और उसने कहा, “राह के लिए कुछ न लेना, न जिस घर में दाख़िल हो वहीं रहना और वहीं से खाना होना; 5 और जिस शहर के लोग तुम्हें कुबूल न करें, उस शहर से निकलते वक़्त अपने पाँव की धूल झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो।” 6 पस वो खाना होकर गाँव गाँव ख़ुशख़बरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। 7 चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदेस सब अहवाल सुन कर घबरा गया, इसलिए कि कुछ ये कहते थे कि यहून्ना मुर्दों में से जी उठा है, 8 और कुछ ये कि एलियाह जाहिर हुआ, और कुछ ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। 9 मगर हेरोदेस ने कहा, “यहून्ना का तो मैं ने सिर कटवा दिया, अब ये कौन जिसके बारे में ऐसी बातें सुनता हूँ?” पस उसे देखने की कोशिश में रहा। 10 फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया; और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। 11 ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो ख़ुशी के साथ उनसे मिला और उससे ख़ुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मुहताज थे उन्हें शिफा बख़्शी। 12 जब दिन ढलने लगा तो उन बारह ने आकर उससे कहा, “भीड़ को सख्त कर के चारों तरफ के गाँव और बस्तियों में जा टिकें और खाने का इन्तिज़ाम करें।” क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। 13 उसने उनसे कहा, “तुम ही उन्हें खाने को दो,” उन्होंने कहा, “हमारे पास सिर्फ पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ हैं, मगर हाँ हम जा जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आएँ।” 14 क्योंकि वो पाँच हज़ार मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा, “उनको तकरीबन पचास — पचास की कतारों में बिठाओ।” 15 उन्होंने उसी तरह किया और सब को बिठाया। 16 फिर उसने वो पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ लीं और आसमान की तरफ देख कर उन पर बर्कत बख़्शी, और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। 17 उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए बे इस्तेमाल खाने की बारह टोकरियाँ उठाई गईं। 18 जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा, “लोग मुझे क्या कहते हैं?” 19 उन्होंने जवाब में कहा, “यहून्ना बपतिस्मा देनेवाला और कुछ एलियाह कहते हैं, और कुछ ये कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है।” 20 उसने उनसे कहा, “लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?” पतरस ने जवाब में कहा, “ख़ुदावन्द का मसीह।” 21 उसने उनको हिदायत करके हुक्म दिया कि ये किसी से न कहना, 22 और कहा, “ज़स्र है इब्न — ए

— आदम बहुत दुःख उठाए और बुर्जुआ और सरदार काहिन और आलिम उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे।” 23 और उसने सब से कहा, “अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। 24 क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे, वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। 25 और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या नुकसान उठाए तो उसे क्या फाइदा होगा? 26 क्योंकि जो कोई मुझ से और मेरी बातों से शरमाएगा, इब्न — ए — आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिशतों के जलाल में आएगा तो उस से शरमाएगा। 27 लेकिन मैं तुम से सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं कुछ ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख न लें मौत का मज्जा हरगिज़ न चखेंगे।” 28 फिर इन बातों के कोई आठ रोज बाद ऐसा हुआ, कि वो पतरस और यहून्ना और याकूब को साथ लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। 29 जब वो दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई, और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। 30 और देखो, दो शख्स या'नी मूसा और एलियाह उससे बातें कर रहे थे। 31 ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इन्तकाल का जिक्र करते थे, जो येरूशलेम में वाके' होने को था। 32 मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह जागे, तो उसके जलाल को और उन दो शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। 33 जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने ईसा से कहा, “ऐ उस्ताद! हमारा यहाँ रहना अच्छा है: पस हम तीन डेरे बनाएँ, एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए।” लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। 34 वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। 35 और बादल में से एक आवाज़ आई, “ये मेरा चुना हुआ बेटा है, इसकी सुनो।” 36 ये आवाज़ आते ही ईसा अकेला दिखाई दिया; और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर न दी। 37 दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे, तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। 38 और देखो एक आदमी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, “ऐ उस्ताद! मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नज़र कर; क्योंकि वो मेरा इकलौता है। 39 और देखो, एक रूह उसे पकड़ लेती है, और वो यकायक चीख उठता है; और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ़ भर लाता है, और उसको कुचल कर मुखिकल से छोड़ती है। 40 मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दें, लेकिन वो न निकाल सके।” 41 ईसा ने जवाब में कहा, “ऐ कम इमान वालों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? अपने बेटे को ले आ।” 42 वो

आता ही था कि बदरूह ने उसे पटक कर मरोड़ा और ईसा ने उस नापाक रूह को झिड़का और लडके को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। 43 और सब लोग खुदा की शान देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक़्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ता'ज्जुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, 44 “तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्न — ए — आदम आदमियों के हवाले किए जाने को है।” 45 लेकिन वो इस बात को समझते न थे, बल्कि ये उनसे छिपाई गई ताकि उसे मा'लूम न करें; और इस बात के बारे में उससे पछते हुए डरते थे। 46 फिर उनमें ये बहस शुरू हुई, कि हम में से बड़ा कौन है? 47 लेकिन ईसा ने उनके दिलों का खयाल मा'लूम करके एक बच्चे को लिया, और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, 48 “जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कुबूल करता है, वो मुझे कुबूल करता है; और जो मुझे कुबूल करता है, वो मेरे भेजेवाले को कुबूल करता है; क्योंकि जो तुम में सब से छोटा है वही बड़ा है” 49 यहून्ना ने जवाब में कहा, “ऐ उस्ताद! हम ने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूह निकालते देखा, और उसको मनह' करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता।” 50 लेकिन ईसा ने उससे कहा, “उसे मनह' न करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है।” 51 जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने येरूशलेम जाने को कमर बाँधी। 52 और आगे कासिद भेजे, वो जाकर सामरियों के एक गाँव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें 53 लेकिन उन्होंने उसको टिकने न दिया, क्योंकि उसका स्रख येरूशलेम की तरफ था। 54 ये देखकर उसके शागिर्द या'कूब और यहून्ना ने कहा, “ऐ खुदावन्द, क्या तू चाहता है कि हम हुकम दें कि आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें भस्म कर दे [जैसा एलियाह ने किया]?” 55 मगर उसने फिरकर उन्हें झिड़का [और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। क्योंकि इब्न — ए — आदम लोगों की जान बरबाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है] 56 फिर वो किसी और गाँव में चले गए। 57 जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, “जहाँ कहीं तू जाए, मैं तेरे पीछे चलूँगा।” 58 ईसा ने उससे कहा, “लोमडियों के भठ होते हैं और हवा के परिन्दों के घोंसले, मगर इब्न — ए — आदम के लिए सिर रखने की भी जगह नहीं।” 59 फिर उसने दूसरे से कहा, “मेरे पीछे हो ले।” उसने जवाब में कहा, “ऐ खुदावन्द! मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूँ।” 60 उसने उससे कहा, “मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला।” 61 एक और ने भी कहा, “ऐ खुदावन्द! मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर वालों से सख़्त हो आऊँ।” 62 ईसा



ने उससे कहा, “जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं।”

**10** इन बातों के बाद खुदावन्द ने सन्तर आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। 2 और वो उनसे कहने लगा, “फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं; इसलिए फसल के मालिक की मिनत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे।” 3 जाओ; देखो, मैं तुम को गोया बरों को भेड़ियों के बीच मैं भेजता हूँ। 4 न बटुवा ले जाओ न झोली, न जूतियाँ और न राह में किसी को सलाम करो। 5 और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो, 'इस घर की सलामती हो। 6 अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जन्द होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। 7 उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ — पीओ, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, घर घर न फिरो। 8 जिस शहर में दाखिल हो वहाँ के लोग तुम्हें कुबूल करें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ; 9 और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो, 'खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुँची है। 10 लेकिन जिस शहर में तुम दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कुबूल न करें, तो उनके बाजारों में जाकर कहो कि, 11 'हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पैरों में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुँची है। 12 मैं तुम से कहता हूँ कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। 13 “ऐ खुराजीन शहर, तुझ पर अफसोस! ऐ बैतसैदा शहर, तुझ पर अफसोस! क्योंकि जो मोजिजे तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा शहर में जाहिर होते, तो वो टाट ओढकर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते।” 14 मगर 'अदालत में सूर और सैदा शहर का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। 15 और तू ऐ कफरनहम, क्या तू आसमान तक बुलन्द किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू 'आलम — ऐ — अर्वाह में उतारा जाएगा। (HadEs g86)

16 “जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजनेवाले को नहीं मानता।” 17 वो सन्तर खुश होकर फिर आए और कहने लगे, “ऐ खुदावन्द, तेरे नाम से बदस्हें भी हमारे ताबे हैं।” 18 उसने उनसे कहा, “मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। 19 देखो, मैंने तुम को इख्तियार दिया कि साँपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुम को हरगिज़ किसी चीज़ से नुकसान न पहुँचेगा। 20 तोभी इससे खुश न हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं।” 21 उसी घड़ी वो रु

— उल — कुदूस से खुशी में भर गया और कहने लगा, “ऐ बाप! आसमान और ज़मीन के खुदावन्द, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें होशियारों और 'अक्लमन्दों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की हैं, ऐ, बाप क्योंकि ऐसा ही तुझे पसन्द आया। 22 मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया; और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे।” 23 और शागिर्दों की तरफ मूखातिब होकर खास उन्हीं से कहा, “मुबारिक है वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो। 24 क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनें मगर न सुनीं।” 25 और देखो, एक शरा का आलिम उठा, और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, “ऐ उस्ताद, मैं क्या करूँ कि हमेशा की जिन्दगी का बारिस बनूँ?” (aiōnios g166)

26 उसने उससे कहा, “तौरत में क्या लिखा है? तू किस तरह पढता है?” 27 उसने जवाब में कहा, “खुदावन्द अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी 'अक्ल से मुहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मुहब्बत रख।” 28 उसने उससे कहा, “तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा।” 29 मगर उसने अपने आप को रास्तबाज़ ठहराने की गरज़ से ईसा से पूछा, “फिर मेरा पड़ोसी कौन है?” 30 ईसा ने जवाब में कहा, “एक आदमी येरुशलैम से यरीह की तरफ जा रहा था कि डाकूओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमरा छोड़कर चले गए। 31 इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, और उसे देखकर कतरा कर चला गया। 32 इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 33 लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहाँ आ निकला, और उसे देखकर उसने तरस खाया। 34 और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मय लगा कर बाँधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी देखरेख की। 35 दूसरे दिन दो दीनार निकालकर भटयारे को दिए और कहा, 'इसकी देख भाल करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूँगा। 36 इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकूओं में घिर गया था तेरी नज़र में कौन पड़ोसी ठहरा?” 37 उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया ईसा ने उससे कहा, “जा तू भी ऐसा ही कर।” 38 फिर जब जा रहे थे तो वो एक गाँव में दाखिल हुआ और मर्था नाम 'औरत ने उसे अपने घर में उतारा। 39 और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो ईसा के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। 40 लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई, पस उसके पास आकर कहने लगी, “ऐ खुदावन्द, क्या

तुझे खयाल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, पस उसे कह कि मेरी मदद करे।” 41 खुदावन्द ने जवाब में उससे कहा, “मर्था, मर्था, तू बहुत सी चीजों की फ़िक्र — ओ — तरदु में है। 42 लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा।”

**11** फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह हुआ कर रहा था; जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, “ऐ खुदावन्द! जैसा यहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा।” 2 उसने उससे कहा, “जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप! तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। 3 हमारी रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर। 4 और हमारे गुनाह मु'आफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्ज़दार को मु'आफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न ला।” 5 फिर उसने उससे कहा, “तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो, और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, 'ऐ दोस्त, मुझे तीन रोटियाँ दे। 6 क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है, और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूँ। 7 और वो अन्दर से जवाब में कहे, 'मुझे तकलीफ़ न दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। 8 मैं तुम से कहता हूँ, कि अगरचे वो इस वजह से कि उसका दोस्त है उठकर उसे न दे, तोभी उसकी बेशर्मी की वजह से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। 9 पस मैं तुम से कहता हूँ, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँडो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 10 क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है, और जो ढूँडता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 11 तुम में से ऐसा कौन सा बाप है, कि जब उसका बेटा रोटी माँग तो उसे पत्थर दे; या मछली माँग तो मछली के बदले उसे साँप दे? 12 या अंडा माँग तो उसे बिच्छू दे? 13 पस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने माँगने वालों को रह — लु — कुदूस क्यों न देगा।” 14 फिर वो एक ग़ुँगी बद्रुह को निकाल रहा था, और जब वो बद्रुह निकल गई तो ऐसा हुआ कि ग़ुँगा बोला और लोगों ने ता'ज्जुब किया। 15 लेकिन उनमें से कुछ ने कहा, “ये तो बद्रुहों के सरदार बा'लज़बूल की मदद से बद्रुहों को निकालता है।” 16 कुछ और लोग आज़माइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे। 17 मगर उसने उनके खयालात को जानकर उससे कहा, “जिस सलतनत में फूट पड़े, वो वीरान हो जाती है; और जिस घर में फूट पड़े, वो बरबाद हो जाता है। 18 और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ़ हो जाए, तो उसकी सलतनत किस तरह काईम रहेगी? क्योंकि तुम मेरे बारे में कहते हो, कि ये बद्रुहों को बा'लज़बूल की मदद से निकालता है। 19 और

अगर मैं बद्रुहों को बा'लज़बूल की मदद से निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? पस वही तुम्हारा फैसला करेंगे। 20 लेकिन अगर मैं बद्रुहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। 21 जब ताकतवर आदमी हथियार बाँधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है, तो उसका माल महफूज़ रहता है। 22 लेकिन जब उससे कोई ताकतवर हमला करके उस पर गालिब आता है, तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बाँट देता है। 23 जो मेरी तरफ़ नहीं वो मेरे खिलाफ़ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है।” 24 “जब नापाक रह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूँडती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, 'मैं अपने उसी घर में लौट जाऊँगी जिससे निकली हूँ। 25 और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। 26 फिर जाकर और सात रूहें अपने से बुरी अपने साथ ले आती है और वो उसमें दाखिल होकर वहाँ बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है।” 27 जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक 'औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारिक है वो पेट जिसमें तू रहा और वो आंचल जो तू ने पिए।” 28 उसने कहा, “हाँ; मगर ज़्यादा मुबारिक वो है जो खुदा का कलाम सुन्ते और उस पर 'अमल करते हैं।” 29 जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगा, “इस ज़माने के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं; मगर यहन्ना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा।” 30 क्योंकि जिस तरह यहन्ना निनवे के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्न — ए — आदम भी इस ज़माने के लोगों के लिए ठहरेगा। 31 दक्खिन की मलिका इस ज़माने के आदमियों के साथ 'अदालत के दिन उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलैमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो, यहाँ वो है जो सुलैमान से भी बड़ा है। 32 निनवे के लोग इस ज़माने के लोगों के साथ, 'अदालत के दिन खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएँगे; क्योंकि उन्होंने यहन्ना के एलान पर तौबा कर ली, और देखो, यहाँ वो है जो यहन्ना से भी बड़ा है। 33 “कोई शरख़ चराग़ जला कर तहखाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि चराग़दान पर रखता है ताकि अन्दर जाने वालों को रोशनी दिखाई दे। 34 तेरे बदन का चराग़ तेरी आँख है, जब तेरी आँख दुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक़ है। 35 पस देख, जो रोशनी तुझ में है तारीक़ी तो नहीं! 36 पस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक़ न रहे, तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक़्त होता है जब चराग़ अपने चमक से रोशन करता है।” 37 जो वो बात कर रहा था तो किसी फ़रीसी ने उसकी दा'वत की। पस वो

अन्दर जाकर खाना खाने बैठा। 38 फ्रीसी ने ये देखकर ता'अज्जब इसलिए जो कुछ तुम ने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा; किया कि उसने खाने से पहले गुस्त नहीं किया। 39 खुदावन्द ने और जो कुछ तुम ने कोठरियों के अन्दर कान में कहा है, छतों पर उससे कहा, “ऐ फ्रीसियों! तुम प्याले और तशरी को ऊपर से तो उसका एलान किया जाएगा।” 4 “मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अन्दर लूट और बर्दी भरी है।” 40 ऐ कि उनसे न डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, और उसके बाद और नादानों! जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अन्दर को नहीं बनाया? कुछ नहीं कर सकते।” 5 लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे 41 हों! अन्दर की चीजें खैरात कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे डरना चाहिए, उससे डरो जिसे इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद लिए पाक होगा। 42 “लेकिन ऐ फ्रीसियों! तुम पर अफसोस, कि जहननुम में डाले; हों, मैं तुम से कहता हूँ कि उसी से डरो। (Geenna 91067) 6 क्या दो पैसे की पाँच चिड़िया नहीं बिकती? तो भी खुदा और इन्साफ और खुदा की मुहब्बत से गाफिल रहते हो; लाज़िम था के सामने उनमें से एक भी फ़रामोश नहीं होती। 7 बल्कि तुम्हारे कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। 43 ऐ फ्रीसियों! तुम पर सिर के सब बाल भी गिने हुए है; डरो, मत तुम्हारी कद्र तो बहुत सी अफसोस, कि तुम 'इबादतखानों में आ'ला दर्जे की कुर्सियों और चिड़ियों से ज्यादा है। 8 “और मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्न — ए — आदम भी उन छिपी हुई कब्रों की तरह हो जिन पर आदमी चलते है, और खुदा के फ़रिशतों के सामने उसका इकरार करेगा।” 9 “मगर जो उनको इस बात की खबर नहीं।” 45 फिर शरा' के 'आलिमों में आदमियों के सामने मेरा इन्कार करे, खुदा के फ़रिशतों के सामने से एक ने जवाब में उससे कहा, “ऐ उस्ताद! इन बातों के कहने उसका इन्कार किया जाएगा। 10 और जो कोई इब्न — ए — से तु हमें भी बे'इज्जत करता है।” 46 उसने कहा, “ऐ शरा' के आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको मु'आफ़ किया जाएगा; 'आलिमों! तुम पर भी अफसोस, कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना लेकिन जो रुह — उल — कुदूस के हक में कुफ़्र बके, उसको मुश्किल है, आदमियों पर लादते हो और तुम एक उंगली भी उन मु'आफ़ न किया जाएगा।” 11 “और जब वो तुम को 'इबादतखानों बोझों को नहीं लगाते। 47 तुम पर अफसोस, कि तुम तो नबियों की में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाँ, तो फ़िक्र न करणों को बनाते हो और तुम्हारे बाप — दादा ने उनको कत्ल किया करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें। 12 क्योंकि था। 48 पस तुम गवाह हो और अपने बाप — दादा के कामों को रुह — उल — कुदूस उसी वक़्त तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना पसन्द करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम चाहिए।” 13 “फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद! मेरे उनका कब्रें बनाते हो। 49 इसी लिए खुदा की हिक्मत ने कहा है, मैं भाई से कह कि मेरे बाप की जायदाद का मेरा हिस्सा मुझे दे।” 14 नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूँगी, वो उनमें से कुछ को उसने उससे कहा, “मियाँ! किसने मुझे तुम्हारा मुन्सिफ़ या बाँटने कत्ल करेंगे और कुछ को सताएँगे। 50 ताकि सब नबियों के खून वाला मुकर्रर किया है?” 15 और उसने उससे कहा, “खबरदार! अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखवो, क्योंकि किसी का जो बिना — ए — 'आलम से बहाया गया, इस ज़माने के लोगों की जिन्दगी उसके माल की ज्यादाती पर मौकूफ़ नहीं।” 16 और उसने उससे एक मिसाल कही, “किसी दौलतमन्द की ज़मीन में बड़ी से हिसाब किताब लिया जाए। 51 हाबिल के खून से लेकर उस की ज़िन्दगी उसके माल की ज्यादाती पर मौकूफ़ नहीं।” 16 और जकरियाह के खून तक, जो कुर्बानगाह और मक्बिदस के बीच में उसने उससे एक मिसाल कही, “किसी दौलतमन्द की ज़मीन में बड़ी हलाक हुआ। मैं तुम से सच कहता हूँ कि इसी ज़माने के लोगों से फ़सल हुई।” 17 पस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। 52 ऐ शरा' के 'आलिमों! तुम रखवूँ?” 18 उसने कहा, मैं यूँ करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढा कर पर अफसोस, कि तुम ने मा'रिफ़त की कुंजी छीन ली, तुम खुद भी उनसे बड़ी बनाऊँगा; 19 और उनमें अपना सारा अनाज और माल दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका।” 53 जब वो भर दूँगा और अपनी जान से कहूँगा, कि ऐ जान! तेरे पास बहुत वहाँ से निकला, तो आलिम और फ़्रीसी उसे बे — तरह चिपटने और अपनी जान से कहूँगा, कि ऐ जान! तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है; चैन कर, खा पी खुश रह।' 20 मगर खुदा ने उससे कहा, 'ऐ नादान! इसी रात तेरी जान तुझ से छेड़ने लगे ताकि वो बहुत से बातों का जिक्र करे, 54 और तलब कर ली जाएगी, पस जो कुछ तू ने तैयार किया है वो किसका उसकी घात में रहे ताकि उसके मुँह की कोई बात पकड़े। होगा?’ 21 ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है, और खुदा के नज़दीक दौलतमन्द नहीं।” 22 फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, “इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र न करो कि हम क्या खाएँगे, और न अपने बदन की कि क्या

**12** इतने में जब हज़ारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया, “उस खमीर से होशियार रहना जो फ़्रीसियों की रियाकारी है। 2 क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली न जाएगी, और न कोई चीज़ छिपी है जो जानी न जाएगी। 3

पहनेगे।” 23 क्योंकि जान खुराक से बढ़ कर है और बदन पोशाक से। 24 परिन्दों पर गौर करो कि न बोते हैं और न काटते, न उनके खिन्ता होता है न कोठी; तोभी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कद्र तो परिन्दों से कहीं ज्यादा है। 25 तुम में ऐसा कोन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? 26 पस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? 27 सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं; वो न मेहनत करते हैं न कातते हैं, तोभी मैं तुम से कहता हूँ कि सुलैमान भी बावजूद अपनी सारी शान — ओ — शौकत के उनमें से किसी की तरह मुल्बस न था। 28 पस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तद्दूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है; तो ऐ कम ईमान वालो! तुम को क्यों न पहनाएगा? 29 और तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे या क्या पीएंगे, और न शक्की बनो। 30 क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मुहताज हो। 31 हौं, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएँगी।” 32 “ऐ छोटे गल्ले, न डर; क्योंकि तुम्हारे आसमानी बाप को पसन्द आया कि तुम्हें बादशाही दे। 33 अपना माल अस्बाब बेचकर खैरात कर दो, और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते; या'नि आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता, और कीड़ा खराब नहीं करता। 34 क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है, वही तुम्हारा दिल भी रहेगा।” 35 “तुम्हारी कमरें बाँधी रहें और तुम्हारे चराग जलते रहें। 36 और तुम उन आदमियों की तरह बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फ़ौरन उसके लिए खोल दें। 37 मुबारिक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए; मैं तुम से सच कहता हूँ कि वो कमर बाँध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा, और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। 38 अगर वो रात के दूसरे पहरमें या तीसरे पहरमें आकर उनको ऐसे हाल में पाए, तो वो नौकर मुबारिक है। 39 लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मा'लूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नक्रब लगने न देता। 40 तुम भी तैयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम को गुमान भी न होगा, इब्न — ए — आदम आ जाएगा।” 41 पतरस ने कहा, “ऐ खुदावन्द, तू ये मिसाल हम ही से कहता है या सबसे।” 42 खुदावन्द ने कहा, “कौन है वो ईमानदार और 'अक्लामन्द, जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे हर एक की खुराक वक्रत पर बाँट दिया करे। 43 मुबारिक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। 44 मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार

कर देगा। 45 लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर मेरे मालिक के आने में देर है, गुलामों और लौंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे। 46 तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन, कि वो उसकी राह न देखता हो, आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। 47 और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली, और तैयारी न की और न उसकी मर्जी के मुताबिक 'अमल किया, बहुत मार खाएगा। 48 मगर जिसने न जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा; और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौपा गया उससे ज्यादा तलब करेगा।” 49 “मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही ख़ुश होता। 50 लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो हो न ले मैं बहुत ही तंग रहूँगा। 51 क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं, बल्कि चुदाई कराने। 52 क्योंकि अब से एक घर के पाँच आदमी आपस में दुश्मनी रखेंगे, दो से तीन और तीन से दो। 53 बाप बेटे से दुश्मनी रखेगा और बेटा बाप से, सास बहु से और बहु सास से।” 54 फिर उसने लोगों से भी कहा, “जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो तो फ़ौरन कहते हो कि पानी बरसेगा, और ऐसा ही होता है; 55 और जब तुम मा'लूम करते हो कि दक्खिन चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। 56 ऐ रियाकारो! ज़मीन और आसमान की सूरत में फर्क करना तुम्हें आता है, लेकिन इस ज़माने के बारे में फर्क करना क्यों नहीं आता?” 57 “और तुम अपने आप ही क्यों फ़ैसला नहीं कर लेते कि ठीक क्या है? 58 जब तू अपने दुश्मन के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो रास्ते में कोशीश करके उससे छूट जाए, ऐसा न हो कि वो तुझको फ़ैसला करने वाले के पास खीच ले जाए, और फ़ैसला करने वाला तुझे सिपाही के हवाले करे और सिपाही तुझे कैद में डाले। 59 मैं तुझ से कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी — दमड़ी अदान न कर देगा वहाँ से हरगिज़ न छूटेगा।”

**13** उस वक्रत कुछ लोग हाज़िर थे, जिन्होंने उसे उन ग़लतियों की खबर दी जिनका खून पिलातस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। 2 उसने जवाब में उनसे कहा, “इन ग़लतियों ने ऐसा दुःख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी समझ में और सब ग़लतियों से ज्यादा गुनहगार थे? 3 मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं; बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे, तो सब इसी तरह हलाक होंगे। 4 या, क्या वो अठारह आदमी जिन पर शिलोख का गुम्बद गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी समझ में येरूशलेम के और सब रहनेवालों से ज्यादा कुसूरवार थे? 5 मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं; बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे, तो सब इसी तरह हलाक होंगे।” 6 फिर उसने ये मिसाल

कही, “किसी ने अपने बाग में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूँढ़ने आया और न पाया। 7 इस पर उसने बागबान से कहा, ‘देख तीन बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूँढ़ने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे?’ 8 उसने जवाब में उससे कहा, ‘ऐ ख़ुदावन्द, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके चारों तरफ़ थाला खोदूँ और खाद डालूँ।’ 9 अगर आगे फला तो ख़ैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना।” 10 फिर वो सबत के दिन किसी ‘इबादतखाने में ता’लीम देता था। 11 और देखो, एक ‘औरत थी जिसको अठारह बरस से किसी बदरूह की वजह से कमज़ोरी थी; वो झुक गई थी और किसी तरह सीधी न हो सकती थी। 12 ईसा ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, “ऐ ‘औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई।” 13 और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और ख़ुदा की बड़ाई करने लगी। 14 ‘इबादतखाने का सरदार, इसलिए कि ईसा ने सबत के दिन शिफा बख़्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, “छ: दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, पस उन्हीं में आकर शिफा पाओ न कि सबत के दिन।” 15 ख़ुदावन्द ने उसके जवाब में कहा, “‘ऐ रियाकारो! क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को खूटे से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? 16 पस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्रहाम की बेटी है जिसको शैतान ने अठारह बरस से बाँध कर रखवा था, सबत के दिन इस कैद से छुड़ाई जाती?” 17 जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ़ शर्मिन्दा हुए, और सारी भीड़ उन ‘आलीशान कामों से जो उससे होते थे, ख़ुश हुई। 18 पस वो कहने लगा, “‘ख़ुदा की बादशाही किसकी तरह है? मैं उसको किससे मिसाल दूँ?” 19 वो राई के दाने की तरह है, जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया: वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया, और हवा के परिन्दों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया।” 20 उसने फिर कहा, “‘मैं ख़ुदा की बादशाही को किससे मिसाल दूँ?” 21 वो खमीर की तरह है, जिसे एक ‘औरत ने तीन पैमाने आटे में मिलाया, और होते होते सब खमीर हो गया।” 22 वो शहर — शहर और गाँव — गाँव ता’लीम देता हुआ येरूशलेम का सफ़र कर रहा था। 23 किसी शख्स ने उससे पूछा, “‘ऐ ख़ुदावन्द! क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं?” 24 उसने उससे कहा, “‘मेहनत करो कि तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से दाखिल होने की कोशिश करेंगे और न हो सकेंगे। 25 जब घर का मालिक उठ कर दरवाज़ा बन्द कर चुका हो, और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटाकर ये कहना शुरू करो, ‘ऐ ख़ुदावन्द! हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे, ‘मैं तुम को नहीं जानता कि कहाँ के हो।’ 26 उस वक़्त तुम कहना शुरू करोगे, ‘हम ने तो तेरे रु — ब — रु खाया — पिया और तू ने हमारे बाजारों में ता’लीम दी।’

27 मगर वो कहेगा, ‘मैं तुम से कहता हूँ, कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझ से दूर हो। 28 वहाँ रोना और दौत पीसना होगा; तुम अब्रहाम और इज़्हाक और याक़ूब और सब नबियों को ख़ुदा की बादशाही में शामिल, और अपने आपको बाहर निकाला हुआ देखोगे; 29 और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन से लोग आकर ख़ुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। 30 और देखो, कुछ आखिर ऐसे हैं जो अक्वल होंगे और कुछ अक्वल हैं जो आखिर होंगे।” 31 उसी वक़्त कुछ फ़रीसियों ने आकर उससे कहा, “निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है।” 32 उसने उनसे कहा, “जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम अन्जाम देता रहूँगा, और तीसरे दिन पूरा करूँगा। 33 मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुम्किन नहीं कि नबी येरूशलेम से बाहर हलाक हो।” 34 “ऐ येरूशलेम! ऐ येरूशलेम! तू जो नबियों को कत्ल करती है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूँ, मगर तुम ने न चाहा। 35 देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुम से कहता हूँ, कि मुझ को उस वक़्त तक हरगिज़ न देखोगे जब तक न कहोगे, ‘मुबारिक है वो, जो ख़ुदावन्द के नाम से आता है।’”

**14** फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फ़रीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया; और वो उसकी ताक में रहे। 2 और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलन्दर था। 3 ईसा ने शर’ के ‘आलिमों और फ़रीसियों से कहा, “सबत के दिन शिफा बख़्शना जायज़ है या नहीं?” 4 वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगा कर शिफा बख़्शी और स्रस्त किया, 5 और उससे कहा, “तुम में ऐसा कौन है, जिसका गधा या बैल कूएँ में गिर पड़े और वो सबत के दिन उसको फौरन न निकाल ले?” 6 वो इन बातों का जवाब न दे सके। 7 जब उसने देखा कि मेहमान सद्र जगह किस तरह पसन्द करते हैं तो उसने एक मिसाल कही, 8 “जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सद्र जगह पर न बैठ, कि शायद उसने तुझ से भी किसी ज़्यादा इज़्जतदार को बुलाया हो; 9 और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है, आकर तुझ से कहे, ‘इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिन्दा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। 10 बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझ देखे, ‘ऐ दोस्त, आगे बढ़कर बैठ, तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाने बैठे हैं तेरी इज़्जत होगी। 11 क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा; और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया

जाएगा।” 12 फिर उसने अपने बुलानेवाले से कहा, “जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे, तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमन्द पड़ोसियों को न बुला; ताकि ऐसा न हो कि वो भी तुझे बुलाएँ और तेरा बदला हो जाए। 13 बल्कि जब तू दावत करे तो गरीबों, लुन्जों, लंगडों, अन्धों को बुला। 14 और तुझ पर बर्कत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की कयामत में बदला मिलेगा।” 15 जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, “मुबारिक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए।” 16 उसने उसे कहा, “एक शख्स ने बड़ी दावत की और बहुत से लोगों को बुलाया। 17 और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हूँ उसे कहे, 'आओ, अब खाना तैयार है। 18 इस पर सब ने मिलकर मु'आफ्री मांगना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, 'मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूँ, मैं तेरी खुशामद करता हूँ, मुझे मु'आफ कर। 19 दूसरे ने कहा, 'मैंने पाँच जोड़ी बैल खरीदे हैं, और उन्हें आजमाने जाता हूँ, मैं तुझसे खुशामद करता हूँ, मुझे मु'आफ कर। 20 एक और ने कहा, 'मैंने शादी की है, इस वजह से नहीं आ सकता। 21 पस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर अपने नौकर से कहा, 'जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुन्जों, और लंगडों को यहाँ ले आओ। 22 नौकर ने कहा, 'ऐ खुदावन्द, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ; और अब भी जगह है। 23 मालिक ने उस नौकर से कहा, 'सडकों और खेत की बाड़ी की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। 24 क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा।” 25 जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, 26 “अगर कोई मेरे पास आए, और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। 27 जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे न आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता।” 28 “क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक गुम्बद बनाना चाहे, तो पहले बैठकर लागत का हिसाब न कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं? 29 ऐसा न हो कि जब नीव डालकर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हँसना शुरू करें कि, 30 इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर मुकम्मल न कर सका। 31 या कौन सा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं दस हजार से उसका मुकाबिला कर सकता हूँ या नहीं जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ आता है? 32 नहीं तो उसके दूर रहते ही एल्ची भेजकर सुलह

की गुजारिश करेगा। 33 पस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ छोड़ न दे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता।” 34 “नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। 35 न वो जमीन के काम का रहा न खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले।”

**15** सब महसूल लेनेवाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुनें। 2 और उलमा और फरीसी बुदबुदाकर कहने लगे, “ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है।” 3 उसने उनसे ये मिसाल कही, 4 “तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़ें हों, और उनमें से एक गुम हो जाए तो निनानवें को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूँडता न रहेगा? 5 फिर मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कन्धे पर उठा लेता है, 6 और घर पहुँचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, 'मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। 7 मैं तुम से कहता हूँ कि इसी तरह निनानवें, रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बा'इस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी।” 8 “या कौन ऐसी “औरत है जिसके पास दस दिरहम हों और एक खो जाए तो वो चराग जलाकर घर में झाड़ू न दे, और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूँडती न रहे। 9 और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर न कहे, 'मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि 'मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। 10 मैं तुम से कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करनेवाला गुनाहगार के बारे में खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है।” 11 फिर उसने कहा, “किसी शख्स के दो बेटे थे। 12 उनमें से छोटे ने बाप से कहा, 'ऐ बाप! माल का जो हिस्सा मुझ को पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल — ओ — अस्बाब उन्हें बाँट दिया। 13 और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। 14 जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, और वो मुहताज होने लगा। 15 फिर उस मुल्क के एक बाशिन्दे के वहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेत में खिजीर यनी [सूअवर] चराने भेजा। 16 और उसे आरजू थी कि जो फलियाँ खिजीर यनी [सूअवर] खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। 17 फिर उसने होश में आकर कहा, 'मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18 मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, 'ऐ बाप! मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। 19 अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले।” 20 “पस

वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। 21 बेटे ने उससे कहा, 'ऐ बाप! मैं आसमान का और तेरी नजर मैं गुनहार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ।' 22 बाप ने अपने नौकरों से कहा, 'अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अँगूठी और पैरों में जूती पहनाओ; 23 और तैयार किए हुए जानवर को लाकर ज़बह करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएँ। 24 क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिन्दा हुआ; खो गया था, अब मिला है। पस वो खुशी मनाने लगे।' 25 "लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुँचा, तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी। 26 और एक नौकर को बुलाकर मालूम करने लगा, 'ये क्या हो रहा है?' 27 उसने उससे कहा, 'तेरा भाई आ गया है, और तेरे बाप ने तैयार किया हुआ जानवर ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। 28 वो गुस्सा हुआ और अन्दर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। 29 उसने अपने बाप से जवाब में कहा, 'देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। 30 लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल — ओ — अस्बाब कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ जानवर ज़बह कराया है।' 31 उसने उससे कहा, 'बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। 32 लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिन्दा हुआ, खोया था अब मिला है।'

**16** फिर उसने शागिर्दों से भी कहा, "किसी दौलतमन्द का एक मुख्तार था; उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। 2 पस उसने उसको बुलाकर कहा, 'ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ? अपनी मुख्तारी का हिसाब दे क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता।' 3 उस मुख्तार ने अपने जी में कहा, 'क्या करूँ? क्योंकि मेरा मालिक मुझ से ज़िम्मेदारी छीन लेता है। मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती और भीख माँगने से शर्म आती है। 4 मैं समझ गया कि क्या करूँ, ताकि जब ज़िम्मेदारी से निकाला जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें।' 5 पस उसने अपने मालिक के एक एक कर्ज़दार को बुलाकर पहले से पूछा, 'तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है?' 6 उसने कहा, 'सौ मन तेल।' उसने उससे कहा, 'अपनी दस्तावेज़ ले और जल्द बैठकर पचास लिख दे।' 7 फिर दूसरे से कहा, 'तुझ पर क्या आता है?' उसने कहा, 'सौ मन गेहूँ।' उसने उससे कहा, 'अपनी दस्तावेज़ लेकर अस्सी लिख दे।' 8 "और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए

कि उसने होशियारी की थी। क्योंकि इस जहान के फ़र्ज़न्द अपने हमवक्तों के साथ मु'आमिलत में नूर के फ़र्ज़न्द से ज्यादा होशियार है। (aiōn g165) 9 और मैं तुम से कहता हूँ कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुम को हमेशा के मुकामों में जगह दें। (aiōnios g166) 10 जो थोड़े में ईमानदार है, वो बहुत में भी ईमानदार है; और जो थोड़े में बेईमान है, वो बहुत में भी बेईमान है। 11 पस जब तुम नारास्त दौलत में ईमानदार न ठहरे तो हकीकती दौलत कौन तुम्हारे ज़िम्मे करेगा। 12 और अगर तुम बेगाना माल में ईमानदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा?" 13 "कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता: क्योंकि या तो एक से 'दुश्मनी रखेगा और दूसरे से खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते।" 14 फ़रीसी जो दौलत दोस्त थे, इन सब बातों को सुनकर उसे ठठ्ठे में उड़ाने लगे। 15 उसने उनसे कहा, "तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आपको रास्तबाज़ ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है; क्योंकि जो चीज़ आदमियों की नज़र में 'आला कद्द है, वो खुदा के नज़दीक मकरूह है।" 16 "शरी'अत और अम्बिया युहन्ना तक रहे; उस वक़्त से खुदा की बादशाही की खुशख़बरी दी जाती है, और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। 17 लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना, शरी'अत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है।" 18 "जो कोई अपनी बीबी को छोड़कर दूसरी से शादी करे, वो जिना करता है; और जो शाख़्स शौहर की छोड़ी हुई 'औरत से शादी करे, वो भी जिना करता है।" 19 "एक दौलतमन्द था, जो इरावानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान — ओ — शौकत से रहता था। 20 और ला'ज़र नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़े पर डाला गया था। 21 उसे आरजू थी कि दौलतमन्द की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे; बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर को चाटते थे। 22 और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, और फ़रिश्तों ने उसे ले जाकर अब्रहाम की गोद में पहुँचा दिया। और दौलतमन्द भी मरा और दफन हुआ; 23 उसने 'आलम — ए — अर्बाह के दरमियान 'ऐज़ाब में मुब्तिला होकर अपनी आँखें उठाई, और अब्रहाम को दूर से देखा और उसकी गोद में ला'ज़र को। (Hadēs g86) 24 और उसने पुकार कर कहा, 'ऐ बाप अब्रहाम! मुझ पर रहम करके ला'ज़र को भेज, कि अपनी ऊँगली का सिरा पानी में भिगेकर मेरी ज़बान तर करे; क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ।' 25 अब्रहाम ने कहा, 'बेटा! याद कर ले तू अपनी जिन्दगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका, और उसी तरह ला'ज़र बुरी चीज़ें ले चुका; लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है, और तू तड़पता है। 26 और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे

दरमियान एक बड़ा गद्दा बनाया गया है, कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें न जा सकें और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके।' 27 उसने कहा, 'पस ऐ बाप! मैं तेरी गुज़ारिश करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, 28 क्योंकि मेरे पाँच भाई हैं; ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस 'ऐज़ाब की जगह में आएँ।' 29 अब्रहाम ने उससे कहा, 'उनके पास मूसा और अम्बिया तो हैं उनकी सुनें।' 30 उसने कहा, 'नहीं, ऐ बाप अब्रहाम! अगर कोई मुर्दा में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे।' 31 उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दा में से कोई जी उठे तो उसकी भी न सुनेगे।"

**17** फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, "ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, लेकिन उस पर अफसोस है कि जिसकी वजह से लगें। 2 इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत, उस शख्स के लिए ये बेहतर होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुन्दर में फेंका जाता। 3 खबरदार रहो! अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे डांट दे, अगर वो तौबा करे तो उसे मु'आफ कर। 4 और वो एक दिन में सात दफा" तेरा गुनाह करे और सातों दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे मु'आफ कर।" 5 इस पर रसूलों ने खुदावन्द से कहा, "हमारे ईमान को बढा।" 6 खुदावन्द ने कहा, "अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते, कि जड़ से उखड़ कर समुन्दर में जा लग, तो तुम्हारी मानता।" 7 "मगर तुम में ऐसा कौन है, जिसका नौकर हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे, जल्द आकर खाना खाने बैठ!" 8 और ये न कहे, 'मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊँ — पिचूँ कमर बाँध कर मेरी खिदमत कर; उसके बाद तू भी खा पी लेना?' 9 क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों को जिनका हुक्म हुआ ता'मील की? 10 इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की, जिनका तुम को हुक्म हुआ ता'मील कर चुको, तो कहे, 'हम निकम्मे नौकर हैं जो हम पर करना फर्ज़ था वही किया है।' 11 और अगर ऐसा कि येरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था 12 और एक गाँव में दाखिल होते वक्त दस कौड़ी उसको मिले। 13 उन्होंने दूर खड़े होकर बुलन्द आवाज़ से कहा, ऐ ईसा! ऐ खुदावन्द! हम पर रहम कर। 14 उसने उन्हें देखकर कहा, "जाओ! अपने आपको काहिनो को दिखाओ!" और ऐसा हुआ कि वो जाते — जाते पाक साफ हो गए। 15 फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया हूँ, बुलन्द आवाज़ से खुदा की बड़ाई करता हुआ लौटा; 16 और मुँह के बल ईसा के पाँव पर गिरकर उसका शुक़र करने लगा; और वो सामरी था। 17 ईसा ने जवाब में कहा, "क्या

दसों पाक साफ न हुए; फिर वो नौ कहाँ है? 18 क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौटकर खुदा की बड़ाई करते?" 19 फिर उससे कहा, "उठ कर चला जा! तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है।" 20 जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा, "खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर न आएगी। 21 और लोग ये न कहेंगे, 'देखो, यहाँ है या वहाँ है!' क्योंकि देखो, खुदा की बादशाही तुम्हारे बीच है।" 22 उसने शागिर्दों से कहा, "वो दिन आएँगे, कि तुम इब्न — ए — आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी, और न देखोगे। 23 और लोग तुम से कहेंगे, 'देखो, वहाँ है!' या देखो, यहाँ है!' मगर तुम चले न जाना न उनके पीछे हो लेना। 24 क्योंकि जैसे बिजली आसमान में एक तरफ से कौंध कर आसमान कि दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्न — ए — आदम अपने दिन में ज़ाहिर होगा। 25 लेकिन पहले ज़रूर है कि वो बहुत दुःख उठाए, और इस ज़माने के लोग उसे रद्द करें। 26 और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्न — ए — आदम के दिनों में होगा; 27 कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शर्दी होती थी, उस दिन तक जब नूह नाव में दाखिल हुआ; और तूफान ने आकर सबको हलाक किया।" 28 और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, कि लोग खाते — पीते और खरीद — ओ — फरोख्त करते, और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। 29 लेकिन जिस दिन लूत सद्म से निकला, आग और गन्धक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। 30 इब्न — ए — आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा।" 31 "इस दिन जो छत पर हो और उसका अस्बाब घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे; और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को न लौटे। 32 लूत की बीबी को याद रखो। 33 जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसको खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। 34 मैं तुम से कहता हूँ कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 35 दो 'औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 36 दो आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा," 37 उन्होंने जवाब में उससे कहा, "ऐ खुदावन्द! ये कहाँ होगा?" उसने उनसे कहा, "जहाँ मुरदार हैं, वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे।"

**18** फिर उसने इस गरज़ से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत हारना न चाहिए, उसने ये मिसाल कही: 2 "किसी शहर में एक काज़ी था, न वो खुदा से डरता, न आदमी की कुछ परवा करता था। 3 और उसी शहर में एक बेवा थी, जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, 'मेरा इन्साफ करके मुझे मुद्दई से बचा। 4 उसने कुछ 'अरसे तक तो न चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी



में कहा, 'गरचे मैं न खुदा से डरता और न आदमियों की कुछ परवा करता हूँ। 5 तोभी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इन्साफ करूँगा; ऐसा न हो कि ये बार — बार आकर आखिर को मेरी नाक में दम करे।' 6 खुदावन्द ने कहा, "सुनो ये बेइन्साफ काजी क्या कहता है? 7 पस क्या खुदा अपने चुने हुए का इन्साफ न करेगा, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? 8 मैं तुम से कहता हूँ कि वो जल्द उनका इन्साफ करेगा। तोभी जब इब्न — ए — आदम आएगा, तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा?" 9 फिर उसने कुछ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, कि हम रास्तबाज़ हैं और बाक़ी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये मिसाल कही, 10 "दो शख्स हैकल में दू'आ करने गए: एक फ़रीसी, दूसरा महसूल लेनेवाला। 11 फ़रीसी खड़ा होकर अपने जी में यूँ दुआ करने लगा, 'ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाक़ी आदमियों की तरह ज़ालिम, बेइन्साफ, ज़िनाकार या इस महसूल लेनेवाले की तरह नहीं हूँ। 12 मैं हफ़ते में दो बार रोज़ा रखता, और अपनी सारी आमदनी पर दसवाँ हिस्सा देता हूँ।' 13 "लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा ऐ खुदा। मुझ गुनहगार पर रहम कर।" 14 "मैं तुम से कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निम्बत रास्तबाज़ ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा।" 15 फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छूए; और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। 16 मगर ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, "बच्चों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मनन" न करो; क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी ही की है। 17 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कुबूल न करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल न होगा।" 18 फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, ऐ उस्ताद! मैं क्या करूँ ताकि हमेशा की ज़िन्दगी का वारिस बनूँ! (aiōnios g166) 19 ईसा ने उससे कहा, "तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं, मगर एक या'नी खुदा। 20 तू हुकमों को जानता है: ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे; अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर।" 21 उसने कहा, मैंने लडकपन से इन सब पर 'अमल किया है।" 22 ईसा ने ये सुनकर उससे कहा, "अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बाँट दे; तुझे आसमान पर खज़ाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।" 23 ये सुन कर वो बहुत गामगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमन्द था। 24 ईसा ने उसको देखकर कहा, "दौलतमन्द का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है! 25 क्योंकि ऊँट का सूई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है, कि दौलतमन्द खुदा की बादशाही में दाखिल हो।" 26 सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन नजात पा सकता है? 27 उसने कहा, "जो इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है।" 28 पतरस ने कहा, देख! हम तो अपना घर — बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं।" 29 उसने उससे कहा, "मैं तुम से सच कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो; 30 और इस ज़माने में कई गुना ज़्यादा न पाए, और आने वाले 'आलम में हमेशा की ज़िन्दगी।" (aiōn g165, aiōnios g166) 31 फिर उसने उन बारह को साथ लेकर उनसे कहा, "देखो, हम येरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों के ज़रिए लिखी गई हैं, इब्न — ए — आदम के हक़ में पूरी होंगी। 32 क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा; और लोग उसको ठट्टों में उड़ाएँगे और बे'इज़्ज़त करेंगे, और उस पर थकेंगे, 33 और उसको कोड़े मारेंगे और कल्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा।" 34 लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात न समझी, और ये कलाम उन पर छिपा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में न आया। 35 जो वो चलते — चलते यरीह के नज़दीक पहुँचा, तो ऐसा हुआ कि एक अन्धा रास्ते के किनारे बैठा हुआ भीख माँग रहा था। 36 वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पछने लगा, ये क्या हो रहा है?" 37 उन्होंने उसे खबर दी, "ईसा नासरी जा रहा है।" 38 उसने चिल्लाकर कहा, "ऐ ईसा इब्न — ए — दाऊद, मुझ पर रहम कर!" 39 जो आगे जाते थे, वो उसको डाँटने लगे कि चुप रह; मगर वो और भी चिल्लाया, "ऐ इब्न — ए — दा, ऊद, मुझ पर रहम कर!" 40 'ईसा ने खड़े होकर हुकम दिया कि उसको मेरे पास ले आओ, जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा। 41 "तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ?" उसने कहा, "ऐ खुदावन्द! मैं देखने लंगू।" 42 ईसा ने उससे कहा, "बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया," 43 वो उसी वक़्त देखने लगा, और खुदा की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया; और सब लोगों ने देखकर खुदा की तारीफ़ की।

**19** फिर ईसा यरीह में दाखिल हुआ और उस में से होकर गुज़रने लगा। 2 उस शहर में एक अमीर आदमी ज़क्काई नाम का रहता था जो महसूल लेने वालों का अप्सर था। 3 वह जानना चाहता था कि यह ईसा कौन है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे देख न सका, क्योंकि ईसा के आस पास बड़ा हुज़म था और ज़क्काई का कद छोटा था। 4 इस लिए वह दौड़ कर आगे निकला और उसे देखने के लिए ग़लर के दरख़्त पर चढ़ गया जो रास्ते में था। 5 जब ईसा वहाँ पहुँचा तो उस ने नज़र उठा कर कहा, "ज़क्काई, जल्दी से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है।" 6 ज़क्काई फौरन उतर आया और खुशी से उस की मेहमान

— नवाजी की। 7 जब लोगों ने ये देखा तो सब बुदबुदाने लगे, दस सिक्के हैं।’ 26 उस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर कि “वह एक गुनाहगर के यहाँ मेहमान बन गया है।” 8 लेकिन शख्स जिस के पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिस के जक्काई ने खुदावन्द के सामने खड़े हो कर कहा, “खुदावन्द, मैं पास कुछ नहीं है उस से वह भी छीन लिया जाएगा जो उस के पास अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को दे देता हूँ। और जिससे मैं ने है। 27 अब उन दुश्मनों को ले आओ जो नहीं चाहते थे कि मैं उन नाजायज तौर से कुछ लिया है उसे चार गुना वापस करता हूँ।” 9 का बादशाह बनें। उन्हें मेरे सामने फाँसी दे दो।” 28 इन बातों के ईसा ने उस से कहा, “आज इस घराने को नजात मिल गई है, इस बाद ईसा दूसरों के आगे आगे येरूशलेम की तरफ बढ़ने लगा। 29 लिए कि यह भी इब्राहीम का बेटा है। 10 क्योंकि इब्न — ए — जब वह बैत — फगे और बैत — अनियाह गाँव के करीब पहुँचा जो आदम खोए हुए को ढूँडने और नजात देने के लिए आया है।” 11 जैतून के पहाड़ पर आबाद थे तो उस ने दो शागिर्दों को अपने आगे अब ईसा येरूशलेम के करीब आ चुका था, इस लिए लोग अन्दाजा भेज कर कहा?, 30 “सामने वाले गाँव में जाओ। वहाँ तुम एक लगाने लगे कि खुदा की बादशाही जाहिर होने वाली है। इस के पेश जवान गधा देखोगे। वह बैधा हुआ होगा और अब तक कोई भी उस — ए — नजर ईसा ने अपनी यह बातें सुनने वालों को एक मिसाल पर सवार नहीं हुआ है। उसे खोल कर ले आओ। 31 अगर कोई सुनाई। 12 उस ने कहा, “एक जागीरदार किसी दूरदराज मुल्क को पूछे कि गधे को क्यों खोल रहे हो तो उसे बता देना कि खुदावन्द को चला गया ताकि उसे बादशाह मुकर्रर किया जाए। फिर उसे वापस इस की ज़रूरत है।” 32 दोनों शागिर्द गए तो देखा कि सब कुछ वैसा आना था। 13 खाना होने से पहले उस ने अपने नौकरों में से दस को ही है जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। 33 जब वह जवान गधे को बुला कर उन्हें सोने का एक एक सिक्का दिया। साथ साथ उस ने खोलने लगे तो उस के मालिकों ने पूछा, “तुम गधे को क्यों खोल कहा, यह कैसे ले कर उस वक्त तक कारोबार में लगाओ जब तक मैं रहे हो?” 34 उन्होंने ने जवाब दिया, “खुदावन्द को इस की ज़रूरत वापस न आऊँ।” 14 लेकिन उस की रियाया उस से नफरत रखती है।” 35 वह उसे ईसा के पास ले आए, और अपने कपड़े गधे पर थी, इस लिए उस ने उस के पीछे एलची भेज कर इत्तिला दी, हम रख कर उसको उस पर सवार किया। 36 जब वह चल पड़ा तो नहीं चाहते कि यह आदमी हमारा बादशाह बने।” 15 “तो भी उसे लोगों ने उस के आगे आगे रास्ते में अपने कपड़े बिछा दिए। 37 बादशाह मुकर्रर किया गया। इस के बाद जब वापस आया तो उस ने चलते चलते वह उस जगह के करीब पहुँचा जहाँ रास्ता जैतून के उन नौकरों को बुलाया जिन्हें उस ने पैसे दिए थे ताकि मालूम करे पहाड़ पर से उतरने लगता है। इस पर शागिर्दों का पूरा हज़ूम खुशी कि उन्होंने ने यह पैसे कारोबार में लगा कर कितना मुनाफा किया है। के मारे ऊँची अवाज़ से उन मोजिजों के लिए खुदा की बड़ाई करने 16 पहला नौकर आया। उस ने कहा, जनाब, आप के एक सिक्के से लगा जो उन्होंने देखे थे, 38 “मुबारिक है वह बादशाह जो खुदावन्द दस हो गए हैं।” 17 मालिक ने कहा, शाबाश, अच्छे नौकर। तू के नाम से आता है। आस्मान पर सलामती हो और बुलन्दियों पर थोड़े में वफादार रहा, इस लिए अब तुझे दस शहरों पर इख्तियार इज्जत — ओ — जलाल।” 39 कुछ फरीसी भीड़ में थे उन्होंने दिया।’ 18 फिर दूसरा नौकर आया। उस ने कहा, जनाब, आप के ईसा से कहा, “उस्ताद, अपने शागिर्दों को समझा दें।” 40 उस ने एक सिक्के से पाँच हो गए हैं।” 19 मालिक ने उस से कहा, तुझे जवाब दिया, “मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर यह चूप हो जाँए तो पत्थर पाँच शहरों पर इख्तियार दिया।” 20 फिर एक और नौकर आ कर पुकार उठे।” 41 जब वह येरूशलेम के करीब पहुँचा तो शहर को कहने लगा, जनाब, यह आप का सिक्का है। मैं ने इसे कपड़े में देख कर रो पड़ा 42 और कहा, “काश तू भी उस दिन पहचान लेती लपेट कर महफूज रखा, 21 क्योंकि मैं आप से डरता था, इस लिए कि तेरी सलामती किस में है। लेकिन अब यह बात तेरी आँखों से कि आप सख्त आदमी है। जो पैसे आप ने नहीं लगाए उन्हें ले लेते छुपी हुई है। 43 क्योंकि तुझ पर ऐसा वक्त आया कि तेरे दुश्मन तेरे हैं और जो बीज आप ने नहीं बोया उस की फसल काटते हैं।” 22 चारों तरफ बन्द बाँध कर तेरा घेरा करेगे और यूँ तुझे तंग करेगे। 44 मालिक ने कहा, शरीर नौकर! मैं तेरे अपने अल्फाज के मुताबिक वह तुझे तेरे बच्चों समेत जमीन पर पटकेंगे और तेरे अन्दर एक भी वक्त नहीं पहचाना जब खुदावन्द ने तेरी नजात के लिए तुझ पर तेरा फ़ैसला करूँगा। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूँ, कि पत्थर दूसरे पर नहीं छोड़ेंगे। और वजह यही होगी कि तू ने वह वह पैसे ले लेता हूँ जो खुद नहीं लगाए और वह फसल काटता हूँ वक्त नहीं पहचाना जब खुदावन्द ने तेरी नजात के लिए तुझ पर जिस का बीज नहीं बोया, 23 तो फिर तूने मेरे पैसे साहकार के यहाँ नज़र की।” 45 फिर ईसा बैत — उल — मुक़द्दस में जा कर बेचने क्यों न जमा कराए? अगर तू ऐसा करता तो वापसी पर मुझे कम अज़ वालों को निकालने लगा, 46 और उसने कहा, “लिखा है, ‘मेरा घर कम वह पैसे सूद समेत मिल जाते।’ 24 और उसने उससे कहा, यह दुआ का घर होगा’ मगर तुम ने उसे डाकूओं के अंडे में बदल दिया सिक्का इससे ले कर उस नौकर को दे दो जिस के पास दस सिक्के है।” 47 और वह रोज़ाना बैत — उल — मुक़द्दस में तालीम देता है।” 25 उन्होंने उससे कहा, ए खुदावन्द, उस के पास तो पहले ही रहा। लेकिन बैत — उल — मुक़द्दस के रहनुमा इमाम, शरी’अत के

आलिम और अवामी रहनुमा उसे कत्ल करने की कोशिश में थे। 48 अलबत्ता उन्हें कोई मौका न मिला, क्योंकि तमाम लोग ईसा की हर बात सुन सुन कर उस से लिपटे रहते थे।

**20** एक दिन जब वह बैत — उल — मुकद्दस में लोगों को तालीम दे रहा और खुदावन्द की खुशखबरी सुना रहा था तो रहनुमा इमाम, शरी'अत के उलमा और बुजुर्ग उस के पास आए। 2 उन्होंने ने कहा, “हमें बताएँ, आप यह किस इख्तियार से कर रहे हैं? किस ने आप को यह इख्तियार दिया है?” 3 ईसा ने जवाब दिया, “मेरा भी तुम से एक सवाल है। तुम मुझे बताओ?, 4 कि क्या युहन्ना का बपतिस्मा आस्मानी था या इसानी?” 5 वह आपस में बहस करने लगे, “अगर हम कहें ‘आस्मानी’ तो वह पछेगा, तो फिर तुम उस पर ईमान क्यों न लाए?” 6 लेकिन अगर हम कहें ‘इसानी’ तो तमाम लोग हम पर पत्थर मारेंगे, क्योंकि वह तो यक्रीन रखते हैं कि युहन्ना नबी था।” 7 इस लिए उन्होंने ने जवाब दिया, “हम नहीं जानते कि वह कहाँ से था।” 8 ईसा ने कहा, “तो फिर मैं भी तुम को नहीं बताता कि मैं यह सब कुछ किस इख्तियार से कर रहा हूँ।” 9 फिर ईसा लोगों को यह मिसाल सुनाने लगा, “किसी आदमी ने अंगूर का एक बाग लगाया। फिर वह उसे बागबानों को ठेके पर देकर बहुत दिनों के लिए बाहरी मुल्क चला गया। 10 जब अंगूर पक गए तो उस ने अपने नौकर को उन के पास भेज दिया ताकि वह मालिक का हिस्सा वसूल करे। लेकिन बागबानों ने उस की पिटाई करके उसे खाली हाथ लौटा दिया। 11 इस पर मालिक ने एक और नौकर को उन के पास भेजा। लेकिन बागबानों ने उसे भी मार मार कर उस की बेइज्जती की और खाली हाथ निकाल दिया। 12 फिर मालिक ने तीसरे नौकर को भेज दिया। उसे भी उन्होंने मार कर ज़ख्मी कर दिया और निकाल दिया। 13 बाग के मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूँगा, शायद वह उस का लिहाज़ करे।” 14 लेकिन मालिक के बेटे को देख कर बागबानों ने आपस में मशवरा किया और कहा, यह ज़मीन का वारिस है। आओ, हम इसे मार डालें। फिर इस की मीरास हमारी ही होगी। 15 उन्होंने उसे बाग से बाहर फेंक कर कत्ल किया। ईसा ने पूछा, अब बताओ, बाग का मालिक क्या करेगा? 16 वह वहाँ जा कर बागबानों को हलाक करेगा और बाग को दूसरों के हवाले कर देगा। यह सुन कर लोगों ने कहा, खुदा ऐसा कभी न करे।” 17 ईसा ने उन पर नज़र डाल कर पूछा, “तो फिर कलाम — ए — मुकद्दस के इस हवाले का क्या मतलब है कि जिस पत्थर को राजगीरों ने रड़ किया, वह कोने का बुनियादी पत्थर बन गया?” 18 जो इस पत्थर पर गिरगा वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जबकि जिस पर वह खुद गिरगा उसे पीस डालेगा।” 19 शरी'अत के उलमा और राहनुमा इमामों ने उसी वक़्त उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह समझ

गए थे कि मिसाल में बयान होने वाले हम ही हैं। लेकिन वह अवाम से डरते थे। 20 चुनौचे वह उसे पकड़ने का मौका ढूँढते रहे। इस मक्सद के तहत उन्होंने उस के पास जासूस भेज दिए। यह लोग अपने आप को ईमानदार जाहिर करके ईसा के पास आए ताकि उस की कोई बात पकड़ कर उसे रोमी हाकिम के हवाले कर सकें। 21 इन जासूसों ने उस से पूछा, “उस्ताद, हम जानते हैं कि आप वही कुछ बयान करते और सिखाते हैं जो सहीह है। आप तरफ़दारी नहीं करते बल्कि दियानतदारी से खुदा की राह की तालीम देते हैं। 22 अब हमें बताएँ कि क्या रोमी हाकिम को महसूल देना जायज़ है या नाजायज़?” 23 लेकिन ईसा ने उन की चालाकी भाँप ली और कहा, 24 “मुझे चाँदी का एक रोमी सिक्का दिखाओ। किस की सूरत और नाम इस पर बना है?” उन्होंने ने जवाब दिया, “कैसर का।” 25 उस ने कहा, “तो जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को।” 26 यँ वह अवाम के सामने उस की कोई बात पकड़ने में नाकाम रहे। उस का जवाब सुन कर वह हक्का — बक्का रह गए और मज़ीद कोई बात न कर सके। 27 फिर कुछ सदूकी उस के पास आए। सदूकी नहीं मानते थे कि रोज़ — ए — कयामत में मुर्द जी उठेंगे। उन्होंने ने ईसा से एक सवाल किया, 28 “उस्ताद, मूसा ने हमें हुक्म दिया कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बेऔलाद मर जाए और उस का भाई हो तो भाई का फ़र्ज़ है कि वह बेवा से शादी करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। 29 अब फ़र्ज़ करें कि सात भाई थे। पहले ने शादी की, लेकिन बेऔलाद मर गया। 30 इस पर दूसरे ने उस से शादी की, लेकिन वह भी बेऔलाद मर गया। 31 फिर तीसरे ने उस से शादी की। यह सिलसिला सातवें भाई तक जारी रहा। इसके बाद हर भाई बेवा से शादी करने के बाद मर गया। 32 आखिर में बेवा की भी मौत हो गई। 33 अब बताएँ कि कयामत के दिन वह किस की बीवी होगी? क्योंकि सात के सात भाइयों ने उस से शादी की थी।” 34 ईसा ने जवाब दिया, “इस ज़माने में लोग ब्याह — शादी करते और कराते हैं। (aiōn g165) 35 लेकिन जिन्हें खुदा आने वाले ज़माने में शरीक होने और मुर्दों में से जी उठने के लायक समझता है वह उस वक़्त शादी नहीं करेंगे, न उन की शादी किसी से कराई जाएगी। (aiōn g165) 36 वह मर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वह फ़रिश्तों की तरह होंगे और कयामत के फ़र्ज़न्द होने के बाइस खुदा के फ़र्ज़न्द होंगे। 37 और यह बात कि मुर्द जी उठेंगे मूसा से भी जाहिर की गई है। क्योंकि जब वह काँटेदार झाड़ी के पास आया तो उस ने खुदा को यह नाम दिया, अब्रहाम का खुदा, इज़हाक का खुदा और याक़ूब का खुदा, हालाँकि उस वक़्त तीनों बहुत पहले मर चुके थे। इस का मतलब है कि यह हकीकत में ज़िन्दा हैं। 38 क्योंकि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िन्दों का खुदा है। उस के नज़दीक यह सब ज़िन्दा है।” 39 यह सुन कर शरी'अत के कुछ उलमा ने कहा,

“शाबाश उस्ताद, आप ने अच्छा कहा है।” 40 इस के बाद उन्होंने ने बादशाहों और हुक्मरानों के सामने पेश करेंगे। और यह इस लिए उस से कोई भी सवाल करने की हिम्मत न की। 41 फिर ईसा ने उन से पूछा, “मसीह के बारे में क्यूँ कहा जाता है कि वह दाऊद का बेटा है? 42 क्यूँकि दाऊद खुद जबर की किताब में फरमाता है, खुदा ने मेरे खुदा से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, 43 जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी न बना दूँ।” 44 दाऊद तो खुद मसीह को खुदा कहता है। तो फिर वह किस तरह दाऊद का बेटा हो सकता है?” 45 जब लोग सुन रहे थे तो उस ने अपने शागिर्दों से कहा, 46 “शरीर अत के उलमा से खबरदार रहो! क्यूँकि वह शानदार चोगे पहन कर इधर उधर फिरना पसन्द करते हैं। जब लोग बाजारों में सलाम करके उन की इज्जत करते हैं तो फिर वह खुश हो जाते हैं। उन की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि इबादतखानों और दावतों में इज्जत की कुर्सियों पर बैठ जाएँ। 47 यह लोग बेवाओं के घर हड़प कर जाते और साथ साथ दिखावे के लिए लम्बी लम्बी दुआएँ माँगते हैं। ऐसे लोगों को निहायत सख्त सजा मिलेगी।”

**21** ईसा ने नज़र उठा कर देखा, कि अमीर लोग अपने हदिए बैत — उल — मुकद्दस के चन्दे के बक्से में डाल रहे हैं। 2 एक गरीब बेवा भी वहाँ से गुज़री जिस ने उस में तौंबे के दो मामूली से सिक्के डाल दिए। 3 ईसा ने कहा, “मैं तुम को सच बताता हूँ कि इस गरीब बेवा ने तमाम लोगों की निस्वत ज़्यादा डाला है। 4 क्यूँकि इन सब ने तो अपनी दौलत की कसरत से कुछ डाला जबकि इस ने ज़रूरत मन्द होने के बावजूद भी अपने गुज़ारे के सारे पैसे दे दिए हैं।” 5 उस वक़्त कुछ लोग हैकल की तारीफ़ में कहने लगे कि वह कितने खूबसूरत पत्थरों और मिन्नत के तोहफ़ों से सज़ा हुआ है। यह सुन कर ईसा ने कहा, 6 “जो कुछ तुम को यहाँ नज़र आता है उस का पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में सब कुछ ढा दिया जाएगा।” 7 उन्होंने ने पूछा, “उस्ताद, यह कब होगा? क्या क्या नज़र आया जिस से मालूम हो कि यह अब होने को है?” 8 ईसा ने जवाब दिया, “खबरदार रहो कि कोई तुम्हें गुमराह न कर दे। क्यूँकि बहुत से लोग मेरा नाम ले कर आएँगे और कहेंगे, मैं ही मसीह हूँ और कि ‘वक़्त करीब आ चुका है।’ लेकिन उन के पीछे न लगना। 9 और जब जंगों और फितनों की खबरे तुम तक पहुँचेंगी तो मत घबराना। क्यूँकि ज़रूरी है कि यह सब कुछ पहले पेश आए। तो भी अभी आखिरत न होगी।” 10 उस ने अपनी बात जारी रखी, “एक क्रोम दूसरी के खिलाफ उठ खड़ी होगी, और एक बादशाही दूसरी के खिलाफ। 11 बहुत जलजले आएँगे, जगह जगह काल पड़ेंगे और वबाई बीमारियाँ फैल जाएँगी। हैबतनाक वाकिआत और आस्मान पर बड़े निशान देखने में आएँगे। 12 लेकिन इन तमाम वाकिआत से पहले लोग तुम को पकड़ कर सताएँगे। वह तुम को यहूदी इबादतखानों के हवाले करेंगे, कैदखानों में डलवाएँगे और

होगा कि तुम मेरे पैरोकार हो। 13 नतीजे में तुम्हें मेरी गवाही देने का मौका मिलेगा। 14 लेकिन ठान लो, कि तुम पहले से अपनी फिक्र करने की तैयारी न करो, 15 क्यूँकि मैं तुम को ऐसे अल्फाज़ और हिक्मत अता करूँगा, कि तुम्हारे तमाम मुखालिफ न उस का मुक़ाबिला और न उस का जवाब दे सकेंगे। 16 तुम्हारे वालिदिन, भाई, रिश्तेदार और दोस्त भी तुम को दुश्मन के हवाले कर देंगे, बल्कि तुम में से कुछ को क़त्ल किया जाएगा। 17 सब तुम से नफ़रत करेंगे, इस लिए कि तुम मेरे मानने वाले हो। 18 तो भी तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। 19 साबितकदम रहने से ही तुम अपनी जान बचा लोगे।” 20 “जब तुम येरूशलेम को फ़ौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लो, कि उस की तबाही करीब आ चुकी है। 21 उस वक़्त यहूदिया के रहनेवाले भाग कर पहाड़ी इलाक़े में पनाह लें। शहर के रहने वाले उस से निकल जाएँ और दिहात में आबाद लोग शहर में दाखिल न हों। 22 क्यूँकि यह इलाही ग़ज़ब के दिन होंगे जिन में वह सब कुछ पूरा हो जाएगा जो कलाम — ए — मुक़द्दस में लिखा है। 23 उन औरतों पर अफ़सोस जो उन दिनों में हामिला हों या अपने बच्चों को दूध पिलाती हों, क्यूँकि मुल्क में बहुत मुसीबत होगी और इस क्रोम पर खुदा का ग़ज़ब नाज़िल होगा। 24 लोग उन्हें तलवार से क़त्ल करेंगे और कैद करके तमाम ग़ैरयहूदी ममालिक में ले जाएँगे। ग़ैरयहूदी येरूशलेम को पाँव तले कुचल डालेंगे। यह सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक ग़ैरयहूदियों का दौर पूरा न हो जाए।” 25 “सूरज, चाँद और तारों में अजीब — ओ — गरीब निशान जाहिर होंगे। क्रोम समुन्दर के शोर और ठाठें मारने से हैरान — ओ — परेशान होंगी। 26 लोग इस अन्देशे से कि क्या क्या मुसीबत दुनिया पर आएगी इस क़दर ख़ौफ़ खाएँगे कि उन की जान में जान न रहेगी, क्यूँकि आस्मान की ताक़तें हिलाई जाएँगी। 27 और फिर वह इब्न — ए — आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादल में आते हुए देखेंगे। 28 चुनौचे जब यह कुछ पेश आने लगे तो सीधे खड़े हो कर अपनी नज़र उठाओ, क्यूँकि तुम्हारी नजात नज़दीक होगी।” 29 इस सिलसिले में ईसा ने उन्हें एक मिसाल सुनाई। “अज़ीर के दरख़्त और बाक़ी दरख़्तों पर गौर करो। 30 जैसे ही कौंपले निकलने लगती हैं तुम जान लेते हो कि गर्मियों का मौसम नज़दीक है। 31 इसी तरह जब तुम यह वाकिआत देखोगे तो जान लोगे कि खुदा की बादशाही करीब ही है। 32 मैं तुम को सच बताता हूँ कि इस नस्ल के ख़त्म होने से पहले पहले यह सब कुछ वाक़े होगा। 33 आस्मान — ओ — ज़मीन तो जाते रहेंगे, लेकिन मेरी बातें हमेशा तक काईम रहेंगी।” 34 “खबरदार रहो ताकि तुम्हारे दिल अय्याशी, नशाबाजी और रोज़ाना की फिक्रों तले दब न जाएँ। वर्ना यह दिन अचानक तुम पर आन

पडेगा, 35 और फन्दे की तरह तुम्हें जकड़ लेगा। क्योंकि वह दुनिया के तमाम रहनेवालों पर आएगा। 36 हर वक्त चौकस रहो और दुआ करते रहो कि तुम को आने वाली इन सब बातों से बच निकलने की तौफ़ीक मिल जाए और तुम इब्न — ए — आदम के सामने खड़े हो सको।” 37 हर रोज़ ईसा बैत — उल — मुकद्दस में तालीम देता रहा और हर शाम वह निकल कर उस पहाड़ पर रात गुज़ारता था जिस का नाम ज़ैतून का पहाड़ है। 38 और सुबह सबेरे सब लोग उस की बातें सुनने को हैकल में उस के पास आया करते थे।

**22** बेखमीरी रोटी की ईद यानी फसह की ईद करीब आ गई थी।

2 रेहनुमा इमाम और शरी'अत के उलमा ईसा को कत्ल करने का कोई मौजू' मौका ढूँड रहे थे, क्योंकि वह अवाम के रद्द — ए — अमल से डरते थे। 3 उस वक्त इब्नीस यहूदाह इस्करियोती में बस गया जो बारह रसूलों में से था। 4 अब वह रेहनुमा इमामों और बैत — उल — मुकद्दस के पहरेदारों के अप्सरों से मिला और उन से बात करने लगा कि वह ईसा को किस तरह उन के हवाले कर सकेगा। 5 वह खुश हुए और उसे पैसे देने पर मुत्तफिक हुए। 6 यहूदाह रज़ामन्द हुआ। अब से वह इस तलाश में रहा कि ईसा को ऐसे मौके पर उन के हवाले करे जब मजमा उस के पास न हो। 7 बेखमीरी रोटी की ईद आई जब फसह के मेंने को कुर्बान करना था। 8 ईसा ने पतरस और यूहन्ना को आगे भेज कर हिदायत की, “जाओ, हमारे लिए फसह का खाना तैयार करो ताकि हम जा कर उसे खा सकें।” 9 उन्होंने न पूछा, “हम उसे कहाँ तैयार करें?” 10 उस ने जवाब दिया, “जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हारी मुलाक़ात एक आदमी से होगी जो पानी का घड़ा उठाए चल रहा होगा। उस के पीछे चल कर उस घर में दाखिल हो जाओ जिस में वह जाएगा। 11 वहाँ के मालिक से कहना, उस्ताद आप से पूछते हैं कि वह कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाऊँ?” 12 वह तुम को दूसरी मन्ज़िल पर एक बड़ा और सज़ा हुआ कमरा दिखाएगा। फसह का खाना वही तैयार करना।” 13 दोनों चले गए तो सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने ने फसह का खाना तैयार किया। 14 मुकर्ररा वक्रत पर ईसा अपने शागिर्दों के साथ खाने के लिए बैठ गया। 15 उस ने उन से कहा, “मेरी बहुत आरजू थी कि दुःख उठाने से पहले तुम्हारे साथ मिल कर फसह का यह खाना खाऊँ।” 16 “क्योंकि मैं तुम को बताता हूँ कि उस वक्रत तक इस खाने में शरीक नहीं हूँगा जब तक इस का मन्सद खुदा की बादशाही में पूरा न हो गया हो।” 17 फिर उस ने मय का प्याला ले कर शुक़गुज़ारी की दुआ की और कहा, “इस को ले कर आपस में बाँट लो। 18 मैं तुम को बताता हूँ कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पिउँगा, क्योंकि अगली दफ़ा इसे खुदा की बादशाही के आने पर पिउँगा।” 19 फिर उस ने रोटी ले कर

शुक़गुज़ारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके उन्हें दे दिया। उस ने कहा, “यह मेरा बदन है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मुझे याद करने के लिए यहीं किया करो।” 20 इसी तरह उस ने खाने के बाद प्याला ले कर कहा, “मय का यह प्याला वह नया अहद है जो मेरे खून के ज़रिए काइम किया जाता है, वह खून जो तुम्हारे लिए बाहाया जाता है। 21 लेकिन जिस शरख़ का हाथ मेरे साथ खाना खाने में शरीक है वह मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। 22 इब्न — ए — आदम तो खुदा की मज़ी के मुताबिक कूच कर जाएगा, लेकिन उस शरख़ पर अप्सोस जिस के वसीले से उसे दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा।” 23 यह सुन कर शागिर्द एक दूसरे से बहस करने लगे कि हम में से यह कौन हो सकता है जो इस क्रिस्म की हरकत करेगा। 24 फिर एक और बात भी छिड़ गई। वह एक दूसरे से बहस करने लगे कि हम में से कौन सब से बड़ा समझा जाए। 25 लेकिन ईसा ने उन से कहा, “गैरयहूदी कौमों में बादशाह वही हैं जो दूसरों पर हुकूमत करते हैं, और इज़्तियार वाले वही हैं जिन्हें ‘मोहदसिन’ का लक़ब दिया जाता है। 26 लेकिन तुम को ऐसा नहीं होना चाहिए। इस के बजाए जो सब से बड़ा है वह सब से छोटे लड़के की तरह हो और जो रेहनुमाई करता है वह नौकर जैसा हो। 27 क्योंकि आम तौर पर कौन ज़्यादा बड़ा होता है, वह जो खाने के लिए बैठा है या वह जो लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर होता है? क्या वह नहीं जो खाने के लिए बैठा है? बेशक। लेकिन मैं खिदमत करने वाले की हैसियत से ही तुम्हारे बीच हूँ।” 28 “देखो, तुम वही हो जो मेरी तमाम आजमाइशों के दौरान मेरे साथ रहे हो। 29 चुनौचे मैं तुम को बादशाही अता करता हूँ जिस तरह बाप ने मुझे बादशाही अता की है। 30 तुम मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर बैठ कर मेरे साथ खाओ और पियोगे, और तरख़्तों पर बैठ कर इम्प्राइल के बारह कबीलों का इन्साफ़ करोगे।” 31 “शमौन, शमौन! इब्नीस ने तुम लोगों को गन्दुम की तरह फटकने का मुतालबा किया है। 32 लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा इमान जाता न रहे। और जब तू मुड़ कर वापस आए तो उस वक्त अपने भाइयों को मजबूत करना।” 33 पतरस ने जवाब दिया, खुदाबन्द, मैं तो आप के साथ जेल में भी जाने बल्कि मरने को तय्यार हूँ।” 34 ईसा ने कहा, “पतरस, मैं तुझे बताता हूँ कि कल सुबह मुर्ग के बाँग देने से पहले पहले तू तीन बार मुझे जानने से इन्कार कर चुका होगा।” 35 फिर उसने उनसे कहा “जब मैंने तुम्हें बटवें और झोली और जूती के बिना भेजा था तो क्या तुम किसी चीज़ में मोहताज रहे थे, उन्होंने कहा किसी चीज़ के नहीं।” 36 उस ने कहा, “लेकिन अब जिस के पास बटुवा या थैला हो वह उसे साथ ले जाए, बल्कि जिस के पास तलवार न हो वह अपनी चादर बेच कर तलवार खरीद ले। 37 कलाम — ए — मुकद्दस में लिखा है, उसे मुल्ज़िमों में शमार किया

गया' और मैं तुम को बताता हूँ, जरूरी है कि यह बात मुझ में पूरी हो जाए। क्योंकि जो कुछ मेरे बारे में लिखा है उसे पूरा ही होना है।" 38 उन्होंने ने कहा, "खुदावन्द, यहाँ दो तलवारों हैं।" उस ने कहा, "बस! काफी है!" 39 फिर वह शहर से निकल कर रोज के मुताबिक जैतून के पहाड़ की तरफ चल दिया। उस के शागिर्द उस के पीछे हो लिए। 40 वहाँ पहुँच कर उस ने उन से कहा, "दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो।" 41 फिर वह उन्हें छोड़ कर कुछ आगे निकला, तकर्रीबन इतने फासिले पर जितनी दूर तक पत्थर फैका जा सकता है। वहाँ वह झुक कर दुआ करने लगा, 42 "ऐ बाप, अगर तू चाहे तो यह प्याला मुझ से हटा ले। लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।" 43 उस वक़्त एक फरिशते ने आस्मान पर से उस पर जाहिर हो कर उस को ताकत दी। 44 वह सख्त प्रेशान हो कर ज्यादा दिलसोज़ी से दुआ करने लगा। साथ साथ उस का पसीना खून की बूँदों की तरह ज़मीन पर टपकने लगा। 45 जब वह दुआ से फारिग हो कर खड़ा हुआ और शागिर्दों के पास वापस आया तो देखा कि वह गम के मारे सो गए हैं। 46 उस ने उन से कहा, "तुम क्यों सो रहे हो? उठ कर दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में न पड़ो।" 47 वह अभी यह बात कर ही रहा था कि एक हज़ूम आ पहुँचा जिस के आगे आगे यहदाह चल रहा था। वह ईसा को बोसा देने के लिए उस के पास आया। 48 लेकिन उस ने कहा, "यहदाह, क्या तू इब्न — ए — आदम को बोसा दे कर दुश्मन के हवाले कर रहा है?" 49 जब उस के साथियों ने भौंप लिया कि अब क्या होने वाला है तो उन्होंने ने कहा, "खुदावन्द, क्या हम तलवार चलाएँ?" 50 और उनमें से एक ने अपनी तलवार से इमाम — ए — आजम के गुलाम का दहना कान उड़ा दिया। 51 लेकिन ईसा ने कहा, "बस कर!" उस ने गुलाम का कान छू कर उसे शिफा दी। 52 फिर वह उन रेहनुमा इमामों, बैत — उल — मुक़द्दस के पहरेदारों के अप्सरों और बुजुर्गों से मुखातिब हुआ जो उस के पास आए थे, "क्या मैं डाकू हूँ कि तुम तलवारों और लाठियों लिए मेरे खिलाफ निकले हो? 53 मैं तो रोज़ाना बैत — उल — मुक़द्दस में तुम्हारे पास था, मगर तुम ने वहाँ मुझे हाथ नहीं लगाया। लेकिन अब यह तुम्हारा वक़्त है, वह वक़्त जब तारीकी हुकूमत करती है।" 54 फिर वह उसे गिरफ़्तार करके इमाम — ए — आजम के घर ले गए। पतरस कुछ फासिले पर उन के पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। 55 लोग सहन में आग जला कर उस के इर्दगिर्द बैठ गए। पतरस भी उन के बीच बैठ गया। 56 किसी नौकरानी ने उसे वहाँ आग के पास बैठे हुए देखा। उस ने उसे घूर कर कहा, "यह भी उस के साथ था।" 57 लेकिन उस ने इन्कार किया, "खातून, मैं उसे नहीं जानता।" 58 थोड़ी देर के बाद किसी आदमी ने उसे देखा और कहा, "तुम भी उन में से हो।" लेकिन पतरस ने जवाब दिया, "नहीं भाई! मैं नहीं हूँ।"

59 तकर्रीबन एक घंटा गुज़र गया तो किसी और ने इस्मार करके कहा, "यह आदमी यक्रीनन उस के साथ था, क्योंकि यह भी गलील का रहने वाला है।" 60 लेकिन पतरस ने जवाब दिया, "यार, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो।" वह अभी बात कर ही रहा था कि अचानक मुर्ग की बाँग सुनाई दी। 61 खुदावन्द ने मुड़ कर पतरस पर नज़र डाली। फिर पतरस को खुदावन्द की वह बात याद आई जो उस ने उस से कही थी कि "कल सुबह मुर्ग के बाँग देने से पहले पहले तू तीन बार मुझे जानने से इन्कार कर चुका होगा।" 62 पतरस वहाँ से निकल कर टूटे दिल से खूब रोया। 63 पहरेदार ईसा का मज़ाक उड़ाने और उस की पिटाई करने लगे। 64 उन्होंने उस की आँखों पर पट्टी बाँध कर पूछा, "नबूव्वत कर कि किस ने तुझे मारा?" 65 इस तरह की और बहुत सी बातों से वह उस की बेइज़्जती करते रहे। 66 जब दिन चढ़ा तो रेहनुमा इमामों और शरी'अत के आलिमों पर मुश्तमिल क्रौम के मजमा ने जमा हो कर उसे यहदी अदालत — ए — आलिया में पेश किया। 67 उन्होंने ने कहा, "अगर तू मसीह है तो हमें बता!" ईसा ने जवाब दिया, "अगर मैं तुम को बताऊँ तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, 68 और अगर तुम से पूछूँ तो तुम जवाब नहीं दोगे। 69 लेकिन अब से इब्न — ए — आदम खुदा तआला के दहने हाथ बैठा होगा।" 70 सब ने पूछा, "तो फिर क्या तू खुदा का फ़र्ज़न्द है?" उस ने जवाब दिया, "जी, तुम खुद कहते हो।" 71 इस पर उन्होंने ने कहा, "अब हमें किसी और गवाही की क्या जरूरत रही? क्योंकि हम ने यह बात उस के अपने मुँह से सुन ली है।"

**23** फिर पूरी मजलिस उठी और 'ईसा को पीलातुस के पास ले आई। 2 और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा कर कहने लगे, "हम ने मालूम किया है कि यह आदमी हमारी क्रौम को गुमराह कर रहा है। यह कैसर को खिराज देने से मनह करता और दा'वा करता है कि मैं मसीह और बादशाह हूँ।" 3 पीलातुस ने उस से पूछा, "अच्छा, तुम यहदियों के बादशाह हो?" ईसा ने जवाब दिया, जी, "आप खुद कहते हैं।" 4 फिर पीलातुस ने रेहनुमा इमामों और हज़ूम से कहा, "मुझे इस आदमी पर इल्ज़ाम लगाने की कोई वजह नज़र नहीं आती।" 5 मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है 6 यह सुन कर पीलातुस ने पूछा, "क्या यह शख्स गलील का है?" 7 जब उसे मालूम हुआ कि ईसा गलील यानी उस इलाके से है, जिस पर हेरोदेस अनतिपास की हुकूमत है तो उस ने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि वह भी उस वक़्त येरूशलेम में था। 8 हेरोदेस ईसा को देख कर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस ने उस के बारे में बहुत कुछ सुना था, और इस लिए काफी दिनों से उस से मिलना चाहता था। अब उस की बड़ी ख्वाहिश थी, कि ईसा को

कोई मोजिजा करते हुए देख सके। 9 उस ने उस से बहुत सारे सवाल बच्चों के वास्ते रोओ। 29 क्योंकि ऐसे दिन आएँगे जब लोग कहेंगे, किए, लेकिन ईसा ने एक का भी जवाब न दिया। 10 रहनुमा इमाम मुबारिक हैं वह जो बाँझ हैं, जिन्होंने न तो बच्चों को जन्म दिया, और शरी'अत के उलमा साथ खड़े बड़े जोश से उस पर इल्जाम न दूध पिलाया।' 30 फिर लोग पहाड़ों से कहने लगेगे, हम पर गिर लगाते रहे। 11 फिर हेरोदेस और उस के फौजियों ने उसको जलील पडो, और पहाड़ियों से कि 'हमें छुपा लो।' 31 "क्योंकि अगर हे करते हुए उस का मजाक उड़ाया और उसे चमकदार लिबास पहना दरख्त से ऐसा सुलूक किया जाता है तो फिर सूखे के साथ क्या कुछ कर पीलातुस के पास वापस भेज दिया। 12 उसी दिन हेरोदेस और न किया जाएगा?" 32 दो और मर्दों को भी मस्तूब करने के लिए पीलातुस दोस्त बन गए, क्योंकि इस से पहले उन की दुश्मनी चल बाहर ले जाया जा रहा था। दोनों मुजरिम थे। 33 चलते चलते वह रही थी। 13 फिर पीलातुस ने रहनुमा इमामों, सरदारों और अवाम उस जगह पहुँचे जिस का नाम खोपड़ी था। वहाँ उन्होंने ने ईसा को को जमा करके; 14 उन से कहा, "तुम ने इस शख्स को मेरे पास ला दोनों मुजरिमों समेत मस्तूब किया। एक मुजरिम को उस के दाएँ कर इस पर इल्जाम लगाया है कि यह क्रौम को उकसा रहा है। मैं ने हाथ और दूसरे को उस के बाएँ हाथ लटका दिया गया। 34 ईसा तुम्हारी मौजूदगी में इस का जायजा ले कर ऐसा कुछ नहीं पाया जो ने कहा, "ए बाप, इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि यह जानते नहीं कि तुम्हारे इल्जामात की तस्दीक करे। 15 हेरोदेस भी कुछ नहीं मालूम क्या कर रहे हैं।" उन्होंने ने पर्ची डाल कर उस के कपडे आपस में कर सका, इस लिए उस ने इसे हमारे पास वापस भेज दिया है। इस बाँट लिए। 35 हुजूम वहाँ खड़ा तमाशा देखता रहा जबकि क्रौम के आदमी से कोई भी ऐसा गुनाह नहीं हुआ कि यह सज़ा — ए — सरदारों ने उस का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने ने कहा, "उस ने औरों मौत के लायक है। 16 इस लिए मैं इसे कोड़ों की सज़ा दे कर रिहा को बचाया है। अगर यह खुदा का चुना हुआ और मसीह है तो अपने कर देता हूँ।" 17 [अस्ल में यह उस का फर्ज था कि वह ईद के आप को बचाए।" 36 फौजियों ने भी उसे लान — तान की। उस मौके पर उन की खातिर एक कैदी को रिहा कर दे।] 18 लेकिन सब के पास आ कर उन्होंने ने उसे मय का सिरका पेश किया 37 और मिल कर शोर मचा कर कहने लगे, "इसे ले जाएँ! इसे नहीं बल्कि कहा, "अगर तू यहदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा बर — अब्बा को रिहा करके हमें दें।" 19 (बर — अब्बा को इस ले।" 38 उस के सर के ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी जिस पर लिए जेल में डाला गया था कि वह कातिल था और उस ने शहर में लिखा था, "यह यहदियों का बादशाह है।" 39 जो मुजरिम उस के हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी।) 20 पीलातुस ईसा को रिहा साथ मस्तूब हुए थे उन में से एक ने कुफ़्र बकते हुए कहा, "क्या तू करना चाहता था, इस लिए वह दुबारा उन से मुखातिब हुआ। 21 मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा ले। 40 लेकिन वह चिल्लाते रहे, "इसे मस्तूब करें, इसे मस्तूब करें।" 22 लेकिन दूसरे ने यह सुन कर उसे डाँटा, क्या तू खुदा से भी नहीं फिर पीलातुस ने तीसरी दफ़ा उन से कहा, "क्यों? उस ने क्या जुर्म डरता? जो सज़ा उसे दी गई है वह तुझे भी मिली है। 41 हमारी सज़ा किया है? मुझे इसे सज़ा — ए — मौत देने की कोई वजह नज़र तो वाजिबी है, क्योंकि हमें अपने कामों का बदला मिल रहा है, नहीं आती। इस लिए मैं इसे कोड़े लगावा कर रिहा कर देता हूँ।" लेकिन इस ने कोई बुरा काम नहीं किया।" 42 फिर उस ने ईसा से 23 लेकिन वह बड़ा शोर मचा कर उसे मस्तूब करने का तकाजा कहा, "जब आप अपनी बादशाही में आएँ तो मुझे याद करें।" 43 करते रहे, और आखिरकार उन की आवाज़ें गालिब आ गई। 24 ईसा ने उस से कहा, "मैं तुझे सच बताता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर पीलातुस ने फ़ैसला किया कि उन का मुतालबा पूरा किया जाए। फिरदोस में होगा।" 44 बारह बजे से दोपहर तीन बजे तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। 45 सूरज तारीक हो गया और बैत — उल — मुक़द्दस के पाकतरीन कमरे के सामने लटका हुआ पर्दा दो खिलाफ़ हरकतों और क़त्ल की वजह से जेल में डाल दिया गया था 46 ईसा ऊँची आवाज़ से पुकार उठा, "ए बाप, जबकि ईसा को उस ने उन की मर्जी के मुताबिक़ उन के हवाले कर हिस्सों में फट गया। 46 ईसा ऊँची आवाज़ से पुकार उठा, "ए बाप, दिया। 26 जब फ़ौजी ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने ने एक आदमी मैं अपनी रूह तैरे हाथों में सौंपता हूँ।" यह कह कर उस ने दम तोड़ को पकड़ लिया जो लिबिया के शहर कुरेन का रहने वाला था। उस दिया। 47 यह देख कर वहाँ खड़े फ़ौजी अपसर ने खुदा की बड़ाई का नाम शमौन था। उस वक़्त वह देहात से शहर में दाख़िल हो रहा करके कहा, "यह आदमी वाक़ई रास्तबाज़ था।" 48 और हुजूम के था। उन्होंने ने सलीब को उस के कंधों पर रख कर उसे ईसा के तमाम लोग जो यह तमाशा देखने के लिए जमा हुए थे यह सब कुछ पीछे चलने का हुक्म दिया। 27 एक बड़ा हुजूम उस के पीछे हो देख कर छाती पीटने लगे और शहर में वापस चले गए। 49 लेकिन लिया जिस में कुछ ऐसी औरतें भी शामिल थीं जो सीना पीट पीट ईसा के जानने वाले कुछ फ़ासिले पर खड़े देखते रहे। उन में वह कर उस का मातम कर रही थीं। 28 ईसा ने मुड़ कर उन से कहा, औरतें भी शामिल थीं जो गलील में उस के पीछे चल कर यहाँ तक "येरूशलेम की बेटियो! मेरे वास्ते न रोओ बल्कि अपने और अपने उस के साथ आई थीं। 50 वहाँ एक नेक और रास्तबाज़ आदमी

बनाम यूसुफ़ था। वह यहूदी अदालत — ए — अलिया का स्कन था 51 लेकिन दूसरों के फ़ैसले और हरकतो पर रज़ामन्द नहीं हुआ था। यह आदमी यहूदिया के शहर अरिमतियाह का रहने वाला था और इस इन्तिज़ार में था कि खुदा की बादशाही आए। 52 अब उस ने पिलातुस के पास जा कर उस से ईसा की लाश ले जाने की इजाज़त माँगी। 53 फिर लाश को उतार कर उस ने उसे कतान के कफ़न में लपेट कर चट्टान में तराशी हुई एक कब्र में रख दिया जिस में अब तक किसी को दफ़नाया नहीं गया था। 54 यह तैयारी का दिन यानी जुमआ था, लेकिन सबत का दिन शुरू होने को था। 55 जो औरतें ईसा के साथ गलील से आई थीं वह यूसुफ़ के पीछे हो लीं। उन्होंने कब्र को देखा और यह भी कि ईसा की लाश किस तरह उस में रखी गई है। 56 फिर वह शहर में वापस चली गई और उस की लाश के लिए ख़ुबूदार मसाले तैयार करने लगीं।

**24** हफ़्ते का पहला दिन शुरू हुआ, इस लिए उन्होंने न शरी'अत के मुताबिक़ आराम किया। इतवार के दिन यह औरतें अपने तैयारशुदा मसाले ले कर सुबह — सवेरे कब्र पर गईं। 2 वहाँ पहुँच कर उन्होंने न देखा कि कब्र पर का पत्थर एक तरफ़ लुढ़का हुआ है। 3 लेकिन जब वह कब्र में गईं तो वहाँ ख़ुदावन्द ईसा की लाश न पाई। 4 वह अभी उलझन में वहाँ खड़ी थी कि अचानक दो दर्द उन के पास आ खड़े हुए जिन के लिबास बिजली की तरह चमक रहे थे। 5 औरतें खौफ़ खा कर मुँह के बल झुक गईं, लेकिन उन मर्दों ने कहा, तुम क्यों जिन्दा को मुर्दों में ढूँड रही हो? 6 वह यहाँ नहीं है, वह तो जी उठा है। वह बात याद करो जो उस ने तुम से उस वक़्त कही जब वह गलील में था। 7 “ज़स्री है कि इब्न — ए — आदम को गुनाहगारों के हवाले कर के, मस्लूब किया जाए और कि वह तीसरे दिन जी उठे।” 8 फिर उन्हें यह बात याद आई। 9 और कब्र से वापस आ कर उन्होंने न यह सब कुछ ग्यारह रसूलों और बाकी शागिर्दों को सुना दिया। 10 मरियम मगदलिनी, यूना, याक़ूब की माँ मरियम और चन्द एक और औरतें उन में शामिल थीं जिन्होंने न यह बातें रसूलों को बताईं। 11 लेकिन उन को यह बातें बेतुकी सी लग रही थीं, इस लिए उन्हें यक़ीन न आया। 12 तो भी पतरस उठा और भाग कर कब्र के पास आया। जब पहुँचा तो झुक कर अन्दर झाँका, लेकिन सिर्फ़ कफ़न ही नज़र आया। यह हालात देख कर वह हैरान हुआ और चला गया। 13 उसी दिन ईसा के दो पैरोकार एक गाँव बनाम इम्माउस की तरफ़ चल रहे थे। यह गाँव येरूशलेम से तक्ररीबन दस किलोमीटर दूर था। 14 चलते चलते वह आपस में उन वाकिआत का जिक़र कर रहे थे जो हुए थे। 15 और ऐसा हुआ कि जब वह बातें और एक दूसरे के साथ बहस — ओ — मुबाहसा कर रहे थे तो ईसा ख़ुद करीब आ कर उन के साथ चलने लगा। 16 लेकिन उन की आँखों पर पर्दा डाला गया था, इस लिए वह

उसे पहचान न सके। 17 ईसा ने कहा, “यह कैसी बातें हैं जिन के बारे में तुम चलते चलते तबादला — ए — खयाल कर रहे हो?” यह सुन कर वह ग़मगीन से खड़े हो गए। 18 उन में से एक बनाम क्लियुपास ने उस से पूछा, “क्या आप येरूशलेम में वाहिद शख़्त हैं जिसे मालूम नहीं कि इन दिनों में क्या कुछ हुआ है?” 19 उस ने कहा, “क्या हुआ है?” उन्होंने ने जवाब दिया, वह जो ईसा नासरी के साथ हुआ है। वह नबी था जिसे कलाम और काम में ख़ुदा और तमाम क्रौम के सामने ज़बरदस्त ताक़त हासिल थी। 20 लेकिन हमारे रहनुमा इमामों और सरदारों ने उसे हुक्मरानों के हवाले कर दिया ताकि उसे सज़ा — ए — मौत दी जाए, और उन्होंने ने उसे मस्लूब किया। 21 लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि वही इम्पाईल को नजात देगा। इन वाकिआत को तीन दिन हो गए हैं। 22 लेकिन हम में से कुछ औरतों ने भी हमें हैरान कर दिया है। वह आज सुबह — सवेरे कब्र पर गईं थीं। 23 तो देखा कि लाश वहाँ नहीं है। उन्होंने ने लौट कर हमें बताया कि हम पर फ़रिश्ते जाहिर हुए जिन्होंने ने कहा कि ईसा “जिन्दा है। 24 हम में से कुछ कब्र पर गए और उसे वैसा ही पाया जिस तरह उन औरतों ने कहा था। लेकिन उसे ख़ुद उन्होंने न नहीं देखा।” 25 फिर ईसा ने उन से कहा, “अरे नादानों! तुम कितने नादान हो कि तुम्हें उन तमाम बातों पर यक़ीन नहीं आया जो नबियों ने फ़रमाई हैं। 26 क्या ज़स्री नहीं था कि मसीह यह सब कुछ झेल कर अपने जलाल में दाख़िल हो जाए?” 27 फिर मुसा और तमाम नबियों से शुरू करके ईसा ने कलाम — ए — मुक़द्दस की हर बात की तशरीह की जहाँ जहाँ उस का जिक़र है। 28 चलते चलते वह उस गाँव के करीब पहुँचे जहाँ उन्हें जाना था। ईसा ने ऐसा किया गोया कि वह आगे बढ़ना चाहता है, 29 लेकिन उन्होंने ने उसे मजबूर करके कहा, “हमारे पास ठहरें, क्योंकि शाम होने को है और दिन ढल गया है।” चुनौचे वह उन के साथ ठहरने के लिए अन्दर गया। 30 और ऐसा हुआ कि जब वह खाने के लिए बैठ गए तो उस ने रोटी ले कर उस के लिए शूक्रगुजारी की दुआ की। फिर उस ने उसे टुकड़े करके उन्हें दिया। 31 अचानक उन की आँखें खुल गईं और उन्होंने ने उसे पहचान लिया। लेकिन उसी लम्हे वह ओझल हो गया। 32 फिर वह एक दूसरे से कहने लगे, “क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे जब वह रास्ते में हम से बातें करते करते हमें सहीफ़ों का मतलब समझा रहा था?” 33 और वह उसी वक़्त उठ कर येरूशलेम वापस चले गए। जब वह वहाँ पहुँचे तो ग्यारह रसूल अपने साथियों समेत पहले से जमा थे 34 और यह कह रहे थे, “ख़ुदावन्द वाक़ई जी उठा है! वह शमौन पर जाहिर हुआ है।” 35 फिर इम्माउस के दो शागिर्दों ने उन्हें बताया कि गाँव की तरफ़ जाते हुए क्या हुआ था और कि ईसा के रोटी तोड़ते वक़्त उन्होंने ने उसे कैसे पहचाना। 36 वह अभी यह बातें सुना रहे थे कि ईसा ख़ुद उन



के दर्मियान आ खड़ा हुआ और कहा, “तुम्हारी सलामती हो।” 37 वह घबरा कर बहुत डर गए, क्योंकि उन का खयाल था कि कोई भूत — प्रेत देख रहे हैं। 38 उस ने उन से कहा, “तुम क्यों परेशान हो गए हो? क्या वजह है कि तुम्हारे दिलों में शक उभर आया है? 39 मेरे हाथों और पैरों को देखो कि मैं ही हूँ। मुझे टटोल कर देखो, क्योंकि भूत के गोशत और हड्डियाँ नहीं होती जबकि तुम देख रहे हो कि मेरा जिस्म है।” 40 यह कह कर उस ने उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए। 41 जब उन्हें खुशी के मारे यकीन नहीं आ रहा था और ता'अज्जुब कर रहे थे तो ईसा ने पूछा, “क्या यहाँ तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है?” 42 उन्होंने ने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया 43 उस ने उसे ले कर उन के सामने ही खा लिया। 44 फिर उस ने उन से कहा, “यही है जो मैं ने तुम को उस वक्त बताया था जब तुम्हारे साथ था कि जो कुछ भी मूसा की शरी'अत, नबियों के सहीफों और ज़बूर की किताब में मेरे बारे में लिखा है उसे पूरा होना है।” 45 फिर उस ने उन के ज़हन को खोल दिया ताकि वह खुदा का कलाम समझ सकें। 46 उस ने उन से कहा, “कलाम — ए — मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मसीह दुःख उठा कर तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठेगा। 47 फिर येरूशलेम से शुरू करके उस के नाम में यह पैगाम तमाम क्रौमों को सुनाया जाएगा कि वह तौबा करके गुनाहों की मुआफ़ी पाएँ। 48 तुम इन बातों के गवाह हो। 49 और मैं तुम्हारे पास उसे भेज दूँगा जिस का वादा मेरे बाप ने किया है। फिर तुम को आस्मान की ताक़त से भर दिया जाएगा। उस वक्त तक शहर से बाहर न निकलना।” 50 फिर वह शहर से निकल कर उन्हें बैत — अनियाह तक ले गया। वहाँ उस ने अपने हाथ उठा कर उन्हें बर्क़त दी। 51 और ऐसा हुआ कि बर्क़त देते हुए वह उन से जुदा हो कर आस्मान पर उठा लिया गया। 52 उन्होंने ने उसे सिज्दा किया और फिर बड़ी खुशी से येरूशलेम वापस चले गए। 53 वहाँ वह अपना पूरा वक्त बैत — उल — मुक़द्दस में गुज़ार कर खुदा की बड़ाई करते रहे।

# यूहन्ना

1 इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। 2 यही शुरू में खुदा के साथ था। 3 सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। 4 उसमें ज़िन्दगी थी और वो ज़िन्दगी आदमियों का नूर थी। 5 और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कुबूल न किया। 6 एक आदमी यहून्ना नाम आ मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था; 7 ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएँ। 8 वो खुद तो नूर न था, मगर नूर की गवाही देने आया था। 9 हकीकती नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनियाँ में आने को था। 10 वो दुनियाँ में था, और दुनियाँ उसके वसीले से पैदा हुईं, और दुनियाँ ने उसे न पहचाना। 11 वो अपने घर आया और और उसके अपनों ने उसे कुबूल न किया। 12 लेकिन जितनों ने उसे कुबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फ़र्जन्द बनने का हक बख़्शा, उसने उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। 13 वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। 14 और कलाम मुजस्सिम हुआ फ़ज़ल और सच्चाई से भरकर हमारे दरमियान रहा, और हम ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। 15 यहून्ना ने उसके बारे में गवाही दी, और पुकार कर कहा है, “ये वही है, जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है, वो मुझ से मुक़द्दम ठहरा क्योंकि वो मुझ से पहले था।” 16 क्योंकि उसकी भरपूरी में से हम सब ने पाया, या'नी फ़ज़ल पर फ़ज़ल। 17 इसलिए कि शरी'अत तो मूसा के ज़रिए दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई ईसा मसीह के ज़रिए पहुँची। 18 खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। 19 और यहून्ना की गवाही ये है, कि जब यहूदी अगुवो ने येरूशलेम से काहिन और लावी ये पछने को उसके पास भेजे, “तू कौन है?” 20 तो उसने इकरार किया, और इन्कार न किया बल्कि, इकरार किया, “मैं तो मसीह नहीं हूँ।” 21 उन्होंने उससे पूछा, “फिर तू कौन है? क्या तू एलियाह है?” उसने कहा, “मैं नहीं हूँ।” “क्या तू वो नबी है?” उसने जवाब दिया, कि “नहीं।” 22 पस उन्होंने उससे कहा, “फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें कि, तू अपने हक में क्या कहता है?” 23 मैं “जैसा यसायाह नबी ने कहा, वीराने में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, 'तुम खुदा वन्द की राह को सीधा करो।'” 24 ये फ़रीसियों की तरफ से भेजे गए थे। 25 उन्होंने उससे ये सवाल किया, “अगर तू न मसीह है, न एलियाह, न वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है?” 26 यहून्ना ने जवाब में उनसे कहा,

“मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। 27 या'नी मेरे बाद का आनेवाला, जिसकी जूती का फ़ीता मैं खोलने के लायक नहीं।” 28 ये बातें यरदन के पार बैत'अन्नियाह में वाक़े' हुईं, जहाँ यहून्ना बपतिस्मा देता था। 29 दूसरे दिन उसने ईसा 'को अपनी तरफ आते देखकर कहा, “देखो, ये खुदा का बरा है जो दुनियाँ का गुनाह उठा ले जाता है! 30 ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, 'एक शख्स मेरे बाद आता है, जो मुझ से मुक़द्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझ से पहले था।' 31 और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इम्प्राईल पर जाहिर हो जाए।” 32 और यहून्ना ने ये गवाही दी: “मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। 33 मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझ से कहा, 'जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह — उल — कुदूस से बपतिस्मा देनेवाला है। 34 चुनौचे मैंने देखा, और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है।” 35 दूसरे दिन फिर यहून्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे, 36 उसने ईसा पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, “देखो, ये खुदा का बरा है!” 37 वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। 38 ईसा ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, “तुम क्या ढूँडते हो?” उन्होंने उससे कहा, “ऐ रब्बी (या'नी ऐ उस्ताद), तू कहाँ रहता है?” 39 उसने उनसे कहा, “चलो, देख लोगे।” पस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये चार बजे के करीब था। 40 उन दोनों में से जो यहून्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अन्द्रियास था। 41 उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, “हम को ख्रिस्तस, या'नी मसीह मिल गया।” 42 वो उसे ईसा के पास लाया ईसा ने उस पर निगाह करके कहा, “तू यहून्ना का बेटा शमौन है; तू कैफ़ा या'नी पतरस कहलाएगा।” 43 दूसरे दिन ईसा ने गलील में जाना चाहा, और फिलिप्पस से मिलकर कहा, “मेरे पीछे हो ले।” 44 फिलिप्पस, अन्द्रियास और पतरस के शहर, बैतसैदा का रहने वाला था। 45 फिलिप्पस से नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरत में और नबियों ने किया है, वो हम को मिल गया; वो यूसुफ का बेटा ईसा नासरी है।” 46 नतनएल ने उससे कहा, “क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है?” फिलिप्पस ने कहा, “चलकर देख ले।” 47 ईसा ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, “देखो, ये फिल हकीकत इम्प्राईली है! इस में मक़ नहीं।” 48 नतनएल ने उससे कहा, “तू मुझे कहाँ से जानता है?” ईसा ने उसके जवाब में कहा, “इससे पहले के फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त

के नीचे था, मैंने तुझे देखा।” 49 नतनएल ने उसको जवाब दिया, “ऐ रेब्बी, तू खुदा का बेटा है! तू बादशाह का बादशाह है!” 50 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “मैंने जो तुझ से कहा, 'तुझ को अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, 'क्या। तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े — बड़े मोजिजे देखेगा।” 51 फिर उससे कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ, कि आसमान को खुला और खुदा के फरिशतों को ऊपर जाते और इब्न — ए — आदम पर उतरते देखोगे।”

**2** फिर तीसरे दिन काना — ए — गलील में एक शादी हुई और ईसा की माँ वहाँ थी। 2 ईसा और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दा'वत थी। 3 और जब मय खत्म हो चुकी, तो ईसा की माँ ने उससे कहा, “उनके पास मय नहीं रही।” 4 ईसा ने उससे कहा, “ऐ माँ मुझे तुझ से क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया है।” 5 उसकी माँ ने खादिमों से कहा, “जो कुछ ये तुम से कहे वो करो।” 6 वहाँ यहदियों की पाकी के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के छे: मटके रखे थे, और उनमें दो — दो, तीन — तीन मन की गुंजाइश थी। 7 ईसा ने उनसे कहा, “मटकों में पानी भर दो।” पस उन्होंने उनको पूरा भर दिया। 8 फिर उसने उन से कहा, “अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ।” पस वो ले गए। 9 जब मजलिस के सरदार ने वो पानी चखा, जो मय बन गया था और जानता न था कि ये कहाँ से आई है (मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे), तो मजलिस के सरदार ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, 10 “हर शख्स पहले अच्छी मय पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मय अब तक रख छोडी है।” 11 ये पहला मोजिजा ईसा ने काना — ए — गलील में दिखाकर, अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। 12 इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहम को गए और वहाँ चन्द रोज रहे। 13 यहदियों की 'ईद — ए — फसह नज्दीक थी, और ईसा येरूशलेम को गया। 14 उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को, और सार्राफों को बैठे पाया; 15 फिर ईसा ने रस्सियों का कोडा बना कर सब को बैत — उल — मुकद्दस से निकाल दिया, उसने भेड़ों और गाय — बैलों को बाहर निकाल कर हाँक दिया, पैसे बदलने वालों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेंजें उलट दी। 16 और कबूतर फरोशों से कहा, “इनको यहाँ से ले जाओ! मेरे आसमानी बाप के घर को तिजारत का घर न बनाओ।” 17 उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी।” 18 पस कुछ यहदी अगुवों ने जवाब में उनसे कहा, “तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है?” 19 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “इस हैकल को ढा दो, तो मैं इसे तीन दिन में खडा कर दूँगा।” 20 यहदी अगुवों ने कहा, छियालीस बरस में ये बना है,

और क्या तू उसे तीन दिन में खडा कर देगा?” 21 मगर उसने अपने बदन के मक्दिस के बारे में कहा था। 22 “पस जब वो मुर्दाँ में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था; और उन्होंने किताब — ए — मुकद्दस और उस कौल का जो ईसा ने कहा था, यकीन किया।” 23 जब वो येरूशलेम में फसह के वक्त 'ईद में था, तो बहुत से लोग उन मोजिजों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। 24 लेकिन ईसा अपनी निस्वत उस पर 'ऐतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था। 25 और इसकी जरूरत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है।

**3** फरीसियों में से एक शख्स निकुदेमुस नाम यहदियों का एक सरदार था। 2 उसने रात को ईसा के पास आकर उससे कहा, “ऐ रेब्बी! हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजिजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता, जब तक खुदा उसके साथ न हो।” 3 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “मैं तुझ से सच कहता हूँ, कि जब तक कोई नए सिर से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता।” 4 नीकुदेमुस ने उससे कहा, “आदमी जब बूढा हो गया, तो क्यूँकर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है?” 5 ईसा ने जवाब दिया, “मैं तुझ से सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। 6 जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। 7 ता'अज्जुब न कर कि मैंने तुझ से कहा, 'तुम्हें नए सिर से पैदा होना जरूर है। 8 हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है।” 9 नीकुदेमुस ने जवाब में उससे कहा, “ये बातें क्यूँकर हो सकती हैं?” 10 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “बनी — इस्राइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? 11 मैं तुझ से सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हम ने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कुबूल नहीं करते। 12 जब मैंने तुम से जमीन की बातें कही और तुम ने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुम से आसमान की बातें कहूँ तो क्यूँकर यकीन करोगे? 13 आसमान पर कोई नहीं चढा, सिवा उसके जो आसमान से उतरा या'नी इब्न — ए — आदम जो आसमान में है। 14 और जिस तरह मूसा ने पीतल के साँपको वीराने में ऊँचे पर चढाया, उसी तरह जरूर है कि इब्न — ए — आदम भी ऊँचे पर चढाया जाए; 15 ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिन्दगी पाए।” (aiōnios g166) 16 “क्यूँकि खुदा ने दुनियाँ से ऐसी मुहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक

न हो, बल्कि हमेशा की ज़िन्दगी पाए। (aiōnios g166) 17 क्योंकि है, 2 (अगरचे ईसा आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते खुदा ने बेटे को दुनियाँ में इसलिए नहीं भेजा कि दुनियाँ पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनियाँ उसके वसीले से नजात पाए। और उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। 5 पस वो सामरिया 18 जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो के एक शहर तक आया जो सूखार कहलाता है, वो उस कित्ते के उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका; इसलिए नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था; 6 और कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। 19 याकूब का कुआँ वही था। चुनौचे ईसा सफर से थका — मॉदा और सज़ा के हुक्म की वजह ये है कि नूर दुनियाँ में आया है, और होकर उस कुँए पर यँ ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। 7 आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसन्द किया इसलिए कि सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, “मुझे उनके काम बुरे थे। 20 क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से पानी पिला” 8 क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना खरीदने को दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके गप थे। 9 उस सामरी 'औरत ने उससे कहा, “तू यहदी होकर मुझ कामों पर मलामत की जाए। 21 मगर जो सचाई पर 'अमल करता सामरी 'औरत से पानी क्यँ मॉंगता है?” (क्योंकि यहदी सामरियों से है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते।) 10 ईसा ने जवाब में उससे कहा, में किए गए हैं।” 22 इन बातों के बाद ईसा और शागिर्द यहदिया के “अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, और ये भी जानती कि वो मुल्क में आए, और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। कौन है जो तुझ से कहता है, 'मुझे पानी पिला, 'तो तू उससे मॉंगती 23 और यहन्ना भी 'एनोन में बपतिस्मा देता था जो यरदन नदी के और वो तुझे ज़िन्दगी का पानी देता।” 11 'औरत ने उससे कहा, “ऐ पासथा, क्यँकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते खुदावन्द! तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआँ गहरा थे। 24 (क्यँकि यहन्ना उस वक्त तक कैदखाने में डाला न गया था) है, फिर वो ज़िन्दगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? 12 क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हम को ये कुआँ दिया, और खुद 25 पस यहन्ना के शागिर्दों की किसी यहदी के साथ पाकीज़गी के बारे में बहस हुई। उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने उसमें से पिया?” रब्बी! जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तुने गवाही दी 13 ईसा ने जवाब में उससे कहा, “जो कोई इस पानी में से पीता है वो है; देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं।” 27 फिर प्यासा होगा, 14 मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे युहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता, जब तक दूँगा, वो अबद तक प्यासा न होगा! बल्कि जो पानी मैं उसे दूँगा, वो उसको आसमान से न दिया जाए। उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िन्दगी के लिए जारी रहेगा।” (aiōn g165, aiōnios g166) 15 औरत ने उस से कहा, “ऐ 28 तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने खुदावन्द! वो पानी मुझ को दे ताकि मैं न प्यासी हूँ, न पानी भरने को कहा, मैं मसीह नहीं, मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। 29 जिसकी यहाँ तक आऊँ।” 16 ईसा ने उससे कहा, “जा, अपने शौहर को दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी यहाँ बुला ला।” 17 'औरत ने जवाब में उससे कहा, “मैं बे शौहर पूरी हो गई। 30 ज़रूर है कि वो बड़े और मैं घट्टूँ। 31 “जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है हैं।” ईसा ने उससे कहा, “तुने खूब कहा, मैं बे शौहर हूँ, 18 क्यँकि और ज़मीन ही की कहता है 'जो आसमान से आता है वो सबसे तू पाँच शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर ऊपर है। 32 जो कुछ उस ने खुद देखा और सुना है उसी की गवाही नहीं; ये तुने सच कहा।” 19 औरत ने उससे कहा, “ऐ खुदावन्द! देता है। तो भी कोई उस की गवाही कुबूल नहीं करता। 33 जिसने मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। 20 हमारे बाप — दादा ने इस उसकी गवाही कुबूल की उसने इस बात पर मुहर कर दी, कि खुदा पहाड़ पर इबादत की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ पर सच्चा है। 34 क्यँकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इबादत करना चाहिए येरूशलेम में है।” 21 ईसा ने उससे कहा, “ऐ इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। 35 बाप बेटे से मुहब्बत बहन, मेरी बात का यकीन कर, कि वो वक्त आता है कि तुम न तो रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी है। 36 जो बेटे पर इस पहाड़ पर बाप की इबादत करोगे और न येरूशलेम में। 22 तुम ईमान लाता है हमेशा की ज़िन्दगी उसकी है; लेकिन जो बेटे की जिसे नहीं जानते उसकी इबादत करते हो; और हम जिसे जानते हैं नहीं मानता 'ज़िन्दगी को न देखगा बल्कि उसपर खुदा का गज़ब उसकी इबादत करते हैं; क्यँकि नजात यहदियों में से है। 23 मगर वो रहता है।” (aiōnios g166) वक्त आता है बल्कि अब ही है, कि सच्चे इबादतधर खुदा बाप की

4 फिर जब खुदावन्द को मालूम हुआ, कि फ़रीसियों ने सुना है इबादत रूह और सच्चाई से करोगे, क्यँकि खुदा बाप अपने लिए ऐसे कि ईसा यहन्ना से ज्यादा शागिर्द बनाता है और बपतिस्मा देता ही इबादतधर ढूँडता है। 24 खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके

इबादतघर रह और सच्चाई से इबादत करें।” 25 'औरत ने उससे उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा, कि चल कर मेरे कहे, “मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला बेटे को शिफा बख्श क्यूँकि वो मरने को था। 48 ईसा ने उससे कहा, है, जब वो आया तो हमें सब बातें बता देगा।” 26 ईसा ने उससे “जब तक तुम निशान और 'अजीब काम न देखो, हरगिज ईमान न कहा, “मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ, वही हूँ।” 27 इतने में उसके लाओगे।” 49 बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, “ए ख़ुदावन्द! शागिर्द आ गए और ताअ'ज्जुब करने लगे कि वो 'औरत से बातें कर मेरे बच्चे के मरने से पहले चल।” 50 ईसा ने उससे कहा, “जा; रहा है, तोभी किसी ने न कहा, “तू क्या चाहता है?” या, “उससे तेरा बेटा जिन्दा है।” उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो किस लिए बातें करता है।” 28 पस 'औरत अपना घडा छोड़कर ईसा ने उससे कही और चला गया। 51 वो रास्ते ही में था कि उसके शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, 29 “आओ, एक नौकर उसे मिले और कहने लगे, “तेरा बेटा जिन्दा है।” 52 उसने आदमी को देखो, जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुम्किन उनसे पूछा, “उसे किस वक़्त से आराम होने लगा था?” उन्होंने है कि मसीह यही है?” 30 वो शहर से निकल कर उसके पास आने कहा, “कल एक बजे उसका बुखार उतर गया।” 53 पस बाप जान लगे। 31 इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरखास्त करने लगे, “ए गया कि वही वक़्त था जब ईसा ने उससे कहा, “तेरा बेटा जिन्दा रब्बी! कुछ खा ले।” 32 लेकिन उसने कहा, “मेरे पास खाने के है।” और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। 54 ये दूसरा लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते।” 33 पस शागिर्दों ने करिश्मा है जो ईसा ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आपस में कहा, “क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है?”

**5** इन बातों के बाद यहूदियों की एक 'ईद हुई और ईसा येरूशलेम को गया। 2 येरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो 'इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, और उसके पाँच बरामदेह हैं। 3 इन्में बहुत से बीमार और अन्धे और लंगड़े और कमजोर लोग जो पानी के हिलने के इंतज़ार में पड़े थे। 4 [क्यूँकि वक़्त पर ख़ुदावन्द का फ़रिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यूँ न हो।] 5 वहाँ एक शख्स था जो अठतीस बरस से बीमारी में मुब्तिला था। 6 उसको 'ईसा ने पडा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, “क्या तू तन्दस्त होना चाहता है?” 7 उस बीमार ने उसे जवाब दिया, “ए ख़ुदावन्द! मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझ से पहले उतर पडता है।” 8 'ईसा ने उससे कहा, “उठ, और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर।” 9 वो शख्स फ़ौरन तन्दस्त हो गया, और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। 10 वो दिन सबत का था। पस यहूदी अगुवे उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे, “आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना जायज़ नहीं।” 11 उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तन्दस्त किया, उसी ने मुझे फरमाया, “अपनी चारपाई उठाकर चल फिर।” 12 उन्होंने उससे पूछा, “वो कौन शख्स है जिसने तुझ से कहा, ‘चारपाई उठाकर चल फिर?’” 13 लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि वो कौन है, क्यूँकि भीड़ की वजह से 'ईसा वहाँ से टल गया था। 14 इन बातों के बाद वो ईसा को हैकल में मिला; उसने उससे कहा, “देख, तू तन्दस्त हो गया है! फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझपर इससे भी ज़्यादा आफत आए।” 15 उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तन्दस्त किया वो ईसा है। 16 इसलिए यहूदी ईसा को

सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। 17 लेकिन ईसा ने उनसे कहा, “मेरा आसमानी बाप अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ।” 18 इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कल्ल करने की कोशिश करने लगे, कि वो न फकत सबत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कह कर अपने आपको खुदा के बराबर बनाता था 19 पस ईसा ने उनसे कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि बेटा आप से कुछ नहीं कर सकता, सिवा उसके जो बाप को करते देखता है; क्योंकि जिन कामों को वो करता है, उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। 20 इसलिए कि बाप बेटे को 'अजीज रखता है, और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है; बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ता'ज्जुब करो। 21 क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिन्दा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिन्दा करता है। 22 क्योंकि बाप किसी की 'अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने 'अदालत का सारा काम बेटे के सुपर्द किया है; 23 ताकि सब लोग बेटे की 'इज्जत करें जिस तरह बाप की 'इज्जत करते हैं। जो बेटे की 'इज्जत नहीं करता, वो बाप की जिसने उसे भेजा 'इज्जत नहीं करता। 24 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिन्दगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिन्दगी में दाखिल हो गया है।” (aiōnios g166) 25 “मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है बल्कि अभी है, कि मुर्द खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिंएंगे। 26 क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिन्दगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिन्दगी रखे। 27 बल्कि उसे 'अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। 28 इससे ता'अज्जुब न करो; क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, 29 जिन्होंने नेकी की है जिन्दगी की कयामत, के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की कयामत के वास्ते।” 30 “मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता; जैसा सुनता हूँ 'अदालत करता हूँ और मेरी 'अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। 31 अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। 32 एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। 33 तुम ने यहून्ना के पास पयाम भेजा, और उसने सच्चाई की गवाही दी है। 34 लेकिन मैं अपनी निस्बत इसान की गवाही मंज़ूर नहीं करता, तोभी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम नजात पाओ। 35 वो जलता और चमकता हुआ चराग था, और तुम को कुछ 'असँ तक उसकी रौशनी में खुश रहना मंज़ूर हुआ। 36 लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यहून्ना की गवाही से बड़ी है,

क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, या'नी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। 37 और बाप जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। तुम ने न कभी उसकी आवाज़ सुनी है और न उसकी सरत देखी; 38 और उस के कलाम को अपने दिलों में काईम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। 39 तुम किताब — ए — मुकद्दस में ढूँडते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिन्दगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है; (aiōnios g166) 40 फिर भी तुम जिन्दगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। 41 मैं आदमियों से 'इज्जत नहीं चाहता। 42 लेकिन मैं तुमको जानता हूँ कि तुम में खुदा की मुहब्बत नहीं। 43 मैं अपने आसमानी बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कुबूल नहीं करते, अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कुबूल कर लोगे। 44 तुम जो एक दूसरे से 'इज्जत चाहते हो और वो 'इज्जत जो खुदा — ए — वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्योंकि ईमान ला सकते हो? 45 ये न समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगा; तुम्हारी शिकायत करनेवाला तो है, या'नी मूसा जिस पर तुम ने उम्मीद लगा रखी है। 46 क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। 47 लेकिन जब तुम उसके लिखे हुए का यकीन नहीं करते, तो मेरी बात का क्योंकि यकीन करोगे?”

**6** इन बातों के बाद 'ईसा गलील की झील या'नी तिबरियास की झील के पार गया। 2 और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो मोजिजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। 3 ईसा पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा। 4 और यहूदियों की 'ईद — ए — फसह नजदीक थी। 5 पस जब 'ईसा ने अपनी आँखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा, “हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियाँ खरीद लें?” 6 मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। 7 फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया, “दो सौ दिन मजदूरी की रोटियाँ इनके लिए काफी न होंगी, कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए।” 8 उसके शागिर्दों में से एक ने, या'नी शमौन पतरस के भाई अन्दियास ने, उससे कहा, 9 “यहाँ एक लडका है जिसके पास जौ की पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है?” 10 ईसा ने कहा, “लोगों को बिठाओ।” और उस जगह बहुत घास थी। पस वो मर्द जो तकरीबन पाँच हज़ार थे बैठ गए। 11 ईसा ने वो रोटियाँ ली और शुक करके उन्हें जो बैठे थे बाँट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बाँट दिया। 12 जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, “बचे हुए बे इस्तेमाल खाने को जमा करो, ताकि कुछ जाया न हो।” 13 चुनौचे उन्होंने जमा किया, और जौ की पाँच

रोटियों के टुकड़ों से जो खानेवालों से बच रहे थे बारह टोकरीयाँ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। 36 लेकिन मैंने तुम से कहा भरी 14 पस जो मोजिजा उसने दिखया, “वो लोग उसे देखकर कि तुम ने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। 37 जो कुछ कहने लगे, जो नबी दुनियाँ में आने वाला था हकीकत में यही है।”

15 पस ईसा ये मा'लूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। 16 फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए, 17 और नाव में बैठकर झील के पार कफ़रनहम को चले जाते थे। उस वक़्त अन्धेरा हो गया था, और 'ईसा अभी तक उनके पास न आया था। 18 और मैं उसमें से कुछ खो न दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिन्दा आँधी की वजह से झील में मौजें उठने लगी। 19 पस जब वो खेते — खेते तीन — चार मील के करीब निकल गए, तो उन्होंने 'ईसा को झील पर चलते और नाव के नज़दीक आते देखा और डर गए। 20 मगर उसने उनसे कहा, “मैं हूँ, डरो मत।” 21 पस वो उसे नाव में चढ़ा लेने को राज़ी हुए, और फ़ौरन वो नाव उस जगह जा पहुँची जहाँ वो जाते थे। 22 दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी नाव न थी; और 'ईसा अपने शागिर्दों के साथ नाव पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ़ उसके शागिर्द चले गए थे। 23 (लेकिन कुछ छोटी नावें तिबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं, जहाँ उन्होंने खुदाबन्द के शुक़ करने के बाद रोटी खाई थी।) 24 पस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न 'ईसा है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी नावों में बैठकर 'ईसा की तलाश में कफ़रनहम को आए। 25 और झील के पार उससे मिलकर कहा, “ऐ रब्बी! तू यहाँ कब आया?” 26 ईसा ने उनके जवाब में कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूँढते कि मोजिजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सेर हुए। 27 फ़ानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिन्दगी तक बाकी रहती है जिसे इब्न — ए — आदम तुम्हें देगा; क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मुहर की है।” (aiōnios g166) 28 पस उन्होंने उससे कहा, “हम क्या करें ताकि खुदा के काम अन्जाम दें?” 29 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ।” 30 पस उन्होंने उससे कहा, “फिर तू कौन सा निशान दिखाता है, ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? 31 हमारे बाप — दादा ने वीराने में मन्ना खाया, चुनाँचे लिखा है, 'उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी।’” 32 ईसा ने उनसे कहा, “मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकती रोटी देता है। 33 क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनियाँ को जिन्दगी बख़्शाती है।” 34 उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदाबन्द! ये रोटी हम को हमेशा दिया कर।” 35 ईसा ने उनसे कहा, “जिन्दगी की रोटी मैं हूँ; जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा न होगा, और जो मुझे खाएगा मेरे ज़रिए से जिन्दा रहेगा। 36 लेकिन मैंने तुम से कहा कि तुम ने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। 37 जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आया उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूँगा। 38 क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मज़ी के मुवाफ़िक़ 'अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजनेवाले की मज़ी के मुवाफ़िक़ 'अमल करूँ। 39 और मेरे भेजनेवाले की मज़ी ये है, कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो न दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिन्दा करूँ।” (aiōnios g166) 40 क्योंकि मेरे बाप की मज़ी ये है, कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, और हमेशा की जिन्दगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिन्दा करूँ।” (aiōnios g166) 41 पस यहूदी उस पर बुदबुदाने लगे, इसलिए कि उसने कहा, था, “जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ।” 42 और उन्होंने कहा, क्या ये युसूफ़ का बेटा 'ईसा नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यूँकर कहता है कि “मैं आसमान से उतरा हूँ?” 43 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “आपस में न बुदबुदाओ। 44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिन्दा करूँगा। 45 नबियों के सहीफ़ों में ये लिखा है: 'वो सब खुदा से ता'लीम पाए हुए लोग होंगे।' जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है — 46 ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ़ से है उसी ने बाप को देखा है। 47 मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिन्दगी उसकी है। (aiōnios g166) 48 जिन्दगी की रोटी मैं हूँ। 49 तुम्हारे बाप — दादा ने वीराने में मन्ना खाया और मर गए। 50 ये वो रोटी है कि जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे। 51 मैं हूँ वो जिन्दगी की रोटी जो आसमान से उतरती। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिन्दा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं दुनियाँ की जिन्दगी के लिए दूँगा वो मेरा गोश्त है।” (aiōn g165) 52 पस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, “ये शख्स आपना गोश्त हमें क्यूँकर खाने को दे सकता है?” 53 ईसा ने उनसे कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक तुम इब्न — ए — आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिन्दगी नहीं। 54 जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिन्दगी उसकी है; और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिन्दा करूँगा। (aiōnios g166) 55 क्योंकि मेरा गोश्त हकीकत में खाने की चीज़ और मेरा खून हकीकत में पीनी की चीज़ है। 56 जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में काईम रहता है और मैं उसमें। 57 जिस तरह जिन्दा बाप ने मुझे भेजा, और मैं बाप के ज़रिए से जिन्दा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे ज़रिए से जिन्दा रहेगा। 58 जो रोटी आसमान से उतरी

यही है, बाप — दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए; जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा तक जिन्दा रहेगा।” (aiōn g165) 59 ये बातें उसने कफ़रनहम के एक 'इबादतखाने में ता'लीम देते वक़्त कही। 60 इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा, “ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है?” 61 ईसा ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुदबुदाते हैं, उनसे कहा, “क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? 62 अगर तुम इब्न — ए — आदम को ऊपर जाते देखोगे, जहाँ वो पहले था तो क्या होगा? 63 जिन्दा करने वाली तो रूह है, जिसमे से कुछ फ़ाइदा नहीं; जो बातें मैंने तुम से कही हैं, वो रूह हैं और जिन्दगी भी हैं। 64 मगर तुम में से कुछ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए।” क्योंकि ईसा शुक़ से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन हैं, और कौन मुझे पकड़वाएगा। 65 फिर उसने कहा, “इसी लिए मैंने तुम से कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफ़ीक़ न दी जाए।” 66 इस पर उसके शागिर्दों में से बहुत से लोग उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ न रहे। 67 पस ईसा ने उन बारह से कहा, “क्या तुम भी चले जाना चाहते हो?” 68 शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, “ऐ खुदावन्द! हम किसके पास जाएँ? हमेशा की जिन्दगी की बातें तो तेरे ही पास हैं?” (aiōnios g166) 69 और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि, खुदा का कुदूस तू ही है।” 70 ईसा ने उन्हें जवाब दिया, “क्या मैंने तुम बारह को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है।” 71 उसने ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदाह की निस्वत कहा, क्योंकि यही जो उन बारह में से था उसे पकड़वाने को था।

**7** इन बातों के बाद 'ईसा गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदिया में फिरना न चाहता था, इसलिए कि यहूदी अगुवे उसके क़त्ल की कोशिश में थे 2 और यहूदियों की 'ईद — ए — खियाम नजदीक थी। 3 पस उसके भाइयों ने उससे कहा, “यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। 4 क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छिपकर काम करे। अगर तू ये काम करता है, तो अपने आपको दुनियाँ पर जाहिर कर।” 5 क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान न लाए थे। 6 पस ईसा ने उनसे कहा, “मेरा तो अभी वक़्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक़्त है। 7 दुनियाँ तुम से 'दुग्मनी नहीं रख सकती लेकिन मुझ से रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। 8 तुम 'ईद में जाओ; मैं अभी इस 'ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक़्त पूरा नहीं हुआ।” 9 ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। 10 लेकिन जब उसके भाई 'ईद में चले गए उस वक़्त वो भी गया, खुले तौर पर नहीं बल्कि पोशीदा। 11 पस यहूदी उसे 'ईद में ये कहकर ढूँडने लगे, “वो कहाँ है?” 12 और लोगों में

उसके बारे में चुपके — चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई; कुछ कहते थे, वो नेक है। “और कुछ कहते थे, नहीं बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है।” 13 तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसके बारे में साफ़ साफ़ न कहता था। 14 जब 'ईद के आधे दिन गुज़र गए, तो 'ईसा हैकल में जाकर ता'लीम देने लगा। 15 पस यहूदियों ने ता'ज्जुब करके कहा, “इसको बग़ैर पढ़े क्यूँकर 'इल्म आ गया?” 16 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “मेरी ता'लीम मेरी नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले की है। 17 अगर कोई उसकी मज़ी पर चलना चाहे, तो इस ता'लीम की वजह से जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। 18 जो अपनी तरफ से कुछ कहता है, वो अपनी 'इज़्जत चाहता है; लेकिन जो अपने भेजनेवाले की 'इज़्जत चाहता है, वो सच्चा है और उसमें नारास्ती नहीं। 19 क्या मूसा ने तुम्हें शरी'अत नहीं दी? तोभी तुम में शरी'अत पर कोई 'अमल नहीं करता। तुम क्यूँ मेरे क़त्ल की कोशिश में हो?” 20 लोगों ने जवाब दिया, “तुझ में तो बद्रूह है! कौन तेरे क़त्ल की कोशिश में है?” 21 ईसा ने जवाब में उनसे कहा, “मैंने एक काम किया, और तुम सब ता'ज्जुब करते हो। 22 इस बारे में मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है (हालाँकि वो मूसा की तरफ से नहीं, बल्कि बाप — दादा से चला आया है), और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। 23 जब सबत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरी'अत का हुक्म न टूटे; तो क्या मुझ से इसलिए नाराज़ हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तन्दस्त्त कर दिया? 24 ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ फ़ैसला न करो, बल्कि इन्साफ से फ़ैसला करो।” 25 तब कुछ येरूशलेमी कहने लगे, “क्या ये वही नहीं जिसके क़त्ल की कोशिश हो रही है? 26 लेकिन देखो, ये साफ़ — साफ़ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों से सच जान लिया कि मसीह यही है? 27 इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आया तो कोई न जानेगा कि वो कहाँ का है।” 28 पस ईसा ने हैकल में ता'लीम देते वक़्त पुकार कर कहा, “तुम मुझे भी जानते हो, और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ; और मैं आप से नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। 29 मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है।” 30 पस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक़्त अभी न आया था, किसी ने उस पर हाथ न डाला। 31 मगर भीड़ में से बहुत सारे उस पर ईमान लाए, और कहने लगे, “मसीह जब आया, तो क्या इनसे ज़्यादा मोज़िजे दिखाएगा?” जो इनसे दिखाए। 32 फ़रीसियों ने लोगों को सुना कि उसके बारे में चुपके — चुपके ये बातें करते हैं, पस सरदार काहिनों और फ़रीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। 33 ईसा ने कहा, “मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास



हैं, फिर अपने भेजेवाले के पास चला जाऊँगा। 34 तुम मुझे ढूँडोगे पर इल्जाम लगाने की कोई वजह निकालें। मगर ईसा झुक कर मगर न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते।” 35 हमारे उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। 7 जब वो उससे सवाल करते यहदियों ने आपस में कहा, ये कहीं जाएगा कि हम इसे न पाएँगे? ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, “जो तुम में बेगुनाह हो, क्या उनके पास जाएगा कि हम इसे न पाएँगे? क्या उनके पास वही पहले उसको पत्थर मारे।” 8 और फिर झुक कर ज़मीन पर जाएगा जो यूनानियों में अक्सर रहते हैं, और यूनानियों को ता'लीम उंगली से लिखने लगा। 9 वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक देगा? 36 ये क्या बात है जो उसने कही, “तुम मुझे तलाश करोगे एक — एक करके निकल गए, और ईसा अकेला रह गया और मगर न पाओगे, 'और, जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते?’” 37 फिर 'औरत वही बीच में रह गई। 10 ईसा ने सीधे होकर उससे कहा, “ऐ ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, ईसा खड़ा हुआ और पुकार 'औरत, ये लोग कहीं गए? क्या किसी ने तुझ पर सज़ा का हुक्म कर कहा, “अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। 38 जो नहीं लगाया?” 11 उसने कहा, “ऐ खुदावन्द! किसी ने नहीं।” मुझ पर ईमान लाएगा उसके अन्दर से, जैसा कि किताब — ए — ईसा ने कहा, “मैं भी तुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं लगाता; जा, मुक़द्दस में आया है, ज़िन्दगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी।” 39 फिर गुनाह न करना।” 12 ईसा ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, उसने ये बात उस रूह के बारे में कही, जिसे वो पाने को थे जो उस “दुनियाँ का नूर मैं हूँ; जो मेरी पैरवी करेगा वो अन्दर में न चलेगा, पर ईमान लाए; क्योंकि रूह अब तक नाज़िल न हुई थी, इसलिए कि बल्कि ज़िन्दगी का नूर पाएगा।” 13 फ़रीसियों ने उससे कहा, “तू ईसा अभी अपने जलाल को न पहुँचा था। 40 पस भीड़ में से कुछ अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं।” 14 ईसा ने ने ये बातें सुनकर कहा, “बेशक यही वो नबी है।” 41 औरों ने जवाब में उससे कहा, “अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, तो भी कहा, ये मसीह है। “और कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से मेरी गवाही सच्ची है; क्योंकि मुझे मा'लूम है कि मैं कहीं से आता हूँ आया? 42 क्या किताब — ए — मुक़द्दस में से नहीं आया, कि या कहीं को जाता हूँ। 15 तुम जिसम के मुताबिक फ़ैसला करते हो, मैं किसी का फ़ैसला नहीं करता। 16 और अगर मैं फ़ैसला करूँ भी तो मेरा फ़ैसला सच है; क्योंकि मैं अकेला नहीं, बल्कि मैं हूँ और मेरा बाप है जिसने मुझे भेजा है। 17 और तुम्हारी तौरत में भी लिखा है, कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। 18 एक मैं आए; और उन्होंने उनसे कहा, “तुम उसे क्यों न लाए?” 46 प्यादों खूद अपनी गवाही देता हूँ, और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी ने जवाब दिया कि, “इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया।” 47 गवाही देता है।” 19 उन्होंने उससे कहा, “तेरा बाप कहीं है?” ईसा फ़रीसियों ने उन्हें जवाब दिया, “क्या तुम भी गुमराह हो गए? 48 ने जवाब दिया, “न तुम मुझे जानते हो न मेरे बाप को, अगर मुझे भला इख्तियार वालों या फ़रीसियों में से भी कोई उस पर ईमान जानते तो मेरे बाप को भी जानते।” 20 उसने हैकल में ता'लीम देते लाया? 49 मगर ये 'आम लोग जो शरी'अत से वाकिफ़ नहीं ला'नती वक़्त ये बातें बैत — उल — माल में कहीं; और किसी ने इसको न है।” 50 नीक़ेदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था, उनसे कहा, 21 उसने फिर उनसे कहा, “मैं जाता हूँ, और तुम मुझे ढूँडोगे और अपने गुनाह में मरोगे।” 22 पस यहदियों ने कहा, क्या वो अपने आपको मार उन्होंने उसके जवाब में कहा, “क्या तू भी गलील का है? तलाश डालेगा, जो कहता है, “जहाँ मैं जाता हूँ, तुम नहीं आ सकते?” 23 कर और देख, कि गलील में से कोई नबी नाज़िल नहीं होने का।” उसने उनसे कहा, “तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ, तुम दुनियाँ के हो मैं दुनियाँ का नहीं हूँ। 24 इसलिए मैंने तुम से ये कहा, कि अपने गुनाहों में मरोगे; क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूँ, तो अपने गुनाहों में मरोगे।” 25 उन्होंने उस से कहा, तू कौन है? ईसा ने उनसे कहा, “वही हूँ जो शुरू से तुम से कहता आया हूँ। 26 मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहना है और फ़ैसला करना है; लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनियाँ से कहता हूँ।” 27 वो न समझे कि हम से बाप के बारे में कहता है। 28 पस ईसा ने कहा, “जब तुम इब्न — ए — आदम को ऊँचे पर चढाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपनी तरफ से कुछ नहीं

**8** तब ईसा जैतून के पहाड़ पर गया। 2 दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें ता'लीम देने लगा। 3 और फ़कीह और फ़रीसी एक 'औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके ईसा से कहा, 4 “ऐ उस्ताद! ये 'औरत जिना के 'ऐन वक़्त पकड़ी गई है। 5 तौरत में मूसा ने हम को हुक्म दिया है, कि ऐसी 'औरतों पर पथराव करें। पस तू इस 'औरत के बारे में क्या कहता है?” 6 उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा, ताकि उस

करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। 29 और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है; उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसन्द आते हैं।” 30 जब ईसा ये बातें कह रहा था तो बहुत से लोग उस पर ईमान लाए। 31 पस ईसा ने उन यहूदियों से कहा, जिन्होंने उसका यकीन किया था, “अगर तुम कलाम पर काईम रहोगे, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। 32 और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।” 33 उन्होंने उसे जवाब दिया, “हम तो अब्रहाम की नस्ल से हैं, और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्योंकर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे?” 34 ईसा ने उन्हें जवाब दिया, “मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। 35 और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, बेटा हमेशा रहता है। (aiōn g165) 36 पस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, तो तुम वाकई आजाद होगे। 37 मैं जानता हूँ तुम अब्रहाम की नस्ल से हो, तभी मेरे कल्ल की कोशिश में हो क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। 38 मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुम ने जो अपने बाप से सुना वो करते हो।” 39 उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो अब्रहाम है। ईसा ने उससे कहा, “अगर तुम अब्रहाम के फर्जन्द होते तो अब्रहाम के से काम करते। 40 लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स को कल्ल की कोशिश में हो, जिसने तुम्हें वही हक बात बताई जो ख़ुदा से सुनी; अब्रहाम ने तो ये नहीं किया था। 41 तुम अपने बाप के से काम करते हो।” उन्होंने उससे कहा, “हम हराम से पैदा नहीं हुए। हमारा एक बाप है यानी ख़ुदा।” 42 ईसा ने उससे कहा, “अगर ख़ुदा तुम्हारा होता, तो तुम मुझ से मुहब्बत रखते; इसलिए कि मैं ख़ुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आप से नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। 43 तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। 44 तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुक' ही से ख़ुनी है और सच्चाई पर काईम नहीं रहा, क्योंकि उस में सच्चाई नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। 45 लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, इसी लिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। 46 तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ, तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? 47 जो ख़ुदा से होता है वो ख़ुदा की बातें सुनता है; तुम इसलिए नहीं सुनते कि ख़ुदा से नहीं हो।” 48 यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, “क्या हम सच नहीं कहते, कि तू सामरी है और तुझ में बदरूह है।” 49 ईसा ने जवाब दिया, “मुझ में बदरूह नहीं; मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ, और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। 50 लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं चाहता; हाँ,

एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। 51 मैं तुम से सच कहता हूँ कि अगर कोई इंसान मेरे कलाम पर 'अमल करेगा, तो हमेशा तक कभी मौत को न देखेगा।” (aiōn g165) 52 यहूदियों ने उससे कहा, “अब हम ने जान लिया कि तुझ में बदरूह है! अब्रहाम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है, 'अगर कोई मेरे कलाम पर 'अमल करेगा, तो हमेशा तक कभी मौत का मज़ा न चखेगा। (aiōn g165) 53 हमारे बुजुर्ग अब्रहाम जो मर गए, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए। तू अपने आपको क्या ठहराता है?” 54 ईसा ने जवाब दिया, “अगर मैं आप अपनी बड़ाई कदूँ, तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं; लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा ख़ुदा है। 55 तुम ने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ; और अगर कदूँ कि उसे नहीं जानता, तो तुम्हारी तरह झूठा बर्नूँगा। मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर 'अमल करता हूँ। 56 तुम्हारा बाप अब्रहाम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत ख़ुश था, चुनौतें उसने देखा और ख़ुश हुआ।” 57 यहूदियों ने उससे कहा, “तेरी उम्र तो अभी पचास बरस की नहीं, फिर क्या तूने अब्रहाम को देखा है?” 58 ईसा ने उससे कहा, “मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि पहले उससे कि अब्रहाम पैदा हुआ मैं हूँ।” 59 पस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर ईसा छिपकर हैकल से निकल गया।

**9** चलते चलते ईसा ने एक आदमी को देखा जो पैदाइशी अंधा था। 2 उस के शागिर्दों ने उस से पूछा, “उस्ताद, यह आदमी अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इस का कोई गुनाह है या इस के वालिदिन का?” 3 ईसा ने जवाब दिया, “न इस का कोई गुनाह है और न इस के वालिदिन का। यह इस लिए हुआ कि इस की जिन्दगी में ख़ुदा का काम ज़ाहिर हो जाए। 4 अभी दिन है। ज़रूरी है कि हम जितनी देर तक दिन है उस का काम करते रहें जिस ने मुझे भेजा है। क्योंकि रात आने वाली है, उस वक़्त कोई काम नहीं कर सकेगा। 5 लेकिन जितनी देर तक मैं दुनियाँ में हूँ उतनी देर तक मैं दुनियाँ का नूर हूँ।” 6 यह कह कर उस ने ज़मीन पर थूक कर मिट्टी सानी और उस की आँखों पर लगा दी। 7 उस ने उस से कहा, “जा, शिलोख के हौज़ में नहा ले।” (शिलोख का मतलब 'भेजा हुआ' है।) अंधे ने जा कर नहा लिया। जब वापस आया तो वह देख सकता था। 8 उस के साथी और वह जिन्होंने पहले उसे भीख मॉंगते देखा था पढ़ने लगे, “क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मॉंगा करता था?” 9 बाज़ ने कहा, “हाँ, वही है।” औरों ने इन्कार किया, “नहीं, यह सिर्फ़ उस का हमशक्ल है।” लेकिन आदमी ने ख़ुद इस्फ़ार किया, “मैं वही हूँ।” 10 उन्होंने ने उस से सवाल किया, “तेरी आँखें किस तरह सही हुई?” 11 उस ने जवाब दिया, “वह आदमी जो ईसा कहलाता है उस ने मिट्टी सान कर मेरी आँखों पर लगा दी। फिर उस

ने मुझे कहा, 'शिलोख के हौज़ पर जा और नहाले।' मैं वहाँ गया और नहाते ही मेरी आँखें सही हो गईं। 12 उन्होंने ने पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता" 13 तब वह सही हुए अंधे को फ़रीसियों के पास ले गए। 14 जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उस की आँखों को सही किया था वह सबत का दिन था। 15 इस लिए फ़रीसियों ने भी उस से पूछ — ताछ की कि उसे किस तरह आँख की रौशनी मिल गई। आदमी ने जवाब दिया, "उस ने मेरी आँखों पर मिट्टी लगा दी, फिर मैं ने नहा लिया और अब देख सकता हूँ।" 16 फ़रीसियों में से कुछ ने कहा, "यह शख्स ख़ुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि सबत के दिन काम करता है।" 17 फिर वह दुबारा उस आदमी से मुख़ाबत हुए जो पहले अंधा था, "तू ख़ुद उस के बारे में क्या कहता है? उस ने तो तेरी ही आँखों को सही किया है।" 18 यहूदी अगुवों को यक़ीन नहीं आ रहा था कि वह सच में अंधा था और फिर सही हो गया है। इस लिए उन्होंने ने उस के वालिदैन को बुलाया। 19 उन्होंने ने उन से पूछा, "क्या यह तुम्हारा बेटा है, वही जिस के बारे में तुम कहते हो कि वह अंधा पैदा हुआ था? अब यह किस तरह देख सकता है?" 20 उस के वालिदैन ने जवाब दिया, "हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और कि यह पैदा होते वक़्त अंधा था। 21 लेकिन हमें मालूम नहीं कि अब यह किस तरह देख सकता है या कि किस ने इस की आँखों को सही किया है। इस से ख़ुद पता करें, यह बालिग है। यह ख़ुद अपने बारे में बता सकता है।" 22 उस के वालिदैन ने यह इस लिए कहा कि वह यहूदियों से डरते थे। क्योंकि वह फ़ैसला कर चुके थे कि जो भी ईसा को मसीह करार दे उसे यहूदी जमाअत से निकाल दिया जाए। 23 यही वजह थी कि उस के वालिदैन ने कहा था, "यह बालिग है, इस से ख़ुद पूछ लो।" 24 एक बार फिर उन्होंने ने सही हुए अंधे को बुलाया, "ख़ुदा को जलाल दे, हम तो जानते हैं कि यह आदमी गुनाहगार है।" 25 आदमी ने जवाब दिया, "मुझे क्या पता है कि वह गुनाहगार है या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, पहले मैं अंधा था, और अब मैं देख सकता हूँ।" 26 फिर उन्होंने ने उस से सवाल किया, उस ने तैरे साथ क्या किया? "उस ने किस तरह तेरी आँखों को सही कर दिया?" 27 उस ने जवाब दिया, "मैं पहले भी आप को बता चुका हूँ और आप ने सुना नहीं। क्या आप भी उस के शागिर्द बनना चाहते हैं?" 28 इस पर उन्होंने ने उसे बुरा — भला कहा, "तू ही उस का शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। 29 हम तो जानते हैं कि ख़ुदा ने मूसा से बात की है, लेकिन इस के बारे में हम यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ से आया है।" 30 आदमी ने जवाब दिया, "अजीब बात है, उस ने मेरी आँखों को शिफ़ा दी है और फिर भी आप नहीं जानते कि वह कहाँ से है। 31 हम जानते हैं कि ख़ुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। वह तो उस की सुनता है जो

उस का ख़ौफ़ मानता और उस की मज़ी के मुताबिक चलता है। 32 शुरु ही से यह बात सुनने में नहीं आई कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आँखों को सही कर दिया हो। (aiōn g165) 33 अगर यह आदमी ख़ुदा की तरफ से न होता तो कुछ न कर सकता।" 34 जवाब में उन्होंने ने उसे बताया, "तू जो गुनाह की हालत में पैदा हुआ है क्या तू हमारा उस्ताद बना चाहता है?" यह कह कर उन्होंने ने उसे जमाअत में से निकाल दिया। 35 जब ईसा को पता चला कि उसे निकाल दिया गया है तो वह उस को मिला और पूछा, "क्या तू इब्न — ए — आदम पर ईमान रखता है?" 36 उस ने कहा, "ख़ुदावन्द, वह कौन है? मुझे बताएँ ताकि मैं उस पर ईमान लाऊँ।" 37 ईसा ने जवाब दिया, "तू ने उसे देख लिया है बल्कि वह तुझ से बात कर रहा है।" 38 उस ने कहा, "ख़ुदावन्द, मैं ईमान रखता हूँ" और उसे सज्दा किया। 39 ईसा ने कहा, "मैं अदालत करने के लिए इस दुनियाँ में आया हूँ, इस लिए कि अंधे देखें और देखने वाले अंधे हो जाएँ।" 40 कुछ फ़रीसी जो साथ खड़े थे यह कुछ सुन कर पूछने लगे, "अच्छा, हम भी अंधे हैं?" 41 ईसा ने उन से कहा, "अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनाहगार न ठहरते। लेकिन अब चूँकि तुम दावा करते हो कि हम देख सकते हैं इस लिए तुम्हारा गुनाह काइम रहता है।"

**10** "मैं तुम को सच बताता हूँ कि जो दरवाज़े से भेड़ों के बाड़े में दाखिल नहीं होता बल्कि किसी ओर से कूद कर अन्दर घुस आता है वह चोर और डाकू है। 2 लेकिन जो दरवाज़े से दाखिल होता है वह भेड़ों का चरवाहा है। 3 चौकीदार उस के लिए दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उस की आवाज़ सुनती हैं। वह अपनी हर एक भेड़ का नाम ले कर उन्हें बुलाता और बाहर ले जाता है। 4 अपने पूरे गल्ले को बाहर निकालने के बाद वह उन के आगे आगे चलने लगता है और भेड़ें उस के पीछे पीछे चल पड़ती हैं, क्योंकि वह उस की आवाज़ पहचानती है। 5 लेकिन वह किसी अजनबी के पीछे नहीं चलेगी बल्कि उस से भाग जाएगी, क्योंकि वह उस की आवाज़ नहीं पहचानती।" 6 ईसा ने उन्हें यह मिसाल पेश की, लेकिन वह न समझे कि वह उन्हें क्या बताना चाहता है। 7 इस लिए ईसा दुबारा इस पर बात करने लगा, "मैं तुम को सच बताता हूँ कि भेड़ों के लिए दरवाज़ा मैं हूँ। 8 जितने भी मुझ से पहले आए वह चोर और डाकू हैं। लेकिन भेड़ों ने उन की न सुनी। 9 मैं ही दरवाज़ा हूँ। जो भी मेरे जरिए अन्दर आए उसे नजात मिलेगी। वह आता जाता और हरी चरागाहें पाता रहेगा। 10 चोर तो सिर्फ़ चोरी करने, जबह करने और तबाह करने आता है। लेकिन मैं इस लिए आया हूँ कि वह जिन्दगी पाएँ, बल्कि कस्रत की जिन्दगी पाएँ। 11 अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। 12 मजदूर चरवाहे का किरदार अदा नहीं करता, क्योंकि

भेड़ें उस की अपनी नहीं होती। इस लिए जूँ ही कोई भेड़िया आता है तो मजदूर उसे देखते ही भेड़ों को छोड़ कर भाग जाता है। नतीजे में भेड़िया कुछ भेड़ें पकड़ लेता और बाकियों को इधर उधर कर देता है। 13 वजह यह है कि वह मजदूर ही है और भेड़ों की फिक्र नहीं करता। 14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वह मुझे जानती हैं, 15 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। 16 मेरी और भी भेड़े हैं जो इस बाड़े में नहीं हैं। जरूरी है कि उन्हें भी ले आऊँ। वह भी मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही गल्लाबान होगा। 17 मेरा बाप मुझे इस लिए मुहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। 18 कोई मेरी जान मुझ से छीन नहीं सकता बल्कि मैं उसे अपनी मर्जी से दे देता हूँ। मुझे उसे देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी। यह हुक्म मुझे अपने बाप की तरफ से मिला है।” 19 इन बातों पर यहदियों में दुबारा फूट पड़ गई। 20 बहुतां ने कहा, “यह बदरूह के कब्जे में है, यह दीवाना है। इस की क्यों सुनें?” 21 लेकिन औरों ने कहा, “यह ऐसी बातें नहीं हैं जो इंसान बदरूह के कब्जे में हो। क्या बदरूह अँधों की आँखें सही कर सकती है?” 22 सर्दियों का मौसम था और ईसा बैत — उल — मुकद्दस की खास 'ईद तज्दीद के दौरान येरूशलेम में था। 23 वह बैत — उल — मुकद्दस के उस बरामदेह में टहेल रहा था जिस का नाम सुलैमान का बरामदह था। 24 यहदी उसे घेर कर कहने लगे, आप हमें कब तक उलझन में रखेंगे? “अगर आप मसीह है तो हमें साफ साफ बता दें।” 25 ईसा ने जवाब दिया, “मैं तुम को बता चुका हूँ, लेकिन तुम को यकीन नहीं आया। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वह मेरे गवाह हैं। 26 लेकिन तुम ईमान नहीं रखते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। 27 मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे चलती हैं। 28 मैं उन्हें हमेशा की जिन्दगी देता हूँ, इस लिए वह कभी हलाक नहीं होगी। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा, (aiōn g165, aiōnios g166) 29 क्योंकि मेरे बाप ने उन्हें मेरे सपुर्द किया है और वही सब से बड़ा है। कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। 30 मैं और बाप एक हैं।” 31 यह सुन कर यहदी दुबारा पत्थर उठाने लगे ताकि ईसा पर पथराव करें। 32 उस ने उन से कहा, “मैं ने तुम्हें बाप की तरफ से कई ख़ुदाई करिश्मे दिखाए हैं। तुम मुझे इन में से किस करिश्मे की वजह से पथराव कर रहे हो?” 33 यहदियों ने जवाब दिया, “हम तुम पर किसी अच्छे काम की वजह से पथराव नहीं कर रहे बल्कि कुफ़्र बकने की वजह से। तुम जो सिर्फ इंसान हो ख़ुदा होने का दावा करते हो।” 34 ईसा ने कहा, “क्या यह तुम्हारी शरी'अत में नहीं लिखा है कि 'ख़ुदा ने फरमाया, तुम ख़ुदा हो? 35 उन्हें 'ख़ुदा' कहा गया जिन तक

यह पैगाम पहुँचाया गया। और हम जानते हैं कि कलाम — ए — मुकद्दस को रद्द नहीं किया जा सकता। 36 तो फिर तुम कुफ़्र बकने की बात क्यों करते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं ख़ुदा का फ़र्ज़न्द हूँ? आखिर बाप ने ख़ुद मुझे खास करके दुनियाँ में भेजा है। 37 अगर मैं अपने बाप के काम न करूँ तो मेरी बात न मानो। 38 लेकिन अगर उस के काम करूँ तो बेशक मेरी बात न मानो, लेकिन कम से कम उन कामों की गवाही तो मानो। फिर तुम जान लो और समझ जाओगे कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ।” 39 एक बार फिर उन्होंने ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन के हाथ से निकल गया। 40 फिर ईसा दुबारा दरिया — ए — यर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यहून्ना शूरू में बपतिस्मा दिया करता था। वहाँ वह कुछ देर ठहरा। 41 बहुत से लोग उस के पास आते रहे। उन्होंने ने कहा, “यहून्ना ने कभी कोई ख़ुदाई करिश्मा न दिखाया, लेकिन जो कुछ उस ने इस के बारे में बयान किया, वह बिल्कुल सही निकला।” 42 और वहाँ बहुत से लोग ईसा पर ईमान लाए।

**11** उन दिनों में एक आदमी बीमार पड़ गया जिस का नाम लाज़र था। वह अपनी बहनों मरियम और मर्था के साथ बैत — अनियाह में रहता था। 2 यह वही मरियम थी जिस ने बाद में ख़ुदावन्द पर ख़ुश्रू डाल कर उस के पैर अपने बालों से ख़ुश्रू किए थे। उसी का भाई लाज़र बीमार था। 3 चुनौचे बहनों ने ईसा को ख़बर दी, “ख़ुदावन्द, जिसे आप मुहब्बत करते हैं वह बीमार है।” 4 जब ईसा को यह ख़बर मिली तो उस ने कहा, “इस बीमारी का अन्जाम मौत नहीं है, बल्कि यह ख़ुदा के जलाल के वास्ते हुआ है, ताकि इस से ख़ुदा के फ़र्ज़न्द को जलाल मिले।” 5 ईसा मर्था, मरियम और लाज़र से मुहब्बत रखता था। 6 तो भी वह लाज़र के बारे में ख़बर मिलने के बाद दो दिन और वहाँ ठहरा। 7 फिर उस ने अपने शागिर्दों से बात की, “आओ, हम दुबारा यहदिया चले जाएँ।” 8 शागिर्दों ने एतराज़ किया, “उस्ताद, अभी अभी वहाँ के यहदी आप पर पथराव करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आप वापस जाना चाहते हैं?” 9 ईसा ने जवाब दिया, “क्या दिन में रोशनी के बारह घंटे नहीं होते? जो शरूब दिन के वक़्त चलता फिरता है वह किसी भी चीज़ से नहीं टकराएगा, क्योंकि वह इस दुनियाँ की रोशनी के ज़रिए देख सकता है। 10 लेकिन जो रात के वक़्त चलता है वह चीज़ों से टकरा जाता है, क्योंकि उस के पास रोशनी नहीं है।” 11 फिर उस ने कहा, “हमारा दोस्त लाज़र सो गया है। लेकिन मैं जा कर उसे जगा दूँगा।” 12 शागिर्दों ने कहा, “ख़ुदावन्द, अगर वह सो रहा है तो वह बच जाएगा।” 13 उन का खयाल था कि ईसा लाज़र की दुनियावी नीद का जिक्र कर रहा है जबकि हकीकत में वह उस की मौत की तरफ इशारा कर रहा था। 14 इस लिए उस ने उन्हें साफ बता दिया, “लाज़र की मौत हो गई है 15 और तुम्हारी

खातिर मैं खुश हूँ कि मैं उस के मरते वक़्त वहाँ नहीं था, क्योंकि ख़ुदा का जलाल देखेगी?” 41 चुनौचे उन्होंने ने पत्थर को हटा दिया। अब तुम ईमान लाओगे। आओ, हम उस के पास जाएँ।” 16 तोमा ने फिर ईसा ने अपनी नज़र उठा कर कहा, “ऐ बाप, मैं तेरा शुक़ करता जिस का लक़ब जुडवाँ था अपने साथी शागिर्दों से कहा, “चलो, हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। 42 मैं तो जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी हम भी वहाँ जा कर उस के साथ मर जाएँ।” 17 वहाँ पहुँच कर ईसा सुनता है। लेकिन मैं ने यह बात पास खडे लोगों की खातिर की, को मालूम हुआ कि लाज़र को कब्र में रखे चार दिन हो गए हैं। 18 ताकि वह ईमान लाएँ कि तू ने मुझे भेजा है।” 43 फिर ईसा ज़ोर से बैत — अनियाह का येरूशलेम से फ़ासिला तीन किलोमीटर से कम पुकार उठा, “लाज़र, निकल आ!” 44 और मुर्दा निकल आया। था, 19 और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उन के भाई के अभी तक उस के हाथ और पाँओ पट्टियों से बँधे हुए थे जबकि उस बारे में तसल्ली देने के लिए आए हुए थे। 20 यह सुन कर कि ईसा का चेहरा कपडे में लिपटा हुआ था। ईसा ने उन से कहा, “इस आ रहा है मर्था उसे मिलने गई। लेकिन मरियम घर में बैठी रही। 21 के कफ़न को खोल कर इसे जाने दो।” 45 उन यहूदियों में से जो मरियम के पास आए थे बहुत से ईसा पर ईमान लाए जब उन्होंने ने मर्था ने कहा, “ख़ुदावन्द, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। वह देखा जो उस ने किया। 46 लेकिन कुछ फ़रीसियों के पास गए 22 लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी ख़ुदा आप को जो भी माँगोगे और उन्हें बताया कि ईसा ने क्या किया है। 47 तब राहनुमा इमामों ने जवाब दिया, जी, “मुझे मालूम है कि वह क़यामत के दिन जी और फ़रीसियों ने यहूदियों ने सदरे अदालत का जलसा बुलाया। उठेगा, जब सब जी उठेगा।” 25 ईसा ने उसे बताया, “क़यामत और उन्होंने ने एक दूसरे से पूछा, “हम क्या कर रहे हैं? यह आदमी बहुत जिन्दगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान रखे वह जिन्दा रहेगा, चाहे वह से ख़ुदाई करिश्मे दिखा रहा है। 48 अगर हम उसे यूँही छोड़ें तो मर भी जाए। 26 और जो जिन्दा है और मुझ पर ईमान रखता है वह आखिरकार सब उस पर ईमान ले आएँगे। फिर रोमी हाकिम आ कभी नहीं मरेगा। मर्था, क्या तुझे इस बात का यकीन है?” (aion कर हमारे बैत — उल — मुक़द्दस और हमारे मुल्क को तबाह कर देंगे।) 27 मर्था ने जवाब दिया, “जी ख़ुदावन्द, मैं ईमान रखती हूँ कि 49 उन में से एक काइफ़ा था जो उस साल इमाम — ए — आप ख़ुदा के फ़र्ज़न्द मसीह हैं, जिसे दुनियाँ में आना था।” 28 यह आज़म था। उस ने कहा, “आप कुछ नहीं समझते 50 और इस का कह कर मर्था वापस चली गई और चुपके से मरियम को बुलाया, खयाल भी नहीं करते कि इस से पहले कि पूरी क़ौम हलाक हो जाए “उस्ताद आ गए हैं, वह तुझे बुला रहे हैं।” 29 यह सुनते ही मरियम बेहतर यह है कि एक आदमी उम्मत के लिए मर जाए।” 51 उस ने उठ कर ईसा के पास गई। 30 वह अभी गाँव के बाहर उसी जगह यह बात अपनी तरफ से नहीं की थी। उस साल के इमाम — ए — ठहरा था जहाँ उस की मुलाकात मर्था से हुई थी। 31 जो यहूदी घर आज़म की हैसियत से ही उस ने यह पेशीनगोई की कि ईसा यहूदी में मरियम के साथ बैठे उसे तसल्ली दे रहे थे, जब उन्होंने ने देखा कि क़ौम के लिए मरेगा। 52 और न सिर्फ़ इस के लिए बल्कि ख़ुदा के वह जल्दी से उठ कर निकल गई है तो वह उस के पीछे हो लिए। बिखरे हुए फ़र्ज़न्दों को जमा करके एक करने के लिए भी। 53 उस दिन से उन्होंने ने ईसा को क़त्ल करने का इरादा कर लिया। 54 इस लिए उस ने अब से एलानिया यहूदियों के दरमियान वक़्त न गुज़ारा, बल्कि उस जगह को छोड़ कर रेगिस्तान के करीब एक इलाके में अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता।” 33 जब ईसा ने मरियम गया। वहाँ वह अपने शागिर्दों समेत एक गाँव बनाम इफ़्राईम में रहने और उस के लोगों को रोते देखा तो उसे दुःख हुआ। और उसने लगा। 55 फिर यहूदियों की ईद — ए — फ़सह करीब आ गई। ताअज़्जुब होकर 34 उस ने पूछा, “तुम ने उसे कहाँ रखा है?” देहात से बहुत से लोग अपने आप को पाक करवाने के लिए ईद से उन्होंने ने जवाब दिया, “आएँ ख़ुदावन्द, और देख लें।” 35 ईसा “रो पहले पहले येरूशलेम पहुँचे। 56 वहाँ वह ईसा का पता करते और पडा। 36 यहूदियों ने कहा, देखो, वह उसे कितना प्यारा था।” 37 हैकल में खडे आपस में बात करते रहे, “क्या खयाल है? क्या वह लेकिन उन में से कुछ ने कहा, इस आदमी ने अंधे को सही किया। ईद पर नहीं आया?” 57 लेकिन राहनुमा इमामों और फ़रीसियों ने “क्या यह लाज़र को मरने से नहीं बचा सकता था?” 38 फिर ईसा हुक़म दिया था, अगर किसी को मालूम हो जाए कि ईसा कहाँ है तो दुबारा बहुत ही मायूस हो कर कब्र पर आया। कब्र एक ग़ार थी जिस वह ख़बर दे ताकि हम उसे गिरफ़्तार कर लें।

**12** फ़सह की ईद में अभी छः दिन बाकी थे कि ईसा बैत — अनियाह पहुँचा। यह वह जगह थी जहाँ उस लाज़र का घर था जिसे ईसा ने मुर्दा में से जिन्दा किया था। 2 वहाँ उस के लिए एक खास खाना बनाया गया। मर्था खाने वालों की खिदमत कर

रही थी जबकि लाज़र ईसा और बाक़ी मेहमानों के साथ खाने में शरीक था। 3 फिर मरियम ने आधा लीटर खालिस जटामासी का बेशक़ीमती इत्र ले कर ईसा के पैरों पर डाल दिया और उन्हें अपने बालों से पोंछ कर ख़ुशक किया। ख़ुशबू पूरे घर में फैल गई। 4 लेकिन ईसा के शागिर्द यहदाह इस्करियोती ने एतराज़ किया (बाद में उसी ने ईसा को दुश्मन के हवाले कर दिया) उस ने कहा, 5 “इस इत्र की कीमत लगभग एक साल की मज़दूरी के बराबर थी। इसे क्यों नहीं बेचा गया ताकि इस के पैसे गरीबों को दिए जाते?” 6 उस ने यह बात इस लिए नहीं की कि उसे गरीबों की फ़िक्र थी। असल में वह चोर था। वह शागिर्दों का ख़जाना था और जमाशुदा पैसों में से ले लिया करता था। 7 लेकिन ईसा ने कहा, “उसे छोड़ दे! उस ने मेरी दफनाने की तय्यारी के लिए यह किया है। 8 गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा।” 9 इतने में यहदियों की बड़ी तहदाद को मालूम हुआ कि ईसा वहाँ है। वह न सिर्फ़ ईसा से मिलने के लिए आए बल्कि लाज़र से भी जिसे उस ने मुर्दों में से ज़िन्दा किया था। 10 इस लिए राहुनुमा इमामों ने लाज़र को भी कत्ल करने का इरादा बनाया। 11 क्योंकि उस की वजह से बहुत से यहूदी उन में से चले गए और ईसा पर ईमान ले आए थे। 12 अगले दिन ईद के लिए आए हुए लोगों को पता चला कि ईसा येरुशलेम आ रहा है। एक बड़ा मजमा 13 ख़जूर की डालियों पकड़े शहर से निकल कर उस से मिलने आया। चलते चलते वह चिल्ला कर नहरे लगा रहे थे, “होशाना! मुबारक है वह जो रब्ब के नाम से आता है! इस्राईल का बादशाह मुबारक है!” 14 ईसा को कहीं से एक जवान गधा मिल गया और वह उस पर बैठ गया, जिस तरह कलाम — ए — मुक़द्दस में लिखा है, 15 “ए सिय्यून की बेटी, मत डर! देख, तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार आ रहा है।” 16 उस वक़्त उस के शागिर्दों को इस बात की समझ न आई। लेकिन बाद में जब ईसा अपने जलाल को पहुँचा तो उन्हें याद आया कि लोगों ने उस के साथ यह कुछ किया था और वह समझ गए कि कलाम — ए — मुक़द्दस में इस का जिक्र भी है। 17 जो मजमा उस वक़्त ईसा के साथ था जब उस ने लाज़र को मुर्दों में से ज़िन्दा किया था, वह दूसरों को इस के बारे में बताता रहा था। 18 इसी वजह से इतने लोग ईसा से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने ने उस के इस ख़ुदाई करिश्मे के बारे में सुना था। 19 यह देख कर फ़रीसी आपस में कहने लगे, “आप देख रहे हैं कि बात नहीं बन रही। देखो, तमाम दुनियाँ उस के पीछे हो ली है।” 20 कुछ यूनानी भी उन में थे जो फ़रसह की ईद के मौक़े पर इबादत करने के लिए आए हुए थे। 21 अब वह फ़िलिप्पुस से मिलने आए जो गलील के बैत — सैदा से था। उन्होंने ने कहा, “जनाब, हम ईसा से मिलना चाहते हैं।” 22 फ़िलिप्पुस ने अन्दियास को यह बात बताई और फिर वह मिल कर ईसा के पास

गए और उसे यह ख़बर पहुँचाई। 23 लेकिन ईसा ने जवाब दिया, “अब वक़्त आ गया है कि इब्न — ए — आदम को जलाल मिले। 24 मैं तुम को सच बताता हूँ कि जब तक गन्दुम का दाना ज़मीन में गिर कर मर न जाए वह अकेला ही रहता है। लेकिन जब वह मर जाता है तो बहुत सा फ़ल लाता है। 25 जो अपनी जान को प्यार करता है वह उसे खो देगा, और जो इस दुनियाँ में अपनी जान से दुश्मनी रखता है वह उसे हमेशा तक बचाए रखेगा। (aiōnios g166) 26 अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो वह मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। और जो मेरी खिदमत करे मेरा बाप उस की इज़्जत करेगा। 27 “अब मेरा दिल धबराता है। मैं क्या कहूँ? क्या मैं कहूँ, ‘ऐ बाप, मुझे इस वक़्त से बचाए रख?’ नहीं, मैं तो इसी लिए आया हूँ। 28 ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे।” पस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उस को जलाल दिया है और भी दूँगा 29 मजमा के जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने ने यह सुन कर कहा, बादल गरज रहे हैं। औरों ने खयाल पेश किया, “कोई फ़रिश्ते ने उस से बातें की” 30 ईसा ने उन्हें बताया, “यह आवाज़ मेरे वास्ते नहीं बल्कि तुम्हारे वास्ते थी। 31 अब दुनियाँ की अदालत करने का वक़्त आ गया है, अब दुनियाँ पे हुकूमत करने वालों को निकाल दिया जाएगा। 32 और मैं खुद ज़मीन से ऊँचे पर चढ़ाए जाने के बाद सब को अपने पास बुला लूँगा।” 33 इन बातों से उस ने इस तरफ़ इशारा किया कि वह किस तरह की मौत मरेगा। 34 मजमा बोल उठा, कलाम — ए — मुक़द्दस से हम ने सुना है कि मसीह हमेशा तक काईम रहेगा। तो फिर आप की यह कैसी बात है कि “इब्न — ए — आदम को ऊँचे पर चढ़ाया जाना है?” आखिर इब्न — ए — आदम है कौन? (aiōn g165) 35 ईसा ने जवाब दिया, “रोशनी थोड़ी देर और तुम्हारे पास रहेगी। जितनी देर वह मौजूद है इस रोशनी में चलते रहो ताकि अंधेरा तुम पर छा न जाए। जो अंधेरे में चलता है उसे नहीं मालूम कि वह कहाँ जा रहा है। 36 रोशनी तुम्हारे पास से चले जाने से पहले पहले उस पर ईमान लाओ ताकि तुम ख़ुदा के फ़र्ज़न्द बन जाओ।” 37 अगरचे ईसा ने यह तमाम ख़ुदाई करिश्मे उन के सामने ही दिखाए तो भी वह उस पर ईमान न लाए। 38 यूसयायाह नबी की पेशगोई पूरी हुई, “ऐ रब्ब, कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया? और रब्ब की कुदूत किस पर जाहिर हुई?” 39 चुनौचे वह ईमान न ला सके, जिस तरह यसायाह नबी ने कही और फ़रमाया है, 40 “ख़ुदा ने उन की आँखों को अंधा किया और उन के दिल को बेहिस्स कर दिया है, नहीं तो वो अपनी आँखों से देखेंगे और अपने दिल से समझेंगे, और मेरी तरफ़ रजु करें, और मैं उन्हें शिफ़ा दूँ।” 41 यसायाह ने यह इस लिए फ़रमाया क्योंकि उस ने ईसा का जलाल देख कर उस के बारे में बात की। 42 तो भी बहुत से लोग ईसा पर ईमान रखते थे। उन में कुछ राहुनुमा भी शामिल थे।

लेकिन वह इस का खुला इकरार नहीं करते थे, क्योंकि वह डरते थे नहीं।” 11 (ईसा को मालूम था कि कौन उसे दुश्मन के हवाले कि फ़रीसी हमें यहूदी जमाअत से निकाल देंगे। 43 असल में वह करेगा। इस लिए उस ने कहा कि सब के सब पाक — साफ़ नहीं ख़ुदा की इज़्जत के बजाए इंसान की इज़्जत को ज़्यादा अज़ीज़ हैं।) 12 उन सब के पैरो को धोने के बाद ईसा दुबारा अपना लिबास रखते थे। 44 फिर ईसा पुकार उठा, “जो मुझ पर ईमान रखता है वह पहन कर बैठ गया। उस ने सवाल किया, “क्या तुम समझते हो न सिर्फ़ मुझ पर बल्कि उस पर ईमान रखता है जिस ने मुझे भेजा है। कि मैं ने तुम्हारे लिए क्या किया है? 13 तुम मुझे ‘उस्ताद’ और 45 और जो मुझे देखता है वह उसे देखता है जिस ने मुझे भेजा है। ‘ख़ुदावन्द’ कह कर मुखातिब करते हो और यह सही है, क्योंकि मैं 46 मैं रोशनी की तरह से इस दुनियाँ में आया हूँ ताकि जो भी मुझ पर ईमान लाए वह अंधेरे में न रहे। 47 जो मेरी बातें सुन कर उन पर अमल नहीं करता मैं उसका इन्साफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दुनियाँ का इन्साफ़ करने के लिए नहीं आया बल्कि उसे नजात देने के लिए। 48 तो भी एक है जो उस का इन्साफ़ करता है। जो मुझे रद्द करके मेरी बातें कुबूल नहीं करता मेरा पेश किया गया कलाम ही क़यामत के दिन उस का इन्साफ़ करेगा। 49 क्योंकि जो कुछ मैं ने बयान किया है वह मेरी तरफ़ से नहीं है। मेरे भेजने वाले बाप ही ने मुझे हुक्म दिया कि क्या कहना और क्या सुनाना है। 50 और मैं जानता हूँ कि उस का हुक्म हमेशा की ज़िन्दगी तक पहुँचाता है। चुनौचे जो कुछ मैं सुनाता हूँ वही है जो बाप ने मुझे बताया है।”

(aiōnios g166)

**13** फ़सह की ईद अब शुरू होने वाली थी। ईसा जानता था कि वह वक़्त आ गया है कि मुझे इस दुनियाँ को छोड़ कर बाप के पास जाना है। अगरचे उस ने हमेशा दुनियाँ में अपने लोगों से मुहब्बत रखी थी, लेकिन अब उस ने आख़िरी हद तक उन पर अपनी मुहब्बत का इज़हार किया। 2 फिर शाम का खाना तय्यार हुआ। उस वक़्त इब्लीस शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदाह के दिल में ईसा को दुश्मन के हवाले करने का इरादा डाल चुका था। 3 ईसा जानता था कि बाप ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है और कि मैं ख़ुदा से निकल आया और अब उस के पास वापस जा रहा हूँ। 4 चुनौचे उस ने दस्तरख़वान से उठ कर अपना चोगा उतार दिया और कमर पर तौलिया बाँध लिया। 5 फिर वह बासन में पानी डाल कर शागिर्दों के पैर धोने और बँधे हुए तौलिया से पोंछ कर ख़ुशक करने लगा। 6 जब पतरस की बारी आई तो उस ने कहा, “ख़ुदावन्द, आप मेरे पैर धोना चाहते हैं?” 7 ईसा ने जवाब दिया, “इस वक़्त तू नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में यह तेरी समझ में आ जाएगा।” 8 पतरस ने एतराज़ किया, “मैं कभी भी आप को मेरे पैर धोने नहीं दूँगा!” ईसा ने जवाब दिया “अगर मैं तुझे न धोऊँ तो मेरे साथ तेरी कोई शराक़त नहीं।” (aiōn g165) 9 यह सुन कर पतरस ने कहा, “तो फिर ख़ुदावन्द, न सिर्फ़ मेरे पैर बल्कि मेरे हाथों और सर को भी धोएँ!” 10 ईसा ने जवाब दिया, “जिस शरख़ ने नहा लिया है उसे सिर्फ़ अपने पैरो को धोने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह पूरे तौर पर पाक — साफ़ है। तुम पाक — साफ़ हो, लेकिन सब के सब

मुबारिक़ होगा। 18 मैं तुम सब की बात नहीं कर रहा। जिन्हें मैं ने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन कलाम — ए — मुक़द्दस की उस बात का पूरा होना ज़रूर है, जो मेरी रोटी खाता है उस ने मुझ पर लात उठाई है। 19 मैं तुम को इस से पहले कि वह पेश आए यह अभी बता रहा हूँ, ताकि जब वह पेश आए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। 20 मैं तुम को सच बताता हूँ कि जो शरख़ उसे कुबूल करता है जिसे मैंने भेजा है वह मुझे कुबूल करता है। और जो मुझे कुबूल करता है वह उसे कुबूल करता है जिस ने मुझे भेजा है।” 21 उन अल्फ़ाज़ के बाद ईसा बेहद दुखी हुआ और कहा, “मैं तुम को सच बताता हूँ कि तुम में से एक मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा।” 22 शागिर्द उलझन में एक दूसरे को देख कर सोचने लगे कि ईसा किस की बात कर रहा है। 23 एक शागिर्द जिसे ईसा मुहब्बत करता था उस के बिल्कुल करीब बैठा था। 24 पतरस ने उसे इशारा किया कि वह उस से पूछे कि वह किस की बात कर रहा है। 25 उस शागिर्द ने ईसा की तरफ़ सर झुका कर पूछा, “ख़ुदावन्द, वह कौन है?” 26 ईसा ने जवाब दिया, “जिसे मैं रोटी का निवाला शोर्ब में डुबो कर दूँ, वही है।” फिर निवाले को डुबो कर उस ने शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदाह को दे दिया। 27 जैसे ही यहूदाह ने यह निवाला ले लिया इब्लीस उस में बस गया। ईसा ने उसे बताया, “जो कुछ करना है वह जल्दी से कर ले।” 28 लेकिन मेज़ पर बैठे लोगों में से किसी को मालूम न हुआ कि ईसा ने यह क्यूँ कहा। 29 कुछ का खयाल था कि चूँकि यहूदाह ख़ज्वांची था इस लिए वह उसे बता रहा है कि ईद के लिए ज़रूरी चीज़ें ख़रीद ले या ग़रीबों में कुछ बाँट दे। 30 चुनौचे ईसा से यह निवाला लेते ही यहूदाह बाहर निकल गया। रात का वक़्त था। 31 यहूदाह के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, “अब इब्न — ए — आदम ने जलाल पाया और ख़ुदा ने उस में जलाल पाया है। 32 हौं, चूँकि ख़ुदा को उस में जलाल मिल गया है इस लिए ख़ुदा अपने में फ़र्ज़न्द को जलाल देगा। और वह यह

जलाल फौरन देगा। 33 मेरे बच्चो, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास ठहरूँगा। तुम मुझे तलाश करोगे, और जो कुछ मैं यहदियों को बता चुका हूँ वह अब तुम को भी बताता हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। 34 मैं तुम को एक नया हुक्म देता हूँ, यह कि एक दूसरे से मुहब्बत रखो। जिस तरह मैं ने तुम से मुहब्बत रखी उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मुहब्बत करो। 35 अगर तुम एक दूसरे से मुहब्बत रखोगे तो सब जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।” 36 पतरस ने पूछा, ख़ुदावन्द, “आप कहाँ जा रहे हैं?” ईसा ने जवाब दिया “जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तुम्हारे पीछे आ नहीं सकता लेकिन बाद में तुम्हारे पीछे आ जाएगा।” 37 पतरस ने सवाल किया, “ख़ुदावन्द, मैं आप के पीछे अभी क्यों नहीं जा सकता? मैं आप के लिए अपनी जान तक देने को तय्यार हूँ।” 38 लेकिन ईसा ने जवाब दिया, “तुम्हारे लिए अपनी जान देना चाहता है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मुर्ग के बाँग देने से पहले पहले तुम्हें तीन मर्तबा मुझे जानने से इन्कार कर चुका होगा।”

**14** “तुम्हारा दिल न घबराए। तुम ख़ुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। 2 मेरे आसमानी बाप के घर में बेशुमार मकान है। अगर ऐसा न होता तो क्या मैं तुम को बताता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तय्यार करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ? 3 और अगर मैं जा कर तुम्हारे लिए जगह तय्यार करूँ तो वापस आ कर तुम को अपने साथ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो।” 4 “और जहाँ मैं जा रहा हूँ उस की राह तुम जानते हो।” 5 तोमा बोल उठा, “ख़ुदावन्द, हमें मालूम नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम उस की राह किस तरह जानें?” 6 ईसा ने जवाब दिया, “राह हक़ और ज़िन्दगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बग़ैर बाप के पास नहीं आ सकता। 7 अगर तुम ने मुझे जान लिया है तो इस का मतलब है कि तुम मेरे बाप को भी जान लोगे। और अब तुम उसे जानते हो और तुम ने उस को देख लिया है।” 8 फिलिप्पस ने कहा, “ऐ ख़ुदावन्द, बाप को हमें दिखाएँ। बस यही हमारे लिए काफ़ी है।” 9 ईसा ने जवाब दिया, “फिलिप्पस, मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या इस के बावजूद तुम मुझे नहीं जानता? जिस ने मुझे देखा उस ने बाप को देखा है। तो फिर तू क्योंकर कहता है, बाप को हमें दिखाएँ? 10 क्या तू ईमान नहीं रखता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? जो बातों में तुम को बताता हूँ वह मेरी नहीं बल्कि मुझ में रहने वाले बाप की तरफ़ से है। वही अपना काम कर रहा है। 11 मेरी बात का यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। या कम से कम उन कामों की बिना पर यकीन करो जो मैंने किए हैं।” 12 “मैं तुम को सच बताता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखे वह वही करेगा जो मैं करता हूँ। न सिर्फ़ यह बल्कि वह इन से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूँ। 13 और जो कुछ तुम मेरे नाम में माँगो मैं दूँगा ताकि

बाप को बेटे में जलाल मिल जाए। 14 जो कुछ तुम मेरे नाम में मुझ से चाहो वह मैं करूँगा।” 15 “अगर तुम मुझे मुहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारोगे। 16 और मैं बाप से गुज़ारिश करूँगा तो वह तुम को एक और मददगार देगा जो हमेशा तब तुम्हारे साथ रहेगा (aiōn g165) 17 यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनियाँ पा नहीं सकती, क्योंकि वह न तो उसे देखती न जानती है। लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहती है और आइन्दा तुम्हारे अन्दर रहेगी।” 18 “मैं तुम को यतीम छोड़ कर नहीं जाऊँगा बल्कि तुम्हारे पास वापस आऊँगा। 19 थोड़ी देर के बाद दुनियाँ मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। चूँकि मैं ज़िन्दा हूँ इस लिए तुम भी ज़िन्दा रहोगे। 20 जब वह दिन आएगा तो तुम जान लोगे कि मैं अपने बाप में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। 21 जिस के पास मेरे हुक्म हैं और जो उन के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारता है, वही मुझे प्यार करता है। और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा बाप प्यार करेगा। मैं भी उसे प्यार करूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा।” 22 यहदाह (यहदाह इस्करियोती नहीं) ने पूछा, “ख़ुदावन्द, क्या वजह है कि आप अपने आप को सिर्फ़ हम पर ज़ाहिर करेंगे और दुनियाँ पर नहीं?” 23 ईसा ने जवाब दिया, “अगर कोई मुझे मुहब्बत करे तो वह मेरे कलाम के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारेगा। मेरा बाप ऐसे शख्स को मुहब्बत करेगा और हम उस के पास आ कर उस के साथ रहा करेंगे। 24 जो मुझ से मुहब्बत नहीं करता, वह मेरे कलाम के मुताबिक़ ज़िन्दगी नहीं गुज़ारता। और जो कलाम तुम मुझ से सुनते हो, वह मेरा अपना कलाम नहीं है बल्कि बाप का है जिस ने मुझे भेजा है।” 25 “यह सब कुछ मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम को बताया है। 26 लेकिन बाद में रूह — ए पाक, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, तुम को सब कुछ सिखाएगा। यह मददगार तुम को हर बात की याद दिलाएगा जो मैं ने तुम को बताई है।” 27 “मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, अपनी ही सलामती तुम को दे देता हूँ। और मैं इसे यूँ नहीं देता जिस तरह दुनियाँ देती है। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरो। 28 तुम ने मुझ से सुन लिया है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे पास वापस आऊँगा। अगर तुम मुझ से मुहब्बत रखते तो तुम इस बात पर ख़ुश होते कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ, क्योंकि बाप मुझ से बड़ा है। 29 मैं ने तुम को पहले से बता दिया है, कि यह हो, ताकि जब पेश आए तो तुम ईमान लाओ। 30 अब से मैं तुम से ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस दुनियाँ का बादशाह आ रहा है। उसे मुझ पर कोई काबू नहीं है, 31 लेकिन दुनियाँ यह जान ले कि मैं बाप को प्यार करता हूँ और वही कुछ करता हूँ जिस का हुक्म वह मुझे देता है।”

**15** “अंगूर का हकीकी दरख़्त मैं हूँ और मेरा बाप बाग़बान है। 2 वह मेरी हर डाल को जो फल नहीं लाती काट कर फैंक



देता है। लेकिन जो डाली फल लाती है उस की वह काँट — छॉट करता है ताकि ज्यादा फल आए। 3 उस कलाम के वजह से जो मैं ने तुम को सुनाया है तुम तो पाक — साफ हो चुके हो। 4 मुझ में काईम रही तो मैं भी तुम में काईम रहूँगा। जो डाल दरख्त से कट गई है वह फल नहीं ला सकती। बिल्कुल इसी तरह तुम भी अगर तुम मुझ में काईम नहीं रहो तो फल नहीं ला सकते। 5 मैं ही अंगूर का दरख्त हूँ, और तुम उस की डालियाँ हो। जो मुझ में काईम रहता है और मैं उस में वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझ से अलग हो कर तुम कुछ नहीं कर सकते। 6 जो मुझ में काईम नहीं रहता और मैं उस में उसे सूखी डाल की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। और लोग उन का ढेर लगा कर उन्हें आग में झोंक देते हैं जहाँ वह जल जाती है। 7 अगर तुम मुझ में काईम रहो और मैं तुम में तो जो जी चाहे माँगो, वह तुम को दिया जाएगा। 8 जब तुम बहुत सा फल लाते और यूँ मेरे शागिर्द साबित होते हो तो इस से मेरे बाप को जलाल मिलता है। 9 जिस तरह बाप ने मुझ से मुहब्बत रखी है उसी तरह मैं ने तुम से भी मुहब्बत रखी है। अब मेरी मुहब्बत में काईम रहो। 10 जब तुम मेरे हुक्म के मुताबिक जिन्दगी गुजारते हो तो तुम मुझ में काईम रहते हो। मैं भी इसी तरह अपने बाप के अहकाम के मुताबिक चलता हूँ और यूँ उस की मुहब्बत में काईम रहता हूँ। 11 मैं ने तुम को यह इस लिए बताया है ताकि मेरी खुशी तुम में हो बल्कि तुम्हारा दिल खुशी से भर कर छलक उठे।” 12 “मेरा हुक्म यह है कि एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैं ने तुम को प्यार किया है। 13 इस से बड़ी मुहब्बत है नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। 14 तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वह कुछ करो जो मैं तुम को बताता हूँ। 15 अब से मैं नहीं कहता कि तुम गुलाम हो, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उस का मालिक क्या करता है। इस के बजाए मैं ने कहा है कि तुम दोस्त हो, क्योंकि मैं ने तुम को सब कुछ बताया है जो मैं ने अपने बाप से सुना है। 16 तुम ने मुझे नहीं चुना बल्कि मैं ने तुम को चुन लिया है। मैं ने तुम को मुकर्रर किया कि जा कर फल लाओ, ऐसा फल जो काईम रहे। फिर बाप तुम को वह कुछ देगा जो तुम मेरे नाम से माँगोगे। 17 मेरा हुक्म यही है कि एक दूसरे से मुहब्बत रखो।” 18 अगर दुनियाँ तुम से दुश्मनी रखे तो यह बात जहन में रखो कि उस ने तुम से पहले मुझ से दुश्मनी रखी है। 19 अगर तुम दुनियाँ के होते तो दुनियाँ तुम को अपना समझ कर प्यार करती। लेकिन तुम दुनियाँ के नहीं हो। मैं ने तुम को दुनियाँ से अलग करके चुन लिया है। इस लिए दुनियाँ तुम से दुश्मनी रखती है। 20 वह बात याद करो जो मैं ने तुम को बताई कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने ने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएँगे। और अगर उन्होंने ने मेरे कलाम के मुताबिक जिन्दगी गुजारी तो वह तुम्हारी बातों पर भी अमल करेंगे। 21 लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेंगे, मेरे नाम

की वजह से करेंगे, क्योंकि वह उसे नहीं जानते जिस ने मुझे भेजा है। 22 अगर मैं आया न होता और उन से बात न की होती तो वह तुम को सुनाया है तुम तो पाक — साफ हो चुके हो। 4 मुझ में काईम रही तो मैं भी तुम में काईम रहूँगा। जो डाल दरख्त से कट गई है वह फल नहीं ला सकती। बिल्कुल इसी तरह तुम भी अगर तुम मुझ में काईम नहीं रहो तो फल नहीं ला सकते। 5 मैं ही अंगूर का दरख्त हूँ, और तुम उस की डालियाँ हो। जो मुझ में काईम रहता है और मैं उस में वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझ से अलग हो कर तुम कुछ नहीं कर सकते। 6 जो मुझ में काईम नहीं रहता और मैं उस में उसे सूखी डाल की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। और लोग उन का ढेर लगा कर उन्हें आग में झोंक देते हैं जहाँ वह जल जाती है। 7 अगर तुम मुझ में काईम रहो और मैं तुम में तो जो जी चाहे माँगो, वह तुम को दिया जाएगा। 8 जब तुम बहुत सा फल लाते और यूँ मेरे शागिर्द साबित होते हो तो इस से मेरे बाप को जलाल मिलता है। 9 जिस तरह बाप ने मुझ से मुहब्बत रखी है उसी तरह मैं ने तुम से भी मुहब्बत रखी है। अब मेरी मुहब्बत में काईम रहो। 10 जब तुम मेरे हुक्म के मुताबिक जिन्दगी गुजारते हो तो तुम मुझ में काईम रहते हो। मैं भी इसी तरह अपने बाप के अहकाम के मुताबिक चलता हूँ और यूँ उस की मुहब्बत में काईम रहता हूँ। 11 मैं ने तुम को यह इस लिए बताया है ताकि मेरी खुशी तुम में हो बल्कि तुम्हारा दिल खुशी से भर कर छलक उठे।” 12 “मेरा हुक्म यह है कि एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैं ने तुम को प्यार किया है। 13 इस से बड़ी मुहब्बत है नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। 14 तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वह कुछ करो जो मैं तुम को बताता हूँ। 15 अब से मैं नहीं कहता कि तुम गुलाम हो, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उस का मालिक क्या करता है। इस के बजाए मैं ने कहा है कि तुम दोस्त हो, क्योंकि मैं ने तुम को सब कुछ बताया है जो मैं ने अपने बाप से सुना है। 16 तुम ने मुझे नहीं चुना बल्कि मैं ने तुम को चुन लिया है। मैं ने तुम को मुकर्रर किया कि जा कर फल लाओ, ऐसा फल जो काईम रहे। फिर बाप तुम को वह कुछ देगा जो तुम मेरे नाम से माँगोगे। 17 मेरा हुक्म यही है कि एक दूसरे से मुहब्बत रखो।” 18 अगर दुनियाँ तुम से दुश्मनी रखे तो यह बात जहन में रखो कि उस ने तुम से पहले मुझ से दुश्मनी रखी है। 19 अगर तुम दुनियाँ के होते तो दुनियाँ तुम को अपना समझ कर प्यार करती। लेकिन तुम दुनियाँ के नहीं हो। मैं ने तुम को दुनियाँ से अलग करके चुन लिया है। इस लिए दुनियाँ तुम से दुश्मनी रखती है। 20 वह बात याद करो जो मैं ने तुम को बताई कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने ने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएँगे। और अगर उन्होंने ने मेरे कलाम के मुताबिक जिन्दगी गुजारी तो वह तुम्हारी बातों पर भी अमल करेंगे। 21 लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेंगे, मेरे नाम

**16** “मैं ने तुम को यह इस लिए बताया है ताकि तुम गुमराह न हो जाओ। 2 वह तुम को यहदी जमाअतों से निकाल दूँगे, बल्कि वह वक़्त भी आने वाला है कि जो भी तुम को मार डालेगा वह समझेगा, मैंने खुदा की खिदमत की है। 3 वह इस क्रिम की हरकतें इस लिए करेंगे कि उन्होंने ने न बाप को जाना है, न मुझे। 4 (जिस ने यह देखा है उस ने गवाही दी है और उस की गवाही सच्ची है। वह जानता है कि वह हकीकत बयान कर रहा है और उस की गवाही का मक्सद यह है कि आप भी ईमान लाएँ।” 5 “लेकिन अब मैं उस के पास जा रहा हूँ जिस ने मुझे भेजा है। तो भी तुम में से कोई मुझ से नहीं पृथक्ता, ‘आप कहाँ जा रहे है?’ 6 इस के बजाए तुम्हारे दिल उदास है कि मैं ने तुम को ऐसी बातें बताई हैं। 7 लेकिन मैं तुम को सच बताता हूँ कि तुम्हारे लिए फाइदामन्द है कि मैं जा रहा हूँ। अगर मैं ने जाऊँ तो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। 8 और जब वह आया तो गुनाह, रास्तबाज़ी और अदालत के बारे में दुनियाँ की गलती को बेनिकाब करके यह जाहिर करेगा: 9 गुनाह के बारे में यह कि लोग मुझ पर ईमान नहीं रखते, 10 रास्तबाज़ी के बारे में यह कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे अब से नहीं देखोगे, 11 और अदालत के बारे में यह कि इस दुनियाँ के हाकिम की अदालत हो चुकी है।” 12 “मुझे तुम को बहुत कुछ बताना है, लेकिन इस वक़्त तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। 13 जब सच्चाई का रूह आया तो वह पूरी सच्चाई की तरफ तुम्हारी राहनुमाई करेगा। वह अपनी मज़ी से बात नहीं करेगा बल्कि सिर्फ वही कुछ कहेगा जो वह खुद सुनेगा। वही तुम को भी। मुस्तकबिल के बारे में बताएगा 14 और वह इस में मुझे जलाल देगा कि वह तुम को वही कुछ सुनाएगा जो उसे मुझ से मिला होगा। 15 जो कुछ भी बाप का है वह मेरा है। इस लिए मैं ने कहा, रूह तुम को वही कुछ सुनाएगा जो उसे मुझ से

मिला होगा।” 16 “थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे दुबारा देख लोगे।” 17 उस के कुछ शागिर्द आपस में बात करने लगे, ईसा के यह कहने से क्या मुराद है कि “थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे दुबारा देख लोगे? और इस का क्या मतलब है, मैं बाप के पास जा रहा हूँ?” 18 और वह सोचते रहे, “यह किस क्रिस्म की ‘थोड़ी देर’ है जिस का जिक्र वह कर रहे है? हम उन की बात नहीं समझते।” 19 ईसा ने जान लिया कि वह मुझ से इस के बारे में सवाल करना चाहते हैं। इस लिए उस ने कहा, “क्या तुम एक दूसरे से पूछ रहे हो कि मेरी इस बात का क्या मतलब है कि ‘थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे दुबारा देख लोगे?’” 20 मैं तुम को सच बताता हूँ कि तुम रो रो कर मातम करोगे जबकि दुनियाँ खूश होगी। तुम गम करोगे, लेकिन तुम्हारा गम खूशी में बदल जाएगा। 21 जब किसी औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसे गम और तकलीफ होती है क्योंकि उस का वक्त आ गया है। लेकिन जूँ ही बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ खूशी के मारे कि एक इंसान दुनियाँ में आ गया है अपनी तमाम मुसीबत भूल जाती है। 22 यही तुम्हारी हालत है। क्योंकि अब तुम उदास हो, लेकिन मैं तुम से दुबारा मिलूँगा। उस वक्त तुम को खूशी होगी, ऐसी खूशी जो तुम से कोई छीन न लेगा। 23 उस दिन तुम मुझ से कुछ नहीं पूछोगे। मैं तुम को सच बताता हूँ कि जो कुछ तुम मेरे नाम में बाप से माँगोगे वह तुम को देगा। 24 अब तक तुम ने मेरे नाम में कुछ नहीं माँगा। माँगो तो तुम को मिलेगा। फिर तुम्हारी खूशी पूरी हो जाएगी।” 25 “मैं ने तुम को यह मिसालों में बताया है। लेकिन एक दिन आएगा जब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उस वक्त मैं मिसालों में बात नहीं करूँगा बल्कि तुम को बाप के बारे में साफ साफ बता दूँगा। 26 उस दिन तुम मेरा नाम ले कर माँगोगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मैं ही तुम्हारी खातिर बाप से दरख्वास्त करूँगा। 27 क्योंकि बाप खुद तुम को प्यार करता है, इस लिए कि तुम ने मुझे प्यार किया है और इमान लाए हो कि मैं खुदा में से निकल आया हूँ। 28 मैं बाप में से निकल कर दुनियाँ में आया हूँ, और अब मैं दुनियाँ को छोड़ कर बाप के पास वापस जाता हूँ।” 29 इस पर उस के शागिर्दों ने कहा, “अब आप मिसालों में नहीं बल्कि साफ साफ बात कर रहे हैं। 30 अब हमें समझ आई है कि आप सब कुछ जानते हैं और कि इस की ज़रूरत नहीं कि कोई आप की पूछ — ताछ करे। इस लिए हम इमान रखते हैं कि आप खुदा में से निकल कर आए हैं।” 31 ईसा ने जवाब दिया, “अब तुम इमान रखते हो? 32 देखो, वह वक्त आ रहा है बल्कि आ चुका है जब तुम तितर — बितर हो जाओगे। मुझे अकेला छोड़ कर हर एक अपने घर चला जाएगा। तो भी मैं अकेला नहीं हूँगा क्योंकि बाप मेरे साथ है। 33 मैं ने तुम को इस लिए यह

बात बताई ताकि तुम मुझ में सलामती पाओ। दुनियाँ में तुम मुसीबत में फँसे रहते हो। लेकिन हौसला रखो, मैं दुनियाँ पर गालिब आया हूँ।”

**17** यह कह कर ईसा ने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और दुआ की, “ऐ बाप, वक्त आ गया है। अपने बेटे को जलाल दे ताकि बेटा तुझे जलाल दे। 2 क्योंकि तू ने उसे तमाम इंसानों पर इख्तियार दिया है ताकि वह उन सब को हमेशा की ज़िन्दगी दे जो तू ने उसे दिया है। (aiōnios g166) 3 और हमेशा की ज़िन्दगी यह है कि वह तुझे जान लें जो वाहिद और सच्चा खुदा है और ईसा मसीह को भी जान लें जिसे तू ने भेजा है। (aiōnios g166) 4 मैं ने तुझे ज़मीन पर जलाल दिया और उस काम को पूरा किया जिस की जिम्मेदारी तू ने मुझे दी थी। 5 और अब मुझे अपने हुज़ूर जलाल दे, ऐ बाप, वही जलाल जो मैं दुनियाँ की पैदाइश से पहले तेरे साथ रखता था।” 6 “मैं ने तेरा नाम उन लोगों पर जाहिर किया जिन्हें तू ने दुनियाँ से अलग करके मुझे दिया है। वह तेरे ही थे। तू ने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने ने तेरे कलाम के मुताबिक ज़िन्दगी गुजारी है। 7 अब उन्होंने जान लिया है कि जो कुछ भी तू ने मुझे दिया है वह तेरी तरफ से है। 8 क्योंकि जो बातें तू ने मुझे दी हैं मैं ने उन्हें दी हैं। नतीजे में उन्होंने ने यह बातें क़बूल करके हकीकी तौर पर जान लिया कि मैं तुझ में से निकल कर आया हूँ। साथ साथ वह इमान भी लाए कि तू ने मुझे भेजा है। 9 मैं उन के लिए दुआ करता हूँ, दुनियाँ के लिए नहीं बल्कि उन के लिए जिन्हें तू ने मुझे दिया है, क्योंकि वह तेरे ही हैं। 10 जो भी मेरा है वह तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है। चुन्नेचे मुझे उन में जलाल मिला है। 11 अब से मैं दुनियाँ में नहीं हूँगा। लेकिन यह दुनियाँ में रह गए हैं जबकि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कुद्स बाप, अपने नाम में उन्हें महफूज़ रख, उस नाम में जो तू ने मुझे दिया है, ताकि वह एक हों जैसे हम एक हैं। 12 जितनी देर मैं उन के साथ रहा मैं ने उन्हें तेरे नाम में महफूज़ रखा, उसी नाम में जो तू ने मुझे दिया था। मैं ने यूँ उन की निगहबानी की कि उन में से एक भी हलाक नहीं हुआ सिवाए हलाकत के फ़र्ज़न्द के। यूँ कलाम की पेशीनगोई पूरी हुई। 13 अब तो मैं तेरे पास आ रहा हूँ। लेकिन मैं दुनियाँ में होते हुए यह बयान कर रहा हूँ ताकि उन के दिल मेरी खूशी से भर कर छलक उठें। 14 मैं ने उन्हें तेरा कलाम दिया है और दुनियाँ ने उन से दुश्मनी रखी, क्योंकि यह दुनियाँ के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी दुनियाँ का नहीं हूँ। 15 मेरी दुआ यह नहीं है कि तू उन्हें दुनियाँ से उठा ले बल्कि यह कि उन्हें इन्लीस से महफूज़ रखे। 16 वह दुनियाँ के नहीं हैं जिस तरह मैं भी दुनियाँ का नहीं हूँ। 17 उन्हें सच्चाई के वसीले से मख्सूस — ओ — मुकद्दस कर। तेरा कलाम ही सच्चाई है। 18 जिस तरह तू ने मुझे दुनियाँ में भेजा है उसी तरह मैं ने भी उन्हें दुनियाँ में भेजा है। 19 उन की खातिर मैं अपने आप

को मख्सूस करता हूँ, ताकि उन्हें भी सच्चाई के वसीले से मख्सूस ससर था। 14 काइफ़ा ही ने यहदियों को यह मशवरा दिया था कि — ओ — मुक़द्दस किया जाए।” 20 “मेरी दुआ न सिर्फ़ इन ही के बेहतर यह है कि एक ही आदमी उम्मत के लिए मर जाए। 15 शमौन लिए है, बल्कि उन सब के लिए भी जो इन का पैग़ाम सुन कर मुझ पतरस किसी और शागिर्द के साथ ईसा के पीछे हो लिया था। यह पर ईमान लाएँगे 21 ताकि सब एक हों। जिस तरह तू ऐ बाप, मुझ में दूसरा शागिर्द इमाम — ए — आज़म का जानने वाला था, इस लिए है और मैं तुझ में हूँ उसी तरह वह भी हम में हों ताकि दुनियाँ यकीन वह ईसा के साथ इमाम — ए — आज़म के सहन में दाखिल हुआ। करे कि तू ने मुझे भेजा है। 22 मैं ने उन्हें वह जलाल दिया है जो तू ने 16 पतरस बाहर दरवाज़े पर खड़ा रहा। फिर इमाम — ए — आज़म मुझे दिया है ताकि वह एक हों जिस तरह हम एक हैं, 23 मैं उन में का जानने वाला शागिर्द दुबारा निकल आया। उस ने दरवाज़े की और तू मुझ में। वह कामिल तौर पर एक हों ताकि दुनियाँ जान ले निगरानी करने वाली औरत से बात की तो उसे पतरस को अपने साथ कि तू ने मुझे भेजा और कि तू ने उन से मुहब्बत रखी है जिस तरह अन्दर ले जाने की इजाज़त मिली। 17 उस औरत ने पतरस से पूछा, मुझ से रखी है। 24 ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जो तू ने मुझे दिए हैं वह “तुम भी इस आदमी के शागिर्द हो कि नहीं?” उस ने जवाब दिया, भी मेरे साथ हों, वहाँ जहाँ मैं हूँ, कि वह मेरे जलाल को देखें, वह “नहीं, मैं नहीं हूँ।” 18 ठन्डा थी, इस लिए गुलामों और पहरेदारों जलाल जो तू ने इस लिए मुझे दिया है कि तू ने मुझे दुनियाँ को बनाने ने लकड़ी के कोयलों से आग जलाई। अब वह उस के पास खड़े से पहले प्यार किया है। 25 ऐ रास्तबाज़, दुनियाँ तुझे नहीं जानती, ताप रहे थे। पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रहा था। 19 इतने लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। और यह शागिर्द जानते हैं कि तू ने मुझे में इमाम — ए — आज़म ईसा की पूछ — ताछ करके उस के भेजा है। 26 मैं ने तेरा नाम उन पर जाहिर किया और इसे जाहिर शागिर्दों और तालीमों के बारे में पूछ — ताछ करने लगा। 20 ईसा करता रहूँगा ताकि तेरी मुझ से मुहब्बत उन में हो और मैं उन में हूँ।”

**18** यह कह कर ईसा अपने शागिर्दों के साथ निकला और वादी

— ए — किद्रोन को पार करके एक बाग में दाखिल हुआ।

2 यहदाह जो उसे दुश्मन के हवाले करने वाला था वह भी इस जगह से वाकिफ़ था, क्योंकि ईसा वहाँ अपने शागिर्दों के साथ जाया करता था। 3 राहनुमा इमामों और फ़रीसियों ने यहदाह को रोमी फ़ौज़ियों का दस्ता और बैत — उल — मुक़द्दस के कुछ पहरेदार दिए थे। अब यह मशालें, लालटैन और हथियार लिए बाग में पहुँचे। 4 ईसा को मालूम था कि उसे क्या पेश आएगा। चुनौचे उस ने निकल कर उन से पूछा, “तुम किस को ढूँड रहे हो?” 5 उन्होंने जवाब दिया, “ईसा नासरी को।” ईसा ने उन्हें बताया, “मैं ही हूँ।” यहदाह जो उसे दुश्मन के हवाले करना चाहता था, वह भी उन के साथ खड़ा था। 6 जब ईसा ने प्लान किया, “मैं ही हूँ,” तो सब पीछे हट कर ज़मीन पर गिर पड़े। 7 एक और बार ईसा ने उन से सवाल किया, “तुम किस को ढूँड रहे हो?” 8 उस ने कहा, “मैं तुम को बता चुका हूँ कि मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे ढूँड रहे हो तो इन को जाने दो।” 9 यूँ उस की यह बात पूरी हुई, “मैं ने उन में से जो तू ने मुझे दिए हैं एक को भी नहीं खोया।” 10 शमौन पतरस के पास तलवार थी। अब उस ने उसे मियान से निकाल कर इमाम — ए — आज़म के गुलाम का दहना कान उड़ा दिया (गुलाम का नाम मलखूस था) 11 लेकिन ईसा ने पतरस से कहा, “तलवार को मियान में रख। क्या मैं वह प्याला न पिचूँ जो बाप ने मुझे दिया है?” 12 फिर फ़ौजी दस्ते, उन के अपसर और बैत — उल — मुक़द्दस के यहदी पहरेदारों ने ईसा को गिरफ़्तार करके बाँध लिया। 13 पहले वह उसे हन्ना के पास ले गए। हन्ना उस साल के इमाम — ए — आज़म काइफ़ा का

ससर था। 14 काइफ़ा ही ने यहदियों को यह मशवरा दिया था कि बेहतर यह है कि एक ही आदमी उम्मत के लिए मर जाए। 15 शमौन पतरस किसी और शागिर्द के साथ ईसा के पीछे हो लिया था। यह दूसरा शागिर्द इमाम — ए — आज़म का जानने वाला था, इस लिए है और मैं तुझ में हूँ उसी तरह वह भी हम में हों ताकि दुनियाँ यकीन वह ईसा के साथ इमाम — ए — आज़म के सहन में दाखिल हुआ। 16 पतरस बाहर दरवाज़े पर खड़ा रहा। फिर इमाम — ए — आज़म का जानने वाला शागिर्द दुबारा निकल आया। उस ने दरवाज़े की निगरानी करने वाली औरत से बात की तो उसे पतरस को अपने साथ अन्दर ले जाने की इजाज़त मिली। 17 उस औरत ने पतरस से पूछा, “तुम भी इस आदमी के शागिर्द हो कि नहीं?” उस ने जवाब दिया, “नहीं, मैं नहीं हूँ।” 18 ठन्डा थी, इस लिए गुलामों और पहरेदारों ने लकड़ी के कोयलों से आग जलाई। अब वह उस के पास खड़े ताप रहे थे। पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रहा था। 19 इतने में इमाम — ए — आज़म ईसा की पूछ — ताछ करके उस के शागिर्दों और तालीमों के बारे में पूछ — ताछ करने लगा। 20 ईसा ने जवाब में कहा, “मैं ने दुनियाँ में खुल कर बात की है। मैं हमेशा यहदी इबादतखानों और हैकल में तालीम देता रहा, वहाँ जहाँ तमाम यहदी जमा हुआ करते हैं। पोशीर्दगी में तो मैं ने कुछ नहीं कहा। 21 आप मुझ से क्यों पूछ रहे हैं? उन से दरयाफ़्त करें जिन्होंने मेरी बातें सुनी हैं। उन को मालूम है कि मैं ने क्या कुछ कहा है।” 22 “इस पर साथ खड़े हैकल के पहरेदारों में से एक ने ईसा के मुँह पर थपपड़ मार कर कहा, क्या यह इमाम — ए — आज़म से बात करने का तरीका है जब वह तुम से कुछ पूछे?” 23 ईसा ने जवाब दिया, “अगर मैं ने बुरी बात की है तो साबित कर। लेकिन अगर सच कहा, तो तू ने मुझे क्यों मारा?” 24 फिर हन्ना ने ईसा को बाँधी हुई हालत में इमाम — ए — आज़म काइफ़ा के पास भेज दिया। 25 शमौन पतरस अब तक आग के पास खड़ा ताप रहा था। इतने में दूसरे उस से पूछने लगे, “तुम भी उस के शागिर्द हो कि नहीं?” 26 फिर इमाम — ए — आज़म का एक गुलाम बोल उठा जो उस आदमी का रिश्तेदार था जिस का कान पतरस ने उड़ा दिया था, “क्या मैं ने तुम को बाग में उस के साथ नहीं देखा था?” 27 पतरस ने एक बार फिर इन्कार किया, और इन्कार करते ही मुर्ग की बाँग सुनाई दी। 28 फिर यहदी ईसा को काइफ़ा से ले कर रोमी गवर्नर के महल बनाम प्रैटोरियुम के पास पहुँच गए। अब सुबह हो चुकी थी और चूँकि यहदी फ़सह की ईद के खाने में शरीक होना चाहते थे, इस लिए वह महल में दाखिल न हुए, वरना वह नापाक हो जाते। 29 चुनौचे पिलातुस निकल कर उन के पास आया और पूछा, “तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो?” 30 उन्होंने जवाब दिया, “अगर यह मुजरिम न होता तो हम इसे आप के हवाले न करते।” 31 पिलातुस ने अगुवों से कहा, “फिर इसे ले जाओ और अपनी

शरई अदालतों में पेश करो।” लेकिन यहदियों ने एतराज किया, हो?” 10 पिलातस ने उस से कहा, “अच्छा, तुम मेरे साथ बात नहीं करती? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तुम्हें रिहा करने और मस्लूब करने का इख्तियार है?” 11 ईसा ने जवाब दिया, “आप को मुझ पर इख्तियार न होता अगर वह आप को ऊपर से न दिया गया होता। इस वजह से उस शख्स से ज्यादा संगीन गुनाह हुआ है जिस ने मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया है।” 12 इस के बाद पिलातस ने उसे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन यहदी चीख चीख कर कहने लगे, “अगर आप इसे रिहा करें तो आप रोमी शह-शाह कैसर के दोस्त तुम्हारी अपनी क्रौम और राहनुमा इमामों ही ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुम से क्या कुछ हुआ है? 36 ईसा ने कहा, “मेरी बादशाही इस दुनियाँ की नहीं है। अगर वह इस दुनियाँ की होती तो मेरे खादिम सख्त जद् — ओ — जद् करते ताकि मुझे यहदियों के हवाले न किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है।” 37 पीलातस ने कहा, “तो फिर तुम वाकई बादशाह हो?” 38 ईसा ने जवाब दिया, “आप सही कहते हैं, मैं बादशाह हूँ मैं इसी मकसद के लिए पैदा हो कर दुनिया में आया कि सच्चाई की गवाही दूँ। जो भी सच्चाई की तरफ से है वह मेरी सुनता है।” 38 पीलातस ने पूछा, “सच्चाई क्या है?” फिर वह दुबारा निकल कर यहदियों के पास गया। उस ने एलान किया, “मुझे उसे मुज़िम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। 39 “लेकिन तुम्हारी एक रस्म है जिस के मुताबिक मुझे ईद — ए — फसह के मौके पर तुम्हारे लिए एक कैदी को रिहा करना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं ‘यहदियों के बादशाह’ को रिहा कर दूँ?” 40 लेकिन जवाब में लोग चिल्लाने लगे, “नहीं, इस को नहीं बल्कि बर — अब्बा को।” (बर — अब्बा डाकू था)

**19** फिर पिलातस ने ईसा को कोड़े लगवाए। 2 फौजियों ने काँटेदार टहनियों का एक ताज बना कर उस के सर पर रख दिया। उन्होंने ने उसे इर्गवानी रंग का चोगा भी पहनाया। 3 फिर उस के सामने आ कर वह कहते, “ऐ यहदियों के बादशाह, आदाब!” और उसे थप्पड़ मारते थे। 4 एक बार फिर पिलातस निकल आया और यहदियों से बात करने लगा, “देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ला रहा हूँ ताकि तुम जान लो कि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली।” 5 फिर ईसा काँटेदार ताज और इर्गवानी रंग का लिबास पहने बाहर आया। पिलातस ने उन से कहा, “लो यह है वह आदमी।” 6 उसे देखते ही राहनुमा इमाम और उन के मुलाजिम चीखने लगे, “इसे मस्लूब करें, इसे मस्लूब करें!” 7 यहदियों ने इसरार किया, “हमारे पास शरी'अत है और इस शरी'अत के मुताबिक लाजिम है कि वह मारा जाए। क्योंकि इस ने अपने आप को खुदा का फ़र्जन्द करार दिया है।” 8 यह सुन कर पिलातस बहुत डर गया। 9 दुबारा महल में जा कर ईसा से पूछा, “तुम कहाँ से आए

10 पिलातस ने उस से कहा, “अच्छा, तुम मेरे साथ बात नहीं करती? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तुम्हें रिहा करने और मस्लूब करने का इख्तियार है?” 11 ईसा ने जवाब दिया, “आप को मुझ पर इख्तियार न होता अगर वह आप को ऊपर से न दिया गया होता। इस वजह से उस शख्स से ज्यादा संगीन गुनाह हुआ है जिस ने मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया है।” 12 इस के बाद पिलातस ने उसे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन यहदी चीख चीख कर कहने लगे, “अगर आप इसे रिहा करें तो आप रोमी शह-शाह कैसर के दोस्त तुम्हारी अपनी क्रौम और राहनुमा इमामों ही ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुम से क्या कुछ हुआ है? 36 ईसा ने कहा, “मेरी बादशाही इस दुनियाँ की नहीं है। अगर वह इस दुनियाँ की होती तो मेरे खादिम सख्त जद् — ओ — जद् करते ताकि मुझे यहदियों के हवाले न किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है।” 37 पीलातस ने कहा, “तो फिर तुम वाकई बादशाह हो?” 38 ईसा ने जवाब दिया, “आप सही कहते हैं, मैं बादशाह हूँ मैं इसी मकसद के लिए पैदा हो कर दुनिया में आया कि सच्चाई की गवाही दूँ। जो भी सच्चाई की तरफ से है वह मेरी सुनता है।” 38 पीलातस ने पूछा, “सच्चाई क्या है?” फिर वह दुबारा निकल कर यहदियों के पास गया। उस ने एलान किया, “मुझे उसे मुज़िम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। 39 “लेकिन तुम्हारी एक रस्म है जिस के मुताबिक मुझे ईद — ए — फसह के मौके पर तुम्हारे लिए एक कैदी को रिहा करना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं ‘यहदियों के बादशाह’ को रिहा कर दूँ?” 40 लेकिन जवाब में लोग चिल्लाने लगे, “नहीं, इस को नहीं बल्कि बर — अब्बा को।” (बर — अब्बा डाकू था)

ईसा नासरी, यहदियों का बादशाह। 20 बहुत से यहदियों ने यह पढ लिया, क्योंकि ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने की जगह शहर के करीब थी और यह जुमला अरामी, लातिनी और यूनानी ज़बानों में लिखा था। 21 यह देख कर यहदियों के राहनुमा इमामों ने ऐतराज किया, “यहदियों का बादशाह न लिखें बल्कि यह कि इस आदमी ने यहदियों का बादशाह होने का दावा किया।” 22 पिलातस ने जवाब दिया, “जो कुछ मैं ने लिख दिया सो लिख दिया।” 23 ईसा को सलीब पर चढ़ाने के बाद फौजियों ने उस के कपड़े ले कर चार हिस्सों में बाँट लिए, हर फौजी के लिए एक हिस्सा। लेकिन चोगा बेजोड़ था। वह ऊपर से ले कर नीचे तक बुना हुआ एक ही टुकड़े का था। 24 इस लिए फौजियों ने कहा, “आओ, इसे फाड़ कर तक्सीम न करें बल्कि इस पर पचीं डालें।” यूँ कलाम — ए — मुकद्दस की यह पेशीनगोई पूरी हुई, “उन्होंने ने आपस में मेरे कपड़े बाँट लिए और मेरे लिबास पर पचीं डाला।” फौजियों ने यही कुछ किया। 25 ईसा की सलीब के करीब: उस की माँ, उस की खाला,

क्लियुपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। 20 हफ्ते का दिन गुजर गया तो इतवार को मरियम मगदलिनी 26 जब ईसा ने अपनी माँ को उस शागिर्द के साथ खड़े देखा जो उसे सुबह — सवेरे कब्र के पास आई। अभी अँधेरा था। वहाँ प्यारा था तो उस ने कहा, “ऐ खातून, देखे आप का बेटा यह है।” पहुँच कर उस ने देखा कि कब्र के मुँह पर का पत्थर एक तरफ 27 और उस शागिर्द से उस ने कहा, “देख, तेरी माँ यह है।” उस हटाया गया है। 2 मरियम दौड़ कर शमोन पतरस और ईसा के प्यारे वक्त से उस शागिर्द ने ईसा की माँ को अपने घर रखा। 28 इस के शागिर्द के पास आई। उस ने खबर दी, “वह खुदाबन्द को कब्र से ले बाद जब ईसा ने जान लिया कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है तो गए हैं, और हमें मालूम नहीं कि उन्होंने ने उसे कहाँ रख दिया है।” उस ने कहा, “मुझे प्यास लगी है।” (इस से भी कलाम — ए — 3 तब पतरस दूसरे शागिर्द समेत कब्र की तरफ चल पडा। 4 दोनों मुकद्दस की एक पेशीनगोई पूरी हुई।) 29 वहाँ सिरके से भरा हुआ दौड़ रहे थे, लेकिन दूसरा शागिर्द ज्यादा तेज़ रफ़्तार था। वह पहले एक बरतन रखा था, उन्होंने सिरके में स्पंज डुबोकर जूफे की डाली कब्र पर पहुँच गया। 5 उस ने झुक कर अन्दर झाँका तो कफ़न की पर रख कर उसके मुँह से लगाया। 30 यह सिरका पीने के बाद ईसा पट्टियाँ वहाँ पडी नज़र आई। लेकिन वह अन्दर न गया। 6 फिर बोल उठा, “काम मुकम्मल हो गया है।” और सर झुका कर उस ने शमोन पतरस उस के पीछे पहुँच कर कब्र में दाखिल हुआ। उस ने अपनी जान खुदा के सपुर्द कर दी। 31 फ़सह की तैयारी का दिन था भी देखा कि कफ़न की पट्टियाँ वहाँ पडी हैं 7 और साथ वह कपडा और अगले दिन ईद का आगाज़ और एक ख़ास सबत था। इस लिए भी जिस में ईसा का सर लिपटा हुआ था। यह कपडा तह किया गया यहदी नहीं चाहते थे कि मस्त्वब हुई लाशें अगले दिन तक सलीबों था और पट्टियों से अलग पडा था। 8 फिर दूसरा शागिर्द जो पहले पर लटकी रहें। चुनौचे उन्होंने ने पिलातुस से गुज़ारिश की कि वह पहुँच गया था, वह भी दाखिल हुआ। जब उस ने यह देखा तो वह उन की टाँगें तोडवा कर उन्हें सलीबों से उतारने दे। 32 तब फ़ौजियों ईमान लाया। 9 (लेकिन अब भी वह कलाम — ए — मुकद्दस की ने आ कर ईसा के साथ मस्त्वब किए जाने वाले आदमियों की टाँगें नबुव्वत नहीं समझते थे कि उसे मुर्दों में से जी उठना है।) 10 फिर तोड दी, पहले एक की फिर दूसरे की। 33 जब वह ईसा के पास दोनों शागिर्द घर वापस चले गए। 11 लेकिन मरियम रो रो कर कब्र आए तो उन्होंने ने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है, इस लिए उन्होंने के सामने खड़ी रही। और रोते हुए उस ने झुक कर कब्र में झाँका 12 ने उस की टाँगें न तोडी। 34 इस के बजाए एक ने भाले से ईसा का तो क्या देखती है कि दो फ़रिश्ते सफ़ेद लिबास पहने हुए वहाँ बैठे हैं पहलू छेद दिया। ज़ख़म से फ़ौरन खून और पानी बह निकला। 35 जहाँ पहले ईसा की लाश पडी थी, एक उस के सिरहाने और दूसरा उस के पैताने थे। 13 उन्होंने ने मरियम से पूछा, “ऐ खातून, तू क्यूँ रो रही है?” उस ने कहा, “वह मेरे खुदाबन्द को ले गए हैं, और गवाही का मक्सद यह है कि आप भी ईमान लाएँ।) 36 यह खँ हुआ मालूम नहीं कि उन्होंने ने उसे कहाँ रख दिया है।” 14 फिर उस ताकि कलाम — ए — मुकद्दस की यह नबुव्वत पूरी हो जाए, “उस ने पीछे मुड कर ईसा को वहाँ खड़े देखा, लेकिन उस ने उसे न की एक हड्डी भी तोडी नहीं जाएगी।” 37 कलाम — ए — मुकद्दस पहचाना। 15 ईसा ने पूछा, “ऐ खातून, तू क्यूँ रो रही है, किस को में यह भी लिखा है, “वह उस पर नज़र डालेंगे जिसे उन्होंने ने छेदा डूँड रही है?” उसने बागबान समझ कर उस से कहा, मियाँ अगर है।” 38 बाद में अरिमतियाह के रहने वाले यूसुफ ने पिलातुस से तूने उसको यहाँ से उठाया हो तू मुझे बता दे कि उसे कहा रखा है ईसा की लाश उतारने की इजाज़त माँगी। (यूसुफ ईसा का खूफ़िया ताकि मैं उसे ले जाऊँ 16 ईसा ने उस से कहा, “मरियम!” उसने शागिर्द था, क्योंकि वह यहदियों से डरता था।) इस की इजाज़त मुडकर उससे इब्रानी ज़बान में कहा “रब्बोनी ए उस्ताद” 17 ईसा मिलने पर वह आया और लाश को उतार लिया। 39 नीकुदेमुस भी ने कहा, “मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं ऊपर, बाप के पास नहीं गया। लेकिन भाइयों के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने बाप और साथ था, वह आदमी जो गुज़रे दिनों में रात के वक्त ईसा से मिलने तुम्हारे बाप के पास वापस जा रहा हूँ, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा आया था। नीकुदेमुस अपने साथ मुर और ऊद की तकरीबन 34 के पास।” 18 चुनौचे मरियम मगदलिनी शागिर्दों के पास गई और किलो ख़शबू ले कर आया था। 40 उन्होंने ईसा की लाश को ले उन्हें इतिला दी, “मैं ने खुदाबन्द को देखा है और उस ने मुझ से यह कर उसे पट्टियों से लपेट दिया। 41 सलीबों के करीब एक बाग था बातें कहीं।” 19 उस इतवार की शाम को शागिर्द जमा थे। उन्होंने ने और बाग में एक नई कब्र थी जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई दरवाज़ों पर ताले लगा दिए थे क्योंकि वह यहदियों से डरते थे। थी। 42 उस के करीब होने के वजह से उन्होंने ने ईसा को उस में रख अचानक ईसा उन के दरमियान आ खडा हुआ और कहा, “तुम्हारी दिया, क्योंकि फ़सह की तय्यारी का दिन था और अगले दिन ईद की सलामती हो,” 20 और उन्हें अपने हाथों और पहलू को दिखाया। शुरुआत होने वाली थी। खुदाबन्द को देख कर वह निहायत ख़ुश हुए। 21 ईसा ने दुबारा

कहा, “तुम्हारी सलामती हो! जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम को भेज रहा हूँ।” 22 फिर उन पर फूँक कर उस ने फरमाया, “रूह — उल — कूडूस को पा लो। 23 अगर तुम किसी के गुनाहों को मुआफ़ करो तो वह मुआफ़ किए जाएँगे। और अगर तुम उन्हें मुआफ़ न करो तो वह मुआफ़ नहीं किए जाएँगे।” 24 बारह शागिर्दों में से तोमा जिस का लकड़ब जुड़वाँ था ईसा के आने पर मौजूद न था। 25 चुनाँचे दूसरे शागिर्दों ने उसे बताया, “हम ने खुदावन्द को देखा है!” लेकिन तोमा ने कहा, मुझे यक्रीन नहीं आता। “पहले मुझे उस के हाथों में कीलों के निशान नज़र आएँ और मैं उन में अपनी उंगली डालूँ, पहले मैं अपने हाथ को उस के पहलू के ज़ख़म में डालूँ। फिर ही मुझे यक्रीन आएगा।” 26 एक हफ़ता गुज़र गया। शागिर्द दुबारा मकान में जमा थे। इस मर्तबा तोमा भी साथ था। अगरचे दरवाज़ों पर ताले लगे थे फिर भी ईसा उन के दरमियान आ कर खड़ा हुआ। उस ने कहा, “तुम्हारी सलामती हो!” 27 फिर वह तोमा से मुखातिब हुआ, “अपनी उंगली को मेरे हाथों और अपने हाथ को मेरे पहलू के ज़ख़म में डाल और बेएतिक़ाद न हो बल्कि ईमान रख।” 28 तोमा ने जवाब में उस से कहा, “ऐ मेरे खुदावन्द! ऐ मेरे खुदा!” 29 फिर ईसा ने उसे बताया, “क्या तू इस लिए ईमान लाया है कि तू ने मुझे देखा है? मुबारिक़ हैं वह जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान लाते हैं।” 30 ईसा ने अपने शागिर्दों की मौजूदगी में मज़ीद बहुत से ऐसे खुदाई करिश्मे दिखाए जो इस किताब में दर्ज नहीं हैं। 31 लेकिन जितने दर्ज हैं उन का मन्सद यह है कि आप ईमान लाएँ कि ईसा ही मसीह यानी खुदा का फ़र्ज़न्द है और आप को इस ईमान के वसीले से उस के नाम से जिन्दगी हासिल हो।

**21** इस के बाद ईसा एक बार फिर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वह तिबरियास यानी गलील की झील पर थे। यह यूँ हुआ। 2 कुछ शागिर्द शमौन पतरस के साथ जमा थे, तोमा जो जुड़वाँ कहलाता था, नतन — एल जो गलील के काना से था, जब्दी के दो बेटे और मज़ीद दो शागिर्द। 3 शमौन पतरस ने कहा, “मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ।” दूसरों ने कहा, “हम भी साथ जाएँगे।” चुनाँचे वह निकल कर कश्ती पर सवार हुए। लेकिन उस पूरी रात एक भी मछली हाथ न आई। 4 सुबह — सवरे ईसा झील के किनारे पर आ खड़ा हुआ। लेकिन शागिर्दों को मालूम नहीं था कि वह ईसा ही है। 5 उस ने उन से पूछा, “बच्चो, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल गया?” 6 उस ने कहा, “अपना जाल नाव के दाएँ हाथ डालो, फिर तुम को कुछ मिलेगा।” उन्होंने ने ऐसा किया तो मछलियों की इतनी बड़ी तहदाद थी कि वह जाल नाव तक न ला सके। 7 इस पर ईसा के प्यारे शागिर्द ने पतरस से कहा, “यह तो खुदावन्द है।” यह सुनते ही कि खुदावन्द है शमौन पतरस अपनी चादर ओढ़ कर पानी में कूद पड़ा (उस ने चादर को काम करने के

लिए उतार लिया था)। 8 दूसरे शागिर्द नाव पर सवार उस के पीछे आए। वह किनारे से ज़्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन सौ मीटर के फ़ासिले पर थे। इस लिए वह मछलियों से भरे जाल को पानी खींच खींच कर ख़ुशकी तक लाए। 9 जब वह नाव से उतरे तो देखा कि लकड़ी के कोयलों की आग पर मछलियाँ भुनी जा रही हैं और साथ रोटी भी है। 10 ईसा ने उन से कहा, “उन मछलियों में से कुछ ले आओ जो तुम ने अभी पकड़ी हैं।” 11 शमौन पतरस नाव पर गया और जाल को ख़ुशकी पर घसीट लाया। यह जाल 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, तो भी वह न फटा। 12 ईसा ने उन से कहा, “आओ, खा लो।” किसी भी शागिर्द ने सवाल करने की ज़रअत न की कि “आप कौन हैं?” क्योंकि वह तो जानते थे कि यह खुदावन्द ही है। 13 फिर ईसा आया और रोटी ले कर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी उन्हें खिलाई। 14 ईसा के जी उठने के बाद यह तीसरी बार था कि वह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। 15 खाने के बाद ईसा शमौन पतरस से मुखातिब हुआ, “यूहन्ना के बेटे शमौन, क्या तू इन की निस्बत मुझ से ज़्यादा मुहब्बत करता है?” उस ने जवाब दिया, “जी खुदावन्द, आप तो जानते हैं कि मैं आप को प्यार करता हूँ।” ईसा बोला, “फिर मेरे भेड़ों को चरा।” 16 तब ईसा ने एक और मर्तबा पूछा, “शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझ से मुहब्बत करता है?” उस ने जवाब दिया, “जी खुदावन्द, आप तो जानते हैं कि मैं आप को प्यार करता हूँ।” ईसा बोला, “फिर मेरी भेड़ों को चरा।” 17 तीसरी दफ़ा ईसा ने उस से पूछा, “शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे प्यार करता है?” तीसरी दफ़ा यह सवाल सुनने से पतरस को बड़ा दुख हुआ। उस ने कहा, “खुदावन्द, आप को सब कुछ मालूम है। आप तो जानते हैं कि मैं आप को प्यार करता हूँ।” ईसा ने उस से कहा, “मेरी भेड़ों को चरा। 18 मैं तुझे सच बताता हूँ कि जब तू जवान था तो तू खुद अपनी कमर बाँध कर जहाँ जी चाहता घूमता फिरता था। लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथों को आगे बढ़ाएगा और कोई और तेरी कमर बाँध कर तुझे ले जाएगा जहाँ तेरा दिल नहीं करेगा।” 19 (ईसा की यह बात इस तरफ़ इशारा था कि पतरस किस क्रिस्म की मौत से खुदा को जलाल देगा)। फिर उस ने उसे बताया, “मेरे पीछे चला।” 20 पतरस ने मुड़ कर देखा कि जो शागिर्द ईसा को प्यारा था वह उन के पीछे चल रहा है। यह वही शागिर्द था जिस ने शाम के खाने के दौरान ईसा की तरफ़ सर झुका कर पूछा था, “खुदावन्द, कौन आप को दुश्मन के हवाले करेगा?” 21 अब उसे देख कर पतरस ने ईसा से सवाल किया, “खुदावन्द, इस के साथ क्या होगा?” 22 ईसा ने जवाब दिया, “अगर मैं चाहूँ कि यह मेरे वापस आने तक जिन्दा रहे तो तुझे क्या? बस तू मेरे पीछे चलता रह।” 23 नतीजे में भाइयों में यह खयाल फैल गया कि यह शागिर्द नहीं रहेगा। लेकिन ईसा ने यह

बात नहीं की थी। उस ने सिर्फ यह कहा था, “अगर मैं चाहूँ कि यह मेरे वापस आने तक ज़िन्दा रहे तो तुझे क्या?” 24 यह वह शागिर्द है जिस ने इन बातों की गवाही दे कर इन्हें कलमबन्द कर दिया है। और हम जानते हैं कि उस की गवाही सच्ची है। 25 ईसा ने इस के अलावा भी बहुत कुछ किया। अगर उस का हर काम कलमबन्द किया जाता तो मेरे खयाल में पूरी दुनियाँ में यह किताबें रखने की गुन्जाइश न होती।

# आमाल

**1** ऐ थियुफिलस मैने पहली किताब उन सब बातों के बयान में लिखी जो ईसा शुरू; में करता और सिखाता रहा। 2 उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रह — उल — कुदूस के वसिले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। 3 ईसा ने तकलीफ सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आपको उन पर जिन्दा जाहिर भी किया, चुनाँचे वो चालीस दिन तक उनको नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। 4 और उनसे मिलकर उन्हें हुक्म दिया, “येरुशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने का इन्तिज़ार करो, जिसके बारे में तुम मुझ से सुन चुके हो, 5 क्योंकि यहून्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रह — उल — कुदूस से बपतिस्मा पाओगे।” 6 पस उन्होंने इकठ्ठा होकर पूछा, “ऐ खुदावन्द! क्या तू इसी वक्त इस्राईल को बादशाही फिर अता करेगा?” 7 उसने उनसे कहा, “उन वक्तों और मी'आदों का जानना, जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखवा है, तुम्हारा काम नहीं। 8 लेकिन जब रह — उल — कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम ताकत पाओगे; और येरुशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन के आखीर तक मेरे गवाह होंगे।” 9 ये कहकर वो उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादलों ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। 10 उसके जाते वक्त वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो, दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, 11 और कहने लगे, “ऐ गलीली मर्दों! तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही ईसा जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुम ने उसे आसमान पर जाते देखा है।” 12 तब वो उस पहाड़ से जो ज़ैतून का कहलाता है और येरुशलेम के नज़दीक सबत की मन्ज़िल के फ़ासले पर है येरुशलेम को फिर। 13 और जब उसमें दाख़िल हुए तो उस बालाखाने पर चढ़े जिस में वो या'नी पतरस और यहून्ना, और या'क़ब और अन्दियास और फिलिप्पुस, तोमा, बरतुल्माई, मर्ती, हलफ़ी का बेटा या'क़ब, शमौन ज़ेलोतेस और या'क़ब का बेटा यहूदाह रहते थे। 14 ये सब के सब चन्द 'औरतों और ईसा की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। 15 उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकरीबन एक सौ बीस शख़्सों की जमा'अत थी खड़ा होकर कहने लगा, 16 “ऐ भाइयों उस नबूवत का पूरा होना ज़रूरी था जो रह — उल — कुदूस ने दाऊद के ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले कहा था, जो ईसा के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। 17 क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उस ने इस खिदमत का हिस्सा पाया।” 18 उस ने बदकारी

की कमाई से एक खेत खरीदा, और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आँतडीयां निकल पड़ीं। 19 और ये येरुशलेम के सब रहने वालों को मा'लूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी ज़बान में हैकलेदमा पड़ गया या'नी [खून का खेत]। 20 क्योंकि ज़बर में लिखा है, 'उसका घर उजड़ जाए, और उसमें कोई बसने वाला न रहे और उसका मर्तबा दूसरा ले ले। 21 पस जितने 'अर्स तक खुदावन्द ईसा हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यहून्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावन्द के हमारे पास से उठाए जाने तक — जो बराबर हमारे साथ रहे, 22 चाहिए कि उन में से एक आदमी हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। 23 फिर उन्होंने दो को पेश किया। एक यूसुफ़ को जो बरसब्बा कहलाता है और जिसका लक़ब यूसतुस है। दूसरा मतय्याह को। 24 और ये कह कर दुआ की, “ऐ खुदावन्द! तू जो सब के दिलों को जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किस को चुना है 25 ताकि वह इस खिदमत और रसूलों की जगह ले, जिसे यहूदाह छोड़ कर अपनी जगह गया।” 26 फिर उन्होंने उनके बारे में पच्ची डाली, और पच्ची मतय्याह के नाम की निकली। पस वो उन ग्यारह रसूलों के साथ शुमार किया गया।

**2** जब ईद — ए — पन्तिकुस्त का दिन आया। तो वो सब एक जगह जमा थे। 2 एकाएक आस्मान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आँधी का सन्नाटा होता है। और उस से सारा घर जहां वो बैठे थे गूँज गया। 3 और उन्हें आग के शो'ले की सी फ़टती हुई ज़बाने दिखाई दी और उन में से हर एक पर आ ठहरी। 4 और वो सब रह — उल — कुदूस से भर गए और गौर ज़बान बोलने लगे, जिस तरह रह ने उन्हें बोलने की ताकत बख़्शी। 5 और हर क़ौम में से जो आसमान के नीचे खुदा तरस यहूदी येरुशलेम में रहते थे। 6 जब यह आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। 7 और सब हैरान और ता'ज्जुब हो कर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? 8 फिर क्योंकि हम में से हर एक कैसे अपने ही वतन की बोली सुनता है। 9 हालाँकि हम हैं: पार्थी, मादि, ऐलामी, मसोपोतामिया, यहूदिया, और कम्पदुकिया, और पुन्तुस, और आसिया, 10 और फ़रुगिया, और पम्फ़ीलिया, और मिस्र और लिबुवा, के इलाके के रहने वाले हैं, जो कुरेने की तरफ़ है और रोमी मुसाफ़िर 11 चाहे यहूदी चाहे उनके मुरीद, करेती और 'अरब हैं। मगर अपनी अपनी ज़बान में उन से खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। 12 और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, “ये क्या हुआ चाहता है?” 13 और कुछ ने ठग़ा मार कर कहा, “ये तो ताज़ा मय के नशे में हैं।” 14 लेकिन पतरस उन ग्यारह रसूलों के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलन्द



करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ येरूशलेम के सब रहने लेकिन वो ख़ुद कहता है, कि ख़ुदावन्द ने मेरे ख़ुदा से कहा, मेरी वालो ये जान लो, और कान लगा कर मेरी बातें सुनो! 15 कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं। क्योंकि अभी तो सुबह के नौ ही बजे चौकी न कर दें।” 36 “पस इस्राईल का सारा घराना यक्रीन जान ले है। 16 बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी के जरिए कही गई है कि ख़ुदा ने उसी ईसा को जिसे तुम ने मस्लूब किया ख़ुदावन्द भी कि, 17 ख़ुदा फरमाता है, कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं किया और मसीह भी।” 37 जब उन्होंने ने ये सुना तो उनके दिलों पर अपनी रूह में से हर आदमियों पर डालूँगा और तुम्हारे बेटे और चोट लगी, और पतरस और बाक्री रसूलों से कहा, “ऐ भाइयों हम तुम्हारी बेटियाँ नुबुवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे क्या करें?” 38 पतरस ने उन से कहा, तौबा करो और तुम में से हर बड़े ख़्वाब देखेंगे। 18 बल्कि मैं अपने बन्दों पर और अपनी बन्दियों एक अपने गुनाहों की मु'आफ़ी के लिए ईसा मसीह के नाम पर पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वह नुबुवत करेंगी। बपतिस्मा ले तो तुम रूह — उल — कुदूस इनाम में पाओगे। 39 19 और मैं ऊपर आस्मान पर 'अजीब काम और नीचे ज़मीन पर इसलिये कि ये वा'दा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगो से भी है; जिनको ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा अपने पास बुलाएगा। 40 उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की, कि अपने आपको इस टेढ़ी क्रौम से बचाओ। 41 पस जिन लोगो ने उसका कलाम कुबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ तीन हज़ार आदमियों के करीब उन में मिल गए। 42 और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफ़ाक़त रखने में, और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशग़ल रहे। 43 और हर शख्स पर ख़ौफ़ छा गया और बहुत से 'अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से ज़ाहिर होते थे। 44 और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे। 45 और अपना माल — ओर अस्बाब बेच बेच कर हर एक की ज़रत के मुवाफ़िक़ सब को बाँट दिया करते थे। 46 और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे, और घरों में रोटी तोड़कर ख़ुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। 47 और ख़ुदा की हम्द करते और सब लोगो को अज़ीज़ थे; और जो नजात पाते थे उनको ख़ुदावन्द हर रोज़ जमाअत में मिला देता था।

3 पतरस और यहून्ना दुआ के वक़्त या'नी दो पहर तीन बजे हैकल को जा रहे थे। 2 और लोग एक पैदाइशी लंगडे को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़े पर बिठा देते थे, जो ख़ुबसूरत कलहाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख माँगे। 3 जब उस ने पतरस और यहून्ना को हैकल जाते देखा तो उन से भीख माँगी। 4 पतरस और यहून्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, “हमारी तरफ़ देखा।” 5 वो उन से कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ। 6 पतरस ने कहा, “चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं! मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ ईसा मसीह नासरी के नाम से चल फिर।” 7 और उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए। 8 और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा; और चलता और कूदता और ख़ुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। 9 और सब लोगो ने उसे चलते फिरते और ख़ुदा की हम्द

करते देख कर। 10 उसको पहचाना, कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठ कर भीख माँगा करता था; और उस माजरे से जो उस पर वक्रे' हुआ था, बहुत दंग और हैरान हुए। 11 जब वो पतरस और यहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत हैरान हो कर उस बरामदह की तरफ जो सुलैमान का कहलाता है; उनके पास दौड़े आए। 12 पतरस ने ये देख कर लोगों से कहा; "ऐ इझ्राईलियों इस पर तुम क्यों ताअ'ज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो; कि गोया हम ने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलाता फिरता कर दिया? 13 अब्रहाम, इज्हाक और याकूब के खुदा या'नी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम ईसा को जलाल दिया, जिसे तुम ने पकड़वा दिया और जब पीलातुस ने उसे छोड़ देने का इरादा किया तो तुम ने उसके सामने उसका इन्कार किया। 14 तुम ने उस कूदूस और रास्तबाज़ का इन्कार किया; और पीलातुस से दरख्वास्त की कि एक खताकार तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। 15 मगर जिन्दगी के मालिक को कतल किया जाए, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया; इसके हम गवाह हैं। 16 उसी के नाम से उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है ये पूरी तरह से तन्दरूस्ती तुम सब के सामने उसे दी। 17 ऐ भाइयों! मैं जानता हूँ कि तुम ने ये काम नादानी से किया; और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी। 18 मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की ज़बानी पहले खबर दी थी, कि उसका मसीह दुःख उठाएगा; वो उसने इसी तरह पूरी की। 19 पस तौबा करो और फिर जाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएँ, और इस तरह खुदावन्द के हुज़ूर से ताज़गी के दिन आएँ। 20 और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, या'नी ईसा को भेजे। 21 ज़रूरी है कि वो असमान में उस वक़्त तक रहे; जब तक कि वो सब चीज़ें बहाल न की जाएँ, जिनका ज़िक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़बानी किया है; जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। (aiōn g165) 22 चुनौचे मूसा ने कहा, कि खुदावन्द खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा जो कुछ वो तुम से कहे उसकी सुनना। 23 और यँ होगा कि जो शख्स उस नबी की न सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त — ओ — नाबूद कर दिया जाएगा। 24 बल्कि समुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। 25 तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो, जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बाँधा, जब इब्राहीम से कहा, कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बर्कत पाएँगे। 26 खुदा ने अपने खादिम को उठा कर पहले तुम्हारे पास भेजा; ताकि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से हटाकर उसे बर्कत दे।"

4 जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का मालिक और सदूकी उन पर चढ़ आए। 2 वो गमगीन हुए क्योंकि यह लोगों को ता'लीम देते और ईसा की मिसाल देकर मुर्दों के जी उठने का ऐलान करते थे। 3 और उन्होंने उन को पकड़ कर दुसरे दिन तक हवालात में रखवा; क्योंकि शाम हो गई थी। 4 मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुत से ईमान लाए; यहाँ तक कि मर्दों की ता'दाद पाँच हजार के करीब हो गई। 5 दुसरे दिन यँ हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और आलिम। 6 और सरदार काहिन हन्ना और काइफ़ा, यहन्ना, और इस्कन्दर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे, येरूशलेम में जमा हुए। 7 और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? 8 उस वक़्त पतरस ने रूह — उल — कुददूस से भरपूर होकर उन से कहा। 9 ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों; अगर आज हम से उस एहसान के बारे में पूछ — ताछ की जाती है, जो एक कमज़ोर आदमी पर हुआ; कि वो क्योंकि अच्छा हो गया? 10 तो तुम सब और इझ्राईल की सारी उम्मत को मा'लूम हो कि ईसा मसीह नासरी जिसको तुम ने मस्तूब किया, उसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तन्दरूस्त खड़ा है। 11 ये वही पत्थर है जिसे तुमने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 12 और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख़्शा गया, जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। 13 जब उन्होंने पतरस और यहन्ना की हिम्मत देखी, और मा'लूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ता'अज्जुब किया; फिर उन्हें पहचाना कि ये ईसा के साथ रहे हैं। 14 और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके। 15 मगर उन्हें सद्दे — ए — अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे। 16 "कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें? क्योंकि येरूशलेम के सब रहने वालों पर यह रोशन है। कि उन से एक खुला मोजिज़ा जाहिर हुआ और हम इस का इन्कार नहीं कर सकते। 17 लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज़्यादा मशहूर न हो, हम उन्हें धमकाएँ कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात न करें।" 18 पस उन्हें बुला कर ताकीद की कि ईसा का नाम लेकर हरगिज़ बात न करना और न तालीम देना। 19 मगर पतरस और यहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, कि तुम ही इन्साफ करो, आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुनें? 20 क्योंकि मुम्किन नहीं कि जो हम ने देखा और सुना है वो न कर्हें। 21 उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया; क्योंकि लोगों कि वजह से उनको सज़ा देने का कोई मौक़ा; न मिला इसलिए कि सब लोग उस माजरे कि वजह से खुदा की बड़ाई करते थे। 22 क्योंकि वो शख्स जिस पर ये

शिफा देने का मोजिजा हुआ था, चालीस बरस से ज्यादा का था। 23 वो छूटकर अपने लोगों के पास गए, और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उन से कहा था बयान किया। 24 जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलन्द आवाज से खुदा से गुजारिश की, 'ऐ मालिक तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समुन्दर और जो कुछ उन में है पैदा किया। 25 तूने रूह — उल — कुदूस के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की ज़बानी फरमाया कि, क्रौमों ने क्यूँ धूम मचाई? और उम्मतों ने क्यूँ बातिल खयाल किए? 26 खुदावन्द और उसके मसीह की मुखालिफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए, और सरदार जमा हो गए।' 27 क्यूँकि वाकई तैरे खुदावन्द और उसके मसीह की मुखालिफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए, और सरदार जमा हो गए।' 27 क्यूँकि वाकई तैरे पाक खादिम ईसा के बखिलाफ जिसे तूने महसूस किया। हेरोदेस, और पुनित्युस पीलातुस, गैर क्रौमों और इझ्राईलियों के साथ इस शहर में जमा हुए। 28 ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलेहत से ठहर गया था, वही 'अमल में लाएँ। 29 अब, ऐ खुदावन्द "उनकी धमकियों को देख, और अपने बन्दों को ये तोफ़ीक़ दे, कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी से सुनाएँ। 30 और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तैरे पाक खादिम ईसा के नाम से मोजिजे और अजीब काम ज़हर में आएँ।" 31 जब वो दुआ कर चुके, तो जिस मकान में जमा थे, वो हिल गया और वो सब रूह — उल — कुदूस से भर गए, और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। 32 और ईमानदारों की जमा'अत एक दिल और एक जान थी; और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुशतरका थीं। 33 और रसूल बडी कुदरत से खुदावन्द ईसा के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फज़ल था। 34 क्यूँकि उन में कोई भी मुहाताज न था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों और घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीज़ों की क्रीमत लाते। 35 और रसूलों के पाँव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुवाफ़िक़ बाँट दिया जाता था। 36 और यूसुफ़ नाम एक लावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास: यानी नसीहत का बेटा रखवा था, और जिसकी पैदाइश कुद्रुस टापू की थी। 37 उसका एक खेत था, जिसको उसने बेचा और क्रीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी।

**5** और एक शख्स हननियाह नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची। 2 और उसने अपनी बीवी के जानते हुए क्रीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। 3 मगर पतरस ने कहा, ऐ हननियाह! क्यूँ शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी, कि तू रूह — उल — कुदूस से झूठ बोले और ज़मीन की क्रीमत में से कुछ रख छोड़े। 4 क्या जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी न थी? और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही, तूने क्यूँ अपने दिल में इस बात का खयाल बाँधा? तू आदमियों

से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। 5 ये बातें सुनते ही हननियाह गिर पड़ा, और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ़ छा गया। 6 कुछ जवानों ने उठ कर उसे कफ़नाया और बाहर ले जाकर दफ़न किया। 7 तकरीबन तीन घंटे गुज़र जाने के बाद उसकी बीवी इस हालात से बेख़बर अन्दर आई। 8 पतरस ने उस से कहा, मुझे बता; क्या तुम ने इतने ही की ज़मीन बेची थी? उसने कहा हौं इतने ही की। 9 पतरस ने उससे कहा, "तुम ने क्यूँ खुदावन्द की रूह को आजमाने के लिए ये क्या किया? देख तैरे शौहर को दफ़न करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं, और तूझे भी बाहर ले जाएँगे।" 10 वो उसी वक़्त उसके क़दमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अन्दर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफ़न कर दिया। 11 और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुननेवालों पर बड़ा खौफ़ छा गया। 12 और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलैमान के बरामदेह में जमा हुआ करते थे। 13 लेकिन बे ईमानों में से किसी को हिम्मत न हुई, कि उन में जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। 14 और ईमान लाने वाले मर्द — ओ — औरत खुदावन्द की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। 15 यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चार पाइयों और खटोलो पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उन में से किसी पर पड़ जाए। 16 और येरुशलैम के चारों तरफ़ के कस्बों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुवों को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। 17 फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरक़े के थे, हसद के मारे उठे। 18 और रसूलों को पकड़ कर हालातात में रख दिया। 19 मगर खुदावन्द के एक फ़रिश्ते ने रात को कैदखाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि। 20 "जाओ, हैकल में खड़े होकर इस ज़िन्दगी की सब बातें लोगों को सुनाओ।" 21 वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए, और ता'लीम देने लगे; मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सद्दे — ऐ — अदालत वालों और बनी इझ्राईल के सब बुजुर्गों को जमा किया, और कैद खाने में कहला भेजा उन्हें लाएँ। 22 लेकिन सिपाहियों ने पहुँच कर उन्हें कैद खाने में न पाया, और लौट कर खबर दी 23 "हम ने कैद खाने को तो बडी हिफाज़त से बन्द किया हुआ, और पहरेदारों को दरवाज़ों पर खड़े पाया; मगर जब खोला तो अन्दर कोई न मिला!" 24 जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए, कि इसका क्या अंजाम होगा? 25 इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुम ने कैद किया था; हैकल में खड़े लोगों को ता'लीम दे रहे हैं। 26 तब

सरदार सिपाहियों के साथ जाकर उन्हें ले आया; लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे, कि हम पर पथराव न करें। 27 फिर उन्हें लाकर 'अदालत में खड़ा कर दिया, और सरदार काहिन ने उन से ये कहा। 28 "हम ने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी, कि ये नाम लेकर ता'लीम न देना; मगर देखो तुम ने तमाम येरूशलेम में अपनी ता'लीम फैला दी, और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो।" 29 पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, कि; "हमें आदमियों के हुक्म की निस्वत ख़ुदा का हुक्म मानना ज्यादा फ़र्ज़ है। 30 हमारे बाप दादा के ख़ुदा ने ईसा को जिलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। 31 उसी को ख़ुदा ने मालिक और मुन्जी ठहराकर अपने दहने हाथ से सर बलन्द किया, ताकि इम्राईल को तौबा की तौफ़ीक और गुनाहों की मु'आफ़ी बख़्शे। 32 और हम इन बातों के गवाह हैं; रूह — उल — कुदूस भी जिसे ख़ुदा ने उन्हें बख़्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं।" 33 वो ये सुनकर जल गए, और उन्हें कल्ल करना चाहा। 34 मगर गमलीएल नाम एक फ़रीसी ने जो शरा' का मु'अल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था; अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। 35 फिर उस ने कहा, ऐ इम्राईलियो; इन आदमियों के साथ जो कुछ करना चाहते हो होशियारी से करना। 36 क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ने उठ कर दा'वा किया था, कि मैं भी कुछ हूँ; और तकरीबन चार सौ आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे, सब इधर उधर हुए; और मिट गए। 37 इस शख्स के बाद यहदाह गलीली नाम लिखवाने के दिनों में उठा; और उस ने कुछ लोग अपनी तरफ़ कर लिए; वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब इधर उधर हो गए। 38 पस अब मैं तुम से कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और उन से कुछ काम न रखो, कहीं ऐसा न हो कि ख़ुदा से भी लड़ने वाले ठहरो क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ़ से है तो आप बरबाद हो जाएंगे। 39 लेकिन अगर ख़ुदा की तरफ़ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब न कर सकोगे। 40 उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुला उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि ईसा का नाम लेकर बात न करना 41 पस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए; कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। 42 और वो हैकल में और घरों में हर रोज़ ता'लीम देने और इस बात की ख़ुशख़बरी सुनाने से कि ईसा ही मसीह है बाज़ न आए।

**6** उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे; इसलिए कि रोज़ाना ख़बरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में लापरवाही होती थी। 2 और

उन बारह ने शागिर्दों की जमा'अत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम ख़ुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इन्तिज़ाम करें। 3 पस, ऐ भाइयों! अपने में से सात नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों; कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। 4 लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। 5 ये बात सारी जमा'अत को पसन्द आई, पस उन्होंने स्तिफ़नुस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह — उल — कुदूस से भरा हुआ था और फिलिप्पुस, व प्रुखुस, और नीकानोर, और तीमोन, और पर्मिनास और नीकलाउस। को जो नौ मुरीद यहूदी अन्ताकी था, चुन लिया। 6 और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया; उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। 7 और ख़ुदा का कलाम फैलता रहा, और येरूशलेम में शागिर्दों का शमार बहुत ही बढ़ता गया, और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। 8 स्तिफ़नुस फ़ज़ल और क़ुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान ज़ाहिर किया करता था; 9 कि उस इबादतख़ाने से जो लिबिरतीनों का कहलाता है; और कुरेनियों शहर और इस्कन्दरियों क़स्बा और उन में से जो किलकिया और आसिया सूबे के थे, ये कुछ लोग उठ कर स्तिफ़नुस से बहस करने लगे। 10 मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था, मुक्राबिला न कर सके। 11 इस पर उन्होंने कुछ आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया "हम ने इसको मूसा और ख़ुदा के बर — खिलाफ़ कुफ़्र की बातें करते सुना।" 12 फिर वो 'अवाम और बुजुर्गों और आलिमों को उभार कर उस पर चढ़ गए; और पकड़ कर सद्दे — ए — 'अदालत में ले गए। 13 और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा, ये शख्स इस पाक मुकाम और शरी'अत के बरखिलाफ़ बोलने से बाज़ नहीं आता। 14 क्योंकि हम ने उसे ये कहते सुना है; कि वही ईसा नासरी इस मुकाम को बरबाद कर देगा, और उन रस्मों को बदल डालेगा, जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। 15 और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे, उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फ़रिशते के जैसा है।

**7** फिर सरदार काहिन ने कहा, "क्या ये बातें इसी तरह पर हैं?" 2 उस ने कहा, "ऐ भाइयों! और बुजुर्गों, सुनो! ख़ुदा ऐं जुल — जलाल हमारे बुजुर्ग अब्रहाम पर उस वक़्त ज़ाहिर हुआ जब वो हारान शहर में बसने से पहले मसोपोतामिया मुल्क में था।" 3 और उस से कहा कि 'अपने मुल्क और अपने कुन्बे से निकल कर उस मुल्क में चला जा'जिसे मैं तुझे दिखाऊँगा। 4 इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकल कर हारान में जा बसा; और वहाँ से उसके बाप के मरने के बाद ख़ुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया, जिस में तुम अब बसते हो। 5 और उसको कुछ मीरास बल्कि क़दम रखने की भी उस में जगह न दी मगर वा'दा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और

तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूँगा, हालाँकि उसके औलाद न करने की तरगीब दी कि 'ऐ जवानों तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक थी। 6 और खुदा ने ये फरमाया, तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी दूसरे पर जुल्म करते हो?' 27 लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म होगी, वो उसको गुलामी में रखेंगे और चार सौ बरस तक उन से कर रहा था, उसने ये कह कर उसे हटा दिया तुझे किसने हम पर बदसलूकी करेंगे। 7 फिर खुदा ने कहा, जिस कौम की वो गुलामी में हाकिम और काज़ी मुकर्रर किया? 28 क्या तू मुझे भी कत्ल करना रहेगे उसको मैं सज़ा दूँगा; और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह चहता है? जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था। 29 मूसा मेरी इबादत करेंगे। 8 और उसने उससे खतने का 'अहद बाँधा; ये बात सुन कर भाग गया, और मिदियान के मुल्क में परदेसी रहा, और इसी हालत में अब्रहाम से इज्हाक पैदा हुआ, और आठवें दिन और वहाँ उसके दो बेटे पैदा हुए। 30 और जब पूरे चालीस बरस हो उसका खतना किया गया; और इज्हाक से याकूब और याकूब से गए, तो कोह-ए-सीना के वीराने में जलती हुई झाड़ी के शो'ले में उसको एक फरिशता दिखाई दिया। 31 जब मूसा ने उस पर नज़र की तो उस नज़ारे से ताज़्जुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदावन्द की आवाज़ आई कि 32 मैं तेरे बाप दादा का खुदा या'नी बादशाह फिर'औन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिक्मत अब्रहाम इज्हाक और याकूब का खुदा हूँ तब मूसा काँप गया और उसको देखने की हिम्मत न रही। 33 खुदावन्द ने उससे कहा कि बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है, वो पाक दिया। 11 फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा, और जमीन है। 34 मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो बड़ी मुसीबत आई; और हमारे बाप दादा को खाना न मिलता था। मिस्र में है। और उनका आह — व नाला सुना पस उन्हें छुड़ाने उतरा 12 लेकिन याकूब ने ये सुनकर कि, मिस्र में अनाज है; हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा। 13 और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों हूँ, अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा। 35 जिस मूसा का उन्होंने ये कह पर जाहिर हो गया और यूसुफ की कौमियत फिर'औन को मा'लूम हो कर इन्कार किया था, तुझे किसने हाकिम और काज़ी मुकर्रर किया गई। 14 फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुन्बे को जो 'उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर, उस फरिशते पछहतर जाने थी; बुला भेजा। 15 और याकूब मिस्र में गया वहाँ वो के ज़रिए से भेजा जो उस झाड़ी में नज़र आया था। 36 यही शख्स और हमारे बाप दादा मर गए। 16 और वो शहर ऐ सिकम में पहुँचाए उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहर — ए — कुलज़ूम और गए और उस मक्बरे में दफन किए गए जिसको अब्रहाम ने सिकम में वीराने में चालीस बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। 37 स्पष्ट देकर बनी हमरू से मोल लिया था। 17 लेकिन जब उस वादे की ये वही मूसा है, जिसने बनी इस्राईल से कहा, खुदा तुम्हारे भाइयों में मी'आद पुरी होने को थी, जो खुदा ने अब्रहाम से फरमाया था तो से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा। 38 ये वही है, जो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई; और उनका शुमार ज्यादा होता गया। 18 उससे हम कलाम हुआ, और हमारे बाप दादा के साथ था उसी को को न जानता था। 19 उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे जिन्दा कलाम मिला कि हम तक पहुँचा दे। 39 मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाँबरदार होना न चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। 40 और उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे मा'बूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क — ए मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। 41 और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया, और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई, और अपने हाथों के कामों की ख़ुशी मनाई। 42 पस खुदा ने मुँह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें चुनौंके नबियों की किताबों में लिखा है ऐ इस्त्राईल के घराने क्या तुम ने वीराने में चालीस बरस मुझको ज़बीहे देखा। 24 चुनौंके उन में से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की, और मिस्री को मार कर मज्लूम का बदला लिया। 25 और कुर्बानियाँ गुज़रानी? 43 बल्कि तुम मोलक के खेमे और रिरफान उसने तो खयाल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे, कि खुदा मेरे हाथों देवता के तारे को लिए फिरते थे, या'नी उन मूरतों को जिन्हें तुम ने उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो न समझे। 26 फिर दूसरे दिन वो उन में सज्दा करने के लिए बनाया था। पस मैं तुम्हें बाबूल के परे ले जाकर से दो लड़ते हुआँ के पास आ निकला और ये कहकर उन्हें सुलह बसाऊँगा। 44 शहादत का खेमा वीराने में हमारे बाप दादा के पास

था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था, जो नमूना तूने देखा है, उसी के मुवाफिक इसे बना। 45 उसी खेमे को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके ईसा के साथ लाए जिस वक्त उन कौमों की मिलिकियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के ज़माने तक रहा। 46 उस पर खुदा की तरफ से फ़जल हुआ, और उस ने दरखास्त की, कि मैं याक़ूब के खुदा के वास्ते घर तैयार करूँ। 47 मगर सुलैमान ने उस के लिए घर बनाया। 48 लेकिन खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता चुनाँचे नबी कहता है कि 49 खुदावन्द फ़रमाता है, आसमान मेरा तख़्त और ज़मीन मेरे पाँव तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है? 50 क्या ये सब चीज़ें मेरे हाथ से नहीं बनी 51 ऐ गर्दन कशो, दिल और कान के नामख़तूनों, तुम हर वक्त रह — उल — कूदूस की सुखालिफ़त करते हो; जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। 52 नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने ने तो उस रास्तबाज़ के आने की पेश — ख़बरी देनेवालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। 53 तुम ने फ़रिशतों के ज़रिए से शरी'अत तो पाई, पर अमल नहीं किया। 54 जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए, और उस पर दाँत पीसने लगे। 55 मगर उस ने रह — उल — कूदूस से भरपूर होकर आसमान की तरफ़ गौर से नज़र की, और खुदा का जलाल और ईसा को खुदा की दहनी तरफ़ खड़ा देख कर कहा। 56 “देखो मैं आसमान को खुला, और इबने — आदम को खुदा की दहनी तरफ़ खड़ा देखता हूँ” 57 मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बन्द कर लिए, और एक दिल होकर उस पर झपटे। 58 और शहर से बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े साऊल नाम एक जवान के पाँव के पास रख दिए। 59 पस स्तिफ़नुस पर पथराव करते रहे, और वो ये कह कर दुआ करता रहा “ऐ खुदावन्द ईसा मेरी रह को कुबूल कर।” 60 फिर उस ने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा, “ऐ खुदावन्द ये गुनाह इन के ज़िम्मे न लगा।” और ये कह कर सो गया।

**8** और साऊल उस के कत्ल में शामिल था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो येरूशलेम में थी, बड़ा जुल्म बर्पा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के चारों तरफ़ फैल गए। 2 और दीनदार लोग स्तिफ़नुस को दफ़न करने कि लिए ले गए, और उस पर बड़ा मातम किया। 3 और साऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा, कि घर घर घुसकर और ईमानदार मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करता था, 4 जो इधर उधर हो गए थे, वो कलाम की ख़ुशख़बरी देते फिरे। 5 और फिलिप्पुस सब — ए सामरिया में जाकर लोगों में मसीह का ऐलान करने लगा। 6

और जो मोज़िज़े फिलिप्पुस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देख कर बिल — इतफ़ाक़ उसकी बातों पर जी लगाया। 7 क्योंकि बहुत सारे लोगों में से बदरूहें बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्लाकर निकल गईं, और बहुत से मफ़लूज और लंगड़े अच्छे किए गए। 8 और उस शहर में बड़ी ख़ुशी हुई। 9 उस से पहले शामा'ऊन नाम का एक शख्स उस शहर में जादग़री करता था, और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था, कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। 10 और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ़ मुतवज्जह होते और कहते थे, ये शख्स खुदा की वो कुदरत है, जिसे बड़ी कहते हैं। 11 वह इस लिए उस की तरफ़ मुतवज्जह होते थे, कि उस ने बड़ी मुद्दत से अपने जादू की वजह से उनको हैरान कर रखा था, 12 लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और ईसा मसीह के नाम की ख़ुशख़बरी देता था, तो सब लोग चाहे मर्द हो चाहे औरत बपतिस्मा लेने लगे। 13 और शामा'ऊन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा, और निशान और मोज़िज़े देखकर हैरान हुआ। 14 जब रसूलों ने जो येरूशलेम में थे सुना, कि सामरियों ने खुदा का कलाम कुबूल कर लिया है, तो पतरस और यहून्ना को उन के पास भेजा। 15 उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रह — उल — कूदूस पाएँ। 16 क्योंकि वो उस वक्त तक उन में से किसी पर नाज़िल ना हुआ था, उन्होंने सिर्फ़ खुदावन्द ईसा के नाम पर बपतिस्मा लिया था। 17 फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे, और उन्होंने रह — उल — कूदूस पाया। 18 जब शामा'ऊन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रह — उल — कूदूस दिया जाता है, तो उनके पास स्पेए लाकर कहा, 19 “मुझे भी यह इख़्तियार दो, कि जिस पर मैं हाथ रखूँ, वो रह — उल — कूदूस पाए।” 20 पतरस ने उस से कहा, तेरे स्पेए तेरे साथ ख़त्म हो, इस लिए कि तू ने खुदा की बख़्शिश को स्पेएऊँ से हासिल करने का ख़याल किया। 21 तेरा इस काम में न हिस्सा है न बख़रा क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक ख़ालिस नहीं। 22 पस अपनी इस बुराई से तौबा कर और खुदा से दुआ कर शायद तेरे दिल के इस ख़याल की मु'आफी हो। 23 क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित की सी कड़वाहट और नारास्ती के बन्द में गिरफ़्तार है। 24 शमौन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन्द से दुआ करो कि जो बातें तुम ने कही उन में से कोई मुझे पेश ना आए। 25 फिर वो गवाही देकर और खुदावन्द का कलाम सुना कर येरूशलेम को वापस हुए, और सामरियों के बहुत से गाँव में ख़ुशख़बरी देते गए। 26 फिर खुदावन्द के फ़रिशते ने फिलिप्पुस से कहा, उठ कर दक्खिन की तरफ़ उस राह तक जा जो येरूशलेम से गज़्ज़ा शहर को जाती है, और जंगल में है, 27 वो उठ कर रवाना हुआ, तो देखो एक हब्शी खोजा आ रहा था, वो हब्शियों की मलिका कन्दाके का एक वज़ीर और उसके

सारे खजाने का मुख्तार था, और येरूशलेम में इबादत के लिए आया खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे, मगर किसी को देखते न था। 28 वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसा'याह नबी के सहीफे थे। 8 और साऊल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आँखें खोलीं तो वो को पढता हुआ वापस जा रहा था। 29 पाक रूह ने फिलिप्पुस से उसको कुछ दिखाई न दिया, और लोग उसका हाथ पकड़ कर कहा, नज़दीक जाकर उस रथ के साथ होले। 30 पस फिलिप्पुस ने दमिश्क शहर में ले गए। 9 और वो तीन दिन तक न देख सका, उस तरफ दौड़ कर उसे यसा'याह नबी का सहीफा पढते सुना और और न उसने खायाना न पिया। 10 दमिश्क में हननियाह नाम एक कहा, “जो तू पढता है उसे समझता भी है?” 31 ये मुझे से क्यूँ शागिर्द था, उस से खुदावन्द ने रोया में कहा, “ए हननियाह” उस ने कहा, “ए खुदावन्द, मैं हाज़िर हूँ।” 11 खुदावन्द ने उस से कहा, फिलिप्पुस से दरखास्त की कि मेरे साथ आ बैठ। 32 किताब — “उठ, उस गली में जा जो सीधा” कहलाता है। और यहदाह के घर ए — मुकद्दस की जो इबारत वो पढ रहा था, ये थी: “लोग उसे में साऊल नाम तरूसी शहरी को पूछ ले क्यूँकि देख वो दुआ कर रहा भेड़ की तरह जबह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने है। 12 और उस ने हननियाह नाम एक आदमी को अन्दर आते और बाल कतरने वाले के सामने बे — ज़बान होता है।” उसी तरह वो अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर बीना हो।” 13 हननियाह अपना मुँह नहीं खोलता। 33 उसकी पस्तहाली में उसका इन्साफ न ने जावाब दिया कि ऐ खुदावन्द, मैं ने बहुत से लोगों से इस शख्स हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा? क्यूँकि ज़मीन का ज़िक्र सुना है, कि इस ने येरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी पर से उसकी ज़िन्दगी मिटाई जाती है। 34 खोजे ने फिलिप्पुस से कैसी बुराइयाँ की हैं। 14 और यहाँ उसको सरदार काहिनों की तरफ कहा, “मैं तेरी मिन्नत करके पुछता हूँ, कि नबी ये किस के हक से इख्तियार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सब को में कहता है, अपने या किसी दूसरे के हक में?” 35 फिलिप्पुस काँध ले। 15 मगर खुदावन्द ने उस से कहा कि “तू जा, क्यूँकि ये ने अपनी ज़बान खोलकर उसी लिखे हुए से शुरू किया और उसे कौमों, बादशाहों और बनी इसाईल पर मेरा नाम जाहिर करने का ईसा की ख़ुशख़बरी दी। 36 और राह में चलते चलते किसी पानी मेरा चुना हुआ वसीला है। 16 और मैं उसे जता दूँगा कि उसे मेरे नाम की जगह पर पहुँचे; खोजे ने कहा, “देख पानी मौजूद है अब मुझे के खातिर किस कदर दुःख उठाना पड़ेगा” 17 पस हननियाह जाकर बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है?” 37 फिलिप्पुस ने कहा, उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, “ऐ अगर तू दिल ओ — जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता भाई साऊल उस खुदावन्द या'नी ईसा जो तुझ पर उस राह में जिस से है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि ईसा मसीह खुदा तू आया जाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है, कि तू बीनाई पाए, और रूहे पाक से भर जाए।” 18 और फ़ौरन उसकी आँखों से छिल्के से का बेटा है। 38 पस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और गिरे और वो बीना हो गया, और उठ कर बपतिस्मा लिया। 19 फिर फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको कुछ खाकर ताकत पाई, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ बपतिस्मा दिया। 39 जब वो पानी में से निकल कर उपर आए तो रहा, जो दमिश्क में थे। 20 और फ़ौरन इबादतखानों में ईसा का खुदावन्द का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे ऐलान करने लगा, कि वो खुदा का बेटा है। 21 और सब सुनने फिर न देखा, क्यूँकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। वाले हैरान होकर कहने लगे कि “क्या ये वो शख्स नहीं है, जो 40 और फिलिप्पुस अशदूद कस्बा में आ निकला और कैसरिया शहर येरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ में पहुँचने तक सब शहरों में ख़ुशख़बरी सुनाता गया।

**9** और साऊल जो अभी तक खुदावन्द के शागिर्दों को धमकाने भी इस लिए आया था, कि उनको बाँध कर सरदार काहिनों के पास और क़त्ल करने की धुन में था। सरदार काहिन के पास गया। 2 ले जाए?” 22 लेकिन साऊल को और भी ताकत हासिल होती और उस से दमिश्क के इबादतखानों के लिए इस मज्मून के खत गई, और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है दमिश्क मॉंगे कि जिनको वो इस तरीके पर पाए, मर्द चाहे औरत, उनको के रहने वाले यहदियों को हैरत दिलाता रहा। 23 और जब बहुत बाँधकर येरूशलेम में लाए। 3 जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के दिन गुज़र गए, तो यहदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया। 24 मगर उनकी साज़िश साऊल को मालूम हो गई, वो तो उसे मार नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके लिए रात दिन दरवाज़ों पर लगे रहे। 25 लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका कर उतार दिया। 26 उस ने येरूशलेम में पहुँच कर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उस से डरते थे, क्यूँकि उनको यकीन न आता था, कि ये शागिर्द है। 27 मगर बरनबास ने तुझसे कहा जाएगा।” 7 जो आदमी उसके हमराह थे, वो खामोश

उसे अपने साथ रस्सों के पास ले जाकर उन से बयान किया कि इस को गौर से देखा और डर कर कहा खुदाबन्द क्या है? उस ने उस ने इस तरह राह में खुदाबन्द को देखा और उसने इस से बातें की और से कहा, तेरी दु'आएँ और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के उस ने दमिशक में कैसी दिलेरी के साथ ईसा के नाम से एलान किया। हज़ूर पहुँची। 5 अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को जो पतरस 28 पस वो येस्शलेम में उनके साथ जाता रहा। 29 और दिलेरी के कहलाता है, बुलवा ले। 6 वो शमौन दब्बाग के यहाँ मेहमान है, साथ खुदाबन्द के नाम का एलान करता था, और यूनानी माइल जिसका घर समुन्दर के किनारे है। 7 और जब वो फरिश्ता चला यहदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार गया जिस ने उस से बातें की थी, तो उस ने दो नौकरों को और डालने के दर पै थे। 30 और भाइयों को जब ये मा'लूम हुआ, तो उसे उन में से जो उसके पास हाज़िर रहा करते थे, एक दीनदार सिपाही कैसरिया में ले गए, और तरसूस को रवाना कर दिया। 31 पस तमाम को बुलाया। 8 और सब बातें उन से बयान कर के उन्हें याफा में यहदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया भेजा। 9 दूसरे दिन जब वो राह में थे, और शहर के नजदीक पहुँचे और उसकी तरक्की होती गई और वो दाबन्द के खौफ और रूह — तो पतरस दोपहर के करीब छत पर दुआ करने को चढा। 10 और उल — कूदूस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। 32 उसे भूख लगी, और कुछ खाना चहता था, लेकिन जब लोग तैयारी और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के कर रहे थे, तो उस पर बेखुदी छा गई। 11 और उस ने देखा कि पास भी पहुँचा जो लुद्दा में रहते थे। 33 वहाँ ऐनियास नाम एक आस्मान खुल गया और एक चीज़ बड़ी चादर की तरह चारों कोनों मफ्लूज को पाया जो आठ बरस से चारपाई पर पड़ा था। 34 पतरस से लटकती हुई ज़मीन की तरफ उतर रही है। 12 जिसमें ज़मीन के ने उस से कहा, ऐ ऐनियास, ईसा मसीह तुझे शिफा देता है। उठ सब किस्म के चौपाए, कीड़े मकोड़े और हवा के परिन्दे हैं। 13 और आप अपना बिस्तार बिछा। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। 35 तब लुद्दा उसे एक आवाज़ आई कि ऐ पतरस, “उठ जबह कर और खा,” 14 और शास्त्र के सब रहने वाले उसे देखकर खुदाबन्द की तरफ रूज मगर पतरस ने कहा, “ऐ खुदाबन्द हरगिज़ नहीं क्यूँकि मैं ने कभी लाए। 36 और याफा शहर में एक शागिर्द थी, तबीता नाम जिसका कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई।” 15 फिर दूसरी बार उसे तर्जुमा हरनी है, वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती आवाज़ आई, कि “जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम न थी। 37 उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, कह” 16 तीन बार ऐसा ही हुआ, और फ़ौरन वो चीज़ आसमान पर और उसे नहलाकर बालाखाने में रख दिया। 38 और चूँकि लुद्दा उठा ली गई। 17 जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था, कि ये याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने ये सुन कर कि पतरस वहाँ है दो रोया जो मैं ने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुर्नेलियुस ने आदमी भेजे और उस से दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर न भेजा था, शमौन के घर पूछ कर के दरवाज़े पर आ खड़े हुए। 18 कर। 39 पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, जब पहुँचा तो उसे और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है? “यही बालाखाने में ले गए, और सब बेवाएँ रोती हुई उसके पास आ खड़ी मेहमान है।” 19 जब पतरस उस ख़्वाब को सोच रहा था, तो रूह ने हुई और जो कुरते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रह कर बनाए उस से कहा देख तीन आदमी तुझे पूछ रहे हैं। 20 पस, उठ कर नीचे थे, दिखाने लगीं। 40 पतरस ने सब को बाहर कर दिया और घटने जा और बे — खटके उनके साथ हो ले; क्यूँकि मैं ने ही उनको भेजा टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, ऐ है। 21 पतरस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, “देखो जिसको तबीता उठ पस उसने आँखें खोल दीं और पतरस को देखकर उठ तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ तुम किस वजह से आये हो।” 22 उन्होंने बैठी। 41 उस ने हाथ पकड़ कर उसे उठाया और मुकद्दसों और कहा, “कुर्नेलियुस सूबेदार जो रास्तबाज़ और खुदा तरस आदमी बेवाओं को बुला कर उसे ज़िन्दा उनके सुपुर्द किया। 42 ये बात सारे और यहदियों की सारी कौम में नेक नाम है उस ने पाक फरिश्ते से याफा में मशहूर हो गई, और बहुत सारे खुदाबन्द पर ईमान ले आए। हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझ से कलाम सुने।” 23 43 और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमौन नाम दब्बाग के पस उस ने उन्हें अन्दर बुला कर उनकी मेहमानी की, और दूसरे दिन यहाँ रहा। वो उठ कर उनके साथ रवाना हुआ, और याफा में से कुछ भाई उसके साथ हो लिए। 24 वो दूसरे रोज़ कैसरिया में दाखिल हुए, और कुर्नेलियुस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा कर के उनकी राह देख रहा था। 25 जब पतरस अन्दर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुर्नेलियुस ने उसका इस्तक़बाल किया और उसके कदमों में गिर कर सिज्दा किया। 26 लेकिन पतरस ने उसे उठा कर कहा, “खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ।” 27 और उससे बातें करता हुआ

**10** कैसरिया शहर में कुर्नेलियुस नाम एक शरख था। वह सौ फ़ौजियोंका सूबेदार था, जो अतालियानी कहलाती है। 2 वो दीनदार था, और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, और यहदियों को बहुत खैरात देता और हर वक़्त खुदा से दुआ करता था 3 उस ने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, “कुर्नेलियुस!” 4 उसने उस



अन्दर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पा कर। 28 उनसे कहा तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर क़ौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना ना जायज़ है मगर ख़ुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक न कहूँ। 29 इसी लिए जब मैं बुलाया गया तो बे' उज़्र चला आया, पस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? 30 कुर्नेलियस ने कहा "इस वक़्त पूरे चार रोज़ हुए कि मैं अपने घर तीसरे पहर दुआ कर रहा था। और क्या देखता हूँ। कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ।" 31 और कहा कि ऐ'कुर्नेलियस तेरी दुआ सन ली गई और तेरी ख़ैरत की ख़ुदा के हज़ूर याद हुई। 32 पस किसी को याफा में भेज कर शमौन को जो पतरस कहलाता है अपने पास बुला, वो समुन्दर के किनारे शमौन दब्बाग़ के घर में मेहमान है। 33 पस उसी दम में ने तैरे पास आदमी भेजे और तूने ख़ूब किया जो आ गया, अब हम सब ख़ुदा के हज़ूर हाज़िर हैं ताकि जो कुछ ख़ुदावन्द ने फ़रमाया है उसे सुनें। 34 पतरस ने ज़बान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यक़ीन हो गया कि ख़ुदा किसी का तरफ़दार नहीं। 35 बल्कि हर क़ौम में जो उस से डरता और रास्तबाज़ी करता है, वो उसको पसन्द आता है। 36 जो कलाम उस ने बनी इज़्राईल के पास भेजा, जब कि ईसा मसीह के ज़रिए जो सब का ख़ुदा है, सुलह की ख़ुशख़बरी दी। 37 इस बात को तुम जानते हो जो यहून्ना के बपतिस्मे की मनादी के बाद गलीली से शुरू होकर तमाम यहूदिया सूबा में मशहूर हो गई। 38 कि ख़ुदा ने ईसा नासरी को रूह — उल — कुदूस और कुदरत से किस तरह मसह किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि ख़ुदा उसके साथ था। 39 और हम उन सब कामों के गवाह हैं, जो उस ने यहूदियों के मुल्क और येरूशलेम में किए, और उन्होंने ने उस को सलीब पर लटकवा कर मार डाला। 40 उस को ख़ुदा ने तीसरे दिन ज़िलाया और ज़ाहिर भी कर दिया। 41 न कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से ख़ुदा के चुने हुए थे, या'नी हम पर जिन्होंने ने उसके मुर्दों में से जी उठने कि बाद उसके साथ खाया पिया। 42 और उस ने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में ऐलान करो और गवाही दो कि ये वही है जो ख़ुदा की तरफ से ज़िन्दों और मुर्दों का मुन्सिफ मुक़र्रर किया गया। 43 इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं, कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उस के नाम से गुनाहों की मु'आफ़ी हासिल करेगा। 44 पतरस ये बातें कह ही रहा था, कि रूह — उल — कुदूस उन सब पर नाज़िल हुआ, जो कलाम सन रहे थे। 45 और पतरस के साथ जितने मख़्लून् ईमानदार आए थे, वो सब हैरान हुए कि गैर क़ौमों पर भी रूह — उल — कुदूस की बख़्शिश जारी हुई। 46 क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बाने बोलते और ख़ुदा की तारीफ करते सुना; पतरस ने जवाब दिया। 47 "क्या कोई पानी

से रोक सकता है, कि बपतिस्मा न पाऊँ, जिन्होंने ने हमारी तरह रूह — उल — कुदूस पाया?" 48 और उस ने हुक्म दिया कि उन्हें ईसा मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए इस पर उन्होंने ने उस से दरखास्त की कि चन्द रोज़ हमारे पास रह।

**11** रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे, सुना कि गैर क़ौमों ने भी ख़ुदा का कलाम कुबूल किया है। 2 जब पतरस येरूशलेम में आया तो मख़्लून् ईमानदार उस से ये बहस करने लगे 3 "तू, ना मख़्लून् ईमानदारों के पास गया और उन के साथ खाना खाया।" 4 पतरस ने शुरू से वो काम तरतीबवार उन से बयान किया कि। 5 मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था, और बेखुदी की हालत में एक ख़्वाब देखा। कि कोई चीज़ बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतर कर मुझ तक आई। 6 उस पर जब मैंने गौर से नज़र की तो ज़मीन के चौपाए और जंगली जानवर और क्रीड़े मकोड़े और हवा के परिन्दे देखे। 7 और ये आवाज़ भी सुनी कि "ऐ पतरस उठ ज़बह कर और खा!" 8 लेकिन मैं ने कहा "ऐ ख़ुदावन्द हरगिज़ नहीं 'क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज़ खाया ही नहीं।" 9 इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज़ आई, "जिनको ख़ुदा ने पाक ठहराया है; तू उन्हें हराम न कह।" 10 तीन बार ऐसा ही हुआ, फिर वो सब चीज़ें आसमान की तरफ़ खींच ली गई। 11 और देखो' उसी वक़्त तीन आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर के पास आ खड़े हुए जिस में हम थे। 12 रूह ने मुझ से कहा कि तू बिला इम्टियाज़ उनके साथ चला जा और ये छे: भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। 13 उस ने हम से बयान किया कि मैंने फ़रिश्ते को अपने घर में खड़े हुए देखा'जिसने मुझ से कहा, याफा में आदमी भेजकर शमौन को बुलवा ले जो पतरस कहलाता है। 14 वो तुझ से ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। 15 जब मैं कलाम करने लगा तो रूह — उल — कुदूस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था। 16 और मुझे ख़ुदावन्द की वो बात याद आई, जो उसने कही थी "यहून्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह — उल — कुदूस से बपतिस्मा पाओगे।" 17 पस जब ख़ुदा ने उस को भी वही ने'मत दी जो हम को ख़ुदावन्द ईसा मसीह पर ईमान लाकर मिली थी? तो मैं कौन था कि ख़ुदा को रोक सकता। 18 वो ये सुनकर चुप रहे और ख़ुदा की बड़ाई करके कहने लगे, "फिर तो बेशक ख़ुदा ने गैर क़ौमों को भी ज़िन्दगी के लिए तौबा की तौफ़ीक दी है।" 19 पस, जो लोग उस मुसीबत से इधर उधर हो गए थे जो स्तिफ़नुस कि ज़रिए पडी थी वो फिरते फिरते फ़ीनिके सूबा और कुप्रुस टापू और आन्ताक्रिया शहर में पहुँचे; मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम न सुनाते थे। 20 लेकिन उन में से चन्द कुप्रुसी और कुरेनी

थे, जो आन्ताक्रिया में आकर यूनानियों को भी खुदावन्द ईसा मसीह की खूशखबरी की बातें सुनाने लगे। 21 और खुदावन्द का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावन्द की तरफ रूजू हुए। 22 उन लोगों की खबर येरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुँची और उन्होंने ने बरनबास को आन्ताक्रिया तक भेजा। 23 वो पहुँचकर और खुदा का फ़जल देख कर खूश हुआ, और उन सब को नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावन्द से लिपटे रहो। 24 क्योंकि वो नेक मर्द और रूह — उल — कुद्स और ईमान से मा'मूर था, और बहुत से लोग खुदावन्द की कलीसिया में आ मिले। 25 फिर वो साऊल की तलाश में तरसुस को चला गया। 26 और जब वो मिला तो उसे आन्ताक्रिया में लाया और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमा'अत में शामिल होते और बहुत से लोगों को ता'लीम देते रहे और शागिर्द पहले आन्ताक्रिया में ही मसीही कहलाए। 27 उन ही दिनों में चन्द नबी येरूशलेम से आन्ताक्रिया में आए। 28 उन में से एक जिसका नाम अबसुस था खडे होकर रूह की हिदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनियाँ में बड़ा काल पडेगा और क्लोदियुस के अहद में वाके हुआ। 29 पस, शागिर्दों ने तजवीज़ की अपने अपने हैसियत कि मुवाफ़िक़ यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। 30 चुनौचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साऊल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा।

**12** तक्रीबन उसी वक़्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से कुछ पर हाथ डाला। 2 और यहून्ना के भाई या'कूब को तलवार से क़त्ल किया। 3 जब देखा कि ये बात यहूदी अगुवों को पसन्द आई, तो पतरस को भी गिरफ़्तार कर लिया। ये ईद 'ए फ़तीर के दिन थे। 4 और उसको पकड कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरो में रखा इस इरादे से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। 5 पस, कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिलो' जान से खुदा से दुआ कर रही थी। 6 और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बाँधा हुआ दो सिपाहियों के बीच सोता था, और पहले वाले दरवाजे पर कैदखाने की निगहबानी कर रहे थे। 7 कि देखो, खुदावन्द का एक फ़रिश्ता खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उस ने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ! और जंजीर उसके हाथ से खुल पड़ी। 8 फिर फ़रिश्ते ने उस से कहा, “कमर बाँध और अपनी जूती पहन ले।” उस ने ऐसा ही किया, फिर उस ने उस से कहा, “अपना चोगा पहन कर मेरे पीछे हो ले।” 9 वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, और ये न जाना कि जो कुछ फ़रिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाक'ई है बल्कि ये समझा कि ख्वाब देख रहा हूँ। 10 पस, वो पहले और दूसरे हल्के में

से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे, जो शहर की तरफ है। वो आप ही उन के लिए खुल गया, पस वो निकलकर गली के उस किनारे तक गए; और फ़ौरन फ़रिश्ता उस के पास से चला गया। 11 और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन्द ने अपना फ़रिश्ता भेज कर मुझे हेरोदेस के हाथों से छुड़ा लिया, और यहूदी क़ौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। 12 और इस पर गौर कर के उस यहून्ना की माँ मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से आदमी जमा हो कर दुआ कर रहे थे। 13 जब उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो स्दी नाम एक लौंडी आवाज़ सुनने आई। 14 और पतरस की आवाज़ पहचान कर खूशी के मारे फाटक न खोला, बल्कि दौड़कर अन्दर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है! 15 उन्होंने ने उस से कहा, “तू दिवानी है लेकिन वो यक़ीन से कहती रही कि यँ ही है! उन्होंने कहा कि उसका फ़रिश्ता होगा।” 16 मगर पतरस खटखटाता रहा पस, उन्होंने खिड़की खोली और उस को देख कर हैरान हो गए। 17 उस ने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें। और उन से बयान किया कि खुदावन्द ने मुझे इस तरह कैदखाने से निकाला फिर कहा कि या'कूब और भाइयों को इस बात की खबर देना, और खाना होकर दूसरी जगह चला गया। 18 जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए, कि पतरस क्या हुआ। 19 जब हेरोदेस ने उस की तलाश की और न पाया तो पहले वालों की तहकीकात करके उनके क़त्ल का हुक्म दिया; और यहूदिया सूबे को छोड़ कर कैसरीया शहर में जा बसा। 20 और वो सूर और सैदा के लोगों से निहायत नाख़ुश था, पस वो एक दिल हो कर उसके पास आए, और बादशाह के दरबान बलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उन के मुल्क को बादशाह के मुल्क से इन्दाद पहुँचती थी। 21 पस, हेरोदेस एक दिन मुक़र्रर करके और शाहाना पोशाक पहन कर तख़्त — ए, अदालत पर बैठा, और उन से कलाम करने लगा। 22 लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है न इंसान की, “यह खुदावन्द की आवाज़ है, इन्सान की नहीं।” 23 उसी वक़्त खुदा के फ़रिश्ते ने उसे मारा; इसलिए कि उस ने खुदा की बड़ाई नहीं की और वो कीड़े पड कर मर गया। 24 मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। 25 और बरनबास और साऊल अपनी खिदमत पूरी करके और यहून्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर, येरूशलेम से वापस आए।

**13** अन्ताक्रिया में उस कलीसिया के मुता'ल्लिक़ जो वहाँ थी, कई नबी और मु'अल्लिम थे या'नी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और मनाहेम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, और साऊल। 2 जब वो खुदावन्द की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे, तो रूह — उल

— कुदूस ने कहा, “मेरे लिए बरनबास और साऊल को उस काम के वास्ते मखूस कर दो जिसके वास्ते में ने उनको बुलाया है।” 3 तब उन्होंने ने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें ख़सत किया। 4 पस, वो रह — उल — कुदूस के भेजे हुए सिलोकिया को गए, और वहाँ से जहाज़ पर कुदूस को चले। 5 और सलमीस शहर में पहुँचकर यहूदियों के इबादतखानों में ख़ुदा का कलाम सुनाने लगे और यहून्ना उनका खादिम था। 6 जिस के आने से पहले यहून्ना ने इस्राईल की तमाम उम्मत के सामने और उस तमाम टापू में होते हुए पाफ़ुस शहर तक पहुँचे वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बरयिस् नाम का मिला। 7 वो सिरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था जो सहिब — ए — तर्मीज़ आदमी था, इस ने बरनबास और साऊल को बुलाकर ख़ुदा का कलाम सुनना चाहा। 8 मगर इलीमास जादूगर ने (यही उसके नाम का तर्जुमा है), उनकी मुखालिफ़त की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। 9 और साऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है रह — उल — कुदूस से भर कर उस पर गौर से देखा। 10 और कहा ऐ इब्लीस की औलाद तू तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है। क्या दावन्द के सीधे रास्तों को बिगाड़ने से बाज़ न आणा 11 अब देख तूज़ पर ख़ुदावन्द का गज़ब है और तू अन्धा होकर कुछ मुदत तक सूरज को न देखे गा। उसी वक़्त अँधेरा उस पर छा गया, और वो ढूँडता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। 12 तब सूबेदार ये माजरा देखकर और ख़ुदावन्द की तालीम से हैरान हो कर ईमान ले आया। 13 फिर पौलुस और उसके साथी पाफ़ुस शहर से जहाज़ पर रवाना होकर पम्फ़ीलिया मुल्क के पिरगा शहर में आए; और यहून्ना उनसे जुदा होकर येरूशलेम को वापस चला गया। 14 और वो पिरगा शहर से चलकर पिसदिया मुल्क के अन्ताकिया शहर में पहुँचे, और सबत के दिन इबादतखाने में जा बैठे। 15 फिर तौरैत और नबियों की किताब पढ़ने के बाद इबादतखाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा “ऐ भाइयों अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो।” 16 पस, पौलुस ने खडे होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राईलियों और ऐ ख़ुदा से डरनेवाले सुनो! 17 इस उम्मत इस्राईल के ख़ुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सरबलन्द किया और ज़बरदस्त हाथ से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। 18 और कोई चालीस बरस तक वीरानों में उनकी आदतों की बर्दाशत करता रहा, 19 और कनान के मुल्क में सात कौमों को लूट करके तक्कीरिन साठे चार सौ बरस में उनका मुल्क इन की मीरास कर दिया। 20 और इन बातों के बाद शमुएल नबी के ज़माने तक उन में काज़ी मुकर्रर किए। 21 इस के बाद उन्होंने ने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और ख़ुदा ने बिनयामीन के कबीले में से एक शख्स साऊल क्रीस के बेटे को चालीस बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। 22 फिर उसे हटा करके दाऊद को उन का बादशाह बनाया। जिसके बारे में उस ने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुवाफ़िक मिल गया। वही मेरी तमाम मर्ज़ी को पूरा करेगा। 23 इसी की नस्ल में से ख़ुदा ने अपने वादे के मुताबिक इस्राईल के पास एक मुन्जी या'नी ईसा को भेज दिया। 24 जिस के आने से पहले यहून्ना ने इस्राईल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मे का ऐलान किया। 25 और जब यहून्ना अपना दौर पूरा करने को था, तो उस ने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं बल्कि देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है, जिसके पाँव की जूतियों का फ़ीता मैं खेलने के लायक नहीं। 26 ऐ भाइयों! अब्रहाम के बेटे और ऐ ख़ुदा से डरने वालों इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया। 27 क्यूँकि येरूशलेम के रहने वालों और उन के सरदारों ने न उसे पहचाना और न नबियों की बातें समझीं, जो हर सबत को सुनाई जाती हैं। इस लिए उस पर फ़तवा देकर उनको पूरा किया। 28 और अगरचे उस के क़त्ल की कोई वजह न मिली तोभी उन्होंने ने पीलातुस से उसके क़त्ल की दरख्वास्त की। 29 और जो कुछ उसके हक़ में लिखा था, जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर क़ब्र में रखवा। 30 लेकिन ख़ुदा ने उसे मुर्दा में से जिलाया। 31 और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया, जो उसके साथ गलील से येरूशलेम आए थे, उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं। 32 और हम तुमको उस वादे के बारे में जो बाप दादा से किया गया था, ये ख़ुदाख़बरी देते हैं। 33 कि ख़ुदा ने ईसा को जिला कर हमारी औलाद के लिए उसी वादे को पूरा किया ‘चुनोचे दूसरे मज़मूर में लिखा है, कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझ से पैदा हुआ। 34 और उसके इस तरह मुर्दा में से जिलाने के बारे में फिर कभी न मरे और उस ने यूँ कहा, कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची ने‘अमतें तुम्हें दूँगा।’ 35 चुनोचे वो एक और मज़मूर में भी कहा है, कि तू अपने मुक़द्दस के सडने की नौबत पहुँचने न देगा।’ 36 क्यूँकि दाऊद तो अपने वक़्त में ख़ुदा की मर्ज़ी के ताबे‘दार रह कर सो गया, और अपने बाप दादा से जा मिला, और उसके सडने की नौबत पहुँची। 37 मगर जिसको ख़ुदा ने जिलाया उसके सडने की नौबत न पहुँची। 38 पस, ऐ भाइयों! तुम्हें मा'लूम हो कि उसी के वसीले से तुम को गुनाहों की मु'आफ़ी की ख़बर दी जाती है। 39 और मूसा की शरी'अत के ज़रिए जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके ज़रिए बरी होता है। 40 पस, ख़बरदार! ऐसा न हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सच आए। 41 ऐ तहकीर करने वालों, देखो, तअ'ज्ज़ुब करो और मिट जाओ: क्यूँकि मैं तुम्हारे ज़माने में एक काम करता हूँ ऐसा काम कि अगर कोई तुम से बयान करे तो कभी

उसका यक्रीन न करोगे। 42 उनके बाहर जाते वक़्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें सुनाई जाएँ। 43 जब मजलिस ख़त्म हुई तो बहुत से यहूदी और ख़ुदा परस्त नए मुरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, उन्होंने ने उन से कलाम किया और तरगीब दी कि ख़ुदा के फ़ज़ल पर काईम रहो। 44 दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर ख़ुदा का कलाम सुनने को इक़ठा हुआ। 45 मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए, और पौलुस की बातों की मुखातिफ़त करने और कुफ़्र बकने लगे। 46 पौलुस और बरनबास दिलेर होकर कहने लगे, ज़स्र था, कि ख़ुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए; लेकिन चूँकि तुम उसको रद्द करते हो। और अपने आप को हमेशा की जिन्दगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम ग़ैर क़ौमों की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं। (aiōnios g166) 47 क्योंकि ख़ुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि “मैंने तुझ को ग़ैर क़ौमों के लिए नूर मुकर्रर किया 'ताकि तू ज़मीन की इन्तिहा तक नजात का ज़रिया हो।” 48 ग़ैर क़ौम वाले ये सुनकर खुश हुए और ख़ुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिन्दगी के लिए मुकर्रर किए गए थे, इमान ले आए। (aiōnios g166) 49 और उस तमाम इलाके में ख़ुदा का कलाम फैल गया। 50 मगर यहूदियों ने ख़ुदा परस्त और इज्जत दार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमामाद करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। 51 ये अपने पाँव की खाक उनके सामने झाड़ कर इकुनियुम शहर को गए। 52 मगर शागिर्द ख़ुशी और रूह — उल — कुदूस से भरते रहे।

**14** और इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वो साथ साथ यहूदियों के इबादत खाने में गए। और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमा'अत इमान ले आईं। 2 मगर नाफरमान यहूदियों ने ग़ैर क़ौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ़ बदगुमान कर दिया। 3 पस, वो बहुत ज़माने तक वहाँ रहे, और ख़ुदावन्द के भरोसे पर हिम्मत से कलाम करते थे, और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम कराकर, अपने फ़ज़ल के कलाम की गवाही देता था। 4 लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई। कुछ यहूदियों की तरफ़ हो गए। कुछ रसूलों की तरफ़। 5 मगर जब ग़ैर क़ौम वाले और यहूदी उन्हें बे'इज्जत और पथराव करने को अपने सरदारों समेत उन पर चढ़ आए। 6 तो वो इस से वाकिफ़ होकर लुकाउनिया मुल्क के शहरों लुस्तरा और दिरबे और उनके आस — पास में भाग गए। 7 और वहाँ ख़ुशख़बरी सुनाते रहे। 8 और लुस्तरा में एक शख्स बैठा था, जो पाँव से लाचार था। वो पैदाइशी लंगड़ा था, और कर्भी न चला था। 9 वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। और जब इस ने उसकी तरफ़ गौर करके देखा कि उस में शिफा पाने के लायक इमान है। 10 तो बड़ी आवाज़

से कहा कि, “अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो पस, वो उछल कर चलने फिरने लगा।” 11 लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलन्द आवाज़ से कहा “कि आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए हैं 12 और उन्होंने बरनबास को ज़ियूस कहा, और पौलुस को हरमस इसलिए कि ये कलाम करने में सबक़त रखता था। 13 और ज़ियूस कि उस मन्दिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था।” 14 जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे, और पुकार पुकार कर। 15 कहने लगे, लोगो तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारी हम तबी'अत इंसान हैं और तुम्हें ख़ुशख़बरी सुनाते हैं ताकि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके जिन्दा ख़ुदा की तरफ़ फिरो, जिस ने आसमान और ज़मीन और समुन्दर और जो कुछ उन में हैं, पैदा किया। 16 उस ने अगले ज़माने में सब क़ौमों को अपनी अपनी राह पर चलने दिया। 17 तोभी उस ने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। चुनौचे, उस ने महरबानियाँ कीं और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता' किए और तुम्हारे दिलों को ख़ुराक और ख़ुशी से भर दिया। 18 ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उन के लिए कुर्बानी न करें। 19 फिर कुछ यहूदी अन्ताकिया और इकुनियुम से आए और लोगों को अपनी तरफ़ करके पौलुस पर पथराव किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। 20 मगर जब शागिर्द उसके आस पास आ खड़े हुए, तो वो उठ कर शहर में आया, और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे शहर को चला गया। 21 और वो उस शहर में ख़ुशख़बरी सुना कर और बहुत से शागिर्द करके लुस्तरा और इकुनियुम और अन्ताकिया को वापस आए। 22 और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते, और ये नसीहत देते थे, कि इमान पर काईम रहो और कहते थे “ज़स्र है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर ख़ुदा की बादशाही में दाखिल हों।” 23 और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़ा रखकर और दुआ करके उन्हें दावन्द के सुपर्द किया, जिस पर वो इमान लाए थे। 24 और पिसदिया मुल्क में से होते हुए पम्फ़ीलिया मुल्क में पहुँचे। 25 और पिरगे में कलाम सुनाकर अन्तलिया को गए। 26 और वहाँ से जहाज़ पर उस अन्ताकिया में आए, जहाँ उस काम के लिए जो उन्होंने अब पूरा किया ख़ुदा के फ़ज़ल के सुपर्द किए गए थे। 27 वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उन के सामने बयान किया कि ख़ुदा ने हमारे ज़रिए क्या कुछ किया और ये कि उस ने ग़ैर क़ौमों के लिए इमान का दरवाज़ा खोल दिया। 28 और वो इमानदारों के पास मुड़त तक रहे।

**15** फिर कुछ लोग यहूदिया से आ कर भाइयों को यह तालीम जानवरों और लह से परहेज करें। 21 क्योंकि पुराने जमाने से हर देने लगे, “जस्री है कि आप का मूसा की शरी'अत के शहर में मूसा की तौरैत का ऐलान करने वाले होते चले आए हैं: और मुताबिक खतना किया जाए, वर्ना आप नजात नहीं पा सकेंगे।” 2 वो हर सबत को इबादतखानों में सुनाई जाती है। 22 इस पर रसूलों पस, जब पौलुस और बरनबास की उन से बहुत तकरार और बहस और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से हुई तो कलीसिया ने ये ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उन चन्द शख्स चुन कर पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया को में से चन्द शख्स इस मस्ले के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास भेजें, या'नी यहूदाह को जो बरसब्बा कहलाता है। और सीलास को ये रेस्शलेम जाएँ। 3 पस, कलीसिया ने उनको खाना किया और वो ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे। 23 और उनके हाथ ये लिख भेजा गैर क्रौमों को रूज लाने का बयान करते हुए फ्रीनिके और सामरिया कि “अन्ताकिया और सूरिया और किलकिया के रहने वाले भाइयों सबे से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खूश करते गए। 4 जब को जो गैर क्रौमों में से हैं। रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम रेस्शलेम में पहुँचे तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उन से खुशी पहुँचे।” 24 चूँकि हम ने सुना है, कि कुछ ने हम में से जिनको के साथ मिले। और उन्होंने ने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनके हम ने हुक्म न दिया था, वहाँ जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा जरिए किया था। 5 मगर फरीसियों के फिर्के में से जो ईमान लाए दिया। और तुम्हारे दिलों को उलट दिया। 25 इसलिए हम ने एक थे, उन में से कुछ ने उठ कर कहा “कि उनका खतना कराना और दिल होकर मुनासिब जाना कि कुछ चुने हुए आदमियों को अपने उनको मूसा की शरी'अत पर अमल करने का हुक्म देना जस्री है।” अजीजों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। 26 ये 6 पस, रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गैर करने के लिए जमा हुए। 7 दोनों ऐसे आदमी हैं, जिन्होंने अपनी जाने हमारे खुदावन्द ईसा और बहुत बहस के बाद पतरस ने खडे होकर उन से कहा कि ऐ मसीह के नाम पर निसार कर रखी है। 27 चूँकि हम ने यहूदाह भाइयों तुम जानते हो कि बहुत अर्सा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों और सीलास को भेजा है, वो यही बातें ज़बानी भी बयान करेंगे। 28 में से मुझे चुना कि गैर क्रौमों मेरी ज़बान से खुशखबरी का कलाम क्योंकि रूह — उल — कुद्स ने और हम ने मुनासिब जाना कि इन सुनकर ईमान लाएँ। 8 और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनको जस्री बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डालें 29 कि तुम बुतों की भी हमारी तरह रूह — उल — कुद्स दे कर उन की गवाही दी। 9 कुर्बानियों के गोशत से और लह और गला घोंटे हुए जानवरों और और ईमान के वसीले से उन के दिल पाक करके हम में और उन में हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को कुछ फर्क न रखवा। 10 पस, अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा बचाए रखडोगे, तो सलामत रहोगे, वस्सलामत। 30 पस, वो सख्तत जुआ रख कर जिसको न हमारे बाप दादा उठा सकते थे, न हम होकर अन्ताकिया में पहुँचे और जमा'अत को इकट्ठा करके खत दे खुदा को क्यूँ आजमाते हो? 11 हालाँकि हम को यकीन है कि जिस दिया। 31 वो पढ कर उसके तसल्ली बाख्शा मज्मून से खूश हुए। 32 तरह वो खुदावन्द ईसा के फ़जल ही से नजात पाएँगे, उसी तरह और यहूदाह और सीलास ने जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत हम भी पाएँगे। 12 फिर सारी जमा'अत चुप रही और पौलुस और सी नसीहत करके मज़बूत कर दिया। 33 वो चन्द रोज़ रह कर और बरनबास का बयान सुनने लगी, कि खुदा ने उनके जरिए गैर क्रौमों भाइयों से सलामती की दूआ लेकर अपने भेजने वालों के पास में कैसे कैसे निशान और अजीब काम जहिर किए। 13 जब वो सख्तत कर दिए गए। 34 [लेकिन सीलास को वहाँ ठहरना अच्छा खामोश हुए तो या'कूब कहने लगा कि, “ऐ भाइयों मेरी सुनो!” 14 लगा]। 35 मगर पौलुस और बरनबास अन्ताकिया ही में रहे: और शमौन ने बयान किया कि खुदा ने पहले गैर क्रौमों पर किस तरह बहुत से और लोगों के साथ खुदावन्द का कलाम सिखाते और उस तवज्जह की ताकि उन में से अपने नाम की एक उम्मत बना ले। का ऐलान करते रहे। 36 चन्द रोज़ बाद पौलुस ने बरनबास से कहा 15 और नबियों की बातें भी इस के मुताबिक हैं। चुँकि लिखा है “कि जिन जिन शहरों में हम ने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ “कि जिन जिन शहरों में हम ने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उन में चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं।” 37 और बरनबास फिर उन में चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं।” 37 और बरनबास की सलाह थी कि यहून्ना को जो मरकुस कहलाता है। अपने साथ ले चलें। 38 मगर पौलुस ने ये मुनासिब न जाना, कि जो शख्स पम्फीलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ न गया था; उस को हमराह ले चलें। 39 पस, उन में ऐसी सख्त तकरार हुई; कि एक दूसरे से जुदा हो गए। और बरनबास मरकुस को ले कर तरफ रूज होते हैं हम उन्हें तकलीफ न दें। 20 मगर उन को लिख जहाज़ पर कुद्स को खाना हुआ। 40 मगर पौलुस ने सीलास को भेजे कि बुतों की मकसूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए पसन्द किया, और भाइयों की तरफ से खुदावन्द के फ़जल के सुपर्द

हो कर रवाना किया। 41 और कलीसिया को मजबूत करता हुआ सूरिया और किलकिया से गुजरा।

**16** फिर वो दिग्बे और लुस्तरा में भी पहुँचा। तो देखो वहाँ तीमुथियुस नाम का एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। 2 वो लुस्तरा और इकुनियम के भाइयों में नेक नाम था। 3 पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले। पस, उसको लेकर उन यहूदियों की वजह से जो उस इलाके में थे, उसका खतना कर दिया क्योंकि वो सब जानते थे, कि इसका बाप यूनानी है। 4 और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे, वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे, जो येरुशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। 5 पस, कलीसियाएँ ईमान में मजबूत और शुमार में रोज — बा — रोज ज्यादा होती गईं। 6 और वो फ़रोगिया और गलतिया सब्बे के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूह — उल — कुदूस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मनह किया। 7 और उन्होंने मूसिया के करीब पहुँचकर बितूनिया सब्बे में जाने की कोशिश की मगर ईसा की रूह ने उन्हें जाने न दिया। 8 पस, वो मूसिया से गुजर कर त्रोआस शहर में आए। 9 और पौलुस ने रात को ख्वाब में देखा कि एक मकिदुनी आदमी खड़ा हुआ, उस की मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकिदुनिया में आ, और हमारी मदद कर! 10 उस का ख्वाब देखते ही हम ने फ़ौरन मकिदुनिया में जाने का ईरादा किया, क्योंकि हम इस से ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हम को बुलाया है। 11 पस, त्रोआस शहर से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे सुमत्राकि टापू में और दूसरे दिन नियापुलिस शहर में आए। 12 और वहाँ से फिलिप्पी शहर में पहुँचे, जो मकिदुनिया का सब्बा में है और उस क्रिस्तत का सदर और रोमियों की बस्ती है और हम चन्द रोज उस शहर में रहे। 13 और सबत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी और बैठ कर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी, कलाम करने लगे। 14 और थुवार्तीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम की, क्रिमिजी बेचने वाली भी सुनती थी, उसका दिल खुदावन्द ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जुह करे। 15 और जब उस ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो मिन्नत कर के कहा कि “अगर तुम मुझे खुदावन्द की ईमानदार बन्दी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो” पस, उसने हमें मजबूर किया। 16 जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिस में पोशीदा रूहें थी, वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। 17 वो पौलुस के, और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी “कि ये आदमी खुदा के बन्दे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं।” 18 वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त

रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि “मैं तुझे ईसा मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इस में से निकल जा!” वो उसी वक्त निकल गई। 19 जब उस के मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। 20 और उन्हें फ़ौजदारी के हाकिमों के आगे ले जा कर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं। 21 और “ऐसी रस्में बताते हैं, जिनको कुबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को पसन्द नहीं।” 22 और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालिफत पर आमादा हुए, और फ़ौजदारी के हाकिमों ने उन के कपड़े फाड़कर उतार डाले और बेलत लगाने का हुक्म दिया 23 और बहुत से बेलत लगवाकर उन्हें कैद खाने में डाल दिया, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। 24 उस ने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अन्दर के कैद खाने में डाल दिया, और उनके पाँव काठ में ठोक दिए। 25 आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। 26 कि यकायक बड़ा भुन्चाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी वक्त सब दरवाजे खुल गए और सब की बेडियाँ खुल पड़ीं। 27 और दरोगा जाग उठा, और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, पस, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। 28 लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा “अपने को नुक्सान न पहुँचा! क्योंकि हम सब मौजूद हैं।” 29 वो चराग मँगवा कर अन्दर जा कूदा। और काँपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। 30 और उन्हें बाहर ला कर कहा “ऐ साहिबो में क्या करूँ कि नजात पाऊँ?” 31 उन्होंने कहा, खुदावन्द ईसा पर ईमान ला “तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा।” 32 और उन्होंने ने उस को और उस के सब घरवालों को खुदावन्द का कलाम सुनाया। 33 और उस ने रात को उसी वक्त उन्हें ले जा कर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों के साथ बपतिस्मा लिया। 34 और उन्हें ऊपर घर में ले जा कर दस्तरख्वान बिछाया, और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान ला कर बड़ी खुशी की। 35 जब दिन हुआ, तो फ़ौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों के जरिए कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। 36 और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फ़ौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया है “पस अब निकल कर सलामत चले जाओ।” 37 मगर पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हम को जो रोमी हैं कुसर साबित किए बगैर “ऐलानिया पिटवाकर कैद में डाला। और अब हम को चुपके से निकालते हैं? ये नहीं हो सकता; बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएँ।” 38 हवालदारों ने फ़ौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने ने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए। 39 और

आकर उन की मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएँ। 40 पस वो कैद खाने से निकल कर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी। और रवाना हुए।

**17** फिर वो अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीकियों शहर में आए, जहाँ यहूदियों का इबादतखाना था। 2 और पौलुस अपने दस्त्र के मुवाफिक उनके पास गया, और तीन सबतों को किताब — ए — मुकद्दस से उनके साथ बहस की। 3 और उनके मतलब खोल खोलकर दलीलें पेश करता था, कि मसीह को दुःख उठाना और मुर्दों में से जी उठाना जरूर था और ईसा जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। 4 उनमें से कुछ ने मान लिया और पौलुस और सीलास के शरीक हुए और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमा'अत और बहुत सी शरीफ औरतें भी उन की शरीक हुईं। 5 मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगा कर शहर में फ़साद करने लगे। और यासोन का घर घेरकर उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। 6 और जब उन्हें न पाया तो यासोन और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बा'गी कर दिया, यहाँ भी आए हैं। 7 और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालिफ़त करके कहते हैं, कि बादशाह तो और ही है या'नी ईसा, 8 ये सुन कर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए। 9 और उन्होंने ने यासोन और बाकियों की ज़मानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। 10 लेकिन भाइयों ने फ़ौरन रातों रात पौलुस और सीलास को बिरिया कस्बा में भेज दिया, वो वहाँ पहुँचकर यहूदियों के इबादतखाने में गए। 11 ये लोग थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने ने बड़े शौक से कलाम को कुबूल किया और रोज़ — ब — रोज़ किताब ऐ मुकद्दस में तहक़ीक़ करते थे, कि आया ये बातें इस तरह हैं? 12 पस, उन में से बहुत सारे ईमान लाए और यूनानियों में से भी बहुत सी 'इज्जतदार' औरतें और मर्द ईमान लाए। 13 जब थिस्सलुनीकियों के यहूदियों को मा'लूम हुआ कि पौलुस बिरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहाँ भी जाकर लोगों को उभारा और उन में खलबली डाली। 14 उस वक़्त भाइयों ने फ़ौरन पौलुस को रवाना किया कि समुन्दर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे। 15 और पौलुस के रहबर उसे अथेने तक ले गए। और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए। कि जहाँ तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। 16 जब पौलुस अथेने में उन की राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देख कर उस का जी जल गया। 17 इस लिए वो इबादतखाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे, उन से रोज़ बहस किया करता

था। 18 और चन्द इपकूरी और स्तोइकी फैलसूफ़ उसका मुक़ाबिला करने लगे कुछ ने कहा, ये बकवासी क्या कहना चाहता है? औरों ने कहा ये ग़ैर मा'बूदों की खबर देने वाला मा'लूम होता है इस लिए कि वो ईसा और क़यामत की खुशख़बरी देता है। 19 पस, वो उसे अपने साथ अरियुपगुस जगह पर ले गए और कहा, आया हमको मा'लूम हो सकता है। कि ये नई ता'लीम जो तू देता है, क्या है? 20 क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है पस, हम जानना चाहते हैं। कि इन से गरज़ क्या है, 21 (इस लिए कि सब अथेनेवी और परदेसी जो वहाँ मुक़ीम थे, अपनी फ़ुरसत का वक़्त नई नई बातें करने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ़ न करते थे) 22 पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े हो कर कहा। ऐ अथेने वालो, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। 23 चुनौचे मैंने सैर करते और तुम्हारे मा'बूदों पर ग़ौर करते वक़्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई, जिस पर लिखा था, ना मा'लूम खुदा के लिए पस, जिसको तुम बग़ैर मा'लूम किए पूजते हो, मैं तुम को उसी की खबर देता हूँ। 24 जिस खुदा ने दुनिया और उस की सब चीज़ों को पैदा किया वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मक़दिस में नहीं रहता। 25 न किसी चीज़ का मुहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है। क्योंकि वो तो खुद सबको जिन्दगी और साँस और सब कुछ देता है। 26 और उस ने एक ही नस्ल से आदमियों की हर एक क़ौम तमाम रूप ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उन की 'तहदाद और रहने की हदे मुक़र्रर की। 27 ताकि खुदा को ढूँढ़ें, शायद कि टटोलकर उसे पाएँ, हर वक़्त वो हम में से किसी से दूर नहीं। 28 क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा कि तुम्हारे शा'यरो में से भी कुछ ने कहा है। हम तो उस की नस्ल भी हैं। 29 पस, खुदा की नस्ल होकर हम को ये खयाल करना मुनासिब नहीं कि जात — ए — इलाही उस सोने या स्पेए या पत्थर की तरह है जो आदमियों के हुनर और इजाद से गढे गए हों। 30 पस, खुदा जिहालत के वक़्तों से चरम पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है। कि तौबा करें। 31 क्योंकि उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी के जरिए करेगा, जिसे उस ने मुक़र्रर किया है और उसे मुर्दों में से जिला कर ये बात सब पर साबित कर दी है। 32 जब उन्होंने ने मुर्दों की क़यामत का ज़िक्र सुना तो कुछ ठट्ठा मारने लगे, और कुछ ने कहा कि ये बात हम तुज़ से फिर कभी सुनेंगे। 33 इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया 34 मगर कुछ आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए, उन में दियुनसियुस, अरियुपगुस, का एक हाकिम और दमरिस नाम की एक औरत थी, और कुछ और भी उन के साथ थे।

**18** इन बातों के बाद पौलुस अथेने से रवाना हो कर कुरिन्थुस हमारे साथ रह तो उस ने मंजूर न किया। 21 बल्कि ये कह कर उन शहर में आया। 2 और वहाँ उसको अक्विला नाम का एक से सख्त हुआ अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा और यहूदी मिला जो पुन्तुस शहर की पैदाइश था, और अपनी बीवी इफ्रिसुस से जहाज़ पर रवाना हुआ। 22 फिर कैसरिया में उतर कर प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया नया आया था; क्योंकि क्लोदियुस येरूशलेम को गया, और कलीसिया को सलाम करके अन्ताकिया में ने हुक्म दिया था, कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएँ। पस, वो आया। 23 और चन्द रोज़ रह कर वहाँ से रवाना हुआ, और तरतीब उसके पास गया। 3 और चूँकि उनका हम पेशा था, उन के साथ रहा वार गलतिया सूबे के इलाके और फ़ूगिया सूबे से गुज़रता हुआ सब और वो काम करने लगे; और उन का पेशा खेमा दोजी था। 4 और शागिर्दों को मजबूत करता गया। 24 फिर अपुल्लोस नाम के एक वो हर सबत को इबादतखाने में बहस करता और यहूदियों और यहूदी इसकन्दरिया शहर की पैदाइश खुशतकररीर किताब — ए — यूनानियों को तैयार करता था। 5 और जब सीलास और तीमुथियुस मुकद्दस का माहिर इफ्रिसुस में पहुँचा। 25 इस शख्स ने खुदावन्द की मकिदुनिया से आए, तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर हो राह की ता'लीम पाई थी, और रूहानी जोश से कलाम करता और कर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि ईसा ही मसीह है। 6 जब ईसा की वजह से सहीह सहीह ता'लीम देता था। मगर सिर्फ़ यहून्ना लोग मुखालिफ़त करने और कुफ़्र बकने लगे, तो उस ने अपने कपड़े के बपतिस्मे से वाकिफ़ था। 26 वो इबादतखाने में दिलेरी से बोलने झाड़ कर उन से कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर मैं पाक हूँ, अब लगा, मगर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे से गैर कौमों के पास जाऊँगा। 7 पस, वहाँ से चला गया, और तितुस अपने घर ले गए। और उसको खुदा की राह और अच्छी तरह से यस्तुस नाम के एक खुदा परस्त के घर चला गया, जो इबादतखाने से बताई। 27 जब उस ने इरादा किया कि पार उतर कर अखिया को मिला हुआ था। 8 और इबादतखाने का सरदार क्रिसपुस अपने तमाम जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि घराने समेत खुदावन्द पर ईमान लाया; और बहुत से कुरिन्थी सुनकर उससे अच्छी तरह मिलना। उस ने वहाँ पहुँचकर उन लोगों की बड़ी ईमान लाए, और बपतिस्मा लिया। 9 और खुदावन्द ने रात को मदद की जो फ़ज़ल की वजह से ईमान लाए थे। 28 क्योंकि वो रोया में पौलुस से कहा, “ख़ौफ़ न कर, बल्कि कहे जा और चुप किताब — ए — मुकद्दस से ईसा का मसीह होना साबित करके बड़े न रह। 10 इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई शख्स तुझ पर जोर शोर से यहूदियों को ऐलानिया कायल करता रहा।

**19** और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के पहाड़ी मुल्कों से गुज़र कर इफ्रिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर। 2 उन से कहा “क्या तुमने ईमान लाते वक़्त रूह — उल — कुद्दस पाया?” उन्होंने ने उस से कहा “कि हम ने तो सुना नहीं। कि रूह — उल — कुद्दस नाज़िल हुआ है।” 3 उस ने कहा “तुम ने किस का बपतिस्मा लिया?” उन्होंने ने कहा “यहून्ना का बपतिस्मा।” 4 पौलुस ने कहा, यहून्ना ने लोगों को ये कह कर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर या'नी ईसा पर ईमान लाना। 5 उन्होंने ने ये सुनकर खुदावन्द ईसा के नाम का बपतिस्मा लिया। 6 जब पौलुस ने अपने हाथ उन पर रखे तो रूह — उल — कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, और वह तरह तरह की ज़बाने बोलने और नबूवत करने लगे। 7 और वो सब तकरीबन बारह आदमी थे। 8 फिर वो इबादतखाने में जाकर तीन महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही के बारे में बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। 9 लेकिन जब कुछ सख्त दिल और नाफ़रमान हो गए। बल्कि लोगों के सामने इस तरीके को बुरा कहने लगे, तो उस ने उन से किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया, और हर रोज़ तुरन्नुस के मद्रसे में बहस किया करता था। 10 दो बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने खुदावन्द का कलाम सुना। 11



और खुदा पौलस के हाथों से ख़ास ख़ास मोज़िजे दिखाता था। 12 यहाँ तक कि स्माल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे, और उन की बीमारियाँ जाती रहती थी, और बदर्हें उन में से निकल जाती थी। 13 मगर कुछ यहूदियों ने जो झाड़ फूँक करते फिरते थे। ये इच्छियार किया कि जिन में बदर्हें हों “उन पर खुदावन्द ईसा का नाम ये कह कर फूँके। कि जिस ईसा की पौलस ऐलान करता है, मैं तुम को उसकी कसम देता हूँ” 14 और सिकवा, यहूदी सरदार काहिन, के सात बेटे ऐसा किया करते थे। 15 बदर्ह ने जवाब में उन से कहा, ईसा को तो मैं जानती हूँ, और पौलस से भी वाकिफ़ हूँ “मगर तुम कौन हो?” 16 और वो शख्स जिस में बदर्ह थी, कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज़्यादती की कि वो नंगे और ज़ख्मी होकर उस घर से निकल भागे। 17 और ये बात इफ़िसुस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को माँलूम हो गई। पस, सब पर ख़ौफ़ छा गया, और खुदावन्द ईसा के नाम की बड़ाई हुई। 18 और जो ईमान लाए थे, उन में से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इज़हार किया। 19 और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, जब उन की क्रीमत का हिसाब हुआ तो पचास हजार स्पेए की निकली। 20 इसी तरह खुदा का कलाम जोर पकड़ कर फैलता और गालिब होता गया। 21 जब ये हो चुका तो पौलस ने पाक रूह में हिम्मत पाई कि मकिदुनिया और अखिया से हो कर येरूशलेम को जाऊँगा। और कहा, “वहाँ जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना ज़रूर है।” 22 पस, अपने खिदमतगुजारों में से दो शख्स या'नी तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ अर्सा, आसिया में रहा। 23 उन वक्त इस तरीके की वजह से बड़ा फ़साद हुआ। 24 क्योंकि देमेत्रियुस नाम एक सुनार था, जो अरतमिस कि स्पहले मन्दिर बनवा कर उस पेशेवालों को बहुत काम दिलवा देता था। 25 उस ने उन को और उनके मुता'ल्लिक और पेशेवालों को जमा कर के कहा, ऐ लोगों! तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदैलत है। 26 तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ़ इफ़िसुस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलस ने बहुत से लोगों को ये कह कर समझा बुझा कर और गुमराह कर दिया है, कि हाथ के बनाए हुए हैं, खुदा “नहीं है। 27 पस, सिर्फ़ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेक़द्र हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अरतमिस का मन्दिर भी नाचीज़ हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, ख़ुद उसकी अज़मत भी जाती रहेगी।” 28 वो ये सुन कर क्रहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, कि इफ़िसियों की अरतमिस बड़ी है! 29 और तमाम शहर में हलचल पड़ गई, और लोगों ने गयुस और अरिस्तरख़ुस मकिदुनिया वालों को जो पौलस के हम — सफ़र थे, पकड़ लिया

और एक दिल हो कर तमाशा गाह को दौड़े। 30 जब पौलस ने मज्मे में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने न दिया। 31 और आसिया के हाकिमों में से उस के कुछ दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशा गाह में जाने की हिम्मत न करना। 32 और कुछ चिल्लाए और मजलिस दरहम बरहम हो गई थी, और अक्सर लोगों को ये भी खबर न थी, कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। 33 फिर उन्होंने ने इस्कन्दर को जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकाल कर आगे कर दिया, और इस्कन्दर ने हाथ से इशारा करके मज्मे कि सामने उज़्र बयान करना चाहा। 34 जब उन्हें माँलूम हुआ कि ये यहूदी है, तो सब हम आवाज़ होकर कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे “कि इफ़िसियों की अरतमिस बड़ी है!” 35 फिर शहर के मुहरिर ने लोगों को ठन्डा करके कहा, ऐ इफ़िसियो! कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ़िसियों का शहर बड़ी देवी अरतमिस के मन्दिर और उस मूरत का मुहाफ़िज़ है, जो ज़्यूस की तरफ से गिरी थी। 36 पस, जब कोई इन बातों के खिलाफ़ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो, और बे सोचे कुछ न करो। 37 क्योंकि ये लोग जिन को तुम यहाँ लाए हो न मन्दिर को लूटने वाले हैं, न हमारी देवी की बदगोई करनेवाले। 38 पस, अगर देमेत्रियुस और उसके हम पेशा किसी पर दा'वा रखते हों तो अदालत खुली है, और सुबेदार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। 39 और अगर तुम किसी और काम की तहक़ीकात चाहते हो तो बाज़ान्ता मजलिस में फ़ैसला होगा। 40 क्योंकि आज के बवाल की वजह से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अन्देशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है, और इस सूत में हम इस हँगामे की जवाबदेही न कर सकेंगे। 41 ये कह कर उसने मजलिस को बरखास्त किया।

**20** जब बवाल कम हो गया तो पौलस ने ईमानदारों को बुलवा कर नसीहत की, और उन से स़ख़्त हो कर मकिदुनिया को रवाना हुआ। 2 और उस इलाके से गुज़र कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। 3 जब तीन महीने रह कर स्रिया की तरफ़ जहाज़ पर रवाना होने को था, तो यहूदियों ने उस के बरखिलाफ़ साज़िश की, फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकिदुनिया होकर वापस जाए। 4 और पुस का बेटा सोपानुस जो बिरिया कसबे का था, और थिस्सलुनिकियों में से अरिस्तरख़ुस और सिकन्दुस और गयुस जो दिरबे शहर का था, और तीमुथियुस और आसिया का तुख़िकुस और नूफ़िमस आसिया तक उसके साथ गए। 5 ये आगे जा कर त्रोआस में हमारी राह देखते रहे। 6 और ईद — ऐ — फ़तीर के दिनों के बाद हम फ़िलिप्पी से जहाज़ पर रवाना होकर पाँच दिन के बाद त्रोआस में उन के पास पहुँचे और सात दिन वहीं रहे। 7 सबत की शाम जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पौलस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उन से बातें की और आधी रात तक कलाम करता

रहा। 8 जिस बालाखाने पर हम जमा थे, उस में बहुत से चराग जल रहे थे। 9 और यूतुबुस नाम एक जवान खिडकी में बैठा था, उस पर नींद का बड़ा गल्बा था, और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गल्बे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा, और उठाया गया तो मुर्दा था। 10 पौलुस उतर कर उस से लिपट गया, और गले लगा कर कहा, घबराओ नहीं इस में जान है। 11 फिर ऊपर जा कर रोटी तोड़ी और खा कर इतनी देर तक बातें करता रहा कि सुबह हो गई, फिर वो खाना हो गया। 12 और वो उस लड़के को जिंदा लाए और उनको बड़ा इत्मीनान हुआ। 13 हम जहाज़ तक आगे जाकर इस इरादा से अस्सुस शहर को खाना हुए कि वहाँ पहुँच कर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उस ने पैदल जाने का इरादा करके यही तज्वीज की थी। 14 पस, जब वो अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ा कर मितुलेने शहर में आए। 15 वहाँ से जहाज़ पर खाना होकर दूसरे दिन खियुस टापू के सामने पहुँचे और तीसरे दिन सामुस टापू तक आए और अगले दिन मिलेतुस शहर में आ गए। 16 क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था, कि इफ्रिसुस के पास से गुजरे, ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे; इसलिए कि वो जल्दी करता था, कि अगर हो सके तो पिन्तेकुस्त के दिन येरूशलेम में हो। 17 और उस ने मिलेतुस से इफ्रिसुस में कहला भेजा, और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। 18 जब वो उस के पास आए तो उन से कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखना हर वक़्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा। 19 यांनी कमाल फरोतनी से और आँसू बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश की वजह से मुझ पर वाँके हुई खुदावन्द की खिदमत करता रहा। 20 और जो जो बातें तुम्हारे फाइदे की थीं उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। 21 बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रु — ब — रु गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावन्द ईसा मसीह पर ईमान लाना चाहिए। 22 और अब देखो मैं रुह में बँधा हुआ येरूशलेम को जाता हूँ, और न माँलूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे। 23 सिवा इसके कि रुह — उल — कुदूस हर शहर में गवाही दे दे कर मुझ से कहता है। कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। 24 लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उस की कुछ कद्र करूँ; बावजूद इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावन्द ईसा से पाई है, पूरी करूँ। यांनी खुदा के फज़ल की खुशखबरी की गवाही दूँ। 25 और अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके दर्मियान मैं बादशाही का एलान करता फिरा, मेरा मुँह फिर न देखोगे। 26 पस, मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूँ कि सब आदमियों के खून से पाक हूँ। 27 क्योंकि मैं खुदा की सारी मज्जी तुम से पूरे तौर से बयान करने से न झिझका। 28 पस, अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रुह —

उल कुदूस ने तुम्हें निगहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गल्ले कि रख वाली करो, जिसे उस ने खास अपने खून से खरीद लिया। 29 मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाइने वाले भेड़िये तुम में आँगे जिन्हें गल्ले पर कुछ तरस न आएगा; 30 आप के बीच से भी आदमी उठ कर सच्चाई को तोड़ — मरोड़ कर बयान करेंगे ताकि शागिर्दों को अपने पीछे लगा लें। 31 इसलिए जागते रहो, और याद रखो कि मैं तीन बरस तक रात दिन आँसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बा'ज़ न आया। 32 अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फज़ल के कलाम के सुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है, और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मीरास दे सकता है। 33 मैंने किसी के पैसे या कपड़े का लालच नहीं किया। 34 तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतपूरी की। 35 मैंने तुम को सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावन्द ईसा की बातें याद रखना चाहिए, उस ने खुद कहा, “देना लेने से मुबारिक है।” 36 उस ने ये कह कर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की। 37 और वो सब बहुत रोए और पौलुस के गले लग लगकर उसके बोसे लिए। 38 और खास कर इस बात पर गमगीन थे, जो उस ने कही थी, कि तुम फिर मेरा मुँह न देखोगे फिर उसे जहाज़ तक पहुँचाया।

**21** जब हम उनसे बमुश्किल जुदा हो कर जहाज़ पर खाना हुए, तो ऐसा हुआ की सीधी राह से कोस टापू में आए, और दूसरे दिन स्टुस में, और वहाँ से पतरा शहर में। 2 फिर एक जहाज़ सीधा फीनिके को जाता हुआ मिला, और उस पर सवार होकर खाना हुए। 3 जब कुप्रुस शहर नज़र आया तो उसे बाएँ हाथ छोड़कर सुरिया को चले, और सूर शहर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज़ का माल उतारना था। 4 जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम सात रोज वहाँ रहे; उन्होंने ने रुह के जरिए पौलुस से कहा, कि येरूशलेम में कदम न रखना। 5 और जब वो दिन गुज़र गए, तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर खाना हुए, और सब ने बीवियों बच्चों समेत हम को शहर से बाहर तक पहुँचाया। फिर हम ने समुन्दर के किनारे घुटने टेककर दुआ की। 6 और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज़ पर चढ़े, और वो अपने अपने घर वापस चले गए। 7 और हम सूर से जहाज़ का सफ़र पूरा कर के पतुलिमयिस सूबा में पहुँचे, और भाइयों को सलाम किया, और एक दिन उनके साथ रहे। 8 दूसरे दिन हम खाना होकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पुस मुबाश्शिर के घर जो उन सातों में से था, उतर कर उसके साथ रहे, 9 उस की चार कुँवारी बेटियाँ थीं, जो नबूवत करती थीं। 10 जब हम वहाँ बहुत रोज रहे, तो अगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। 11 उस ने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबन्द लिया और अपने हाथ पाँव बाँध कर कहा, रुह — उल — कुदूस यूँ फरमाता है “कि जिस शाखस का ये

कमरबन्द है उस को यहूदी येरूशलेम में इसी तरह बाँधेगे और गैर (उन्होंने उस से पहले त्रुफिमस इफ्रीसी को उसके साथ शहर में देखा कौमों के हाथ में सुपुर्द करेंगे।” 12 जब ये सुना तो हम ने और वहाँ के लोगों ने उस की मिन्नत की, कि येरूशलेम को न जाए। 13 मगर पौलुस ने जवाब दिया, कि तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो येरूशलेम में खुदावन्द ईसा मसीह “के नाम पर न सिर्फ बाँधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ।” 14 जब उस ने न माना तो हम ये कह कर चुप हो गए “कि खुदावन्द की मर्जी पूरी हो।” 15 उन दिनों के बाद हम अपने सफ़र का सामान तैयार करके येरूशलेम को गए। 16 और कैसरिया से भी कुछ शागिर्द हमारे साथ चले और एक पुराने शागिर्द मनासोन कुप्रिस के रहने वाले को साथ ले आए, ताकि हम उस के मेहमान हों। 17 जब हम येरूशलेम में पहुँचे तो ईमानदार भाई बडी खुशी के साथ हम से मिले। 18 और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया, और सब बुजुर्ग वहाँ हाज़िर थे। 19 उस ने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उस की खिदमत से गैर कौमों में किया था, एक एक कर के बयान किया। 20 उन्होंने ये सुन कर खुदा की तारीफ़ की फिर उस से कहा, ऐ भाई तू देखता है, कि यहूदियों में हजारों आदमी ईमान ले आए हैं, और वो सब शरी'अत के बारे में सरगम हैं। 21 और उन को तेरे बारे में सिखा दिया गया है, कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कह कर मूसा से फिर जाने की ता'लीम देता है, कि न अपने लडकों का खतना करो न मूसा की रस्मों पर चलो। 22 पस, क्या किया जाए? लोग ज़रूर सुनेंगे, कि तू आया है। 23 इसलिए जो हम तुझ से कहते हैं वो कर; हमारे यहाँ चार आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने न मन्नत मानी है। 24 उन्हें ले कर अपने आपको उन के साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सिर मुंडाएँ, तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं, उन की कुछ असल नहीं बल्कि तू खुद भी शरी'अत पर अमल करके दुस्ती से चलता है। 25 मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनके बारे में हम ने ये फ़ैसला करके लिखा था, कि वो सिर्फ़ बुतों की कुर्बानी के गोशत से और लह और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें। 26 इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आपको उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नज़्र न चढ़ाई जाए तकदुस के दिन पूरे करेंगे। 27 जब वो सात दिन पूरे होने को थे, तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूँ चिल्लाकर उस को पकड़ लिया। 28 कि “ऐ इस्राईलियो; मदद करो ये वही आदमी है, जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरी'अत और इस मुक़ाम के खिलाफ़ ता'लीम देता है, बल्कि उस ने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मुक़ाम को नापाक किया है।” 29

(उन्होंने उस से पहले त्रुफिमस इफ्रीसी को उसके साथ शहर में देखा था। उसी के बारे में उन्होंने खयाल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है।) 30 और तमाम शहर में हलचल मच गई, और लोग दौड़ कर जमा हुए, और पौलुस को पकड़ कर हैकल के दरवाजे के फाटक से बाहर घसीट कर ले गए, और फ़ौरन दरवाजे बन्द कर लिए गए। 31 जब वो उसे क़त्ल करना चाहते थे, तो ऊपर सौ फ़ौजियों के सरदार के पास खबर पहुँची “कि तमाम येरूशलेम में खलबली पड़ गई है।” 32 वो उसी वक़्त सिपाहियों और सूबदारों को ले कर उनके पास नीचे दौड़ा आया। और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देख कर पौलुस की मार पीट से बाज़ आए। 33 इस पर पलटन के सरदार ने नज़दीक आकर उसे गिरफ़्तार किया “और दो जंजीरों से बाँधने का हुक़म देकर पछने लगा, ये कौन है, और इस ने क्या किया है?” 34 भीड़ में से कुछ चिल्लाए और कुछ पस जब हल्लड की वजह से कुछ हकीकत दरियाफ़्त न कर सका, तो हुक़म दिया कि उसे किले में ले जाओ। 35 जब सीढियों पर पहुँचा तो भीड़ की जबरदस्ती की वजह से सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। 36 कय़ीक लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी “कि उसका काम तमाम कर।” 37 “और जब पौलुस को किले के अन्दर ले जाने को थे? उस ने पलटन के सरदार से कहा क्या मुझे इजाज़त है कि तुझ से कुछ कहूँ? उस ने कहा तू यूनानी जानता है? 38 क्या तू वो मिस्री नहीं? जो इस से पहले गाज़ियों में से चार हज़ार आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया।” 39 पौलुस ने कहा “मैं यहूदी आदमी किलकिया के मशहर सूबा तरसुस शहर का बाशिन्दा हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाज़त दे।” 40 जब उस ने उसे इजाज़त दी तो पौलुस ने सीढियों पर खड़े होकर लोगों को इशारा किया। जब वो चुप चाप हो गए, तो इब्रानी ज़बान में यूँ कहने लगा।

**22** ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरी बात सुनो, जो अब तुम से बयान करता हूँ। 2 जब उन्होंने सुना कि हम से इब्रानी ज़बान में बोलता है तो और भी चुप चाप हो गए। पस उस ने कहा। 3 मैं यहूदी हूँ, और किलकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ हूँ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के क्रदमों में हुई, और मैंने बा'प दादा की शरी'अत की खास पाबन्दी की ता'लीम पाई, और खुदा की राह में ऐसा सरगम रहा था, जैसे तुम सब आज के दिन हो। 4 चुनौचे मैंने मर्दों और औरतों को बाँध बाँधकर और कैदखाने में डाल डालकर मसीही तरीके वालों को यहाँ तक सताया है कि मरवा भी डाला। 5 चुनौचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं, कि उन से मैं भाइयों के नाम खत ले कर दमिशक को रवाना हुआ, ताकि जितने वहाँ हों उन्हें भी बाँध कर येरूशलेम में सज़ा दिलाने को लाऊँ। 6 जब मैं सफ़र करता करता दमिशक शहर के नज़दीक पहुँचा

तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे पास — पास आ चमका। 7 और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज़ सुनी कि “ऐ साऊल, ऐ साऊल। तू मुझे क्यों सताता है?” 8 मैं ने जवाब दिया कि “ऐ खुदावन्द, तू कौन है?” उस ने मुझ से कहा “मैं ईसा नासरी हूँ जिसे तू सताता है।” 9 और मेरे साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझ से बोलता था, उस की आवाज़ ने समझ सके। 10 मैं ने कहा, “ऐ खुदावन्द, मैं क्या करूँ? खुदावन्द ने मुझ से कहा, “उठ कर दमिशक में जा। और जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है, वहाँ तुझ से सब कहा जाए गा।” 11 जब मुझे उस नूर के जलाल की वजह से कुछ दिखाई न दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़ कर मुझे दमिशक में ले गए। 12 और हननियाह नाम एक शख्स जो शरी'अत के मुवाफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था 13 मेरे पास आया और खड़े होकर मुझ से कहा, ‘भाई साऊल फिर बीना हो, उसी वक्त बीना हो कर मैंने उस को देखा। 14 उस ने कहा, ‘हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझ को इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उस की मर्जी को जाने और उस रास्तबाज़ को देखे और उस के मुँह की आवाज़ सुने। 15 क्योंकि तू उस की तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा, जो तुने देखी और सुनी हैं। 16 अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, और उस का नाम ले कर अपने गुनाहों को धो डाल। 17 जब मैं फिर येरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया। 18 और उस को देखा कि मुझ से कहता है, “जल्दी कर और फ़ौरन येरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कुबूल न करेंगे।” 19 मैंने कहा, ‘ऐ खुदावन्द! वो खुद जानते हैं, कि जो तुझ पर ईमान लाए हैं, उन को कैद कराता और जा'बजा इबादतखानों में पिटवाता था। 20 और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था, तो मैं भी वहाँ खड़ा था। और उसके कल्ल पर राजी था, और उसके कातिलों के कपड़ों की हिफाज़त करता था। 21 उस ने मुझ से कहा, “जा मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूँगा।” 22 वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे फिर बुलन्द आवाज़ से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को ज़मीन पर से खत्म कर दे! उस का ज़िन्दा रहना मुनासिब नहीं, 23 जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ते थे। 24 तो पलटन के सरदार ने हुकम दे कर कहा, कि उसे किले में ले जाओ, और कोड़े मार कर उस का इज़हार तो ताकि मुझे मा'लूम हो कि वो किस वजह से उसकी मुखालिफत में यूँ चिल्लाते हैं। 25 जब उन्होंने उसे रस्सियों से बाँध लिया तो, पौलुस ने उस सिपाही से जो पास खड़ा था कहा, “खुदावन्द क्या तुम्हें जायज़ है कि एक रोमी आदमी को कोड़े मारो और वो भी कुस्स साबित किए बग़ैर?” 26 सिपाही ये सुन कर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर दे

कर कहा, तू क्या करता है? ये तो रोमी आदमी है। 27 पलटन के सरदार ने उस के पास आकर कहा, मुझे बता तो क्या तू रोमी है? उस ने कहा, हाँ। 28 पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैं ने बड़ी रकम दे कर रोमी होने का रुबा हासिल किया पौलुस ने कहा, “मैं तो पैदाइशी हूँ।” 29 पस, जो उस का इज़हार लेने को थे, फ़ौरन उस से अलग हो गए। और पलटन का सरदार भी ये मा'लूम करके डर गया, कि जिसको मैंने बाँधा है, वो रोमी है। 30 सुबह को ये हकीकत मा'लूम करने के इरादे से कि यहूदी उस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। उस ने उस को खोल दिया। और सरदार काहिन और सब सद — ए — अदालत वालों को जमा होने का हुकम दिया, और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया।

**23** पौलुस ने सद — ए आदालत वालों को गौर से देख कर कहा “ऐ भाइयों, मैंने आज तक पूरी नेक निती से खुदा के वास्ते अपनी उम्र गुज़ारी है।” 2 सरदार काहिन हननियाह ने उन को जो उस के पास खड़े थे, हुकम दिया कि उस के मुँह पर तमाचा मारो। 3 पौलुस ने उस से कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार! खुदा “तुझे मारेगा! तू शरी'अत के मुवाफिक मेरा इन्साफ करने को बैठा है, और क्या शरी'अत के बर — खिलाफ मुझे मारने का हुकम देता है।” 4 जो पास खड़े थे, उन्होंने कहा, “क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है?” 5 पौलुस ने कहा, ऐ भाइयों, मुझे मालूम न था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि, अपनी कौम के सरदार को बुरा न कह। 6 जब पौलुस ने ये मा'लूम किया कि कुछ सदक्की हैं और कुछ फरीसी तो अदालत में पुकार कर कहा, ऐ भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मुर्दा की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकद्दमा हो रहा है, 7 जब उस ने ये कहा तो फरीसियों और सदक्कियों में तकरार हुई, और मजमें में फूट पड़ गई। 8 क्योंकि सदक्की तो कहते हैं कि न क़यामत होगी, न कोई फरिश्ता है, न रूह मगर फरीसी दोनों का इक्कार करते हैं। 9 पस, बड़ा शोर हुआ। और फरीसियों के फिरके के कुछ आलिम उठे “और यूँ कह कर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते और अगर किसी रूह या फरिश्ते ने इस से कलाम किया हो तो फिर क्या?” 10 और जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि उस वक्त पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएँ, फ़ौज को हुकम दिया कि उतर कर उसे उन में से ज़बरदस्ती निकालो और किले में ले जाओ। 11 उसी रात खुदावन्द उसके पास आ खड़ा हुआ, और कहा, “इत्मीनान रख, कि जैसे तू ने मेरे बारे में येरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी।” 12 जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका कर के और लानत की कसम खाकर कहा “कि जब तक हम पौलुस को कल्ल न कर लें न कुछ खाएँगे न पीएँगे।” 13 और जिन्होंने ने आपस में ये साज़िश की वो चालीस से

ज्यादा थे। 14 पस, उन्होंने ने सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा “कि हम ने सख्त ला'नत की कसम खाई है कि जब तक हम पौलुस को कत्ल न कर लें कुछ न चखेंगे। 15 पस, अब तुम सद्र — ए — अदालत वालों से मिलकर पलटन के सरदार से अर्ज करो कि उसे तुम्हारे पास लाए। गोया तुम उसके मु'अमिले की हकीकत ज्यादा मालूम करना चाहते हो, और हम उसके पहुँचने से पहले उसे मार डालने को तैयार हैं।” 16 लेकिन पौलुस का भांजा उनकी घात का हाल सुन कर आया और किले में जाकर पौलुस को खबर दी। 17 पौलुस ने सुबेदारों में से एक को बुला कर कहा “इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाए उस से कुछ कहना चाहता है।” 18 उस ने उस को पलटन के सरदार के पास ले जा कर कहा कि पौलुस कैदी ने मुझे बुला कर दरखास्त की कि जवान को तेरे पास लाऊँ। कि तुझे से कुछ कहना चाहता है। 19 पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर और अलग जा कर पूछा “कि मुझ से क्या कहना चाहता है?” 20 उस ने कहा “यहूदियों ने मशवरा किया है, कि तुझे से दरखास्त करें कि कल पौलुस को सद्र — ए — अदालत में लाए। गोया तू उस के हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है। 21 लेकिन तू उन की न मानना, क्योंकि उन में चालीस शख्स से ज्यादा उस की घात में हैं जिन्होंने ला'नत की कसम खाई है, कि जब तक उसे मार न डालें न खाएँगे न पिँएँगे और अब वो तैयार हैं, सिर्फ तेरे वादे का इन्तज़ार है।” 22 पस, सरदार ने जवान को ये हुक्म दे कर रखत किया कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ पर ये जाहिर किया। 23 और दो सुबेदारों को पास बुला कर कहा कि “दो सौ सिपाही और सत्तर सवार और दो सौ नेजा बरदार पहर रात गए, कैसरिया जाने को तैयार कर रखना। 24 और हुक्म दिया पौलुस की सवारी के लिए जानवरों को भी हाज़िर करें, ताकि उसे फेलिक्स हाकिम के पास सहीह सलामत पहुँचा दें।” 25 और इस मजूमन का खत लिखा। 26 क्लोदियुस लूसियास का फेलिक्स बहादुर हाकिम को सलाम। 27 इस शख्स को यहूदियों ने पकड़ कर मार डालना चाहा मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रोमी है तो फौज समेत चढ़ गया, और हड़ड़ा लाया। 28 और इस बात की दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस वजह से उस पर ला'नत करते हैं, उसे उन की सद्र — ए — अदालत में ले गया। 29 और मालूम हुआ कि वो अपनी शरी'अत के मस्लों के बारे में उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया कि कत्ल या कैद के लायक हो। 30 और जब मुझे इतला हुई कि इस शख्स के बर — खिलाफ साज़िश होने वाली है, तो मैंने इसे फौरन तेरे पास भेज दिया है और इस के मुद्द, इयों को भी हुक्म दे दिया है कि तेरे सामने इस पर दा'वा करें। 31 पस, सिपाहियों ने हुक्म के मुवाफिक पौलुस को लेकर रातों रात अन्तिपत्रिस में पहुँचा

दिया। 32 और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़ कर आप किले की तरफ मुड़े। 33 उन्होंने ने कैसरिया में पहुँच कर हाकिम को खत दे दिया, और पौलुस को भी उस के आगे हाज़िर किया। 34 उस ने खत पढ़ कर पूछा कि ये किस खबे का है और ये मालूम करके कि किलकिया का है। 35 उस से कहा “कि जब तेरे मुद्दई भी हाज़िर होंगे; मैं तेरा मुकदमा करूँगा।” और उसे हेरोदेस के किले में कैद रखने का हुक्म दिया।

**24** पाँच दिन के बाद हननियाह सरदार काहिन के कुछ बुजुर्गों और तिरतुलुस नाम एक वकील को साथ ले कर वहाँ आया, और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। 2 जब वो बुलाया गया तो तिरतुलुस इल्जाम लगा कर कहने लगा कि ऐ फेलिक्स बहादुर चूँकि तेरे वसली से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अन्देशी से इस कौम के फाइदे के लिए खराबियों की इस्लाह होती है। 3 हम हर तरह और हर जगह कमाल शक्र गुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। 4 मगर इस लिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ न दूँ, मैं तेरी भिन्नत करता हूँ कि तू मेहरबानी से दो एक बातें हमारी सुन ले। 5 क्योंकि हम ने इस शख्स को फसाद करने वाला और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज़ और नासरियों की बिद'अती फिरके का सरगिरोह पाया। 6 इस ने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी, और हम ने इसे पकड़ा। और हम ने चाहा कि अपनी शरी'अत के मुवाफिक इस की अदालत करें। 7 लेकिन लूसियास सरदार आकर बड़ी जबरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन ले गया। 8 और उसके मुद्दयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएँ इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को मालूम कर सकता है, जिनका हम इस पर इल्जाम लगाते हैं। 9 और दूसरे यहूदियों ने भी इस दा'वे में मुताफिक हो कर कहा कि ये बातें इसी तरह हैं। 10 जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उस ने जवाब दिया, चूँकि मैं जानता हूँ, कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खुद से अपना उज्र बयान करता हूँ। 11 तू मालूम कर सकता है, कि बारह दिन से ज्यादा नहीं हुए कि मैं येरुशलेम में इबादत करने गया था। 12 और उन्होंने मुझे न हैकल में किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद कराते पाया न इबादतखानों में न शहर में। 13 और न वो इन बातों को जिन का मुझ पर अब इल्जाम लगाते हैं, तेरे सामने साबित कर सकते हैं। 14 लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूँ, कि जिस तरिके को वो बिद'अत कहते हैं, उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ, और जो कुछ तौरत और नबियों के सहीफों में लिखा है, उस सब पर मेरा इमान है। 15 और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ, जिसके वो खुद भी मुन्तज़िर हैं, कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की कयामत होगी। 16 इसलिए मैं खुद भी

कोशिश में रहता हूँ, कि खुदा और आदमियों के बारे में मेरा दिल मुझे कभी मलामत न करे। 17 बहुत बरसों के बाद मैं अपनी क्रौम को खैरात पहुँचाने और नज़े चढ़ाने आया था। 18 उन्होंने बौर हँगामे या बवाल के मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया, यहाँ आसिया के चन्द यहदी थे। 19 और अगर उन का मुझ पर कुछ दा'वा था, तो उन्हें तैरे सामने हाज़िर हो कर फरियाद करना वाजिब था। 20 या यही खुद कहें, कि जब मैं सद — ए — अदालत के सामने खड़ा था, तो मुझ में क्या बुराई पाई थी। 21 सिवा इस बात के कि मैं ने उन में खडे हो कर बुलन्द आवाज़ से कहा था कि मुर्दों की कयामत के बारे में आज मुझ पर मुकद्दमा हो रहा है। 22 फेलिक्स ने जो सहीह तौर पर इस तरीके से वाकिफ़ था “ये कह कर मुकद्दमे को मुल्तवी कर दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आया तो मैं तुम्हारा मुकद्दमा फ़ैसला करूँगा।” 23 और सुबेदार को हुकम दिया कि उस को कैद तो रख मगर आराम से रखना और इसके दोस्तों में से किसी को इसकी खिदमत करने से मनाह' न करना। 24 और चन्द रोज़ के बाद फेलिक्स अपनी बीवी दुसिल्ला को जो यहदी थी, साथ ले कर आया, और पौलुस को बुलवा कर उस से मसीह ईसा के दीन की कैफ़ियत सुनी। 25 और जब वो रास्तबाज़ी और परहेज़गारी और आइन्दा अदालत का बयान कर रहा था, तो फेलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया, कि इस वक़्त तू जा; फुरसत पाकर तुझे फिर बुलाऊँगा। 26 उसे पौलुस से कुछ स्परे मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुला बुला कर उस के साथ गुफ्तगू किया करता था। 27 लेकिन जब दो बरस गुज़र गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह मुकर्रर हुआ और फेलिक्स यहदियों को अपना एहसान मन्द करने की गरज़ से पौलुस को कैद ही में छोड़ गया।

**25** पस, फेस्तुस सबे में दाखिल होकर तीन रोज़ के बाद कैसरिया से येरूशलेम को गया। 2 और सरदार काहिनों और यहदियों के रईसों ने उस के यहाँ पौलुस के खिलाफ़ फरियाद की। 3 और उस की मुख़ालिफ़त में ये रि'आयत चाही कि उसे येरूशलेम में बुला भेजे; और घात में थे, कि उसे राह में मार डालें। 4 मगर फेस्तुस ने जवाब दिया कि पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहाँ जाऊँगा। 5 पस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चले और अगर इस शरख़ में कुछ बेजा बात हो तो उस की फरियाद करें। 6 वो उन में आठ दस दिन रह कर कैसरिया को गया, और दूसरे दिन तख़्त — ए — अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुकम दिया। 7 जब वो हाज़िर हुआ तो जो यहदी येरूशलेम से आए थे, वो उस के आस पास खडे होकर उस पर बहुत सख़्त इल्ज़ाम लगाने लगे, मगर उन को साबित न कर सके। 8 लेकिन पौलुस ने ये उज़्र किया “मैंने न तो कुछ यहदियों की शरी'अत का गुनाह किया है, न हैकल का न कैसर का।” 9 मगर फेस्तुस ने यहदियों को अपना एहसानमन्द

बनाने की गरज़ से पौलुस को जवाब दिया “क्या तुझे येरूशलेम जाना मन्ज़ूर है? कि तेरा ये मुकद्दमा वहाँ मेरे सामने फ़ैसला हो” 10 पौलुस ने कहा, मैं कैसर के तख़्त — ए — अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकद्दमा यहीं फ़ैसला होना चाहिए यहदियों का मैं ने कुछ कुसूर नहीं किया। चुनौचे तू भी खूब जानता है। 11 अगर बदकार हूँ, या मैंने कल्ल के लायक़ कोई काम किया है तो मुझे मरने से इन्कार नहीं! लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं अगर उनकी कुछ अस्ल नहीं तो उनकी रि'आयत से कोई मुझ को उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ दरखास्त करता हूँ। 12 फिर फेस्तुस ने सलाहकारों से मशवरा करके जवाब दिया, “तू ने कैसर के यहाँ फरियाद की है, तो कैसर ही के पास जाएगा।” 13 और कुछ दिन गुज़रने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बिरनीकि ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से मुलाकात की। 14 और उनके कुछ अर्सि वहाँ रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के मुकद्दमे का हाल बादशाह से ये कह कर बयान किया। कि एक शरख़ को फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। 15 जब मैं येरूशलेम में था, तो सरदार काहिनों और यहदियों के बुज़ुर्गों ने उसके खिलाफ़ फरियाद की; और सज़ा के हुकम की दरखास्त की। 16 उनको मैंने जवाब दिया कि “रोमियों का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमियों को रि'आयतन सज़ा के लिए हवाले करें, जब कि मुद्'अलिया को अपने मुद्'इयों के रू — ब — रू हो कर दा, वे के जवाब देने का मौका न मिले।” 17 पस, जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर न की बल्कि दूसरे ही दिन तख़्त — ए अदालत पर बैठ कर उस आदमी को लाने का हुकम दिया। 18 मगर जब उसके मुद्'इ खडे हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था, उनमें से उन्होंने किसी का इल्ज़ाम उस पर न लगाया। 19 बल्कि अपने दीन और किसी शरख़ ईसा के बारे में उस से बहस करते थे, जो मर गया था, और पौलुस उसको जिन्दा बताता है। 20 चूँकि मैं इन बातों की तहकीकात के बारे में उलझन में था, इस लिए उस से पूछा क्या तू येरूशलेम जाने को राज़ी है, कि वहाँ इन बातों का फ़ैसला हो? 21 मगर जब पौलुस ने फरियाद की, कि मेरा मुकद्दमा शह-न्शाह की अदालत में फ़ैसला हो तो, मैंने हुकम दिया कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूँ, कैद में रहे। 22 अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूँ, उस ने कहा “तू कल सुन लेगा।” 23 पस, दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीकि बड़ी शान — ओ शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दिवान खाने में दाखिल हुए। तो फेस्तुस के हुकम से पौलुस हाज़िर किया गया। 24 फिर फेस्तुस ने कहा, ऐ अग्रिप्पा बादशाह और ऐ सब हाज़रीन तुम इस शरख़ को देखते हो, जिसके बारे में यहदियों के सारे गिरोह ने येरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझ से अर्ज़ की कि इस का आगे को जिन्दा रहना मुनासिब

नहीं। 25 लेकिन मुझे मा'लूम हुआ कि उस ने कल्ल के लायक कुछ नहीं किया; और जब उस ने खुद शह-शाह के यहाँ फरियाद की तो मैं ने उस को भेजने की तजवीज़ की। 26 उसके बारे में मुझे कोई ठीक बात मा'लूम नहीं कि सरकार — ए — आली को लिखें इस वास्ते मैंने उस को तुम्हारे आगे और खासकर — ए — अग्रिप्पा बादशाह तैरे हुज़ूर हाज़िर किया है, ताकि तहकीकात के बाद लिखने के काबिल कोई बात निकले। 27 क्योंकि कैदी के भेजते वक़्त उन इल्ज़ामों को जो उस पर लगाए गए हैं, जाहिर न करना मुझे खिलाफ — ए — अक्ल मा'लूम होता है।

**26** अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाज़त है; पौलुस अपना हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूँ पेश करने लगा कि, 2 ए अग्रिप्पा बादशाह जितनी बातों की यहूदी मुझ पर ला'नत करते हैं; आज तैरे सामने उनकी जवाबदेही करना अपनी खुशानसीबी जानता हूँ। 3 खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ़ है; पस, मैं मिनत करता हूँ, कि तहम्मील से मेरी सुन ले। 4 सब यहूदी जानते हैं कि अपनी क्रौम के दर्मियान और येरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चालचलन कैसा रहा है। 5 चूँकि वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं, कि मैं फ़रीसी होकर अपने दीन के सब से ज़्यादा पाबन्द मज़हबी फ़िरके की तरह जिन्दगी गुज़ारता था। 6 और अब उस वा'दे की उम्मीद की वजह से मुझ पर मुक़द्दमा हो रहा है, जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। 7 उसी वा'दे के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे बारह के बारह क़बीले दिल'ओ जान से रात दिन इबादत किया करते हैं, इसी उम्मीद की वजह से ऐ बादशाह यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। 8 जब कि खुदा मुर्दों को जिलाता है, तो ये बात तुम्हारे नज़दीक क्यों ग़ैर मो'तबर समझी जाती है? 9 मैंने भी समझा था, कि ईसा नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालिफ़त करना मुझ पर फ़र्ज़ है। 10 चुनौचे मैंने येरूशलेम में ऐसा ही किया, और सरदार काहिनों की तरफ़ से इख़्तियार पाकर बहुत से मुक़द्दमों को कैद में डाला और जब वो कल्ल किए जाते थे, तो मैं भी यही मशवरा देता था। 11 और हर इबादत खाने में उन्हें सज़ा दिला दिला कर ज़बरदस्ती उन से कूफ़ कहलवाता था, बल्कि उन की मुखालिफ़त में ऐसा दिवाना बना कि ग़ैर शाहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। 12 इसी हाल में सरदार काहिनों से इख़्तियार और परवाने लेकर दमिशक़ को जाता था। 13 तो ऐ बादशाह मैंने दो पहर के वक़्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज़्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हमसफ़रों के गिर्द आ चमका। 14 जब हम सब ज़मीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी ज़बान में ये आवाज़ सुनी कि "ऐ साऊल, ऐ साऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अपने आप पर लात मारना तैरे लिए मुश्किल है।" 15 मैं ने कहा 'ऐ खुदावन्द, तू कौन है?' 'खुदावन्द ने फ़रमाया "मैं ईसा हूँ, जिसे तू

सताता है। 16 लेकिन उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इस लिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ, कि तुझे उन चीज़ों का भी खादिम और गवाह मुक़र्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तू ने मुझे देखा है, और उन का भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूँगा। 17 और मैं तुझे इस उम्मत और ग़ैर क्रौमों से बचाता रहूँगा। जिन के पास तुझे इसलिए भेजता हूँ। 18 कि तू उन की आँखें खोल दे ताकि अन्धेरे से रोशनी की तरफ़ और शैतान के इख़्तियार से खुदा की तरफ़ रूजू लाएँ, और मुझ पर ईमान लाने के ज़रिए गुनाहों की मु'आफ़ी और मुक़द्दसों में शरीक हो कर मीरास पाएँ।" 19 इसलिए ऐ अग्रिप्पा बादशाह! मैं उस आसमानी रोया का नाफ़रमान न हुआ। 20 बल्कि पहले दमिशक़ियों को फिर येरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिन्दों को और ग़ैर क्रौमों को समझाता रहा। कि तौबा करें और खुदा की तरफ़ रूजू लाकर तौबा के मुवाफ़िक़ काम करें। 21 इन्हीं बातों की वजह से कुछ यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़ कर मार डालने की कोशिश की। 22 लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक काईम हूँ, और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशीनगोई नबियों और मूसा ने भी की है। 23 कि "मसीह को दुःखः उठाना ज़रूर है और सब से पहले वही मुर्दों में से जिन्दा हो कर इस उम्मत को और ग़ैर क्रौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा।" 24 जब वो इस तरह जवाबदेही कर रहा था, तो फ़ेस्तुस ने बड़ी आवाज़ से कहा "ऐ पौलुस तू दिवाना है; बहुत इल्म ने तुझे दिवाना कर दिया है।" 25 पौलुस ने कहा, ऐ फ़ेस्तुस बहादुर; मैं दिवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। 26 चुनौचे बादशाह जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ, ये बातें जानता है और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उस से छिपी नहीं। क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। 27 ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूँ, कि तू यकीन करता है। 28 अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही सी नसीहत कर के मुझे मसीह कर लेना चाहता है। 29 पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूँ, कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ़ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, मेरी तरह हो जाएँ, सिवा इन जंजीरों के। 30 तब बादशाह और हाकिम और बरनीकी और उनके हमनशीन उठ खड़े हुए, 31 और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे, कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कल्ल या कैद के लायक हो। 32 अग्रिप्पा ने फ़ेस्तुस से कहा, कि अगर ये आदमी कैसर के यहाँ फरियाद न करता तो छूट सकता था।

**27** जब जहाज़ पर इतालिया को हमारा जाना ठहराया गया तो उन्होंने पौलुस और कुछ और कैदियों को शह-शाही पलटन के एक सुबेदार अगस्तुस ने यूलियुस नाम के हवाले किया। 2 और हम

अदम्यतयस के एक जहाज़ पर जो आसिया के किनारे के बन्दरगाहों थी, तो आखिर हम को बचने की उम्मीद बिल्कुल न रही। 21 और में जाने को था। सवार होकर रवाना हुए और थिस्सलूनीकियों का जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उन के बीच में खड़े हो कर अरिस्तरखुस मकिदुनी हमारे साथ था। 3 दूसरे दिन सैदा में जहाज़ कहा, ऐ साहिबो; लाज़िम था, कि तुम मेरी बात मान कर करते से ठहराया, और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास रवाना न होते और ये तकलीफ और नुकसान न उठाते। 22 मगर अब जाने की इजाज़त दी। ताकि उस की खातिरदारी हो। 4 वहाँ से मैं तुम को नसीहत करता हूँ कि इत्मीनान रखो; क्योंकि तुम में हम रवाना हुए और कुपूस की आड़ में होकर चले इसलिए कि से किसी का नुकसान न होगा मगर जहाज़ का। 23 क्योंकि खुदा हवा मुखालिफ थी। 5 फिर किलकिया और पम्फीलिया सबे के जिसका मैं हूँ, और जिसका इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ते ने समुन्दर से गुज़र कर लूकिया के शहर मूरा में उतरे। 6 वहाँ सुबेदार इसी रात को मेरे पास आकर। 24 कहा, पौलुस, न डर। ज़रूरी है कि को इस्कन्दरिया का एक जहाज़ इतालिया जाता हुआ, मिला पस, तू कैसर के सामने हाज़िर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज़ हमको उस में बैठा दिया। 7 और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता में सवार हैं, उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। 25 आहिस्ता चलकर मुश्किल से कनिदूस शहर के सामने पहुँचे तो इसलिए “ऐ साहिबो; इत्मीनान रखो; क्योंकि मैं खुदा का यकीन इसलिए कि हवा हम को आगे बढ़ने न देती थी सलमूने के सामने से करता हूँ, कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा। 26 लेकिन हो कर करते टापू की आड़ में चले। 8 और बमुश्किल उसके किनारे ये ज़रूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े” 27 जब चौधवीं रात हुई किनारे चलकर हसीन — बन्दर नाम एक मकाम में पहुँचे जिस और हम बहर — ए — अद्रिया में टकराते फिरते थे, तो आधी रात से लसया शहर नजदीक था। 9 जब बहुत अरसा गुज़र गया और के करीब मल्लाहों ने अंदाजे से मा'लूम किया कि किसी मुल्क के जहाज़ का सफ़र इसलिए खतरनाक हो गया कि रोज़ा का दिन गुज़र नजदीक पहुँच गए। 28 और पानी की थाह लेकर बीस पुरां पाया चुका था। तो पौलुस ने उन्हें ये कह कर नसीहत की। 10 कि ऐ और थोड़ा आगे बढ़ कर और फिर थाह लेकर पन्द्रह पुरां पाया। 29 साहिबो। मुझे मालूम होता है, कि इस सफ़र में तकलीफ और बहुत और इस डर से कि पथरीली चट्टानों पर जा पड़े, जहाज़ के पीछे से नुकसान होगा, न सिर्फ़ माल और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का चार लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। 30 और भी। 11 मगर सुबेदार ने नाखुदा और जहाज़ के मालिक की बातों जब मल्लाहों ने चाहा कि जहाज़ पर से भाग जाँएँ, और इस बहाने पर पौलुस की बातों से ज़्यादा लिहाज़ किया। 12 और चूँकि वो से कि गलही से लंगर डालें, डोंगी को समुन्दर में उतारें। 31 तो बन्दरगाह जाड़ों में रहने कि लिए अच्छा न था, इसलिए अक्सर पौलुस ने सुबेदार और सिपाहियों से कहा “अगर ये जहाज़ पर न लोगों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हों, और अगर हो सके तो रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते।” 32 इस पर सिपाहियों ने डोंगी की फेनिक्स शहर में पहुँच कर जाड़ा काटें; वो करते का एक बन्दरगाह रस्सियाँ काट कर उसे छोड़ दिया। 33 और जब दिन निकलने को है जिसका सख शिमा ल मशरिक और जुनूब मशरिक को है। 13 जब हुआ तो पौलुस ने सब की मिन्नत की कि खाना खालो और कहा कि तुम को इन्तज़ार करते करते और फाका करते करते आज चौदह दिन कुछ कुछ दक्खिना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये ये समझ कर कि हो गए; और तुम ने कुछ नहीं खाया। 34 इसलिए तुम्हारी मिन्नत हमारा मतलब हासिल हो गया लंगर उठाया और करते के किनारे के करता हूँ कि खाना खालो, इसी में तुम्हारी बहतरी मौकूफ है, और करीब करीब चले। 14 लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तुफानी हवा तुम में से किसी के सिर का बाल बाका न होगा। 35 ये कह कर उस जो यूकूलोन कहलाती है करते पर से जहाज़ पर आई। 15 और जब ने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया, और तोड़ तो हम ने लाचार होकर उसको बहने दिया। 16 और कौदा नाम एक कर खाने लगा। 36 फिर उन सब की खातिर जमा हुई, और आप भी छोटे टापू की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को खाना खाने लगे। 37 और हम सब मिलकर जहाज़ में दो सौ छिहतर काबू में लाए। 17 और जब मल्लाह उस को उपर चढ़ा चुके तो आदमी थे। 38 जब वो खा कर सेर हुए तो गेहूँ को समुन्दर में फेंक जहाज़ की मज़बूती की तदबीर करके उसको नीचे से बाँधा, और कर जहाज़ को हल्का करने लगे। 39 जब दिन निकल आया तो सूरतिस के चोर बालू में धंस जाने के डर से जहाज़ का साज़ो सामान उन्होंने उस मुल्क को न पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी, जिसका उतार लिया। और उसी तरह बहते चले गए। 18 मगर जब हम ने किनारा साफ़ था, और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज़ को आँधी से बहुत हिचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज़ का माल उस पर चढ़ा लें। 40 पस, लंगर खोल कर समुन्दर में छोड़ दिए, फेंकने लगे। 19 और तीसरे दिन उन्होंने ने अपने ही हाथों से जहाज़ और पत्वारों की भी रस्सियाँ खोल दी; और अगला पाल हवा के के कुछ आलात — ओ — 'असबाब भी फेंक दिए। 20 जब बहुत सख पर चढ़ा कर उस किनारे की तरफ चले। 41 लेकिन एक ऐसी दिनों तक न सूरज नज़र आया न तारे और शिदत की आँधी चल रही जगह जा पड़े जिसके दोनों तरफ समुन्दर का जोर था; और जहाज़



जमीन पर टिक गया, पस गलही तो धक्का खाकर फँस गई; मगर दुम्बाला लहरों के जोर से टूटने लगा। 42 और सिपाहियों की ये सलाह थी, कि क्रैदियों को मार डालें, कि ऐसा न हो कोई तैर कर भाग जाए। 43 लेकिन सुबेदार ने पौलुस को बचाने की गरज से उन्हें इस इरादे से बाज रखवा; और हुकम दिया कि जो तैर सकते हैं, पहले कूद कर किनारे पर चले जाएँ। 44 बाकी लोग कुछ तख्तों पर और कुछ जहाज की और चीजों के सहारे से चले जाएँ; इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुँच गए।

**28** जब हम पहुँच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलिते है, 2 और उन अजनबियों ने हम पर खास महरबानी की, क्योंकि बारिश की झड़ी और जाड़े की वजह से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। 3 जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा जमा करके आग में डाला तो एक साँप गमी पा कर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। 4 जिस वक़्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, बेशक ये आदमी ख़ुनी है: अगरचे समुन्दर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। 5 पस, उस ने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ तकलीफ़ न पहुँची। 6 मगर वो मुन्तज़िर थे, कि इस का बदन सज़ जाएगा: या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा लेकिन जब देर तक इन्तज़ार किया और देखा कि उसको कुछ तकलीफ़ न पहुँची तो और खयाल करके कहा, ये तो कोई देवता है। 7 वहाँ से करीब पुबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मिलिकियत थी; उस ने घर लेजाकर तीन दिन तक बड़ी महरबानी से हमारी मेहमानी की। 8 और ऐसा हुआ, कि पुबलियुस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था; पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफ़ा दी। 9 जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे, आए और अच्छे किए गए। 10 और उन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त की और चलते वक़्त जो कुछ हमें दरकार था; जहाज़ पर रख दिया। 11 तीन महीने के बाद हम इसकन्दरिया के एक जहाज़ पर खाना हुए जो जाड़े भर 'उस टापू में रहा था जिसका निशान दियुसक्री था 12 और सुरकूसा में जहाज़ ठहरा कर तीन दिन रहे। 13 और वहाँ से फेर खाकर रेगियम बन्दरगाह में आए। एक रोज़ बाद दक्खिन हवा चली तो दूसरे दिन पुतियुली शहर में आए। 14 वहाँ हम को भाई मिले, और उनकी मिन्नत से हम सात दिन उन के पास रहे; और इसी तरह रोमा तक गए। 15 वहाँ से भाई हमारी ख़बर सुनकर अप्पियुस के चौक और तीन सराय तक हमारे इस्तक़बाल को आए। पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक़ किया और उसके खातिर जमा हुई। 16 जब हम रोम में पहुँचे तो पौलुस को इजाज़त हुई, कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे, जो उस पर पहरा देता था। 17 तीन रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उस ने यहदियों के

रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए, तो उन से कहा, ऐ भाइयों हर वक़्त पर मैंने उम्मत और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ़ कुछ नहीं किया। तोभी येरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया। 18 उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा; क्योंकि मेरे कत्ल की कोई वजह न थी। 19 मगर जब यहदियों ने मुखालिफ़त की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ फ़रियाद की मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी क़ौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना है, 20 पस, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम से मिलूँ और गुफ़्तगू करूँ, क्योंकि इस्राईल की उम्मीद की वजह से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ, 21 उन्होंने कहा "न हमारे पास यहदिया से तेरे बारे में ख़त आए, न भाइयों में से किसी ने आ कर तेरी कुछ ख़बर दी न बुराई बयान की। 22 मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझ से सुनें, कि तेरे खयालात क्या हैं; क्योंकि इस फ़िर्के की वजह हम को मा'लूम है कि हर जगह इसके खिलाफ़ कहते हैं।" 23 और वो उस से एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे दे कर और मूसा की तौरत और नबियों के सहीफ़ों से ईसा की वजह समझा समझा कर सुबह से शाम तक उन से बयान करता रहा। 24 और कुछ ने उसकी बातों को मान लिया, और कुछ ने न माना। 25 जब आपस में मुताफ़िक़ न हुए, तो पौलुस की इस एक बात के कहने पर सख़्त हुए; कि रूह — उल कुदूस ने यसा'याह नबी के ज़रिए तुम्हारे बाप दादा से ख़ूब कहा कि। 26 इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हर्गिज़ न समझोगे और आँखों से देखोगे और हर्गिज़ मा'लूम न करोगे। 27 क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, 'और वो कानों से ऊँचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आँखें बन्द कर ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि आँखों से मा'लूम करें, और कानों से सुनें, और दिल से समझें, और रूज़ लाएँ, और मैं उन्हें शिफ़ा बख़ूँ। 28 "पस, तुम को मा'लूम हो कि खुदा! की इस नजात का पैग़ाम गैर कौमों के पास भेजा गया है, और वो उसे सुन भी लेंगी" 29 [जब उस ने ये कहा तो यहदी आपस में बहुत बहस करते चले गए।] 30 और वो पूरे दो बरस अपने क़िराए के घर में रहा। 31 और जो उसके पास आते थे, उन सब से मिलता रहा; और कमाल दिलेरी से बग़ैर रोक टोक के खुदा की बादशाही का ऐलान करता और खुदावन्द ईसा मसीह की बातें सिखाता रहा।

# रोमियो

**1** पौलस की तरफ से जो ईसा मसीह का बन्दा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और ख़ुदा की उस ख़ुशख़बरी के लिए अलग किया गया। 2 पस मैं तुम को भी जो रोमा में हों ख़ुशख़बरी सुनाने को जहाँ तक मेरी ताकत है मैं तैयार हूँ। 3 अपने बेटे ख़ुदावन्द ईसा मसीह के बारे में वा'दा किया था जो जिस्म के ऐतिबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। 4 लेकिन पाकीज़गी की रूह के ऐतबार से मुर्दों में से जी उठने की वजह से कुदरत के साथ ख़ुदा का बेटा ठहरा। 5 जिस के जरिए हम को फ़ज़ल और रिसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब क़ौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। 6 जिन में से तुम भी ईसा मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। 7 उन सब के नाम जो रोम में ख़ुदा के प्यारे हैं और मुक़द्दस होने के लिए बुलाए गए हैं; हमारे बाप ख़ुदा और ख़ुदावन्द ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। 8 पहले, तो मैं तुम सब के बारे में ईसा मसीह के वसली से अपने ख़ुदा का शुक़ करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में नाम हो रहा है। 9 चुन्चो ख़ुदा जिस की इबादत में अपनी रूह से उसके बेटे की ख़ुशख़बरी देने में करता हूँ वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। 10 और अपनी दुआओं में हमेशा ये गुज़ारिश करता हूँ कि अब आख़िरकार ख़ुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामियाबी हो। 11 क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाक़ात का मुशताक हूँ, ताकि तुम को कोई रूहानी ने'मत दूँ जिस से तुम मजबूत हो जाओ। 12 गरज़ मैं भी तुम्हारे दर्मियान हो कर तुम्हारे साथ उस ईमान के जरिए तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। 13 और ऐ भाइयों, मैं इस से तुम्हारा ना वाक़िफ़ रहना नहीं चाहता कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आने का इरादा किया ताकि जैसा मुझे और ग़ैर क़ौमों में फ़ल मिला वैसा ही तुम में भी मिले मगर आज तक स्का रहा। 14 मैं युनानियों और ग़ैर यूनानियों दानाओ और नादानों का क़र्जदार हूँ। 15 पस मैं तुम को भी जो रोमा में हों ख़ुशख़बरी सुनाने को जहाँ तक मेरी ताकत है मैं तैयार हूँ। 16 क्योंकि मैं इन्जिल से शर्माता नहीं इसलिए कि वो हर एक ईमान लानेवाले के वास्ते पहले यहूदियों फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए ख़ुदा की कुदरत है। 17 इस वास्ते कि उसमें ख़ुदा की रास्तबाज़ी ईमान से "और ईमान के लिए जाहिर होती है जैसा लिखा है रास्तबाज़ ईमान से जीता रहेगा" 18 क्योंकि ख़ुदा का गरज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है। 19 क्योंकि जो कुछ ख़ुदा के बारे में मालूम हो सकता है वो उनको बातिन में जाहिर है इसलिए कि ख़ुदा ने उनको उन पर जाहिर कर दिया। 20 क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और

ख़ुदाइयत दुनिया की पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के जरिए मा'लूम हो कर साफ़ नज़र आती हैं यहाँ तक कि उन को कुछ बहाना बाक़ी नहीं। (aidios g126) 21 इसलिए कि अगर्चे ख़ुदाई के लायक़ उसकी बड़ाई और शुक़रग़ज़ारी न की बल्कि बेकार के खयाल में पड गए, और उनके नासमझ दिलों पर अँधेरा छा गया। 22 वो अपने आप को अक्लमन्द समझ कर बेवकूफ़ बन गए। 23 और ग़ैर फ़ानी ख़ुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिन्दों और चौपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूत में बदल डाला 24 इस वास्ते ख़ुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक़ उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उन के बदन आपस में बेइज्जत किए जाएँ। 25 इसलिए कि उन्होंने ख़ुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मख़्लूक़ात की ज़्यादा इबादत की बनिस्बत उस ख़ालिक़ के जो हमेशा तक महमूद है; आमीन। (aiōn g165) 26 इसी वजह से ख़ुदा ने उनको गन्दी आदतों में छोड़ दिया यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तब; ई काम को खिलाफ़'ए तब'आ काम से बदल डाला। 27 इसी तरह मर्द भी औरतों से तब; ई काम छोड़ कर आपस की शहवत से मस्त हो गए; यानी आदमियों ने आदमियों के साथ रसिहाई का काम कर के अपने आप में अपने काम के मुआफ़िक़ बदला पाया। 28 और जिस तरह उन्होंने ख़ुदा को पहचानना नापसन्द किया उसी तरह ख़ुदा ने भी उनको नापसन्दीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक़ हरकतें करें। 29 पस वो हर तरह की नारास्ती बर्दी लालच और बदरख्वाही से भर गए, ख़ुनरेजी, झगडे, मक्कारी और अदावत से मा'मूर हो गए, और ग़ीबत करने वाले। 30 बदगो ख़ुदा की नज़र में नफ़रती औरों को बेइज्जत करनेवाला, मागर, शेख़ीबाज़, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफ़रमान, 31 बेवकूफ़, वादा खिलाफ़, तबई तौर से मुहब्बत से ख़ाली और बे रहम हो गए। 32 हालाँकि वो ख़ुदा का हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक़ हैं फिर भी न सिर्फ़ ख़ुद ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करनेवालो से भी ख़ुश होते हैं।

**2** पस ऐ इल्ज़ाम लगाने वाले तू कोई क्यूँ न हो तरे पास कोई बहाना नहीं क्यूँकि जिस बात से तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है ख़ुद वही काम करता है। 2 और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत ख़ुदा की तरफ से हक़ के मुताबिक़ होती है। 3 ऐ भाई! तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है क्या ये समझता है कि तू ख़ुदा की अदालत से बच जाएगा। 4 या तू उसकी महरबानी और बरदाशत और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि ख़ुदा की महरबानी तुझ को तौबा की तरफ़ माएल करती है। 5 बल्कि तू अपने सख़्त और न तोबा करने वाले दिल के मुताबिक़ उस

कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब का काम कर रहा है जिस में खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। 6 वो हर एक को उस के कामों के मुवाफिक बदला देगा। 7 जो अच्छे काम में साबित कदम रह कर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं उनको हमेशा की जिन्दगी देगा। (aiōnios g166) 8 मगर जो ना इत्ताफाकी अन्दाज़ और हक के न माननेवाले बल्कि नारास्ती के माननेवाले हैं उन पर गजब और कहर होगा। 9 और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी पहले यहदी की फिर यूनानी की। 10 मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेक काम करने वाले को मिलेगी; पहले यहदी को फिर यूनानी को। 11 क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। 12 इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरी'अत पाए गुनाह किया वो बगैर शरी'अत के हलाक भी होगा और जिन्होंने शरी'अत के मातहत होकर गुनाह किया उन की सज़ा शरी'अत के मुवाफिक होगी 13 क्योंकि शरी'अत के सुननेवाले खुदा के नजदीक रास्तबाज़ नहीं होते बल्कि शरी'अत पर अमल करनेवाले रास्तबाज़ ठहराए जाएँगे। 14 इसलिए कि जब वो कौमों जो शरी'अत नहीं रखती अपनी तबी'अत से शरी'अत के काम करती हैं तो बावजूद शरी'अत रखने के अपने लिए खुद एक शरी'अत हैं। 15 चुनौचे वो शरी'अत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उन का दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके आपसी खयालत या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उन को माज़ूर रखते हैं। 16 जिस रोज़ खुदा ख़ुशख़बरी के मुताबिक जो मैं ऐलान करता हूँ ईसा मसीह की मारिफ़त आदमियों की छुपी बातों का इन्साफ़ करेगा। 17 पस अगर तू यहदी कहलाता और शरी'अत पर भरोसा और खुदा पर फ़ख़्र करता है। 18 और उस की मर्जी जानता और शरी'अत की ता'लीम पाकर उम्दा बातें पसन्द करता है। 19 और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अँधों का रहनुमा और अँधेरे में पड़े हुआँ के लिए रोशनी। 20 और नादानों का तरबियत करनेवाला और बच्चों का उस्ताद हूँ और 'इल्म और हक का जो नमूना शरी'अत में है वो मेरे पास है। 21 पस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो बताता है कि चोरी न करना तब तूख़द क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है जिना न करना; तब तू क्यों जिना करता है? 22 तू जो बुतों से नफरत रखता है? तब खुद क्यों बुतखानो को लटता है? 23 तू जो शरी'अत पर फ़ख़्र करता है? शरी'अत की मुखालिफ़त से खुदा की क्यों बे'इज्जती करता है? 24 क्योंकि तुम्हारी वजह से ग़ैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफ़्र बका जाता है "चुनौचे ये लिखा भी है।" 25 खतने से फ़ाइदा तो है ब'शर्त तू शरी'अत पर अमल करे लेकिन जब तू ने शरी'अत से मुखालिफ़त किया तो तेरा खतना ना मख़्तूनी ठहरा। 26 पस अगर नामख़्तून शख्स शरी'अत के हुकमों पर अमल करे तो क्या उसकी

ना मख़्तूनी खतने के बराबर न गिनी जाएगी। 27 और जो शख्स कौमियत की वजह से ना मख़्तून रहा अगर वो शरी'अत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतने के शरी'अत से मुखालिफ़त करता है कुसूरवार न ठहरेगा। 28 क्योंकि वो यहदी नहीं जो जाहिर का है और न वो खतना है जो जाहिरी और जिस्मानी है। 29 बल्कि यहदी वही है जो बातिन में है और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है न कि लफ़्ज़ी ऐसे की तारीफ़ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है।

**3** उस यहदी को क्या दर्जा है और खतने से क्या फ़ाइदा? 2 हर तरह से बहुत ख़ास कर ये कि खुदा का कलाम उसके सुपुर्द हुआ। 3 मगर कुछ बेवफ़ा निकले तो क्या हुआ क्या उनकी बेवफ़ाई खुदा की वफ़ादारी को बेकार करती है? 4 हरगिज़ नहीं बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा क्योंकि लिखा है "तू अपनी बातों में रास्तबाज़ ठहरे और अपने मुक़द्दमे में फ़तह पाए।" 5 अगर हमारी नारास्ती खुदा की रास्तबाज़ी की ख़ूबी को जाहिर करती है, तो हम क्या करें? क्या ये कि खुदा बेवफ़ा है जो ग़ज़ब नाज़िल करता है मैं ये बात इंसान की तरह करता हूँ। 6 हरगिज़ नहीं वर्ना खुदा क्योंकि दुनिया का इन्साफ़ करेगा। 7 अगर मेरे झूठ की वजह से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा जाहिर हुई तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक़म दिया जाता है? 8 और "हम क्यों बुराई न करें ताकि भलाई पैदा हो" चुनौचे हम पर ये तोहमत भी लगाई जाती है और कुछ कहते हैं इनकी यही कहावत है मगर ऐसों का मुजरिम ठहरना इन्साफ़ है। 9 पस क्या हुआ; क्या हम कुछ फ़ज़ीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं क्योंकि हम यहदियों और यूनानियों दोनों पर पहले ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। 10 चुनौचे लिखा है "एक भी रास्तबाज़ नहीं। 11 कोई समझदार नहीं कोई खुदा का तालिब नहीं। 12 सब गुमराह हैं सब के सब निकम्मे बन गए; कोई भलाई करनेवाला नहीं एक भी नहीं। 13 उनका गला खुली हुई क़ब्र है उन्होंने अपनी ज़बान से धोखा दिया उन के होंटों में साँपों का ज़हर है। 14 उन का मुँह ला'नत और कड़वाहट से भरा है। 15 उन के क़दम खून बहाने के लिए तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। 16 उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। 17 और वह सलामती की राह से वाकिफ़ न हुए। 18 उन की आँखों में खुदा का ख़ौफ़ नहीं।" 19 अब हम जानते हैं कि शरी'अत जो कुछ कहती है उसे कहती है जो शरी'अत के मातहत है ताकि हर एक का मुँह बन्द हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सज़ा के लायक ठहरे। 20 क्योंकि शरी'अत के अमल से कोई बशर उसके हज़ूर रास्तबाज़ नहीं ठहरेगी इसलिए कि शरी'अत के वसीले से तो गुनाह की पहचान हो सकती है। 21 मगर अब शरी'अत के बगैर खुदा की एक रास्तबाज़ी जाहिर हुई है जिसकी

गवाही शरी'अत और नबियों से होती है। 22 यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो ईसा मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लानेवालों को हासिल होती है; क्योंकि कुछ फर्क नहीं। 23 इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। 24 मगर उसके फज़ल की वजह से उस मख़लसी के वसीले से जो मसीह ईसा में है मुफ़्त रास्तबाज़ ठहराए जाते हैं। 25 उसे खुदा ने उसके खून के जरिए एक ऐसा कफ़रा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ाइदामन्द हो ताकि जो गुनाह पहले से हो चुके थे? और जिसे खुदा ने बर्दाश्त करके तरजीह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। 26 बल्कि इसी वक़्त उनकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो ईसा पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज़ ठहराने वाला हो। 27 पस फ़ख़ कहाँ रहा? इसकी गुन्जाइश ही नहीं कौन सी शरी'अत की वजह से? क्या आमाल की शरी'अत से? ईमान की शरी'अत से? 28 चुनौचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरी'अत के आमाल के बग़ैर ईमान के जरिए से रास्तबाज़ ठहरता है। 29 क्या खुदा सिर्फ़ यहदियों ही का है ग़ैर कौमों का नहीं? बेशक ग़ैर कौमों का भी है। 30 क्योंकि एक ही खुदा है मख़्लूनों को भी ईमान से और नामख़्तनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज़ ठहराएगा। 31 पस क्या हम शरी'अत को ईमान से बातिल करते हैं। हरगिज़ नहीं बल्कि शरी'अत को काईम रखते हैं।

**4** पस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्रहाम को क्या हासिल हुआ? 2 क्योंकि अगर अब्रहाम आमाल से रास्तबाज़ ठहराया जाता तो उसको फ़ख़ की जगह होती; लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। 3 किताब ए मुक़द्दस क्या कहती है “ये कि अब्रहाम खुदा पर ईमान लाया। ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया।” 4 काम करनेवाले की मज़दूरी बख़्शिश नहीं बल्कि हक़ समझी जाती है। 5 मगर जो शख़्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज़ ठहराने वाले पर ईमान लाता है उस का ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। 6 चुनौचे जिस शख़्स के लिए खुदा बग़ैर आमाल के रास्तबाज़ शुमार करता है दाऊद भी उसकी मुबारिक हाली इस तरह बयान करता है। 7 “मुबारिक वो है जिनकी बदकारियाँ मुआफ़ हुईं और जिनके गुनाह छुपाए गए। 8 मुबारिक वो शख़्स है जिसके गुनाह खुदावन्द शुमार न करेगा।” 9 पस क्या ये मुबारिकबादी मख़्तनों ही के लिए है या नामख़्तनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्रहाम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। 10 पस किस हालत में गिना गया? मख़्तनी में या नामख़्तनी में? मख़्तनी में नहीं बल्कि नामख़्तनी में। 11 और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मुहर हो जाए जो उसे नामख़्तनी की हालत में हासिल था, वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख़्तन होने के ईमान लाते हैं 12 और उन मख़्तनों का

बाप हो जो न सिर्फ़ मख़्तन हैं बल्कि हमारे बाप अब्रहाम के उस इमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे ना मख़्तनी की हालत में हासिल था। 13 क्योंकि ये वादा किया वो कि दुनिया का वारिस होगा न अब्रहाम से न उसकी नस्तल से शरी'अत के वसीले से किया गया था बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले से किया गया था। 14 क्योंकि अगर शरी'अत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफ़ाइदा रहा और वादा से कुछ हासिल न ठहरेगा। 15 क्योंकि शरी'अत तो ग़ज़ब पैदा करती है और जहाँ शरी'अत नहीं वहाँ मुख़ालिफ़त — ए — हुक़म भी नहीं। 16 इसी वास्ते वो मीरास ईमान से मिलती है ताकि फ़ज़ल के तौर पर हो; और वो वादा कुल नस्तल के लिए काईम रहे सिर्फ़ उस नस्तल के लिए जो शरी'अत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो अब्रहाम की तरह ईमान वाली है वही हम सब का बाप है। 17 चुनौचे लिखा है (“मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया”) उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दा को ज़िन्दा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें इस तरह से बुला लेता है कि गोया वो हैं। 18 वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक़ कि तेरी नस्तल ऐसी ही होगी “वो बहुत सी कौमों का बाप हो।” 19 और वो जो तक़रीबन सौ बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारह के रहम की मुर्दाहालत पर लिहाज़ करने के ईमान में कमज़ोर न हुआ। 20 और न बे ईमान हो कर खुदा के वादे में शक़ किया बल्कि ईमान में मज़बूत हो कर खुदा की बड़ाई की। 21 और उसको कामिल ऐतिक़ाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। 22 इसी वजह से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। 23 और ये बात कि ईमान उस के लिए रास्तबाजी गिना गया; न सिर्फ़ उसके लिए लिखी गई। 24 बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा इस वास्ते के हम उस पर ईमान लाए हैं जिस ने हमारे खुदावन्द ईसा को मुर्दा में से जिलाया। 25 वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हम को रास्तबाज़ ठहराने के लिए जिलाया गया।

**5** पस जब हम ईमान से रास्तबाज़ ठहरे, तो खुदा के साथ अपने खुदावन्द ईसा मसीह के वसीले से सुलह रखें। 2 जिस के वसीले से ईमान की वजह से उस फ़ज़ल तक हमारी रिसाई भी हुई जिस पर काईम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख़ करें। 3 और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख़ करें ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। 4 और सब्र से पुख़्तगी और पुख़्तगी से उम्मीद पैदा होती है। 5 और उम्मीद से शर्मिन्दगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूह — उल — क़ुदूस जो हम को बख़शा गया है उसके वसीले से खुदा की मुहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। 6 क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐ'न वक़्त पर मसीह बे'दीनों की खातिर

मरा। 7 किसी रास्तबाज़ की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की हिम्मत करे; 8 लेकिन खुदा अपनी मुहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर मरा। 9 पस जब हम उसके खून के ज़रिए अब रास्तबाज़ ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब 'ए इलाही से ज़रूर बचेंगे। 10 क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिन्दगी की वजह से ज़रूर ही बचेंगे। 11 और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावन्द ईसा मसीह के तुफ़ैल से जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया खुदा पर फ़ख़ भी करते हैं। 12 पस जिस तरह एक आदमी की वजह से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह की वजह से मौत आई और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। 13 क्योंकि शरी'अत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था मगर जहाँ शरी'अत नहीं वहाँ गुनाह श्मार नहीं होता। 14 तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफ़रमानी की तरह जो आनेवाले की मिसाल था गुनाह न किया था। 15 लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फ़ज़ल की नेअ'मत का नहीं क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फ़ज़ल और उसकी जो बख़्शिश एक ही आदमी या'नी ईसा मसीह के फ़ज़ल से पैदा हुई और बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफ़्रात से नाज़िल हुई। 16 और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ बख़्शिश का वैसा हाल नहीं क्योंकि एक ही की वजह से वो फ़ैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था; मगर बहुतेरे गुनाहों से ऐसी नेअ'मत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज़ ठहरे। 17 क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह की वजह से मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की तो जो लोग फ़ज़ल और रास्तबाज़ी की बख़्शिश इफ़्रात से हासिल करते हैं "वो एक शख्स या'नी ईसा" मसीह के वसीले से हमेशा की जिन्दगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। 18 गरज़ जैसा एक गुनाह की वजह से वो फ़ैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था; वैसे ही रास्तबाज़ी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो ने'मत मिली जिससे रास्तबाज़ ठहराकर जिन्दगी पाएँ। 19 क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफ़रमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फ़रमाँबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज़ ठहरे। 20 और बीच में शरी'अत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ फ़ज़ल उससे भी निहायत ज़्यादा हुआ। 21 ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत की वजह से बादशाही की उसी तरह फ़ज़ल भी हमारे खुदावन्द ईसा

मसीह के वसीले से हमेशा की जिन्दगी के लिए रास्तबाज़ी के ज़रिए से बादशाही करे। (aiōnios g166)

**6** पस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फ़ज़ल ज़्यादा हो? 2 हरगिज़ नहीं हम जो गुनाह के ऐतिबार से मर गए क्यूँकर उस में फिर से जिन्दगी गुज़ारें? 3 क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह ईसा में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उस की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? 4 पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफ़न हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया; उसी तरह हम भी नई जिन्दगी में चले। 5 क्यूँकि जब हम उसकी मुशाबहत से उसके साथ जुड़ गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उस के साथ जुड़े होंगे। 6 चुनौचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसान ियत उसके साथ इसलिए मस्तबूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें। 7 क्यूँकि जो मरा वो गुनाह से बरी हुआ। 8 पस जब हम मसीह के साथ मरे तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएँगे भी। 9 क्यूँकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का; मौत का फिर उस पर इत्थियार नहीं होने का। 10 क्यूँकि मसीह जो मरा गुनाह के ऐतिबार से एक बार मरा; मगर अब जो जिन्दा हुआ तो खुदा के ऐतिबार से जिन्दा है। 11 इसी तरह तुम भी अपने आपको गुनाह के ऐतिबार से मुर्दा; मगर खुदा के ऐतिबार से मसीह ईसा में जिन्दा समझो। 12 पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही न करे; कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। 13 और अपने आ'ज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले न करो; बल्कि अपने आपको मुर्दों में से जिन्दा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने आ'ज़ा रास्तबाज़ी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। 14 इसलिए कि गुनाह का तुम पर इत्थियार न होगा; क्यूँकि तुम शरी'अत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हो। 15 पस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरी'अत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हैं? हरगिज़ नहीं; 16 क्या तुम नहीं जानते, कि जिसकी फ़रमाँबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फ़रमाँबरदार हो चाहे गुनाह के जिसका अंजाम मौत है चाहे फ़रमाँबरदारी के जिस का अंजाम रास्तबाज़ी है? 17 लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तोभी दिल से उस ता'लीम के फ़रमाँबरदार हो गए; जिसके सँचे में ढाले गए थे। 18 और गुनाह से आज़ाद हो कर रास्तबाज़ी के गुलाम हो गए। 19 मैं तुम्हारी इंसानी कमज़ोरी की वजह से इंसानी तौर पर कहता हूँ; जिस तरह तुम ने अपने आ'ज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे उसी तरह अब अपने आ'ज़ा

पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। 20 हैं कि शरी'अत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे, तो रास्तबाजी के ऐ'तिबार से बिका हुआ हूँ। 15 और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि आज्ञाद थे। 21 पस जिन बातों पर तुम अब शर्मिन्दा हो उनसे तुम जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता बल्कि जिससे मुझको उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उन का अंजाम तो मौत है। 22 नफरत है वही करता हूँ। 16 और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम हो कर तुम को जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूँ कि शरी'अत उम्दा है। 17 अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इस का पस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ अंजाम हमेशा की ज़िन्दगी है। (aiōnios g166) 23 क्योंकि गुनाह की में बसा हुआ है। 18 क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में या'नी मेरे जिस्म मज़दूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन्द ईसा मसीह में कोई नेकी बसी हुई नहीं; अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझ में बन नहीं पड़ते। 19 चुनौचे जिस नेकी का हमेशा की ज़िन्दगी है। (aiōnios g166)

**7** ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते मैं उन से कहता हूँ जो शरी'अत से वाकिफ़ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरी'अत उस पर इख्तियार रखती है? 2 चुनौचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरी'अत के मुवाफ़िक़ अपने शौहर की ज़िन्दगी तक उसके बन्द में है; लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरी'अत से छूट गई। 3 पस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरी'अत से आज़ाद है; यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया न ठहरेगी। 4 पस ऐ मेरे भाइयों; तुम भी मसीह के बदन के वसीले से शरी'अत के ऐतिबार से इसलिए मुर्दा बन गए, कि उस दूसरे के हो; जाओ जो मुर्दा में से जिलाया गया ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। 5 क्योंकि जब हम जिस्मानी थे गुनाह की ख्वाहिशों जो शरी'अत के ज़रिए पैदा होती थीं मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे आ'ज़ा में तासीर करती थीं। 6 लेकिन जिस चीज़ की क़ैद में थे उसके ऐतिबार से मर कर अब हम शरी'अत से ऐसे छूट गए, कि रूह के नए तौर पर न कि लफ़्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। 7 पस हम क्या करें क्या शरी'अत गुनाह है? हरगिज़ नहीं बल्कि बग़ैर शरी'अत के मैं गुनाह को न पहचानता मसलन अगर शरी'अत ये न कहती कि तू लालच न कर तो मैं लालच को न जानता। 8 मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे हर तरह का लालच पैदा कर दिया; क्योंकि शरी'अत के बग़ैर गुनाह मुर्दा है। 9 एक ज़माने में शरी'अत के बग़ैर मैं ज़िन्दा था, मगर अब हुक्म आया तो गुनाह ज़िन्दा हो गया और मैं मर गया। 10 और जिस हुक्म की चाहत ज़िन्दगी थी, वही मेरे हक़ में मौत का ज़रिया बन गया। 11 क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। 12 पस शरी'अत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्ता भी अच्छा है। 13 पस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो; और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मा'लूम हो। 14 क्या हम जानते

हैं कि शरी'अत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। 15 और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। 16 और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूँ कि शरी'अत उम्दा है। 17 पस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। 18 क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में या'नी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं; अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझ में बन नहीं पड़ते। 19 चुनौचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता मगर जिस बर्दा का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। 20 पस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है; जो मुझ में बसा हुआ है। 21 गरज़ मैं ऐसी शरी'अत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बर्दा मेरे पास आ मौजूद होती है। 22 क्योंकि बातिनी इंसान िनयत के ऐतबार से तो मैं खुदा की शरी'अत को बहुत पसन्द करता हूँ। 23 मगर मुझे अपने आ'ज़ा में एक और तरह की शरी'अत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरी'अत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरी'अत की क़ैद में ले आती है; जो मेरे आ'ज़ा में मौजूद है। 24 हाय मैं कैसा कम्बख़्त आदमी हूँ इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? 25 अपने खुदावन्द ईसा मसीह के वासीले से खुदा का शुक़ करता हूँ; गरज़ मैं खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरी'अत का मगर जिस्म से गुनाह की शरी'अत का गुलाम हूँ।

**8** पस अब जो मसीह ईसा में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं क्योंकि जो जिस्म के मुताबिक़ नहीं बल्कि रूह के मुताबिक़ चलते हैं? 2 क्योंकि ज़िन्दगी की पाक रूह को शरी'अत ने मसीह ईसा में मुझे गुनाह और मौत की शरी'अत से आज़ाद कर दिया। 3 इसलिए कि जो काम शरी'अत जिस्म की वजह से कमज़ोर हो कर न कर सकी वो खुदा ने किया; या'नी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सज़ा का हुक्म दिया। 4 ताकि शरी'अत का तकाज़ा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक़ नहीं बल्कि रूह के मुताबिक़ चलता है। 5 क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के खयाल में रहते हैं; लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के खयाल में रहते हैं। 6 और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत ज़िन्दगी और इत्मीनान है। 7 इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है क्योंकि न तो खुदा की शरी'अत के ताबे हैं न हो सकती है। 8 और जो जिस्मानी है वो खुदा को ख़ुश नहीं कर सकते। 9 लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है; मगर जिस में मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। 10 और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की वजह से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी

की वजह से जिन्दा है। 11 और अगर उसी का रूह तुझ में बसा हुआ है जिसने ईसा को मुर्दा में से जिलाया; वो जिसने मसीह को मुर्दा में से जिलाया, तुम्हारे फ़ानी बदनो को भी अपने उस रूह के वसीले से जिन्दा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। 12 पस ऐ भाइयों! हम कर्ज़दार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिन्दगी गुज़ारें। 13 क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिन्दगी गुज़ारोगे तो ज़रूर मरोगे; और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तोनाबूद करोगे तो जीते रहोगे। 14 क्योकी जो भी खुदा की रूह के मुताबिक चलाए जाते हैं, वो खुदा के फ़र्ज़न्द हैं। 15 क्योकि तुम को गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिस में हम अब्बा या'नी ए बाप कह कर पुकारते हैं। 16 पाक रूह हमारी रूह के साथ मिल कर गवाही देता है कि हम खुदा के फ़र्ज़न्द हैं। 17 और अगर फ़र्ज़न्द हैं तो वारिस भी हैं या'नी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास बशर्ते कि हम उसके साथ दुःख उठाएँ ताकि उसके साथ जलाल भी पाएँ। 18 क्योकि मेरी समझ में इस ज़माने के दुःख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिले में हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। 19 क्योकि मख्लूक़ात पूरी आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। 20 इसलिए कि मख्लूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी न अपनी खुशी से बल्कि उसके ज़रिए से जिसने उसको। 21 इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार कर दिया कि मख्लूक़ात भी फना के कब्जे से छूट कर खुदा के फ़र्ज़न्दों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। 22 क्योकि हम को मा'लूम है कि सारी मख्लूक़ात मिल कर अब तक कराहती है और दर्द — ए — जेह में पडी तडपती है। 23 और न सिर्फ वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं आप अपने बातिन में कराहते हैं और लेपालक होने या'नी अपने बदन की मखलूसी की राह देखते हैं। 24 चुनाँचे हमें उम्मीद के वसीले से नजात मिली मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? 25 लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब से उसकी राह देखते रहें। 26 इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है क्योकि जिस तौर से हम को दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते मगर रूह ख़द ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफ़ा'अत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। 27 और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है; क्योकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ मुकद्दसों की शिफ़ा'अत करता है। 28 और हम को मा'लूम है कि सब चीज़ें मिल कर खुदा से मुहब्बत रखनेवालों के लिए भलाई पैदा करती है; या'नी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफ़िक़ बुलाए गए। 29 क्योकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी

किया कि उसके बेटे के हमशकल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। 30 और जिन को उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी; और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज़ भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज़ ठहराया; उनको जलाल भी बख़्शा। 31 पस हम इन बातों के बारे में क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ़ है; तो कौन हमारा मुखालिफ़ है? 32 जिसने अपने बेटे ही की परवाह न की? बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह न बख़ोगा। 33 खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन शिकायत करेगा? खुदा वही है जो उनको रास्तबाज़ ठहराता है। 34 कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह ईसा वो है जो मर गया बल्कि मुर्दा में से जी उठा और खुदा की दहनी तरफ़ है और हमारी शिफ़ा'अत भी करता है। 35 कौन हमें मसीह की मुहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या ज़ुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। 36 चुनाँचे लिखा है “हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं; हम तो जबह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए।” 37 मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हम सब से मुहब्बत की हम को जीत से भी बढकर गलबा हासिल होता है। 38 क्योकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मुहब्बत हमारे खुदाबन्द ईसा मसीह में है उससे हम को न मौत जुदा कर सकेगी न जिन्दगी, 39 न फ़रिश्ते, न हुकूमते, न मौजूदा, न आने वाली चीज़ें, न कुदरत, न ऊँचाई, न गहराई, न और कोई मख्लूक़।

**9** में मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह — उल — कुदूस में इस की गवाही देता है 2 कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुःखता रहता है। 3 क्योकि मुझे यहाँ तक मंज़ूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के ऐतबार से मेरे करीबी हैं में खुद मसीह से महरूम हो जाता। 4 वो इम्माईल हैं, और लेपालक होने का हक और जलाल और ओहदा और शरी'अत और इबादत और वा'दे उन ही के हैं। 5 और कौम के बुजुर्ग उन ही के हैं और जिस्म के ऐतबार से मसीह भी उन ही में से हुआ, जो सब के ऊपर और हमेशा तक खुदा'ए महमूद है; आमीन। (aiōn g165) 6 लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया इसलिए कि जो इम्माईल की औलाद हैं वो सब इम्माईली नहीं। 7 और न अब्रहाम की नस्त होने की वजह से सब फ़र्ज़न्द ठहरे बल्कि ये लिखा है; “कि इज़्हाक ही से तेरी नस्त कहलाएगी।” 8 या'नी कि जिस्मानी फ़र्ज़न्द खुदा के फ़र्ज़न्द नहीं बल्कि वा'दे के फ़र्ज़न्द नस्त गिने जाते हैं। 9 क्योकि वा'दे का कौल ये है “मैं इस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा।” 10 और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि रबेका भी एक शख्स या'नी हमारे बाप इज़्हाक से हामिला थी। 11 और अभी तक न तो लडके पैदा हुए थे और न उन्होंने नेकी या बदी की थी, कि उससे कहा गया, बड़ा छोटे की

खिदमत करेगा। 12 ताकि खुदा का इरादा जो चुनाव पर मुन्हसिर है “आमाल पर म्बनी न ठहरे बल्कि बुलानेवाले पर।” 13 चुनौंचे लिखा है “मैने याकूब से तो मुहब्बत की मगर ऐसों को नापसन्द।” 14 पस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बे'इन्साफी है? हरगिज नहीं; 15 क्योंकि वो मूसा से कहता है “जिस पर रहम करना मंजूर है और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊँगा।” 16 पर ये न इरादा करने वाले पर मुन्हसिर है न दौड धूप करने वाले पर बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। 17 क्योंकि किताब — ए — मुकद्दस में खुदा ने फिर'औन से कहा “मैने इसी लिए तुझे खडा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूँ, और मेरा नाम तामा रू'ए जमीन पर मशहर हो।” 18 पर वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त करता है। 19 पर तू मुझ से कहेगा, “फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुक़ाबिला करता है?” 20 ऐ' इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है “तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया?” 21 क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं? कि एक ही लौन्दे में से एक बरतन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बे'इज्जती के लिए? 22 पस क्या त'अज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब जाहिर करने और अपनी कुदरत जाहिर करने के इरादे से गज़ब के बरतनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे, निहायत तहम्मिल से पैश आए। 23 और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बरतनों के जरिए से जाहिर करे जो उस ने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे। 24 या'नी हमारे जरिए से जिनको उसने न सिर्फ़ यहदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। 25 चुनौंचे होसे की किताब में भी खुदा यूँ फरमाता है, “जो मेरी उम्मत नहीं थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूँगा। 26 और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिन्दा खुदा के बेते कहलाएँगे।” 27 और यसायाह इस्राईल के बारे में पुकार कर कहता है चाहे बनी इस्राईल का शुमार समुन्दर की रेत के बराबर हो तोभी उन में से थोड़े ही बचेगे। 28 क्योंकि खुदावन्द अपने कलाम को मुकम्मल और खत्म करके उसके मुताबिक जमीन पर अमल करेगा। 29 चुनौंचे यसायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफ़वाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदूम की तरह और अमूर के बराबर हो जाते। 30 पस हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाज़ी की तलाश न करती थी, रास्तबाज़ी हासिल की या'नी वो रास्तबाज़ी जो ईमान से है। 31 मगर इस्राईल जो रास्तबाज़ी की शरी'अत तक न पहुँचा। 32 किस लिए? इस लिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया आमाल से उसकी तलाश की; उन्होंने उसे ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर

खाई। 33 चुनौंचे लिखा है देखो; “मैं सिय्यून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिन्दा न होगा।”

**10** ऐ भाइयों; मेरे दिल की आरजू और उन के लिए खुदा से मेरी दुआ है कि वो नजात पाएँ। 2 क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं; मगर समझ के साथ नहीं। 3 इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाज़ी से नावाकिफ़ हो कर और अपनी रास्तबाज़ी काईम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाज़ी के ताबे न हुए। 4 क्योंकि हर एक ईमान लानेवाले की रास्तबाज़ी के लिए मसीह शरी'अत का अंजाम है। 5 चुनौंचे मूसा ने ये लिखा है “कि जो शख्स उस रास्तबाज़ी पर अमल करता है जो शरी'अत से है वो उसी की वजह से जिन्दा रहेगा।” 6 अगर जो रास्तबाज़ी ईमान से है वो यूँ कहती है, “तू अपने दिल में ये न कह'कि आसमान पर कौन चढेगा?” या'नी मसीह के उतार लाने को। 7 या “गहराव में कौन उतरेगा?” या'नी मसीह को मुर्दों में से जिला कर ऊपर लाने को। (Abyssos g12) 8 बल्कि क्या कहती है; ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुँह और तेरे दिल में है कि, ये वही ईमान का कलाम है जिसका हम ऐलान करते हैं। 9 कि अगर तू अपनी जवान से ईसा के खुदावन्द होने का इक्कर करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। 10 क्योंकि रास्तबाज़ी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इक्कर मुँह से किया जाता है। 11 चुनौंचे किताब — ए — मुकद्दस ये कहती है “जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिन्दा न होगा।” 12 क्योंकि यहदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं इसलिए कि वही सब का खुदावन्द है और अपने सब दुआ करनेवालों के लिए फ़य्याज़ है। 13 क्योंकि “जो कोई खुदावन्द का नाम लेगा नजात पाएगा।” 14 मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, उस से क्यूँकर दुआ करें? और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यूँ लाएँ? और बग़ैर ऐलान करने वाले की क्यूँकर सुनें? 15 और जब तक वो भेजे न जाएँ ऐलान क्यूँकर करें? चुनौंचे लिखा है “क्या ही ख़शनुमा हैं उनके क़दम जो अच्छी चीज़ों की ख़शख़बरी देते हैं।” 16 लेकिन सब ने इस ख़शख़बरी पर कान न धरा चुनौंचे यसायाह कहता है “ऐ खुदावन्द हमारे पैगाम का किसने यक्रीन किया है?” 17 पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। 18 लेकिन मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? चुनौंचे लिखा है, “उनकी आवाज़ तामा रू'ए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इन्तिहा तक पहुँची।” 19 फिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राईल वाकिफ़ न था? पहले तो मूसा कहता है, “उन से तुम को गैरत दिलाऊँगा जो कौम ही नहीं एक नादान कौम से तुम को गुस्सा दिलाऊँगा।” 20 फिर यसायाह बड़ा दिलेर होकर ये कहता है



जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया जिन्होंने मुझ से नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। 21 लेकिन इस्राईल के हक में यूँ कहता है “मैं दिन भर एक नाफरमान और हुज्जती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढाए रहा।”

**11** पस मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया?

हरगिज़ नहीं क्योंकि मैं भी इस्राईली अब्रहाम की नस्ल और बिनयामीन के कबीले में से हूँ। 2 खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना क्या तुम नहीं जानते कि किताब — ए — मुकद्दस एलियाह के जिक्र में क्या कहती है; कि वो खुदा से इस्राईल की यूँ फरियाद करता है? 3 “ऐ खुदावन्द उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुरबानगाहों को ढा दिया; अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी पीछे हैं।” 4 मगर जवाबए 'इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने “अपने लिए सात हज़ार आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बा'ल के आगे घूटने नहीं टेके।” 5 पस इसी तरह इस वक़्त भी फ़ज़ल से बरगुज़ीदा होने के ज़रिए कुछ बाक़ी हैं। 6 और अगर फ़ज़ल से बरगुज़ीदा हैं तो आ'माल से नहीं; वर्ना फ़ज़ल फ़ज़ल न रहा। 7 पस नतीजा क्या हुआ? ये कि इस्राईल जिस चीज़ की तलाश करता है वो उस को न मिली मगर बरगुज़ीदों को मिली और बाक़ी सख्त किए गए। 8 चुनौचे लिखा है, खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबी'अत दी और ऐसी आँखें जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें। 9 और दाऊद कहता है, उनका दस्तरख्वान उन के लिए जाल और फ़न्दा और ठोकर खाने और सज़ा का ज़रिया बन जाए। 10 उन की आँखों पर अँधेरा छा जाए ताकि न देखें और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। 11 पस मैं पूँछता हूँ क्या यहदियों ने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं; बल्कि उनकी गलती से ग़ैर कौमों को नजात मिली ताकि उन्हें ग़ैरत आए। 12 पस जब उनका लडखडाना दुनिया के लिए दौलत का ज़रिया और उनका घटना ग़ैर कौमों के लिए दौलत का ज़रिया हुआ तो उन का भरपूर होना ज़रूर ही दौलत का ज़रिया होगा 13 मैं ये बातें तुम ग़ैर कौमों से कहता हूँ, चूँकि मैं ग़ैर कौमों का रसूल हूँ इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ। 14 ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों से ग़ैरत दिलाकर उन में से कुछ को नजात दिलाऊँ। 15 क्योंकि जब उनका अलग हो जाना दुनिया के आ मिलने का ज़रिया हुआ तो क्या उन का मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर न होगा? 16 जब नज़्र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंथा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी पाक ही हैं। 17 लेकिन अगर कुछ डालियाँ तोड़ी गईं, और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवन्द हुआ, और जैतून की रौगनदार जड़ में शरीक हो गया। 18 तो तू उन डालियों के मुकाबिले में फ़ख़ न कर और अगर फ़ख़ करेगा तो जान रख कि तू

जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझ को संभालती है। 19 पस तू कहेगा, “डालियाँ इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैवन्द हो जाऊँ।” 20 अच्छा, वो तो बे'ईमानी की वजह से तोड़ी गईं, और तू ईमान की वजह से काईम है; पस मगरर न हो बल्कि ख़ौफ़ कर। 21 क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को न छोड़ा तो तुझ को भी न छोड़ेगा। 22 पस खुदा की महरबानी और सख्ती को देख सख्ती उन पर जो गिर गए हैं; और खुदा की महरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू उस महरबानी पर काईम रहे, वर्ना तू भी काट डाला जाएगा। 23 और वो भी अगर बे'ईमान न रहें तो पैवन्द किए जाएंगे क्योंकि खुदा उन्हें पैवन्द करके बहाल करने पर कादिर है। 24 इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से काट कर जिसकी जड़ ही जंगली है जड़ के बरखिलाफ़ अच्छे जैतून में पैवन्द हो गया तो वो जो जड़ डालियाँ हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पैवन्द हो जाएँगी। 25 ऐ भाइयों! कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आपको अक्लमन्द समझ लो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस राज़ से ना वाकिफ़ रहो कि इस्राईल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक ग़ैर कौमों पूरी पूरी दाखिल न हों वो ऐसा ही रहेगा। 26 और इस सूरत से तमाम इस्राईल नजात पाएगा; चुनौचे लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्यून से निकलेगा और बेदीनी को या'क़ूब से दफ़ा करेगा। 27 “और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जब कि मैं उनके गुनाहों को दूर करूँगा।” 28 इंजील के ऐ'तिबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है लेकिन बरगुज़ीदगी के ऐ'तिबार से बाप दादा की खातिर प्यार करें। 29 इसलिए कि खुदा की ने'अमत और बुलावा ना बदलने वाला है। 30 क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफ़रमान थे मगर अब यहदियों की नाफ़रमानी की वजह से तुम पर रहम हुआ। 31 उसी तरह अब ये भी नाफ़रमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के ज़रिए अब इन पर भी रहम हो। 32 इसलिए कि खुदा ने सब को नाफ़रमानी में गिरफ़्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फ़रमाए। (elese g1653) 33 वाह! खुदा की दौलत और हिक्मत और इल्म क्या ही अज़ीम है उसके फ़ैसले किस कदर पहुँच से बाहर हैं और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। 34 खुदावन्द की अक्ल को किसने जाना? या कौन उसका सलाहकार हुआ? 35 या किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए? 36 क्योंकि उसी की तरफ़ से, और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं; उसकी बड़ाई हमेशा तक होती रहे आमीन। (aiōn g165)

**12** ऐ भाइयों! मैं खुदा की रहमते याद दिला कर तुम से गुज़ारिश करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिन्दा और पाक और खुदा को पसन्दीदा हो यही तुम्हारी मा'कूल इबादत है। 2 और इस जहान के हमशकल न बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसन्दीदा और कामिल मज़ी को तजुर्बा से मा'लूम करते

रहो। (aiōn g165) 3 मैं उस तौफ़ीक़ की वजह से जो मुझ को मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ, कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आपको न समझे बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अन्दाजे के मुवाफ़िक़ ईमान तक्सीम किया है ऐं'तिदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। 4 क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से आ'जा होते हैं और तमाम आ'जा का काम एक जैसा नहीं। 5 उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के आ'जा। 6 और चूँकि उस तौफ़ीक़ के मुवाफ़िक़ जो हम को दी गई; हमें तरह तरह की ने'अमतें मिली इसलिए जिस को नबुव्वत मिली हो वो ईमान के अन्दाजे के मुवाफ़िक़ नबुव्वत करें। 7 अगर ख़िदमत मिली हो तो ख़िदमत में लगा रहे अगर कोई मुअल्लिम हो तो ता'लीम में मशगूल हो। 8 और अगर नासेह हो तो नसीहत में, ख़ैरात बाँटने वाला सखाबत से बाँटे, पेशवा सरगमीं से पेशवाई करें, रहम करने वाला खुशी से रहम करें। 9 मुहब्बत बे 'रिया हो बदी से नफ़रत रक्खो नेकी से लिपटे रहो। 10 बिरादराना मुहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो इज्जत के ऐतबार से एक दूसरे को बेहतर समझो। 11 कोशिश में सुस्ती न करो रूहानी जोश में भरे रहो; ख़ुदावन्द की ख़िदमत करते रहो। 12 उम्मीद में खुश मुसीबत में साबिर दुआ करने में मशगूल रहो। 13 मुक़द्दसों की ज़रूरतें पूरी करो। 14 जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बर्क़त चाहो ला'नत न करो। 15 खुशी करनेवालों के साथ खुशी करो रोने वालों के साथ रोओ। 16 आपस में एक दिल रहो ऊँचे ऊँचे ख़याल न बाँधो बल्कि छोटे लोगों से रिफ़ाक़त रखो अपने आप को अक्लमन्द न समझो। 17 बदी के बदले किसी से बदी न करो; जो बातें सब लोगों के नज़दीक़ अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। 18 जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ़ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। 19 "ऐं अज़ीज़ो! अपना इन्तक़ाम न लो बल्कि ग़ज़ब को मौक़ा दो क्योंकि ये लिखा है ख़ुदावन्द फ़रमाता है इन्तिक़ाम लेना मेरा काम है बदला मैं ही दूँगा।" 20 बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उस को खाना खिला "अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग़ के अंगारों का ढेर लगाएगा।" 21 बदी से मग़लूब न हो बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर ग़ालिब आओ।

**13** हर शाख़्स आ'ला हुकूमतों का ता'बेदार रहे क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ़ से न हो और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ़ से मुक़रर हैं। 2 पस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इन्तिज़ाम का मुखालिफ़ है और जो मुखालिफ़ है वो सज़ा पाएगा। 3 नेक — ओ कारों को हाकिमों से ख़ौफ़ नहीं बल्कि बदकार को है, पस अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नेकी कर उसकी तरफ़ से तेरी तारीफ़ होगी। 4

क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बे'फ़ाइदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके ग़ज़ब के मुवाफ़िक़ बदकार को सज़ा देता है 5 पस ताबे दार रहना न सिर्फ़ ग़ज़ब के डर से ज़रूर है बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। 6 तुम इसी लिए लगान भी देते हो कि वो खुदा का खादिम है और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। 7 सब का हक़ अदा करो जिस को लगान चाहिए लगान दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल जिससे डरना चाहिए उस से डरो, जिस की इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। 8 आपस की मुहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्ज़दार न हो क्योंकि जो दूसरे से मुहब्बत रखता है उसने शरी'अत पर पूरा अमल किया। 9 क्योंकि ये बातें कि जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, लालच न कर और इसके सिवा और जो कोई हुकूम हो उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है "अपने पड़ोसी से अपनी तरह मुहब्बत रख।" 10 मुहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती इस वास्ते मुहब्बत शरी'अत की ता'लीम है। 11 वक़्त को पहचानकर ऐसा ही करो इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुँची कि तुम नीद से जागो; क्योंकि जिस वक़्त हम ईमान लाए थे उस वक़्त की निस्वत अब हमारी नजात नज़दीक़ है। 12 रात बहुत गुज़र गई, और दिन निकलने वाला है पस हम अंधेरे के कामों को तर्क करके रौशनी के हथियार बाँध लें। 13 जैसा दिन को दस्तर है संजीदगी से चलें न कि नाच रंग और नशेबाज़ी से न जिनाकारी और शहवत परस्ती से और न झगड़े और हसद से। 14 बल्कि ख़ुदावन्द ईसा मसीह को पहन लो और जिस्म की ख़वाहिशों के लिए तदबीर न करो।

**14** कमज़ोर ईमान वालों को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक' और शबह की तकरारों के लिए नहीं। 2 हर एक का मानना है कि हर चीज़ का खाना जाएज है और कमज़ोर ईमानवाला साग़ पात ही खाता है। 3 खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर न जाने और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम न लगाए; क्योंकि खुदा ने उसको कुबूल कर लिया है। 4 तू कौन है, जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका काईम रहना या गिर पडना उसके मालिक ही से मुता'ल्लिक़ है; बल्कि वो काईम ही कर दिया जाए क्योंकि ख़ुदावन्द उसके काईम करने पर कादिर है। 5 कोई तो एक दिन को दूसरे से अफ़ज़ल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है हर एक अपने दिल में पूरा ऐं'तिक़ाद रखे। 6 जो किसी दिन को मानता है वो ख़ुदावन्द के लिए मानता है और जो खाता है वो ख़ुदावन्द के वास्ते खाता है क्योंकि वो खुदा का शक़ करता है और जो नहीं खाता वो भी ख़ुदावन्द के वास्ते नहीं खाता, और ख़ुदावन्द का शक़ करता है। 7 क्योंकि हम में से न कोई अपने वास्ते जीता है, न कोई अपने वास्ते मरता है। 8 अगर हम जीते हैं

तो खुदावन्द के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावन्द के वास्ते मरते हैं; पस हम जिंएँ या मरें खुदावन्द ही के हैं। 9 क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जिन्दा हुआ कि मुर्दों और जिन्दों दोनों का खुदावन्द हो। 10 मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्त — ए — अदालत के आगे खड़े होंगे। 11 चुनौचे ये लिखा है; खुदावन्द फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। 12 पस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। 13 पस आइन्दा को हम एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएँ बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ न रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का जरिया हो। 14 मुझे मा'लूम है बल्कि खुदावन्द ईसा में मुझे यकीन है कि कोई चीज़ बजाहित हराम नहीं लेकिन जो उसको हराम समझता है उस के लिए हराम है। 15 अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुँचता है तो फिर तू मुहब्बत के का'इदे पर नहीं चलता; जिस शख्स के वास्ते मसीह मरा तू अपने खाने से हलाक न कर। 16 पस तुम्हारी नेकी की बदनामी न हो। 17 क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाज़ी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह — उल — कुद्स की तरफ से होती है। 18 जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है; वो खुदा का पसन्दीदा और आदमियों का मकबूल है। 19 पस हम उन बातों के तालिब रहें; जिनसे मेल मिलाप और आपसी तरक्की हो। 20 खाने की खातिर खुदा के काम को न बिगाड़ हर चीज़ पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है; जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। 21 यही अच्छा है कि तू न गोश्त खाए न मय पिए न और कुछ ऐसा करे जिस की वजह से तेरा भाई ठोकर खाए। 22 जो तेरा ऐ'तिक़ाद है वो खुदा की नज़र में तेरे ही दिल में रहे, मुबारिक वो है जो उस चीज़ की वजह से जिसे वो जायज़ हिम्मत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने ग़ैर क़ौमों के ताबे रखता है अपने आप को मुल्जिम नहीं ठहराता। 23 मगर जो कोई किसी चीज़ में शक रखता है अगर उस को खाए तो मुजरिम ठहरता है इस वास्ते कि वो ऐ'तिक़ाद से नहीं खाता, और जो कुछ ऐ'तिक़ाद से नहीं वो गुनाह है।

**15** गरज़ हम ताक़तवरों को चाहिए कि कमज़ोरों के कमज़ोरियों की रि'आयत करें न कि अपनी खुशी करें। 2 हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे; ताकि उसकी तरक्की हो। 3 क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की “बल्कि यूँ लिखा है; तेरे लान तान करनेवालों के लान'तान मुझ पर आ पड़े।” 4 क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं, वो हमारी ता'लीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब और किताब'ए मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखे। 5 और खुदा सब और तसल्ली का चश्मा

तुम को ये तौफ़ीक़ दे कि मसीह ईसा के मुताबिक आपस में एक दिल रहो। 6 ताकि तुम एक दिल और एक ज़बान हो कर हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के खुदा और बाप की बड़ाई करो। 7 पस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुम को अपने साथ शामिल कर लिया है उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। 8 में कहता हूँ कि खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मसीह मख्तुनों का खादिम बना ताकि उन वा'दों को पूरा करूँ जो बाप दादा से किए गए थे। 9 और ग़ैर क़ौमों भी रहम की वजह से खुदा की हम्द करें चुनौचे लिखा है, “इस वास्ते मैं ग़ैर क़ौमों में तेरा इकरार करूँगा और तेरे नाम के गीत गाऊँगा।” 10 और फिर वो फरमाता है “ऐ'ग़ैर क़ौमों उसकी उम्मत के साथ खुशी करो।” 11 फिर ये “ऐ, ग़ैर क़ौमों खुदावन्द की हम्द करो और उम्मतें उसकी सिताइश करें!” 12 और यसायाह भी कहता है यस्सी की जड़ ज़ाहिर होगी या'नी वो शख्स जो ग़ैर क़ौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से ग़ैर क़ौमों उम्मीद रखेंगी। 13 पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के ज़रिए सारी खुशी और इल्मीनान से मा'भूर करे ताकि रूह — उल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। 14 ऐ मेरे भाइयों; मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ कि तुम आप नेकी से मा'भूर और मुकम्मल मा'रिफ़त से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। 15 तोभी मैं ने कुछ जगह ज़्यादा दिलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुम को लिखा; कि मुझ को खुदा की तरफ से ग़ैर क़ौमों के लिए मसीह ईसा मसीह के खादिम होने की तौफ़ीक़ मिली है। 16 कि मैं खुदा की खुशख़बरी की खिदमत इमाम की तरह अंजाम दूँ ताकि ग़ैर क़ौमों नज़ के तौर पर रूह — उल कुद्स से मुकद्दस बन कर मकबूल हो जाएँ। 17 पस मैं उन बातों में जो खुदा से मुतल्लिक हैं मसीह ईसा के ज़रिए फ़ख़ कर सकता हूँ। 18 क्योंकि मुझे किसी और बात के ज़िक्र करने की हिम्मत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने ग़ैर क़ौमों के ताबे करने के लिए क़ौल और फ़ैल से निशानों और मोजिज़ों की ताक़त से और रूह — उल कुद्स की कुदरत से मेरे वसीले से कीं। 19 यहाँ तक कि मैंने येरूशलेम से लेकर चारों तरफ इल्तुरिकुम सूबे तक मसीह की खुशख़बरी की पूरी पूरी मनादी की। 20 और मैं ने यही हौसला रखा कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशख़बरी सुनाऊँ ताकि दूसरे की बुनियाद पर इमारत न उठाऊँ। 21 बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो जिनको उसकी ख़बर नहीं पहुँची वो देखेंगे; और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। 22 इसी लिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रूका रहा। 23 मगर चूँकि मुझ को अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक़ भी हूँ। 24 इसलिए जब इस्फ़ानिया मुल्क को जाऊँगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊँगा; क्योंकि मुझे उम्मीद है

कि उस सफर में तुम से मिलूँगा और जब तुम्हारी सोहबत से किसी भी माँ है दोनों से सलाम कहो। 14 असुक्रितुस और फलिगोन और कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। 25 हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उन भाइयों से जो उनके लेकिन फिलहाल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए येरुशलेम साथ हैं सलाम कहो। 15 फिल्लुगुस और यूलिया और नयरयूस को जाता हूँ। 26 क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोग येरुशलेम और उसकी बहन और उलुम्पास और सब मुकद्दसों से जो उन के के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चन्दा करने को रजामन्द हुए। 27 साथ हैं सलाम कहो। 16 आपस में पाक बोसा लेकर एक दूसरे को किया तो रजामन्दी से मगर वो उनके कर्जदार भी हैं क्योंकि जब सलाम करो मसीह की सब कलीसियाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। गैर क्रौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि 17 अब ऐ, भाइयों में तुम से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग उस जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। 28 पस मैं इस खिदमत को ता'लीम के बरखिलाफ जो तुम ने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास का ज़रिया हैं उन को पहचान लो और उनसे किनारा करो। 18 होता हुआ इस्कानिया को जाऊँगा। 29 और मैं जानता हूँ कि जब क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावन्द मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की कामिल बर्कत लेकर आऊँगा। 30 की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को ऐ, भाइयों; मैं ईसा मसीह का जो हमारा खुदावन्द है वास्ता देकर बहकाते हैं, 19 क्योंकि हमारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है और रूह की मुहब्बत को याद दिला कर तुम से गुजारिश करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी कि मेरे लिए खुदा से दुआ करने में मेरे साथ मिल कर मेहनत करो। के ऐतिबार से अक्लामंद बन जाओ और बदी के ऐतिबार से भोले 31 कि मैं यहदिया के नाफरमानों से बचा रहूँ, और मेरी वो खिदमत बने रहो। 20 खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है जैतान तुम्हारे पाँव से जो येरुशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसन्द आए। 32 और खुदा की जल्द कुचलवा देगा। हमारे खुदावन्द ईसा मसीह का फज़ल तुम पर मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊँ होता रहे। 21 मेरे हमखिदमत तीमथियुस और मेरे रिश्तेदार लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस तुम्हें सलाम कहते हैं। 22 इस खत का कातिब तिरतियुस तुम को खुदावन्द में सलाम कहता है। 23 गयुस मेरा और सारी कलीसिया का मेहमानदार तुम्हें सलाम कहता है इरास्तुस शहर का खजांची और भाई क्वारतुस तुम को सलाम कहते हैं। 24 हमारे खुदावन्द ईसा मसीह का फज़ल तुम सब के साथ हो; आमीन। 25 अब खुदा जो तुम को मेरी रूशखबरी या'नी ईसा मसीह की मनादी के मुवाफिक मजबूत कर सकता है, उस राज के मुकाशफा के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा रहा। (aiōnios g166) 26 मगर इस वक़्त जाहिर हो कर खुदा'ए अज़ली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के ज़रिए से सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबे हो जाएँ। (aiōnios g166) 27 उसी वाहिद हकीम खुदा की ईसा मसीह के वसीले से हमेशा तक बड़ाई होती रहे। आमीन। (aiōn g165)

**16** मैं तुम से फ्रीबे की जो हमारी बहन और किन्खरिया शहर की कलीसिया की खादिमा है सिफ़ारिश करता है। 2 कि तुम उसे खुदावन्द में कुबूल करो, जैसा मुकद्दसों को चाहिए और जिस काम में वो तुम्हारी मोहतাজ हो उसकी मदद करो क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है; बल्कि मेरी भी। 3 प्रिस्का और अक्विला से मेरा सलाम कहो जो मसीह ईसा में मेरे हमखिदमत हैं। 4 उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सिर दे रखवा था; और सिर्फ़ में ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएँ भी उनकी शुक्रगुजार हैं। 5 और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उन के घर में है; मेरे प्यारे अर्पीनितुस से सलाम कहो जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। 6 मरियम से सलाम कहो; जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की। 7 अन्दनीकुस और यून्यास से सलाम कहो जो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे, और रसूलों में नामवर हैं और मुझ से पहले मसीह में शामिल हुए। 8 अम्पलियातुस से सलाम कहो जो खुदावन्द में मेरा प्यारा है। 9 उरबानुस से जो मसीह में हमारा हमखिदमत है और मेरे प्यारे इस्तखुस से सलाम कहो। 10 अपिल्लेस से सलाम कहो जो मसीह में मकबूल है अरिस्तुबुलुस के घर वालों से सलाम कहो। 11 मेरे रिश्तेदार हेरोदियून से सलाम कहो; नरकिस्सुस के उन घरवालों से सलाम कहो जो खुदावन्द में हैं। 12 त्रैफ़ैना ब्रुफोसा से सलाम कहो जो खुदावन्द में मेहनत करती है प्यारी परसिस से सलाम कहो जिसने खुदावन्द में बहुत मेहनत की। 13 स्फ़ुस जो खुदावन्द में बरगुज़ीदा है और उसकी माँ जो मेरी

# 1 कुरिन्थियों

**1** पौलुस रसूल की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से ईसा मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया है और भाई सोस्थिनेस की तरफ से, ये खत, 2 खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस शहर में है, या'नी उन के नाम जो मसीह ईसा में पाक किए गए, और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावन्द ईसा मसीह का नाम लेते हैं। 3 हमारे बाप खुदा और खुदावन्द ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें फ़जल और इत्मीनान हासिल होता रहे। 4 मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फ़जल के जरिए जो मसीह ईसा में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। 5 कि तुम उस में होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमन्द हो गए, हो। 6 चुनौचे मसीह की गवाही तुम में काईम हुई। 7 यहाँ तक कि तुम किसी ने'मत में कम नहीं, और हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के ज़हर के मुन्तज़िर हो। 8 जो तुम को आखिर तक काईम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावन्द 'ईसा' मसीह के दिन बे'इल्जाम ठहरो। 9 खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। 10 अब ऐ भाइयों! ईसा मसीह जो हमारा खुदावन्द है, उसके नाम के वसीले से मैं तुम से इत्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो, और तुम में तफ़्क़े न हों, बल्कि एक साथ एक दिल और एक राय हो कर कामिल बने रहो। 11 क्योंकि ऐ भाइयों! तुम्हारे जरिए मुझे खलोए के घर वालों से मा'लुम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। 12 मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आपको पौलुस का कहता है कोई अपुल्लोस का कोई कैफ़ा का कोई मसीह का। 13 क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मस्लूब हुआ? या तुम ने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? 14 खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिसपुस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। 15 ताकि कोई ये न कहे कि तुम ने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। 16 हौं स्तिफ़नास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो। 17 क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को और वो भी कलाम की हिक्मत से नहीं ताकि मसीह की सलीबी मौत बे'ताशीर न हो। 18 क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बे'वकूफी है मगर हम नजात पानेवालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। 19 क्योंकि लिखा है, "मैं हकीमों की हिक्मत को नेस्त और अक्लमन्दों की अक्ल को रद्द करूँगा।" 20 कहाँ का हकीम? कहाँ का आलिम? कहाँ का इस जहान का बहस करनेवाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिक्मत को बे'वकूफी नहीं ठहराया? (aiōn g165) 21 इसलिए कि जब खुदा की

हिक्मत के मुताबिक़ दुनियाँ ने अपनी हिक्मत से खुदा को न जाना तो खुदा को ये पसन्द आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीले से ईमान लानेवालों को नजात दे। 22 चुनौचे यहदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिक्मत तलाश करते हैं। 23 मगर हम उस मसीह मस्लूब का ऐलान करते हैं जो यहदियों के नज़दीक ठोकर और ग़ैर क़ौमों के नज़दीक बेवकूफी है। 24 लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहदी हों या यूनानी उन के नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिक्मत है। 25 क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिक्मत से ज़्यादा हिक्मत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज़्यादा ताकतवर है। 26 ऐ भाइयों! अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज़ से बहुत से हकीम बहुत से इख्तियार वाले बहुत से अशराफ़ नहीं बुलाए गए। 27 बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों चुन लिया कि हकीमों को शर्मिन्दा करे और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरआवरों को शर्मिन्दा करे। 28 और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीमों को बल्कि बे वजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। 29 ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख़ न करे। 30 लेकिन तुम उसकी तरफ़ से मसीह ईसा में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ़ से हिक्मत ठहरा, या'नी रास्तबाज़ी और पाकीज़गी और मख़्लसी। 31 ताकि जैसा लिखा है "वैसा ही हो जो फ़ख़ करे वो खुदावन्द पर फ़ख़ करे।"

**2** ऐ भाइयों! जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा तो आ'ला दर्जे की तकरीर या हिक्मत के साथ नहीं आया। 2 क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान ईसा मसीह, मसलूब के सिवा और कुछ न जानूँगा। 3 और मैं कमजोरी और ख़ौफ़ और बहुत थर थराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। 4 और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिक्मत की लुभाने वाली बातें न थीं बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं। 5 ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिक्मत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौक़ूफ़ हो। 6 फिर भी कामिलों में हम हिक्मत की बातें कहते हैं लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होनेवाले हाकिमों की अक्ल नहीं। (aiōn g165) 7 बल्कि हम खुदा के राज़ की हकीक़त बातों के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरु से पहले हमारे जलाल के वास्ते मुक़र्रर की थी। (aiōn g165) 8 जिसे इस दुनिया के सरदारों में से किसी ने न समझा क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन्द को मस्लूब न करते। (aiōn g165) 9 "बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ जो चीज़ें न आँखों ने देखीं न कानों ने सुनीं न आदमी के दिल में आईं वो सब खुदा ने अपने मुहब्बत रखनेवालों के लिए तैयार कर दी।" 10 लेकिन हम पर खुदा ने उसको रूह के जरिए से जाहिर किया क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ़्त कर लेता है। 11 क्योंकि

इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उस में है? उसी तरह ख़ुदा के रूह के सिवा कोई ख़ुदा की बातें नहीं जानता। 12 मगर हम ने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो ख़ुदा की तरफ से है; ताकि उन बातों को जानें जो ख़ुदा ने हमें इनायत की है। 13 और हम उन बातों को उन अल्फ़ाज़ में नहीं बयान करते जो इंसानी हिक्मत ने हम को सिखाए हों बल्कि उन अल्फ़ाज़ में जो रूह ने सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबिला करते हैं। 14 मगर जिस्मानी आदमी ख़ुदा के रूह की बातें क्लबूल नहीं करता क्योंकि वो उस के नज़दीक बेवकूफी की बातें हैं और न वो इन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। 15 लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है; मगर ख़ुदा किसी से परखा नहीं जाता। 16 “ख़ुदावन्द की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अक्ल है।”

**3** ऐ भाइयों! मैं तुम से उस तरह कलाम न कर सका जिस तरह रूहानियों से बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उन से जो मसीह में बच्चे हैं। 2 मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना न खिलाया क्योंकि तुम को उसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अब भी नहीं। 3 क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो इसलिए कि जब तुम मैं हसद और झगडा है तो क्या तुम जिस्मानी न हुए और इंसानी तरीके पर न चले? 4 इसलिए कि जब एक कहता है “मैं पौलुस का हूँ” और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ तो क्या तुम इंसान न हुए? 5 अपुल्लोस क्या चीज़ है? और पौलुस क्या? खादिम जिनके वसीले से तुम इमान लाए और हर एक को वो हैसियत है जो ख़ुदावन्द ने उसे बख़्शी। 6 मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया मगर बढ़ाया ख़ुदा ने। 7 पस न लगाने वाला कुछ चीज़ है न पानी देनेवाला मगर ख़ुदा जो बढ़ाने वाला है। 8 लगानेवाला और पानी देनेवाला दोनों एक हैं लेकिन हर एक अपना अज़ अपनी मेहनत के मुवाफ़िक़ पाएगा। 9 क्योंकि हम ख़ुदा के साथ काम करनेवाले हैं तुम ख़ुदा की खेती और ख़ुदा की इमारत हो। 10 मैंने उस तौफ़िक़ के मुवाफ़िक़ जो ख़ुदा ने मुझे बख़्शी अक्लमंद मिर्ची की तरह नीव रखी, और दूसरा उस पर इमारत उठाता है पस हर एक खबरदार रहे, कि वो कैसी इमारत उठाता है। 11 क्योंकि सिवा उस नीव के जो पड़ी हुई है और वो ईसा मसीह है कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। 12 और अगर कोई उस नीव पर सोना या चाँदी या बेशक़ीमती पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्द रखे। 13 तो उस का काम ज़ाहिर हो जाएगा क्योंकि जो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग ख़ुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। 14 जिस का काम उस पर बना हुआ बाक़ी रहेगा, वो अज़ पाएगा। 15 और जिस का काम जल जाएगा, वो नुक्सान उठाएगा; लेकिन ख़ुद बच

जाएगा मगर जलते जलते। 16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम ख़ुदा का मक़दिस हो और ख़ुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? 17 अगर कोई ख़ुदा के मक़दिस को बरबाद करेगा तो ख़ुदा उसको बरबाद करेगा, क्योंकि ख़ुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। 18 कोई अपने आप को धोखा न दे अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे, तो बेवकूफ़ बने ताकि हकीम हो जाए। (aiōn 9:165) 19 क्योंकि दुनियाँ की हिक्मत ख़ुदा के नज़दीक बेवकूफी है: चुनौचे लिखा है, “वो हकीमों को उन ही की चालाकी में फँसा देता है।” 20 और ये भी, ख़ुदावन्द हकीमों के खयालों को जानता है “कि बातिल है।” 21 पस आदमियों पर कोई फ़रज़ न करो क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं। 22 चाहे पौलुस हो, चाहे अपुल्लोस, चाहे कैफ़ा, चाहे दुनिया, चाहे जिन्दगी, चाहे मौत, चाहे हाल, की चीज़ें, चाहे इस्तक़बाल की, 23 सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो, और मसीह ख़ुदा का है।

**4** आदमी हम को मसीह का ख़ादिम और ख़ुदा के हिक्मत का मुख़्तार समझे। 2 और यहाँ मुख़्तार में ये बात देखी जाती है के दियातदार निकले। 3 लेकिन मेरे नज़दीक ये निहायत छोटी बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे: बल्कि मैं ख़ुद भी अपने आप को नहीं परखता। 4 क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता मगर इस से मैं रास्तबाज़ नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला ख़ुदावन्द है। 5 पस जब तक ख़ुदावन्द न आए, वक़्त से पहले किसी बात का फ़ैसला न करो; वही तारीकी की पोशीदा बातें रौशन कर देगा और दिलों के मन्सूबे ज़ाहिर कर देगा और उस वक़्त हर एक की तारीफ़ ख़ुदा की तरफ से होगी। 6 ऐ भाइयों! मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपुल्लोस का ज़िक़्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से बढ कर न करो और एक की ताईद में दूसरे के बरख़िलाफ़ शेखी न मारो। 7 तुझ में और दूसरे में कौन फ़र्क़ करता है? और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो तू ने दूसरे से नहीं पाई? और जब तूने दूसरे से पाई तो फ़रज़ क्यूँ करता है कि गोया नहीं पाई? 8 तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमन्द हो और तुम ने हमारे बग़ैर बादशाही की: और काश कि तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। 9 मेरी दानिस्त में ख़ुदा ने हम रसूलों को सब से अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कल्ल का हुक्म हो चुका हो; क्योंकि हम दुनिया और फ़रिशतों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। 10 हम मसीह की खातिर बेवकूफ़ हैं मगर तुम मसीह में अक्लमन्द हो: हम कमज़ोर हैं और तुम ताक़तवर तुम इज़्ज़त दार हो: और हम बेइज़्ज़त। 11 हम इस वक़्त तक भुखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं। 12 और अपने हाथों से काम करके मशक्क़त उठाते हैं लोग बुरा

कहते हैं हम दुआ देते हैं वो सताते हैं हम सहते हैं। 13 वो बदनाम करते हैं हम मिन्नत समाजत करते हैं हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झड़न की तरह हैं। 14 मैं तुम्हें शर्मिन्दा करने के लिए ये नहीं लिखता: बल्कि अपना प्यारा बेटा जानकर तुम को नसीहत करता हूँ। 15 क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद दस हज़ार भी होते तोभी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं: इसलिए कि मैं ही इन्जील के वसीले से मसीह ईसा में तुम्हारा बाप बना। 16 पस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी तरह बनो। 17 इसी वास्ते मैंने तीमथियस को तुम्हारे पास भेजा; कि वो खुदावन्द में मेरा प्यारा और दियानतदार बेटा है और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में हैं तुम्हें याद दिलाएगा; जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में ता'लीम देता हूँ। 18 कुछ ऐसी शेखी मारते हैं गोया कि तुम्हारे पास आने ही का नहीं। 19 लेकिन खुदावन्द ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊँगा और शेखी बाजों की बातों को नहीं, बल्कि उनकी कुदरत को मा'ल्तूम करूँगा। 20 क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं, बल्कि कुदरत पर मौक़ूफ़ है। 21 तुम क्या चाहते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या मुहब्बत और नर्म मीजाजी से?

**5** यहाँ तक कि सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है बल्कि ऐसी हरामकारी जो ग़ैर क़ौमों में भी नहीं होती: चुनौचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की दूसरी बीवी को रखता है। 2 और तुम अफ़सोस तो करते नहीं ताकि जिस ने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए बल्कि शेखी मारते हो। 3 लेकिन मैं अगरचे जिस्म के ऐतिबार से मौजूद न था, मगर रूह के ऐतिबार से हाज़िर होकर गोया बहालत' — ए — मौजूदगी ऐसा करने वाले पर ये हुक्म दे चुका हूँ। 4 कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदावन्द ईसा मसीह की कुदरत के साथ जमा हो तो ऐसा शख्स हमारे खुदावन्द 'ईसा के नाम से। 5 जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उस की रूह खुदावन्द ईसा के दिन नजात पाए। 6 तुम्हारा फ़ुज़्र करना ख़ूब नहीं क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 7 पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंथा हुआ आटा बन जाओ चुनौचे तुम बे खमीर हो क्योंकि हमारा भी फ़सह यानी मसीह कुर्बान हुआ। 8 पस आओ हम ईद करें न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ़ दिली और सच्चाई की बे खमीर रोटी से। 9 मैंने अपने ख़त में तुम को ये लिखा था कि हरामकारों से सहबत न रखना। 10 ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या ज़ालिमों या बुतपरस्तों से मिलना ही नहीं; क्योंकि इस सूरत में तो तुम को दुनिया ही से निकल जाना पडता। 11 यहाँ तक कि सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है बल्कि ऐसी हरामकारी जो ग़ैर क़ौमों में भी नहीं होती: चुनौचे तुम में से एक

शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है। लेकिन मैंने तुम को दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतपरस्त या गाली देने वाला शराबी या ज़ालिम हो तो उस से सहबत न रखो; बल्कि ऐसे के साथ खाना तक न खाना। 12 क्योंकि मुझे कलीसिया के बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता? क्या ऐसा नहीं है कि तुम तो कलीसिया के अन्दर वालों पर हुक्म करते हो। 13 मगर बाहर वालों पर ख़ुदा हुक्म करता है, पस उस शरीर आदमी को अपने दर्मियान से निकाल दो।

**6** क्या तुम में से किसी को ये ज़ुर'अत है कि जब दूसरे के साथ मुक़द्दमा हो तो फ़ैसले के लिए बेदीन आदिलों के पास जाए; और मुक़द्दसों के पास न जाए। 2 क्या तुम नहीं जानते कि मुक़द्दस लोग दुनिया का इन्साफ़ करेंगे? पस जब तुम को दुनिया का इन्साफ़ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फ़ैसले करने के लायक नहीं हो? 3 क्या तुम नहीं जानते कि हम फ़रिशतों का इन्साफ़ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मु'आमिले के फ़ैसले न करें? 4 पस अगर तुम में दुनियावी मुक़द्दमे हों तो क्या उन को मुंसिफ़ मुक़र्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं। 5 मैं तुम्हें शर्मिन्दा करने के लिए ये कहता हूँ; क्या वाक़'ई तुम में एक भी समझदार नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फ़ैसला कर सके। 6 बल्कि भाई भाइयों में मुक़द्दमा होता है और वो भी बेदीनों के आगे! 7 लेकिन दर'असल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुक़द्दमा बाज़ी करते हो; ज़ुल्म उठाना क्यूँ नहीं बेहतर जानते? अपना नुक्सान क्यूँ नहीं कुबूल करते? 8 बल्कि तुम ही ज़ुल्म करते और नुक्सान पहुँचाते हो और वो भी भाइयों को! 9 क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे धोखा न खाओ न हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे न बुतपरस्त, न ज़िनाकार, न अथ्याश, न लौंडे बाज़, 10 न चोर, न लालची, न शराबी, न गालियों बकने वाले, न ज़ालिम, 11 और कुछ तुम में ऐसे ही थे भी, 'मगर तुम खुदावन्द ईसा मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धूल गए और पाक हुए और रास्तबाज़ भी ठहरे। 12 सब चीज़ें मेरे लिए जायज़ तो हैं मगर सब चीज़ें मुफ़ीद नहीं; सब चीज़ें मेरे लिए जायज़ तो हैं; लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबन्द न हूँगा। 13 खाना पेट के लिए है और पेट खाने के लिए लेकिन ख़ुदा उसको और इनको नेस्त करेगा मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावन्द के लिए है और खुदावन्द बदन के लिए। 14 और ख़ुदा ने खुदावन्द को भी जिलाया और हम को भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। 15 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के आ'जा है? पस क्या मैं मसीह के आ'जा लेकर कस्बी के आ'जा बनाऊँ हरगिज़ नहीं। 16 क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कस्बी से सहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है? क्यूँकि वो फ़रमाता है, "वो दोनों एक तन होंगे।"

17 और जो खुदावन्द की सुहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। 18 हरामकारी से भागो जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है; मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। 19 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह — उल — कुदूस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से मिला है? और तुम अपने नहीं। 20 क्योंकि क़ीमत से खरीदे गए हो; पस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो।

**7** जो बातें तुम ने लिखी थीं उनकी वजह ये हैं मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को न छुए। 2 लेकिन हरामकारी के अन्देशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। 3 शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शौहर का। 4 बीवी अपने बदन की मुख़्तार नहीं बल्कि शौहर है इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख़्तार नहीं बल्कि बीवी। 5 तुम एक दूसरे से जुदा न रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रज़ामन्दी से, ताकि दुआ के लिए वक़्त मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ ऐसा न हो कि गल्बा — ए — नपस की वजह से शैतान तुम को आजमाए। 6 लेकिन मैं ये इजाज़त के तौर पर कहता हूँ हुक्म के तौर पर नहीं। 7 और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास तौफ़ीक़ मिली है किसी को किसी तरह की किसी को किसी तरह की। 8 पस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ; कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। 9 लेकिन अगर सन्न न कर सकें तो शादी कर लें; क्योंकि शादी करना मस्त होने से बेहतर है। 10 मगर जिनकी शादी हो गई है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावन्द हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा न हो। 11 (और अगर जुदा हो तो बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले) न शौहर बीवी को छोड़े। 12 बाकियों से मैं ही कहता हूँ न खुदावन्द कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान न हो और उस के साथ रहने को राज़ी हो तो वो उस को न छोड़े। 13 और जिस 'औरत का शौहर बा'ईमान न हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो शौहर को न छोड़े। 14 क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी की वजह से पाक ठहरता है; और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीह शौहर के ज़रिए पाक ठहरती है वना तुम्हारे बेटे नापाक होते मगर अब पाक है। 15 लेकिन मर्द जो बा'ईमान न हो अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबन्द नहीं और खुदा ने हम को मेल मिलाप के लिए बुलाया है। 16 क्योंकि ऐ 'औरत तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले? और ऐ मर्द तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। 17 मगर जैसा खुदावन्द ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले; और मैं सब क़लीसियाओं में ऐसा ही मुक़र्र करता हूँ। 18 जो मख़्तून बुलाया

गया वो नामख़्तून न हो जाए जो नामख़्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मख़्तून न हो जाए। 19 न खतना कोई चीज़ है नामख़्तूनी बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। 20 हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। 21 अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फ़िक्र न कर लेकिन अगर तू आज़ाद हो सके तो इसी को इख़्तियार कर। 22 क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन्द में बुलाया गया है वो खुदावन्द का आज़ाद किया हुआ है; इसी तरह जो आज़ादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। 23 तुम मसीह के ज़रिए खास क़ीमत से खरीदे गए हो आदमियों के गुलाम न बनो। 24 ऐ भाइयों! जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। 25 कुंवारीयों के हक में मेरे पास खुदावन्द का कोई हुक्म नहीं लेकिन दियानतदार होने के लिए जैसा खुदावन्द की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुवाफ़िक़ अपनी राय देता हूँ। 26 पस मौजूदा मुसीबत के खयाल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। 27 अगर तेरी बीवी है तो उस से जुदा होने की कोशिश न कर और अगर तेरी बीवी नहीं तो बीवी की तलाश न कर। 28 लेकिन तू शादी करे भी तो गुनाह नहीं और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ़ पाएँगे, और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। 29 मगर ऐ भाइयों! मैं ये कहता हूँ कि वक़्त तंग है पस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनकी बीवियाँ नहीं। 30 और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते; और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते; और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते। 31 और दुनियावी कारोबार करनेवाले ऐसे हों कि दुनिया ही के न हो जाएँ, क्योंकि दुनिया की शक़ल बदलती जाती है। 32 पस मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफ़िक्र रहो, बे ब्याहा शख्स खुदावन्द की फ़िक्र में रहता है कि किस तरह खुदावन्द को राज़ी करे। 33 मगर शादी हुआ शख्स दुनिया की फ़िक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राज़ी करे। 34 शादी और बेशादी में भी फ़र्क़ है वे शादी खुदावन्द की फ़िक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फ़िक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राज़ी करे। 35 ये तुम्हारे फ़ाइदे के लिए कहता हूँ न कि तुम्हें फ़साने के लिए; बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावन्द की ख़िदमत में बिना शक़ किए मशग़ूल रहो। 36 अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी लड़की की हक़तल्फ़ी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चली है और ज़रूरत भी मा'लूम हो तो इख़्तियार है इस में गुनाह नहीं वो उसकी शादी होने दे। 37 मगर जो अपने दिल में पुख़्ता हो और इस की कुछ ज़रूरत न हो बल्कि अपने इरादे के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में अहद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को



बेनिकाह रखूँगा वो अच्छा करता है। 38 पस जो अपनी कुँवारी लड़की को शादी कर देता है वो अच्छा करता है और जो नहीं करता वो और भी अच्छा करता है। 39 जब तक कि 'औरत का शौहर जीता है वो उस की पाबन्द है पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे शादी कर सकती है मगर सिर्फ़ खुदावन्द में। 40 लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुश नसीब है और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है।

**8** अब बुतों की कुर्बानियों के बारे में ये है हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं इल्म गुस्त्र पैदा करता है लेकिन मुहब्बत तरक्की का जरिया है। 2 अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। 3 लेकिन जो कोई खुदा से मुहब्बत रखता है उस को खुदा पहचानता है। 4 पस बुतों की कुर्बानियों के गोशत खाने के जरिए हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। 5 अगरचे आसमान — ओ — ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं चुनौचे बहुत से खुदा और बहुत से खुदावन्द हैं। 6 लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है या'नी बाप जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं और एक ही खुदावन्द है या'नी 'ईसा मसीह जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुईं और हम भी उसी के वसीले से हैं। 7 लेकिन सब को ये इल्म नहीं बल्कि कुछ को अब तक बुतपरस्ती की आदत है इसलिए उस गोशत को बुत की कुर्बानी जान कर खाते हैं और उसका दिल, चुँकि कमज़ोर है, गन्दा हो जाता है। 8 खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा; अगर न खाएँ तो हमारा कुछ नुक़सान नहीं और अगर खाएँ तो कुछ फ़ाइदा नहीं। 9 लेकिन होशियार रहो ऐसा न हो कि तुम्हारी आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का जरिया हो जाए। 10 क्योंकि अगर कोई तुज़ साहिब'ए इल्म को बुत खाने में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शरख़ हो तो क्या उस का दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर मज़बूत न हो जाएगा? 11 गरज़ तेरे इल्म की वजह से वो कमज़ोर शरख़ या'नी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मरा, हलाक हो जाएगा। 12 और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमज़ोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। 13 इस वजह से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोशत न खाऊँगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर की वजह न बनूँ। (aiōn g165)

**9** क्या मैं आज़ाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने 'ईसा को नहीं देखा जो हमारा खुदावन्द है? क्या तुम खुदावन्द में मेरे बनाए हुए नहीं? 2 अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए बेशक हूँ क्योंकि तुम खुदावन्द में मेरी रिसालत पर मुहर हो। 3 जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। 4 क्या

हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? 5 क्या हम को ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीह बहन को शादी कर के लिए फ़िरें, जैसा और रसूल और खुदावन्द के भाई और कैफ़ा करते हैं। 6 या सिर्फ़ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्कत से बाज़ रहने का इख्तियार नहीं। 7 कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरह से खाकर जंग करता है? कौन बाग लगाकर उसका फल नहीं खाता या कौन भेड़ों को चरा कर उन भेड़ों का दूध नहीं पीता? 8 क्या मैं ये बातें इंसानी अंदाज़ ही के मुताबिक़ कहता हूँ? क्या तौरत भी यही नहीं कहती? 9 चुनौचे मुसा की तौरत में लिखा है "दाएँ में चलते हुए बैल का मुँह न बाँधना" क्या खुदा को बैलों की फ़िक्र है? 10 या ख़ास हमारे वास्ते ये फ़रमाता है हों ये हमारे वास्ते लिखा गया क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएँ चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएँ चलाए। 11 पस जब हम ने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फ़सल काटें। 12 जब औरों का तुम पर ये इख्तियार है, तो क्या हमारा इस से ज्यादा न होगा? लेकिन हम ने इस इख्तियार से काम नहीं किया; बल्कि हर चीज़ की बर्दाशत करते हैं, ताकि हमारी वजह मसीह की खुशख़बरी में हर्ज न हो। 13 क्या तुम नहीं जानते कि जो मुक़द्दस चीज़ों की ख़िदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं? और जो कुर्बानिगाह के ख़िदमत गुज़ार हैं वो कुर्बानिगाह के साथ हिस्सा पाते हैं? 14 इस तरह खुदावन्द ने भी मुक़र्र किया है कि खुशख़बरी सुनाने खुशख़बरी वाले के वसीले से गुज़ारा करें। 15 लेकिन मैंने इन में से किसी बात पर अमल नहीं किया और न इस गरज़ से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए; क्योंकि मेरा मरना ही इस से बेहतर है कि कोई मेरा फ़रख़ खो दे। 16 अगर खुशख़बरी सुनाऊँ तो मेरा कुछ फ़रख़ नहीं क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है बल्कि मुज़ पर अफ़सोस है अगर खुशख़बरी न सुनाऊँ। 17 क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूँ तो मेरे लिए अज़ है और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। 18 पस मुझे क्या अज़ मिलता है? ये कि जब इंजील का ऐलान करूँ तो खुशख़बरी को मुफ़्त कर दूँ ताकि जो इख्तियार मुझे खुशख़बरी के बारे में हासिल है उसके मुवाफ़िक़ पूरा अमल न करूँ। 19 अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ फिर भी मैंने अपने आपको सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खीच लाऊँ। 20 मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, ताकि यहूदियों को खीच लाऊँ, जो लोग शरी'अत के मातहत हैं उन के लिए मैं शरी'अत के मातहत हुआ; ताकि शरी'अत के मातहतों को खीच लाऊँ अगरचे खुद शरी'अत के मातहत न था। 21 बेशरा लोगों के लिए बेशरा' बना ताकि बेशरा' लोगों को खीच लाऊँ; (अगरचे खुदा के नज़दीक बेशरा' न था; बल्कि मसीह की शरी'अत के ताबे था) 22 कमज़ोरों

के लिए कमजोर बना, ताकि कमजोरों को खींच लाऊँ; मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ, ताकि किसी तरह से कुछ को बचाऊँ। 23 मैं सब कुछ इन्जील की खातिर करता हूँ, ताकि औरों के साथ उस में शरीक हूँ। 24 क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इन'आम एक ही ले जाता है? तुम भी ऐसा ही दौड़ो ताकि जीतो। 25 हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं मगर हम उस सेहरे के लिए ये करते हैं जो नहीं मुरझाता। 26 पस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ यानी बेठिकाना नहीं; मैं इसी तरह मुक्कों से लडता हूँ; यानी उस की तरह नहीं जो हवा को मारते हैं। 27 बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटा और उसे काबू में रखता हूँ; ऐसा न हो कि औरों में ऐलान कर के आप ना मकबूल ठहरूँ।

**10** ऐ भाइयों! मैं तुम्हारा इस से नावाक़िफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे; और सब के सब लाल समुन्दर में से गुज़रे। 2 और सब ही ने उस बादल और समुन्दर में मूसा का बपतिस्मा लिया। 3 और सब ने एक ही स्थानी खुराक खाई। 4 और सब ने एक ही स्थानी पानी पिया क्योंकि वो उस स्थानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उन के साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। 5 मगर उन में अक्सरों से खुदा राजी न हुआ चुनौचे वो वीराने में ढेर हो गए। 6 ये बातें हमारे लिए इब्रत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश न करें, जैसे उन्होंने ने की। 7 और तुम बतपरस्त न बनो जिस तरह कुछ उनमें से बन गए थे चुनौचे लिखा है। "लोग खाने पीने को बैठे फिर नाचने कूदने को उठे।" 8 और हम हरामकारी न करें जिस तरह उनमें से कुछ ने की, और एक ही दिन में तेईस हजार मर गए। 9 और हम खुदा वन्द की आजमाइश न करें जैसे उन में से कुछ ने की और सौंपों ने उन्हें हलाक किया। 10 और तुम बडबडाओ नहीं जिस तरह उन में से कुछ बडबडाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। 11 ये बातें उन पर 'इब्रत के लिए वाके' हुई और हम आखरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। (aiōn g165) 12 पस जो कोई अपने आप को काईम समझता है, वो खबरदार रहे के गिर न पड़े। 13 तुम किसी ऐसी आजमाइश में न पड़े जो इंसान की आजमाइश से बाहर हो खुदा सच्चा है वो तुम को तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में पड़ने न देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। 14 इस वजह से ऐ मेरे प्यारो! बतपरस्ती से भागो। 15 मैं अक्लामन्द जानकर तुम से कलाम करता हूँ; जो मैं कहता हूँ, तुम आप उसे परखो। 16 वो बर्कत का प्याला जिस पर हम बर्कत चाहते हैं क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? 17 चूँकि रोटी एक ही है इस लिए हम जो बहुत से हैं एक

बदन हैं क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। 18 जो जिस्म के ऐ'तिबार से इस्राईली हैं उन पर नज़र करो क्या कुर्बानी का गोश्त खानेवाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? 19 पस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? 20 नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौम करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं; न कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। 21 तुम खुदावन्द के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते; खुदावन्द के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। 22 क्या हम खुदावन्द की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उस से ताकतवर हैं? 23 सब चीज़ें जाएज़ तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफ़ीद नहीं; जाएज़ तो हैं मगर तरक्की का ज़रिया नहीं। 24 कोई अपनी बेहतरी न ढूँडे बल्कि दूसरे की। 25 जो कुछ कस्साबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज़ की वजह से कुछ न पूछो। 26 "क्योंकि ज़मीन और उसकी मा'मूरी खुदावन्द की है।" 27 अगर बे'इमानों में से कोई तुम्हारी दा'वत करे और तुम जाने पर राजी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखवा जाए उसे खाओ और दीनी इम्तियाज़ की वजह से कुछ न पूछो। 28 लेकिन अगर कोई तुम से कहे; ये कुर्बानी का गोश्त है, तो उस की वजह से न खाओ। 29 दीनी इम्तियाज़ से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज़ नहीं बल्कि उस दूसरे का; भला मेरी आज्ञादी दूसरे शख्स के इम्तियाज़ से क्यों परखी जाए? 30 अगर मैं शक़ कर के खाता हूँ तो जिस चीज़ पर शक़ करता हूँ उसकी वजह से किस लिए बदनाम किया जाता हूँ? 31 पस तुम खाओ या पियो जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। 32 तुम न यहदियों के लिए ठोकर का ज़रिया बनो; न यूनानियों के लिए, न खुदा की कलीसिया के लिए। 33 चुनौचे मैं भी सब बातों में सब को खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फ़ाइदा ढूँडता हूँ, ताकि वो नजात पाएँ।

**11** तुम मेरी तरह बनो जैसा मैं मसीह की तरह बनता हूँ। 2 मैं तुम्हारी ता'रीफ़ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुँचा दीं, उसी तरह उन को बरकरार रखो। 3 पस मैं तुम्हें खबर करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सिर मसीह और 'औरत का सिर मर्द और मसीह का सिर खुदा है। 4 जो मर्द सिर ढके हुए दुआ या नबुव्वत करता है वो अपने सिर को बेहुरमत करता है। 5 और जो 'औरत बे सिर ढके दुआ या नबुव्वत करती है वो अपने सिर को बेहुरमत करती है; क्योंकि वो सिर मुंडी के बराबर है। 6 अगर 'औरत ओढनी न ओढे तो बाल भी कटाए; अगर 'औरत का बाल कटाना या सिर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढनी ओढे। 7 अलबत्ता मर्द को अपना सिर ढाँकना न चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूत और उसका जलाल है, मगर 'औरत मर्द

का जलाल है। 8 इसलिए कि मर्द 'औरत से नहीं बल्कि 'औरत मर्द बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। 31 अगर हम अपने आप को से है। 9 और मर्द 'औरत के लिए नहीं बल्कि 'औरत मर्द के लिए जाँचते तो सजा न पाते। 32 लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत पैदा हुई है। 10 पस फ़रिश्तों की वजह से 'औरत को चाहिए कि करता है, ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरें। 33 पस ऐ मेरे अपने सिर पर महकूम होने की अलामत रखे। 11 तोभी खुदावन्द भाइयों! जब तुम खाने को जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। 34 में न 'औरत मर्द के बग़ैर है न मर्द 'औरत के बग़ैर। 12 क्योंकि जैसे अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खाले, ताकि तुम्हारा जमा होना 'औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी 'औरत के वसीले से है मगर सब सजा का जरिया न हो; बाकी बातों को मैं आकर दुस्त कर दूँगा। चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। 13 तुम आप ही इन्साफ़ करो; क्या 'औरत का बे सिर ढँके खुदा से दुआ करना मुनासिब है। 14 क्या तुम को तब'ई तौर पर भी मा'लूम नहीं कि अगर मर्द लम्बे बाल रखे तो उस की बेहुरमती है। 15 अगर 'औरत के लम्बे बाल हों तो उसकी ज़िनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। 16 लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि न हमारा ऐसा दस्तर है न खुदावन्द की कलीसियाओं का। 17 लेकिन ये हुकम जो देता हूँ उस में तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ाइदा नहीं, बल्कि नुक़सान होता है। 18 क्योंकि अब्बल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक़्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफ़्रके होते हैं और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ। 19 क्योंकि तुम में बिद'अतों का भी होना ज़रूरी है ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मक़बल कौन से हैं। 20 पस तुम सब एक साथ जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना अशा'ए — रब्बानी नहीं हो सकता। 21 क्योंकि खाने के वक़्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना हिस्सा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। 22 क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं? या खुदा की कलीसिया को ना चीज़ जानते और जिनके पास नहीं उन को शर्मिन्दा करते हो? मैं तुम से क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ़ करूँ? मैं तारीफ़ नहीं करता। 23 क्योंकि ये बात मुझे खुदावन्द से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावन्द ईसा ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। 24 और शुक़ करके तोड़ी और कहा; लो खाओ ये मेरा बदन है, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है; मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। 25 इसी तरह उस ने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। 26 क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन्द की मौत का इज़हार करते हो; जब तक वो न आए। 27 इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन्द की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए; वो खुदा वन्द के बदन और खून के बारे में कुस्रवार होगा। 28 पस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। 29 क्योंकि जो खाते पीते वक़्त खुदा वन्द के बदन को न पहचाने वो इस खाने पीने से सजा जाएगा। 30 इसी वजह से तुम में बहुत सारे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। 31 अगर हम अपने आप को जाँचते तो सजा न पाते। 32 लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है, ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरें। 33 पस ऐ मेरे भाइयों! जब तुम खाने को जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। 34 अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खाले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का जरिया न हो; बाकी बातों को मैं आकर दुस्त कर दूँगा।

**12** ऐ भाइयों! मैं नहीं चाहता कि तुम पाक रूह की ने'मतों के बारे में बेखबर रहो। 2 तुम जानते हो कि जब तुम ग़ैर कौम थे, तो गूँगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुम को ले जाता था; उसी तरह जाते थे। 3 पस मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है; वो नहीं कहता कि ईसा मला'ऊन है; और न कोई रूह उल — कुदूस के बग़ैर कह सकता है कि ईसा खुदावन्द है। 4 नेअ'मतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। 5 और खिदमतें तो तरह तरह की हैं मगर खुदावन्द एक ही है। 6 और तासीर भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। 7 लेकिन हर शख्स में पाक रूह का ज़ाहिर होना फ़ाइदा पहुँचाने के लिए होता है। 8 क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिक्मत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफ़िक़ इत्मियत का कलाम। 9 किसी को उसी रूह से इमान और किसी को उसी रूह से शिफ़ा देने की तौफ़ीक़। 10 किसी को मोज़िज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बाने, किसी को ज़बानों का तर्जुमा करना। 11 लेकिन ये सब तासीर वही एक रूह करता है; और जिस को जो चाहता है बाँटता है, 12 क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उस के आ'ज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आ'ज़ा गरचे बहुत से हैं, मगर हमसब मिलकर एक ही बदन हैं; उसी तरह मर्सी भी है। 13 क्योंकि हम सब में चाहे यहूदी हों, चाहे यूनानी, चाहे गुलाम, चाहे आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। 14 चुनौंचे बदन में एक ही आ'ज़ा नहीं बल्कि बहुत से हैं 15 अगर पाँव कहे चुँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं तो वो इस वजह से बदन से अलग तो नहीं। 16 और अगर कान कहे चुँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं तो वो इस वजह से बदन से अलग तो नहीं। 17 अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूँघना कहाँ होता? 18 मगर हकीकत में खुदा ने हर एक 'उज्व को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफ़िक़ रखवा है। 19 अगर वो सब एक ही 'उज्व होते तो बदन कहाँ होता? 20 मगर अब आ'ज़ा तो बहुत हैं लेकिन बदन एक ही है। 21 पस आँख हाथ से नहीं कह सकती, "मैं तेरी मोहताज नहीं," और न सिर पाँव से कह सकता है, "मैं तेरा मोहताज नहीं।"

22 बल्कि बदन के वो आ'जा जो औरों से कमजोर मा'लूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं। 23 और बदन के वो आ'जा जिन्हें हम औरों की तरह जलील जानते हैं उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं और हमारे नाजेबा आ'जा बहुत जेबा हो जाते हैं। 24 हालाँकि हमारे जेबा आ'जा मोहताज नहीं मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुक्कब किया है, कि जो 'उज्व मोहताज है उसी को ज्यादा 'इज्जत दी जाए। 25 ताकि बदन में जुदाई न पड़े, बल्कि आ'जा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। 26 पस अगर एक 'उज्व दुःख पाता है तो सब आ'जा उस के साथ दुःख पाते हैं। 27 इसी तरह तुम मिल कर मसीह का बदन हो और फर्दन आ'जा हो। 28 और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्र किए पहले रसूल दूसरे नबी तीसरे उस्ताद फिर मोजिजे दिखाने वाले फिर शिफा देने वाले मददगार मुन्तज़िम तरह तरह की ज़बाने बोलने वाले। 29 क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजिजे दिखानेवाले हैं? 30 क्या सब को शिफा देने की ताकत हासिल हुई? क्या सब तरह की ज़बाने बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? 31 तुम बड़ी से बड़ी ने'मत की आरजू रखो, लेकिन और भी सब से उम्दा तरीका तुम्हें बताता हूँ।

**13** अगर मैं आदमियों और फरिशतों की ज़बाने बोलूँ और मुहब्बत न रखूँ, तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झॉंझ हूँ। 2 और अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मुहब्बत न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। 3 और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दूँ और मुहब्बत न रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ाइदा नहीं। 4 मुहब्बत साबिर है और मेहरबान, मुहब्बत हसद नहीं करती, मुहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं; 5 नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुँझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती; 6 बदकारी में खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है; 7 सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों में बर्दाशत करती है। 8 मुहब्बत को ज़वाल नहीं, नबुव्वतें हों तो मौकूफ़ हो जाएँगी, ज़बाने हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएँगे। 9 क्यूँकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबुव्वत ना तमाम। 10 लेकिन जब कामिल आया तो नाकिस जाता रहेगा। 11 जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था बच्चों की सी तबियत थी बच्चों सी समझ थी; लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दीं। 12 अब हम को आइने में धुन्धला सा दिखाई देता है, मगर जब मसीह दुबारा आया तो उस वक़्त रू ब रू देखेंगे; इस वक़्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक़्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूँगा जैसे मैं पहचानता आया हूँ। 13 गरज़ ईमान, उम्मीद, मुहब्बत ये तीनों हमेशा हैं; मगर अफ़ज़ल इन में मुहब्बत है।

**14** मुहब्बत के तालिब हो और स्थानी ने'मतों की भी आरजू रखो खुसूसन इसकी नबुव्वत करो। 2 क्यूँकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से; इस लिए उसकी कोई नहीं समझता, हालाँकि वो अपनी पाक रूह के वसीले से राज़ की बातें करता है। 3 लेकिन जो नबुव्वत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। 4 जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबुव्वत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। 5 अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बान में बातें करो, लेकिन ज्यादा तर यही चाहता हूँ कि नबुव्वत करो; और अगर बेगाना ज़बाने बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा न करे, तो नबुव्वत करने वाला उससे बड़ा है। 6 पस ऐ भाइयों! अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूँ और मुक़ाशिफा या इल्म या नबुव्वत या ता'लीम की बातें तुम से न कहूँ, तो तुम को मुझ से क्या फ़ाइदा होगा? 7 चुनौचे बे'जान चीज़ों में से भी जिन से आवाज़ निकलती है, मसलन बॉसूरी या बरबत अगर उनकी आवाज़ों में फ़र्क न हो तो जो फूँका या बजाए जाता है वो क्यूँकर पहचाना जाए? 8 और अगर तुम्हारी ही आवाज़ साफ़ न हो तो कौन लडाई के लिए तैयारी करेगा? 9 ऐसे ही तुम भी अगर ज़बान से कुछ बात न कहो तो जो कहा जाता है क्यूँकर समझा जाएगा? तुम हवा से बातें करनेवाले ठहरोगे। 10 दुनिया में चाहे कितनी ही मुख़लिफ़ ज़बाने हों उन में से कोई भी बे'मानी न होगी। 11 पस अगर मैं किसी ज़बान के मा' ने ना समझूँ, तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूँगा और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। 12 पस जब तुम स्थानी ने'मतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो, कि तुम्हारी ने'मतों की अफ़ज़ूनी से कलीसिया की तरक्की हो। 13 इस वजह से जो बेगाना ज़बान से बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। 14 इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूँ तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। 15 पस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूँगा और अक्ल से भी दुआ करूँगा; रूह से भी गाऊँगा और अक्ल से भी गाऊँगा। 16 वर्ना अगर तू रूह ही से हम्द करेगा तो नावाक़िफ़ आदमी तेरी शुक्र गुज़ारी पर "आमीन" क्यूँकर कहेगा? इस लिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 17 तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। 18 मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, कि तुम सब से ज्यादा ज़बाने बोलता हूँ। 19 लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़बान में दस हजार बातें करने से मुझे ये ज्यादा पसन्द है, कि औरों की ता'लीम के लिए पाँच ही बातें अक्ल से कहूँ। 20 ऐ भाइयों! तुम समझ में बच्चे न बनो; बदी में बच्चे रहो, मगर समझ में जवान बनो। 21 पाक कलाम में

लिखा है खुदावन्द फरमाता है, "मैं बेगाना ज़बान और बेगाना होंटों 'मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा। 4 और दफन हुआ से इस उम्मत से बातें करूँगा तोभी वो मेरी न सुनेगे।" 22 पस बेगाना और तीसरे दिन किताब ऐ'मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। 5 और ज़बाने ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बे'ईमानों के लिए निशान है कैफ़ा और उस के बाद उन बारह को दिखाई दिया। 6 फिर पाँच सौ और नबुव्वत बे'ईमानों के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारों के लिए से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिन में अक्सर अब निशान है। 23 पस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और तक मौजूद हैं और कुछ सो गए। 7 फिर या'कूब को दिखाई दिया सब के सब बेगाना ज़बाने बोलें और नावाक़िफ़ या बे'ईमान लोग फिर सब रसूलों को। 8 और सब से पीछे मुझ को जो गोया अधूरे अन्दर आ जाएँ, तो क्या वो तुम को दिवाना न कहेंगे। 24 लेकिन दिनों की पैदाइश हैं दिखाई दिया। 9 क्योंकि मैं रसूलों में सब से अग़र जब नबुव्वत करे और कोई बे'ईमान या नावाक़िफ़ अन्दर आ छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं इसलिए कि मैंने जाएँ, तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे; 25 खुदा की कलीसिया को सताया था। 10 लेकिन जो कुछ हूँ खुदा और उसके दिल के राज़ ज़ाहिर हो जाएँगे; तब वो मुँह के बल गिर कर सज्दा करेगा, और इक़रार करेगा कि बेशक़ खुदा तुम में है। नहीं हुआ बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की और ये मेरी 26 पस ऐ भाइयों! क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो, तो तरफ़ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फ़ज़ल से जो मुझ पर था। 11 हर एक के दिल में मज़मूर या ता'लीम या मुकाशिफ़ा, या बेगाना, पस चाहे मैं हूँ चाहे वो हों हम यही ऐलान करते हैं और इसी पर ज़बान या तर्जुमा होता है; सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना तुम ईमान भी लाए। 12 पस जब मसीह की ये मनादी की जाती है चाहिए। 27 अगर बेगाना ज़बान में बातें करना हो तो दो दो या ज़्यादा कि वो मुर्दों में से जी उठा तो तुम में से कुछ इस तरह कहते हैं कि से ज़्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जुमा मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। 13 अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो करे। 28 और अगर कोई तर्जुमा करने वाला न हो तो बेगाना ज़बान मसीह भी नहीं जी उठा है। 14 और अगर मसीह नहीं जी उठा तो बोलनेवाला कलीसिया में चुप रहे और अपने दिल से और खुदा से हमारी मनादी भी बेफ़ाइदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ाइदा है। 15 बातें करे। 29 नबियों में से दो या तीन बोलें और बाक़ी उनके कलाम बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हम ने खुदा के बारे में ये को परखें। 30 लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया हालाँकि नहीं जिलाया तो पहला ख़ामोश हो जाए। 31 क्योंकि तुम सब के सब एक एक अग़र बिलफ़र्ज़ मुर्द नहीं जी उठते। 16 और अगर मुर्द नहीं जी करके नबुव्वत करते हो, ताकि सब सीखें और सब को नसीहत उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17 और अगर मसीह नहीं जी हो। 32 और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। 33 क्योंकि खुदा उठा तो तुम्हारा ईमान बे'फ़ाइदा है तुम अब तक अपने गुनाहों में अबतरी का नहीं, बल्कि सुकून का बानी है जैसा मुक़द्दसों की सब गिरफ़्तार हो। 18 बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक़ हुए। कलीसियाओं में है। 34 औरतें कलीसिया के मज़्मे में ख़ामोश रहें, 19 अगर हम सिर्फ़ इसी ज़िन्दगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब क्योंकि उन्हें बोलने का हुकूम नहीं बल्कि ताबे रहें जैसा तौरत में भी आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। 20 लेकिन फ़िलवक़्त मसीह मुर्दों लिखा है। 35 और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने में से जी उठा है और जो सो गए हैं उन में पहला फल हुआ। 21 शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मज़्मे में बोलना शर्म क्योंकि अब आदमी की वजह से मौत आई तो आदमी की वजह से की बात है। 36 क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ़ तुम मुर्दों की क़यामत भी आई। 22 और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही तक पहुँचा है। 37 अगर कोई अपने आपको नबी या रूहानी ही मसीह में सब ज़िन्दा किए जाएँगे। 23 लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से; पहला फल मसीह फिर मसीह के आने पर उसके समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावन्द के लोग। 24 इसके बाद आख़िरत होगी; उस वक़्त वो सारी हुकूमत और सारा इख़्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा हुकूम हैं। 38 और अगर कोई न जाने तो न जानें। 39 पस ऐ भाइयों! और मगर सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में लाएँ।

**15** ऐ भाइयों! मैं तुम्हें वही ख़ुशख़बरी बताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ जिसे तुम ने कबूल भी कर लिया था और जिस पर काईम भी हो। 2 उसी के वसीले से तुम को नज़ात भी मिली है बशर्त कि वो ख़ुशख़बरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ाइदा हुआ। 3 चुनौचे मैंने सब से पहले तुम को वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी; कि मसीह किताब — ए —

खुद उसके ताबे' हो जाएगा जिसने सब चीजें उसके ताबे' कर दीं ताकि सब में खुदा ही सब कुछ है। 29 वर्ना जो लोग मुर्दे के लिए बपतिस्मा लेते हैं; वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उन के लिए बपतिस्मा लेते हो? 30 और हम क्यों हर वक्त खतरे में पड़े रहते हैं? 31 ऐ भाइयों! उस फख्र की क्रम जो हमारे ईसा मसीह में तुम पर है में हर रोज मरता हूँ। 32 जैसा कि कलाम में लिखा है कि अगर मैं इसान की तरह इफिसस में दरिन्दों से लडा तो मुझे क्या फाइदा? अगर मुर्दे न जिलाए जाएँगे "तो आओ खाएँ पीएँ क्योंकि कल तो मर ही जाएँगे।" 33 धोखा न खाओ "बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड देती है।" 34 रास्तबाज़ होने के लिए होश में आओ और गुनाह न करो, क्योंकि कुछ खुदा से नावाक़िफ़ हैं; मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। 35 अब कोई ये कहेगा, "मुर्दे किस तरह जी उठते हैं? और कैसे जिस्म के साथ आते हैं?" 36 ऐ, नादान! तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो न मरे जिन्दा नहीं किया जाता। 37 और जो तू बोता है, ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है बल्कि सिर्फ़ दाना है; चाहे गेहूँ का चाहे किसी और चीज़ का। 38 मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। 39 सब गोशत एक जैसा गोशत नहीं; बल्कि आदमियों का गोशत और है, चौपायों का गोशत और; परिन्दों का गोशत और है मछलियों का गोशत और। 40 आसमानी भी जिस्म है, और ज़मीनी भी मगर आसमानियों का जलाल और है, और ज़मीनियों का और। 41 आफताब का जलाल और है, माहाताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। 42 मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है; जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, और हमेशा की हालत में जी उठता है। 43 बेह्रमती की हालत में बोया जाता है, और जलाल की हालत में जी उठता है, कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। 44 नफ़सानी जिस्म बोया जाता है, और रूहानी जिस्म जी उठता है जब नफ़सानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। 45 चुनाँचे कलाम लिखा भी है, "पहला आदमी या'नी आदम जिन्दा नफ़स बना पिछला आदम जिन्दगी बख़्शने वाली रूह बना।" 46 लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफ़सानी था इसके बाद रूहानी हुआ। 47 पहला आदमी ज़मीन से या'नी खाकी था दूसरा आदमी आसमानी है। 48 जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। 49 और जिस तरह हम इस खाकी की सूत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूत पर भी होंगे। 50 ऐ भाइयों! मेरा मतलब ये है कि गोशत और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और न फना बका की वारिस हो सकती है। 51 देखो मैं तुम से राज़ की बात कहता हूँ हम सब तो नहीं सोएँगे

मगर सब बदल जाएँगे। 52 और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूँकते ही होगा क्योंकि नरसिंगा फूँका जाएगा और मुर्दे गैर फ़ानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएँगे। 53 क्योंकि ज़रूरी है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हमेशा की जिन्दागी का जामा पहने। 54 जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हमेशा हमेशा का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो कलाम लिखा है "मौत फ़तह का लुक़मा हो जाएगी। 55 ऐ मौत तेरी फ़तह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा?" (Hadēs g86) 56 मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरी'अत है। 57 मगर खुदा का शुक्र है, जो हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह के वसीले से हम को फ़तह बख़्शता है। 58 पस ऐ मेरे अज़ीज़ भाइयों! साबित कदम और काईम रहो और खुदावन्द के काम में हमेशा बढ़ते रहो क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन्द में बेफ़ाइदा नहीं है।

**16** अब उस चन्दे के बारे में जो मुक़द्दसों के लिए किया जाता है; जैसा मैं ने ग़लतिया की क़लीसियाओं को हुक्म दिया वैसे ही तुम भी करो। 2 हफ़्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुवाफ़िक़ कुछ अपने पास रख छोडा करे ताकि मेरे आने पर चन्दा न करना पड़े। 3 और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम मंज़ूर करोगे उनको मैं ख़त देकर भेज दूँगा कि तुम्हारी ख़ैरात येरूशलेम को पहुँचा दें। 4 अगर मेरा भी जाना मुनासिब हुआ तो वो मेरे साथ जाएँगे। 5 मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा; क्योंकि मुझे मकिदुनिया हो कर जाना तो है ही। 6 मगर रहूँगा शायद तुम्हारे पास और जाडा भी तुम्हारे पास ही काटूँ ताकि जिस तरफ़ मैं जाना चाहूँ तुम मुझे उस तरफ़ रवाना कर दो। 7 क्योंकि मैं अब राह में तुम से मुलाकात करना नहीं चाहता बल्कि मुझे उम्मीद है कि खुदावन्द ने चाहा तो कुछ अरसे तुम्हारे पास रहूँगा। 8 लेकिन मैं ईद'ए पिन्तेकुस्त तक इफिसस में रहूँगा। 9 क्योंकि मेरे लिए एक वसी' और कार आमद दरवाज़ा खुला है और मुख़ालिफ़ बहुत से हैं। 10 अगर तीमुथियुस आ जाए तो ख़याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेख़ौफ़ रहे क्योंकि वो मेरी तरह खुदावन्द का काम करता है। 11 पस कोई उसे हकीर न जाने बल्कि उसको सही सलामत इस तरफ़ रवाना करना कि मेरे पास आजाए क्योंकि मैं मुन्तज़िर हूँ कि वो भाइयों समेत आए। 12 और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत इल्तिमास किया कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए; मगर इस वक्त जाने पर वो अभी राज़ी न हुआ लेकिन जब उस को मौक़ा मिलेगा तो जाएगा। 13 जागते रहो ईमान में काईम रहो मर्दानगी करो मज़बूत हो। 14 जो कुछ करते हो मुहब्बत से करो। 15 ऐ भाइयों! तुम स्तिफ़नास के खानदान को जानते हो कि वो अखिया के पहले फल हैं और मुक़द्दसों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। 16 पस मैं तुम से

इल्लिमास करता हूँ कि ऐसे लोगों के ताबे रहो बल्कि हर एक के जो इस काम और मेहनत में शरीक हैं। 17 और मैं स्तिफ़नास और फ़रतूनातूस और अख़ीक़ुस के आने से ख़ुश हूँ क्योंकि जो तुम में से रह गया था उन्होंने पूरा कर दिया। 18 और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया पस ऐसों को मानो। 19 आसिया की कलीसिया तुम को सलाम कहती है अक्विला और त्रिस्का उस कलीसिया समेत जो उन के घर में हैं, तुम्हें ख़ुदावन्द में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। 20 सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं पाक बोसा लेकर आपस में सलाम करो। 21 मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। 22 जो कोई ख़ुदावन्द को अज़ीज़ नहीं रखता मला'ऊन हो हमारा ख़ुदावन्द आने वाला है। 23 ख़ुदावन्द ईसा मसीह का फ़ज़ल तुम पर होता रहे। 24 मेरी मुहब्बत ईसा मसीह में तुम सब से रहे। आमीन।

## 2 कुरिन्थियों

**1** पौलुस की तरफ जो ख़ुदा की मर्ज़ी से मसीह ईसा का रसूल है और भाई तीमुथियुस की तरफ से ख़ुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस शहर में है और तमाम अखिया के सब मुक़द्दसों के नाम पौलुस का ख़त। **2** हमारे बाप ख़ुदा और ख़ुदाबन्द ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे; आमीन। **3** हमारे ख़ुदाबन्द ईसा मसीह के ख़ुदा और बाप की हम्द हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का ख़ुदा है। **4** जो हमारी सब मुसीबतों में हम को तसल्ली देता है; ताकि हम उस तसल्ली की वजह से जो ख़ुदा हमें बख़्शाता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। **5** क्योंकि जिस तरह मसीह के दुः ख हम को ज़्यादा पहुँचते हैं; उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती है। **6** अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते; जिसकी तारीफ़ से तुम सब के साथ उन दुखों को बर्दाश्त कर लेते हो; जो हम भी सहते हैं। **7** और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मज़बूत है; क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुः खों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी हो। **8** ऐ, भाइयों! हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से ना वाकिफ़ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी कि हम हद से ज़्यादा और ताक़त से बाहर पस्त हो गए; यहाँ तक कि हम ने ज़िन्दगी से भी हाथ धो लिए। **9** बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक़म का यकीन कर चुके थे ताकि अपना भरोसा न रखें बल्कि ख़ुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। **10** चुनौचे उसी ने हम को ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा; और हम को उसी से ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। **11** अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे ताकि जो नेअ'मत हम को बहुत लोगों के वसीले से मिली उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ़ से करें। **12** क्योंकि हम को अपने दिल की इस गवाही पर फ़ख़ है कि हमारा चाल चलन दुनिया में और खासकर तुम में जिस्मानी हिक्मत के साथ नहीं बल्कि ख़ुदा के फ़ज़ल के साथ ऐसी पाकीज़गी और सफ़ाई के साथ रहा जो ख़ुदा के लायक है। **13** हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उन के जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। **14** चुनौचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया है कि हम तुम्हारा फ़ख़ हैं; जिस तरह हमारे ख़ुदाबन्द ईसा के दिन तुम भी हमारा फ़ख़ रहोगे। **15** और इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था, कि पहले तुम्हारे पास आऊँ; ताकि तुम्हें एक और नेअ'मत मिले। **16** और तुम्हारे शहर से होता हुआ मकिदुनिया सूबे को जाऊँ और मकिदुनिया से फिर तुम्हारे पास आऊँ, और तुम मुझे यहदिया की

तरफ़ रवाना कर दो। **17** पस मैंने जो इरादा किया था शोखमिज़ाजी से किया था? या जिन बातों का इरादा करता हूँ क्या जिस्मानी तौर पर करता हूँ कि हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ? **18** ख़ुदा की सच्चाई की क़सम कि हमारे उस कलाम में जो तुम से किया जाता है हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जाती। **19** क्योंकि ख़ुदा का बेटा ईसा मसीह जिसकी मनादी हम ने या'नी मैंने और सिलवानुस और तीमुथियुस ने तुम में की उस में हाँ और नहीं दोनों न थी बल्कि उस में हाँ ही हाँ हुई। **20** क्योंकि ख़ुदा के जितने वा'दे हैं वो सब उस में हाँ के साथ हैं। इसी लिए उसके ज़रिए से आमीन भी हुई; ताकि हमारे वसीले से ख़ुदा का जलाल जाहिर हो। **21** और जो हम को तुम्हारे साथ मसीह में काईम करता है और जिस ने हम को मसह किया वो ख़ुदा है। **22** जिसने हम पर मुहर भी की और पेशगी में रूह को हमारे दिलों में दिया। **23** मैं ख़ुदा को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता है। **24** ये नहीं कि हम इमान के बारे में तुम पर हुकूमत ज़ाते हैं बल्कि ख़ुशी में तुम्हारे मददगार हैं क्योंकि तुम इमान ही से काईम रहते हो।

**2** मैंने अपने दिल में ये इरादा किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन हो कर न आऊँ। **2** क्योंकि अगर मैं तुम को गमगीन करूँ तो मुझे कौन ख़ुश करेगा? सिवा उसके जो मेरी वजह से गमगीन हुआ। **3** और मैंने तुम को वही बात लिखी थी ताकि ऐसा न हो कि मुझे आकर जिन से ख़ुश होना चाहिए था, मैं उनकी वजह से गमगीन हूँ; क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी ख़ुशी है वही तुम सब की है। **4** क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आँसू बहा बहा कर तुम को लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मुहब्बत को मा'लूम करो जो मुझे तुम से है। **5** और अगर कोई शरख़ गम का बा'इस हुआ है तो वो मेरे ही गम का नहीं बल्कि, (ताकि उस पर ज़्यादा सख़्ती न करूँ) किस कदर तुम सब के गम का ज़रिया हुआ। **6** यही सज़ा जो उसने अक्सरों की तरफ़ से पाई ऐसे शरख़ के वास्ते काफ़ी है। **7** पस बर'अक्स इसके यही बेहतर है कि उस का कुसूर मु'आफ़ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह न हो। **8** इसलिए मैं तुम से गुज़ारिश करता हूँ कि उसके बारे में मुहब्बत का फ़तवा दो। **9** क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आज़मा लूँ; कि सब बातों में फ़रमानबरदार हो या नहीं। **10** जिसे तुम मु'आफ़ करते हो उसे मैं भी मु'आफ़ करता हूँ क्योंकि जो कुछ मैंने मु'आफ़ किया; अगर किया, तो मसीह का काईम मुक़ाम हो कर तुम्हारी खातिर मु'आफ़ किया। **11** ताकि बुरे लोगों का हम पर दाब न चले क्योंकि हम उसकी चालों से नावाकिफ़ नहीं। **12** और जब मैं मसीह की ख़ुशाख़बरी देने को त्रोआस शहर में आया और



खुदाबन्द में मेरे लिए दरवाजा खुल गया। 13 तो मेरी रूह को आराम न मिला; इसलिए कि मैंने अपने भाई तितुस को न पाया; पस उन ईमानदारों से सख्त होकर मकिदुनिया सूबे को चला गया। 14 मगर खुदा का शुक है जो मसीह में हम को हमेशा कैदियों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। 15 क्योंकि हम खुदा के नजदीक नजात पानेवालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। 16 कुछ के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और कुछ के वास्ते जीने के लिए जिन्दगी की बू हैं और कौन इन बातों के लायक हैं। 17 क्योंकि हम उन बहुत लोगों की तरह नहीं जो खुदा के कलाम में मिलावट करते हैं बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाज़िर जान कर मसीह में बोलते हैं।

**3** क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं या हम को कुछ लोगों की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुम से लेने की ज़रूरत है। 2 हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है; वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। 3 जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत जो हम ने खादिमों के तौर पर लिखा; स्याही से नहीं बल्कि जिन्दा खुदा के रूह से पत्थर की तखियों पर नहीं बल्कि गोशत यांनी दिल की तखियों पर। 4 हम मसीह के ज़रिए खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। 5 ये नहीं कि बज़ात — ए — खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ खयाल भी कर सकें बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। 6 जिसने हम को नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया लफ़्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के क्योंकि लफ़्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिन्दा करती है। 7 और जब मौत का वो अहद जिसके हुरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि इस्पाईली लोग मूसा के चेहरे पर उस जलाल की वजह से जो उसके चेहरे पर था गौर से नज़र न कर सके हालाँकि वो घटता जाता था। 8 तो पाक रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। 9 क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाज़ी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। 10 बल्कि इस सूत में वो जलाल वाला इस बेइन्तिहा जलाल की वजह से बेजलाल ठहरा। 11 क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ें जलाल वाली थी तो बाक़ी रहने वाली चीज़ें तो ज़रूर ही जलाल वाली होंगी। 12 पस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं। 13 और मूसा की तरह नहीं हैं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इस्पाईल उस मिटने वाली चीज़ के अन्जाम को न देख सकें। 14 लेकिन उनके खयालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पूराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उन के दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, और वो मसीह में उठ जाता है। 15 मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल

पर पर्दा पड़ा रहता है। 16 लेकिन जब कभी उन का दिल खुदा की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। 17 और खुदाबन्द रूह है, और जहाँ कहीं खुदाबन्द की रूह है वहाँ आजादी है। 18 मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदाबन्द का जलाल इस तरह जाहिर होता है; जिस तरह आइने में, तो उस खुदाबन्द के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं।

**4** पस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, तो हम हिम्मत नहीं हारते। 2 बल्कि हम ने शर्म की छिपी बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते न खुदा के कलाम में मिलावट करते हैं' बल्कि हक़ जाहिर करके खुदा के रू — ब — रू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। 3 और अगर हमारी खुशख़बरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। 4 यांनी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्ल्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूत है उसके जलाल की खुशख़बरी की रौशनी उन पर न पड़े। (aiōn g165) 5 क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह ईसा का ऐलान करते हैं कि वो खुदाबन्द है और अपने हक़ में ये कहते हैं कि ईसा की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। 6 इसलिए कि खुदा ही है जिसने फ़रमाया कि "तारीकी में से नूर चमके" और वही हमारे दिलों पर चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर ईसा मसीह के चहरे से जलवागर हो। 7 लेकिन हमारे पास ये खज़ाना मिट्टी के बरतनों में रख़ा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मा'लूम हो। 8 हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। 9 सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते; गिराए तो जाते हैं, लेकिन हलाक नहीं होते। 10 हम हर वक्त अपने बदन में ईसा की मौत लिए फिरते हैं ताकि ईसा की जिन्दगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। 11 क्योंकि हम जीते जी ईसा की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि ईसा की जिन्दगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में जाहिर हो। 12 पस मौत तो हम में असर करती है और जिन्दगी तुम में। 13 और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसके बारे में कलाम में लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसी लिए बोला; पस हम भी ईमान लाए और इसी लिए बोलते हैं। 14 क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदाबन्द ईसा मसीह को जिलाया वो हम को भी ईसा के साथ शामिल जानकर जिलाएगा; और तुम्हारे साथ अपने सामने हाज़िर करेगा। 15 इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के ज़रिए से फ़ज़ल ज़्यादा हो कर खुदा के जलाल के लिए शुक गुजारी भी बढ़ाए। 16 इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि चाहे हमारी जाहिरी इंसान ियत जाहिल हो जाती है फिर भी हमारी बातिनी इंसान ियत रोज़ ब, रोज़ नई होती जाती है। 17 क्योंकि

हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज्ञ, हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। (aiōnios g166) 18 जिस हाल में हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नज़र करते हैं; क्योंकि देखी हुई चीजें चन्द रोज़ हैं; मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। (aiōnios g166)

**5** क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हम को खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। (aiōnios g166) 2 चुनौचे हम इस में कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्स हो जाएँ। 3 ताकि मुलब्स होने के ज़रिए नंगे न पाए जाएँ। 4 क्योंकि हम इस खेमे में रह कर बोझ के मारे कराहते हैं इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं ताकि वो जो फानी है ज़िन्दगी में ग़र्क हो जाए। 5 और जिस ने हम को इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूह पेशगी में दिया। 6 पस हमेशा हम मुतमईन रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावन्द के यहाँ से जिला वतन हैं। 7 क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं न कि आँखों देखे पर। 8 गरचे, हम मुतमईन हैं और हम को बदन के वतन से जुदा हो कर खुदावन्द के वतन में रहना ज्यादा मंज़ूर है। 9 इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हूँ चाहे जेला वतन उसको खुश करें। 10 क्योंकि ज़रूरी है कि मसीह के तख्त — ए — अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए; जो उसने बदन के वसीले से किए हों; चाहे भले हों चाहे बुरे हों। 11 पस हम खुदावन्द के खौफ को जान कर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। 12 हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते बल्कि हम अपनी वजह से तुम को फ़ख़ करने का मौक़ा देते हैं ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फ़ख़ करते हैं और बातिन पर नहीं। 13 अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। 14 क्योंकि मसीह की मुहब्बत हम को मजबूर कर देती है इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर गए। 15 और वो इसलिए सब के वास्ते मरा कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए न जिए बल्कि उसके लिए जो उन के वास्ते मरा और फिर जी उठा। 16 पस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से न पहचानेंगे; हों अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था मगर अब से नहीं जानेंगे। 17 इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है पुरानी चीजें जाती रहीं; देखो वो नई हो गईं। 18 और वो सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ

हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। 19 मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में हो कर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उन की तक्सीरों को उनके जिम्मे न लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया।

20 पस हम मसीह के एल्ची हैं और गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है; हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। 21 जो गुनाह से वाकिफ न था; उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उस में हो कर खुदा के रास्तबाज़ हो जाएँ।

**6** हम जो उस के साथ काम में शरीक हैं, ये भी गुज़ारिश करते हैं कि खुदा का फ़जल जो तुम पर हुआ बे फ़ाइदा न रहने दो। 2 क्योंकि वो फ़रमाता है कि मैंने कुबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की; देखो अब कुबूलियत का वक्त है; देखो ये नजात का दिन है। 3 हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौक़ा नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ़ न आए। 4 बल्कि खुदा के खादिमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं बड़े सब्र से मुसीबत, से एहतियात से तंगी से। 5 कोड़े खाने से, कैद होने से, हँगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, 6 पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मिल से, मेहरबानी से, रूह उल कुदूस से, बे — रिया मुहब्बत से, 7 कलाम'ए हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाज़ी के हथियारों के वसीले से, जो दहने बाएँ हैं। 8 इज़्जत और बे'इज़्जती के वसीले से, बदनामी और नेक नामी के वसीले से, जो गुमराह करने वाले मा'लूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं। 9 गुनामामों की तरह हैं, तो भी मशहूर हैं, मरते हुआँ की तरह हैं, मगर देखो जीते हैं, मर खानेवालों की तरह हैं, मगर जान से मारे नहीं जाते। 10 गमगीनों की तरह हैं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की तरह हैं, मगर बहुतेरों को दौलतमन्द कर देता हैं, नादानों की तरह हैं, तौ भी सब कुछ देखते हैं। 11 ऐ कुरन्थस के ईमानदारों; हम ने तुम से खुल कर बातें कही और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से खुश हो गया। 12 हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। 13 पस मैं फ़ज़न्द जान कर तुम से कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में कुशादा दिल हो जाओ। 14 बे'ईमानों के साथ ना हमवार ज़ूए में न जुतो, क्योंकि रास्तबाज़ी और बेदीनी में क्या मेल जेतल? या रौशनी और तारीकी में क्या रिश्ता? 15 वो मसीह को बली'आल के साथ क्या मुवाफ़िक़ या ईमानदार का बे'ईमान से क्या वास्ता? 16 और खुदा के मक्दिस को बुतों से क्या मुनासिबत है? क्योंकि हम ज़िन्दा खुदा के मकदिस हैं चुनौचे खुदा ने फ़रमाया है, "मैं उनमें बसूँगा और उन में चला फ़िरा कसूँगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे।" 17 इस वास्ते खुदावन्द फ़रमाता है कि उन में से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को न छुओ तो मैं तुम

को कुबल करूँगा। 18 मैं तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे —  
बेटियाँ होंगे, खुदावन्द कादिर — ए — मुतल्लिक का कौल है।

**7** पस ऐ! अजीजो चुँकि हम से ऐसे वा'दे किए गए, आओ हम  
अपने आपको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से  
पाक करे और खुदा के बेखौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक  
पहुँचाए। 2 हम को अपने दिल में जगह दो हम ने किसी से बेइन्साफी  
नहीं की किसी को नहीं बिगाड़ा किसी से दगा नहीं की। 3 मैं तुम्हें  
मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता क्योंकि पहले ही कह चुका  
हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि हम तुम एक साथ मरें  
और जिँएँ। 4 मैं तुम से बड़ी दिलेरी के साथ बातें करता हूँ मुझे तुम  
पर बड़ा फ़ख्र है मुझको पूरी तसल्ली हो गई है; जितनी मुसीबतें हम  
पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज़ रहता है। 5 क्योंकि  
जब हम मकिदुनिया में आए उस वक़्त भी हमारे जिस्म को चैन न  
मिला बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ़्तार रहे बाहर लड़ाइयाँ  
थीं और अन्दर दहशतें। 6 तोभी आजिजों को तसल्ली बख़्शने वाले  
या'नी खुदा ने तितुस के आने से हम को तसल्ली बख़्शी। 7 और न  
सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको  
तुम्हारी तरफ से हुई और उसने तुम्हारा इश्तियाक तुम्हारा ग़म और  
तुम्हारा जोश जो मेरे बारे में था हम से बयान किया जिस से मैं और  
भी खुश हुआ। 8 गरचे, मैंने तुम को अपने खत से गमगीन किया  
मगर उससे पछताता नहीं अगरचे पहले पछताता था चुनौचे देखता  
हूँ कि उस खत से तुम को गम हुआ गरचे थोड़े ही अर्से तक रहा। 9  
अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुम को गम हुआ, बल्कि इस लिए  
कि तुम्हारे गम का अन्जाम तौबा हुआ क्योंकि तुम्हारा गम खुदा  
परस्ती का था, ताकि तुम को हमारी तरफ से किसी तरह का नुक़सान  
न हो। 10 क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है;  
जिसका अन्जाम नजात है और उस से पछताना नहीं पडता मगर  
दुनिया का गम मौत पैदा करता है। 11 पस देखो इसी बात ने कि तुम  
खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए तो मैं किस कदर सरगमीं और  
उज़्र और ख़फ़ा और ख़ौफ़ और इश्तियाक़ और जोश और इन्तिक़ाम  
पैदा किया; तुम ने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस काम  
में बरी हो। 12 पस अगरचे मैंने तुम को लिखा था मगर न उसके बारे  
में लिखा जिसने बे इन्साफी की और न उसके ज़रिए जिस पर बे  
इन्साफी हुई बल्कि इस लिए कि तुम्हारी सरगमीं जो हमारे वास्ते है  
खुदा के हज़ूर तुम पर जाहिर हो जाए। 13 इसी लिए हम को तसल्ली  
हुई है और हमारी इस तसल्ली में हम को तितुस की खुशी की वजह  
से और भी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि तुम सब के ज़रिए उसकी रूह  
फिर ताज़ा हो गई। 14 और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारे बारे में  
कुछ फ़ख्र किया तो शर्मिन्दा न हुआ बल्कि जिस तरह हम ने सब  
बातें तुम से सच्चाई से कहीं उसी तरह जो फ़ख्र हम ने तितुस के

सामने किया वो भी सच निकला। 15 और जब उसको तुम सब की  
फ़रमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और काँपते हुए  
उस से मिले तो उसकी दिली मुहब्बत तुम से और भी ज़्यादा होती  
जाती है। 16 मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मुतमईन हूँ।

**8** ऐ, भाइयों! हम तुम को खुदा के उस फ़ज़ल की ख़बर देते हैं जो  
मकिदुनिया सूबे की कलीसियाओं पर हुआ है। 2 कि मुसीबत  
की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख़्त गरीबी ने  
उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। 3 और मैं गवाही देता  
हूँ, कि उन्होंने हैसियत के मुवाफ़िक बल्कि ताक़त से भी ज़्यादा  
अपनी खुशी से दिया। 4 और इस ख़ैरत और मुक़दसों की ख़िदमत  
की शिराक़त के ज़रिए हम से बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की।  
5 और हमारी उम्मीद के मुवाफ़िक ही नहीं दिया बल्कि अपने आप  
को पहले खुदावन्द के और फिर खुदा की मर्ज़ी से हमारे सुपुर्द  
किया। 6 इस वास्ते हम ने तितुस को नसीहत की जैसे उस ने पहले  
शुर्क किया था वैसे ही तुम में इस ख़ैरत के काम को पूरा भी करे। 7  
पस जैसे तुम हर बात में इमान और कलाम और इल्म और पूरी  
सरगमीं और उस मुहब्बत में जो हम से आगे हो गए हो, वैसे ही  
इस ख़ैरत के काम में आगे ले जाओ। 8 मैं हुक्म के तौर पर नहीं  
कहता बल्कि इसलिए कि औरों की सरगमीं से तुम्हारी सच्चाई को  
आज़माऊँ। 9 क्योंकि तुम हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के फ़ज़ल को  
जानते हो कि वो अगरचे दौलतमन्द था मगर तुम्हारी खातिर गरीब  
बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी की वजह से दौलतमन्द हो जाओ।  
10 और मैं इस अम्र में अपनी राय देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए  
फ़ाइदामन्द है, इसलिए कि तुम पिछले साल से न सिर्फ़ इस काम  
में बल्कि इसके इरादे में भी अब्वल थे। 11 पस अब इस काम  
को पूरा भी करो ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्त'इद थे वैसे ही  
हैसियत के मुवाफ़िक पूरा भी करो। 12 क्योंकि अगर नियत हो तो  
ख़ैरत उसके मुवाफ़िक मक़बूल होगी जो आदमी के पास है न उसके  
मुवाफ़िक जो उसके पास नहीं। 13 ये नहीं कि औरों को आराम  
मिले और तुम को तकलीफ़ हो। 14 बल्कि बराबरी के तौर पर इस  
वक़्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो ताकि उनकी दौलत से  
भी तुम्हारी कमी पूरी हो और इस तरह बराबरी हो जाए। 15 चुनौचे  
कलाम में लिखा है, "जिस ने बहुत मन्ना जमा किया उस का कुछ  
ज़्यादा न निकला और जिस ने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम न  
निकला।" 16 खुदा का शुक्र है जो तितुस के दिल में तुम्हारे वास्ते  
वैसी ही सरगमीं पैदा करता है। 17 क्योंकि उसने हमारी नसीहत को  
मान लिया बल्कि बड़ा सरगम हो कर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ़  
रवाना हुआ। 18 और हम ने उस के साथ उस भाई को भेजा जिस की  
तारीफ़ खुशख़बरी की वजह से तमाम कलीसियाओं में होती है। 19  
और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि वो कलीसियाओं की तरफ से इस ख़ैरत

के बारे में हमारा हमसफ़र मुक़र्रर हुआ और हम ये ख़िदमत इसलिए कर रहे हैं कि ख़ुदावन्द का जलाल और हमारा शौक जाहिर हो। 20 और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी ख़ैरात के बारे में ख़िदमत करते हैं उसके बारे में कोई हम पर हर्फ़ न लाए। 21 क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर करते हैं जो न सिर्फ़ ख़ुदावन्द के नज़दीक भली हैं बल्कि आदिमियों के नज़दीक भी। 22 और हम ने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हम ने बहुत सी बातों में बार हा आजमाकर सरगर्म पाया है मगर चूँकि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है इसलिए अब बहुत ज्यादा सरगर्म है। 23 अगर कोई तितुस की बारे में पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हम ख़िदमत है और अगर भाइयों के बारे में पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासिद और मसीह का जलाल है। 24 पस अपनी मुहब्बत और हमारा वो फ़ख़्र जो तुम पर है कलीसियाओं के रू — ब — रू उन पर साबित करो।

**9** जो ख़िदमत मुक़द़सों के वास्ते की जाती है, उसके ज़रिए मुझे तुम को लिखना फ़ज़ूल है। 2 क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूँ, जिसकी वजह से मकिदूनिया के लोगों के आगे तुम पर फ़ख़्र करता हूँ कि अख़िया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और तुम्हारी सरगर्मी ने अकसर लोगों को उभारा। 3 लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फ़ख़्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बे'असल न ठहरे बल्कि तुम मेरे कहने के मुवाफ़िक़ तैयार रहो। 4 ऐसा न हो कि अगर मकिदूनिया के लोग मेरे साथ आएँ और तुम को तैयार न पाएँ तो हम ये नहीं कहते कि तुम उस भरोसे की वजह से शर्मिन्दा हो। 5 इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख़्वास्त करना ज़रूरी समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मो'ऊदा बख़िश को पहले से तैयार कर रखें ताकि वो बख़िश की तरह तैयार रहें न कि ज़बरदस्ती के तौर पर। 6 लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 7 जिस क़दर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी क़दर दे, न दरेग करके न लाचारी से क्योंकि ख़ुदा ख़ुशी से देने वाले को अज़ीज़ रखता है। 8 और ख़ुदा तुम पर हर तरह का फ़ज़ल कसरत से कर सकता है। ताकि तुम को हमेशा हर चीज़ ज्यादा तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। 9 चुनौचे क़लाम में लिखा है कि उसने बिखेरा है उसने कंगालों को दिया है उसकी रास्तबाज़ी हमेशा तक बाक़ी रहेगी। (aiōn g165) 10 पस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी एक दुसरे को पहुँचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुँचाए गा; और उसी में तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाज़ी के फ़लों को बढ़ाएगा। 11 और तुम हर चीज़ को बहुतायत से पाकर सब तरह की सख़ावत करोगे; जो हमारे वसीले से ख़ुदा की शक्रगुज़ारी के ज़रिए होती है। 12 क्योंकि इस ख़िदमत के अन्जाम देने से न सिर्फ़ मुक़द़सों की ज़रूरत

पूरी होती है बल्कि बहुत लोगों की तरफ़ से ख़ुदा की शक्रगुज़ारी होती है। 13 इस लिए कि जो नियत इस ख़िदमत से साबित हुई उसकी वजह से वो ख़ुदा की बड़ाई करते हैं कि तुम मसीह की ख़ुशख़बरी का इकरार करके उस पर ता'बेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सख़ावत करते हो। 14 और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुशतक़ है इसलिए कि तुम पर ख़ुदा का बड़ा ही फ़ज़ल है। 15 शक्र ख़ुदा का उसकी उस बख़िश पर जो बयान से बाहर है।

**10** मैं पौलुस जो तुम्हारे रू — ब — रू आजिज़ और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूँ मसीह का हलीम और नर्मी याद दिलाकर ख़ुद तुम से गुज़ारिश करता हूँ। 2 बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाज़िर होकर उस बेबाकी के साथ दिलेर न होना पड़े जिससे मैं कुछ लोगों पर दिलेर होने का क़र्रद रखता हूँ जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक़ जिन्दगी गुज़ारते हैं। 3 क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिन्दगी गुज़ारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लडते नहीं। 4 इस लिए कि हमारी लडाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि ख़ुदा के नज़दीक क़िलों को ढा देने के काबिल हैं। 5 चुनौचे हम तसव्वुरात और हर एक उँची चीज़ को जो ख़ुदा की पहचान के बरख़िलाफ़ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख़याल को क़ैद करके मसीह का फ़रमाँबरदार बना देते हैं। 6 और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फ़रमाँबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफ़रमानी का बदला लें। 7 तो तुम उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आँखों के सामने हैं अगर किसी को अपने आप पर ये भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। 8 क्योंकि अगर मैं इस इख़्तियार पर कुछ ज्यादा फ़ख़्र भी करूँ जो ख़ुदावन्द ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है; न कि बिगाड़ने के लिए तो मैं शर्मिन्दा न हूँगा। 9 ये मैं इस लिए कहता हूँ, कि ख़तों के ज़रिए से तुम को डराने वाला न ठहरूँ। 10 क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस के ख़त तो अलबत्ता असरदार और ज़बरदस्त हैं लेकिन जब ख़ुद मौजूद होता है तो कमज़ोर सा मा'लूम होता है और उसकी तक़रीर लचर है। 11 पस ऐसा कहने वाला समझ रखे कि जैसा पीठ पीछे ख़तों में हमारा क़लाम है वैसा ही मौजूदगी के वक़्त हमारा काम भी होगा। 12 क्योंकि हमारी ये हिम्मत नहीं कि अपने आप को उन चन्द लोगों में शूमार करें या उन से कुछ निस्वत दें जो अपनी नेक नामी जताते हैं लेकिन वो ख़ुद अपने आप को आपस में वज़न कर के और अपने आप को एक दूसरे से निस्वत देकर नादान ठहराते हैं। 13 लेकिन हम अन्दाजे से ज्यादा फ़ख़्र न करेंगे, बल्कि उसी इलाके के अन्दाजे के मुवाफ़िक़ जो ख़ुदा ने हमारे लिए मुक़र्रर किया है जिस में तुम भी आगए, हो। 14 क्योंकि हम अपने आप को हद से ज्यादा नहीं बढ़ाते जैसे कि तुम तक न पहुँचने की सूत्र में होता

बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुँच गए थे। 15 और हम अन्दाजे से ज्यादा या'नी औरों की मेहनतों पर फ़ख़्र नहीं करते लेकिन उम्मीदवार हैं कि जब तुम्हारे इमान में तरक्की हो तो हम तुम्हारी वजह से अपने इलाके के मुवाफ़िक और भी बढ़े 16 ताकि तुम्हारी सरहद से आगे बढ़ कर खुशखबरी पहुँचा दें न कि ग़ैर इलाका में बनी बनाई हुई चीज़ों पर फ़ख़्र करें 17 गरज़ जो फ़ख़्र करे वो खुदावन्द पर फ़ख़्र करे। 18 क्योंकि जो अपनी नेकनामी जताता है वो मक़बूल नहीं बल्कि जिसको खुदावन्द नेकनाम ठहराता है वही मक़बूल है।

**11** काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते; हों तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। 2 मुझे तुम्हारे ज़रिए खुदा की सी ग़ैरत है क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्वत की है ताकि तुम को पाक दामन कुँवारी की तरह मसीह के पास हाज़िर करूँ। 3 लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सॉप ने अपनी मक्कारी से हज्वा को बहकाया उसी तरह तुम्हारे खयालात भी उस खुलूस और पाकदामनी से हट जाएँ जो मसीह के साथ होनी चाहिए। 4 क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे ईसा का ऐलान करता है जिसका हमने ऐलान नहीं किया या कोई और रूह तुम को मिलती है जो न मिली थी या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुम ने कुबूल न किया था; तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। 5 मैं तो अपने आप को उन अफ़ज़ल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता। 6 और अगर तकऱीर में बेशोऊर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं बल्कि हम ने इस को हर बात में तमाम आदमियों में तुम्हारी ख़ातिर जाहिर कर दिया। 7 क्या ये मुझ से ख़ता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ़्त पहुँचा कर अपने आप को नीचे किया ताकि तुम बुलन्द हो जाओ। 8 मैंने और कलीसियाओ को लूटा या'नी उनसे उन्नत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूँ। 9 और जब मैं तुम्हारे पास था और हाज़त मंद हो गया था, तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया था; और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज़ रहा और रहूँगा। 10 मसीह की सदाक़त की क्रसम जो मुझ में है अखिया के इलाका में कोई शख्स मुझे ये करने से न रोकेगा। 11 किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुम से मुहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है। 12 लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूँगा ताकि मौका ढूँढ़ने वालो को मौका न दूँ बल्कि जिस बात पर वो फ़ख़्र करते हैं उस में हम ही जैसे निकलें। 13 क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगा बाज़ी से काम करने वाले हैं और अपने आपको मसीह के रसूलों के हमशक्ल बना लेते हैं। 14 और कुछ अजीब नहीं शैतान भी अपने आपको नुरानी फ़रिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। 15 पस अगर उसके खादिम भी रास्तबाज़ी के खादिमों के हमशक्ल बन

जाएँ तो कुछ बड़ी बात नहीं लेकिन उनका अन्जाम उनके कामों के मुवाफ़िक होगा। 16 मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ न समझे और न बेवकूफ समझ कर मुझे कुबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख़्र करूँ। 17 जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावन्द के तौर पर नहीं बल्कि गोया बेवकूफी से और उस हिम्मत से कहता हूँ जो फ़ख़्र करने में होती है। 18 जहाँ और बहुत सारे जिस्मानी तौर पर फ़ख़्र करते हैं मैं भी करूँगा। 19 क्योंकि तुम को अक्लामन्द हो कर खुशी से बेवकूफों को बर्दाश्त करते हो। 20 जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फँसा लेता है या अपने आपको बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुँह पर तमाचा मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। 21 मेरा ये कहना ज़िल्लत के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे मगर जिस किसी बात में कोई दिलेरे है (अगरचे ये कहना बेवकूफी है) मैं भी दिलेरे हूँ। 22 क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ, क्या वही अब्रहाम की नस्ल से है? मैं भी हूँ। 23 क्या वही मसीह के खादिम है? (मेरा ये कहना दीवानगी है) मैं ज्यादा तर हूँ मेहनतों में ज्यादा कैद में ज्यादा कोड़े खाने में हद से ज्यादा बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। 24 मैंने यहदियों से पाँच बार एक कम चालीस चालीस कोड़े खाए। 25 तीन बार बेंत लगे एक बार पथराव किया गया तीन मर्तबा जहाज़ टटने की बला में पड़ा रात दिन समुन्दर में काटा। 26 मैं बार बार सफ़र में दरियाओं के खतरों में डाकूओं के खतरों में अपनी कौम से खतरों में ग़ैर कौमों के खतरों में शहर के खतरों में वीरान के खतरों में समुन्दर के खतरों में झूठे भाइयों के खतरों में। 27 मेहनत और मशक्कत में बारहा बेदारी की हालत में भूख और प्यास की मुसीबत में बारहा फाका कशी में सदीं और नंगे पन की हालत में रहा हूँ। 28 और बातों के अलावा जिनका मैं ज़िक्र नहीं करता सब कलीसियाओ की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आती है। 29 किसी की कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुःखता? 30 अगर फ़ख़्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख़्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुता'ल्लिक हैं। 31 खुदावन्द ईसा का खुदा और बाप जिसकी हमेशा तक हम्द हो जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। (aiōn g165) 32 दमिशक के शहर में उस हाकिम ने जो बादशाह अरितास की तरफ से था मेरे पकड़ने के लिए दमिशकियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। 33 फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दिवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया।

**12** मुझे फ़ख़्र करना ज़रूरी हुआ अगरचे मुफ़ीद नहीं पस जो रोया और मुकाशिफा खुदावन्द की तरफ से इनायत हुआ उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। 2 मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ चौदह बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया न मुझे ये मा'लूम कि बदन समेत न ये मा'लूम कि बग़ैर बदन के

ये खुदा को मा'लूम है। 3 और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने 20 क्योंकि मैं डरता हूँ कही ऐसा न हो कि आकर जैसा तुम्हें चाहता बदन समेत या बगैर बदन के ये मुझे मा'लूम नहीं खुदा को मा'लूम हूँ वैसा न पाऊँ और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि है। 4 यकायक फिरदौस में पहुँचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की तुम में, झगडा, हसद, गुस्सा, तफ्रके, बद गोइयाँ, गीबत, शेखी नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। 5 मैं ऐसे शख्स पर और फसाद हों। 21 और फिर जब मैं आऊँ तो मेरा खुदा तुम्हारे तो फरख करूँगा लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरी के सामने आजिज करे और मुझे बहुतों के लिए अपसोस करना पड़े फरख करूँगा। 6 और अगर फरख करना चाहूँ भी तो बेवकूफ न ठहरूँगा इसलिए कि सच बोलूँगा मगर तोभी बा'ज रहता हूँ ताकि जिन्होंने पहले गुनाह किए हैं और उनकी नापाकी और हरामकारी कोई मुझे इस से ज्यादा न समझे जैसा मुझे देखा है या मुझ से सुना और शहवत परस्ती से जो उन से सरजद हुई तौबा न की। है। 7 और मुकाशिफा की जियादती के जरिए मेरे फूल जाने के 13

ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दो या तीन गवाहों कि ज़बान से हर एक बात साबित हो जाएगी। 2 जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाज़िर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाज़िरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पहले गुनाह किए हैं और सब लोगों से, पहले से कहे देता हूँ कि अगर फिर आऊँगा तो दर गुज़र न करूँगा। 3 क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, और वो तुम्हारे लिए कमजोर नहीं बल्कि तुम में ताकतवर है। 4 हाँ, वो कमजोरी की वजह से मस्लूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत की वजह से जिन्दा है; और हम भी उसमें कमजोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा कि उस कुदरत कि वजह से जिन्दा होंगे जो तुम्हारे लिए है। 5 तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जाँचो तुम अपने बारे में ये नहीं जानते हो कि ईसा मसीह तुम में है? वरना तुम नामकबूल हो। 6 लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मा'लूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं। 7 हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी न करो ना इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हों बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो चाहे हम नामकबूल ही ठहरें। 8 क्योंकि हम हक के बारखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। 9 जब हम कमजोर हैं और तुम ताकतवर हो, तो हम खुश हैं और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामिल बनो। 10 इसलिए मैं गैर हाज़िरी में ये बातें लिखता हूँ ताकि हाज़िर होकर मुझे उस इख्तियार के मुवाफिक सख्ती न करना पड़े जो खुदावन्द ने मुझे बनाने के लिए दिया है न कि बिगाडने के लिए। 11 गरज़ ऐ भाइयों! खुश रहो, कामिल बनो, इत्मीनान रखो, यकदिल रहो, मेल — मिलाप रखो तो खुदा, मुहब्बत और मेल — मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। 12 आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। 13 सब मुकदस लोग तुम को सलाम कहते हैं। 14 खुदावन्द येसू मसीह का फज़ल और खुदा की मौहब्बत और रूहलकुदूस की शिराकत तुम सब के साथ होती रहे।

# गलातियों

**1** पौलस की तरफ से जो न इंसानों की जानिब से न इंसान की वजह से, बल्कि ईसा मसीह और खुदा बाप की वजह से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है; **2** और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं, गलातिया सूबे की कर्लीसियाओं को खत: **3** खुदा बाप और हमारे खुदावन्द ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें फ़जल और इतमिनान हासिल होता रहे। **4** उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया; ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफ़िक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख़्खो। **5** उसकी बड़ाई हमेशा से हमेशा तक होती रहे आमीन। **6** मैं ताअज्जब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फ़जल से बुलाया, उससे तुम इस क़दर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशाख़बरी की तरफ़ माइल होने लगे, **7** मगर वो दूसरी नहीं; अलबत्ता कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें उलझा देते और मसीह की खुशाख़बरी को बिगाड़ना चाहते हैं। **8** लेकिन हम या आसमान का कोई फ़रिश्ता भी उस खुशाख़बरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशाख़बरी सुनाए तो मला'उन हो। **9** जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस खुशाख़बरी के सिवा जो तुम ने कुबूल की थी, अगर तुम्हें और कोई खुशाख़बरी सुनाता है तो मला'उन हो। **10** अब मैं आदिमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदिमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदिमियों को खुश करता रहता, तो मसीह का बन्दना ना होता। **11** ऐ भाइयों! मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो खुशाख़बरी मैं ने सुनाई वो इंसान की नहीं। **12** क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची, और न मुझे सिखाई गई, बल्कि खुदा मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशिफा हुआ। **13** चुनौचे यहूदी तरीके में जो पहले मेरा चाल — चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़ हद सताता और तबाह करता था। **14** और मैं यहूदी तरीके में अपनी कौम के अक्सर हम उग्रों से बढ़ता जाता था, और अपने बुजुर्गों की रिवायतों में निहायत सरगर्म था। **15** लेकिन जिस खुदा ने मेरी माँ के पेट ही से मख्सूस कर लिया, और अपने फ़ज़ल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई **16** कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर — क्रौमों में उसकी खुशाख़बरी दूँ, तो न मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, **17** और न येरूशलेम में उनके पास गया जो मुझ से पहले रसूल थे, बल्कि फ़ौन अरब मुल्क को चला गया फिर वहाँ से दमिश्क शहर को वापस आया **18** फिर तीन बरस के बाद मैं कैफ़ा से मुलाक़ात करने को गया और पन्द्रह दिन तक उसके पास रहा। **19** मगर और रसूलों में से खुदावन्द के भाई या क़ूब के सिवा किसी से न मिला। **20** जो बातें मैं तुम को लिखता हूँ, खुदा को हाज़िर जान कर कहता हूँ

कि वो झूठी नहीं। **21** इसके बाद मैं सीरिया और किलकिया के इलाक़ों में आया; **22** और यहूदिया सूबा की कलीसियाएँ, जो मसीह में थीं मुझे सूरत से न जानती थीं, **23** मगर ये सुना करती थीं, जो हम को पहले सताता था, वो अब उसी दीन की खुशाख़बरी देता है जिसे पहले तबाह करता था। **24** और वो मेरे ज़रिए खुदा की बड़ाई करती थीं।

**2** आखिर चौदह बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर येरूशलेम को गया और तितुस को भी साथ ले गया। **2** और मेरा जाना मुकाशिफ़ा के मुताबिक़ हुआ; और जिस खुशाख़बरी की गैर — क्रौमों में मनादी करता हूँ वो उन से बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं के लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्रत की या अगली दौड़ धूप बेफ़ाइदा जाए। **3** लेकिन तितुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है खतना करने पर मजबूर न किया गया। **4** और ये उन झूठे भाइयों की वजह से हुआ जो छिप कर दाखिल हो गए थे, ताकि उस आज़ादी को जो तुम्हें मसीह ईसा में हासिल है, जासूसों के तौर पर मालूम करके हमे गुलामी में लाएँ। **5** उनके ताबे रहना हम ने पल भर के लिए भी मंज़ूर ना किया, ताकि खुशाख़बरी की सच्चाई तुम में काईम रहे। **6** और जो लोग कुछ समझे जाते थे, चाहे वो कैसे ही थे मुझे इससे कुछ भी वास्ता नहीं; खुदा किसी आदमी का तरफ़दार नहीं उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ। **7** लेकिन बर'अक्स इसके जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह यहूदी मख्तूनो को खुशाख़बरी देने का काम पतरस के सुपर्द हुआ **8** क्योंकि जिस ने मख्तूनो की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर — यहूदी न मख्तून क्रौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। **9** और जब उन्होंने उस तौफ़ीक़ को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो या क़ूब और कैफ़ा और याहून ने जो कलीसिया के सुतून समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दहना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर क्रौमों के पास जाएँ और वो मख्तूनो के पास; **10** और सिर्फ़ ये कहा कि ग़रीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में हूँ, **11** और जब कैफ़ा अंताकिया शहर में आया तो मैंने रु — ब — रु होकर उसकी मुख़ालिफ़त की, क्योंकि वो मलामत के लायक़ था। **12** इस लिए कि या क़ूब की तरफ से चन्द लोगों के आने से पहले तो वो गैर — क्रौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनो से डर कर बाज़ रहा और किनारा किया। **13** और बाकी यहूदी ईमानदारों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की यहाँ तक कि बरनबास भी उसके साथ रियाकारी में पड़ गया। **14** जब मैंने देखा कि वो खुशाख़बरी की सच्चाई के मुताबिक़ सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सब के सामने कैफ़ा से कहा, “जब तू बाबजूद यहूदी होने के गैर क्रौमों की तरह ज़िन्दगी गुज़ारता है न कि

यहदियों की तरह तो गैर क्रौमों को यहदियों की तरह चलने पर क्यूँ मजबूर करता है?" 15 जबकि हम पैदाइश से यहदी हैं, और गुनाहगार गैर क्रौमों में से नहीं। 16 तोभी ये जान कर कि आदमी शरी'अत के आमाल से नहीं बल्कि सिर्फ ईसा मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज़ ठहरता है खुद भी मसीह ईसा पर ईमान लाने से रास्तबाज़ ठहरे न कि शरी'अत के आमाल से क्यूँकि शरी'अत के आमाल से कोई भी बशर रास्त बाज़ न ठहरेगा। 17 और हम जो मसीह में रास्तबाज़ ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का ज़रिया है? हरगिज़ नहीं! 18 क्यूँकि जो कुछ मैंने शरी'अत को ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊँ, तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। 19 चुनौचे मैं शरी'अत ही के वसीले से शरी'अत के ए'तिबार से मारा गया, ताकि खुदा के ए'तिबार से ज़िंदा हो जाऊँ। 20 मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है; और मैं जो अब जिस्म में ज़िन्दगी गुज़ारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुज़ारता हूँ, जिसने मुझ से मुहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। 21 मैं खुदा के फ़ज़ल को बेकार नहीं करता, क्यूँकि रास्तबाज़ी अगर शरी'अत के वसीले से मिलती, तो मसीह का मरना बेकार होता।

**3** एे नाना गलतियों, किसने तुम पर जादू कर दिया? तुम्हारी तो गोया आँखों के सामने ईसा मसीह सलीब पर दिखाया गया। 2 मैं तुम से सिर्फ ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ: कि तुम ने शरी'अत के आ'माल से पाक रूह को पाया या ईमान की खुशख़बरी के पैगाम से? 3 क्या तुम ऐसे नाना हो कि पाक रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? 4 क्या तुमने इतनी तकलीफ़िं बे फ़ाइदा उठाई? मगर शायद बे फ़ाइदा नहीं। 5 पर जो तुम्हें पाक रूह बख़्शता और तुम में मोज़िज़े जाहिर करता है, क्या वो शरी'अत के आ'माल से ऐसा करता है या ईमान के खुशख़बरी के पैगाम से? 6 चुनौचे "अब्रहाम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज़ी गिना गया।" 7 पर जान लो कि जो ईमानवाले हैं, वही अब्रहाम के फ़रज़न्द हैं। 8 और किताब — ए — मुक़द्दस ने पहले से ये जान कर कि खुदा गैर क्रौमों को ईमान से रास्तबाज़ ठहराएगा, पहले से ही अब्रहाम को ये खुशख़बरी सुना दी, "तेरे ज़रिए सब क्रौमें बर्कत पाएँगी।" 9 इस पर जो ईमान वाले हैं, वो ईमानदार अब्रहाम के साथ बर्कत पाते हैं। 10 क्यूँकि जितने शरी'अत के आ'माल पर तकिया करते हैं, वो सब ला'नत के मातहत हैं; चुनौचे लिखा है, "जो कोई उन सब बातों को जो किताब में से लिखी हैं, काईम न रहे वो ला'नती है।" 11 और ये बात साफ़ है कि शरी'अत के वसीले से कोई ईसान खुदा के नज़दीक रास्तबाज़ नहीं ठहरता, क्यूँकि कलाम में लिखा है, रास्तबाज़ ईमान से जीता रहेगा। 12 और

शरी'अत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है, "जिसने इन पर 'अमल किया, वो इनकी वजह से जीता रहेगा।" 13 मसीह जो हमारे लिए ला'नती बना, उसने हमें मोल लेकर शरी'अत की ला'नत से छुड़ाया, क्यूँकि कलाम में लिखा है, "जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो ला'नती है।" 14 ताकि मसीह ईसा में अब्रहाम की बर्कत गैर क्रौमों तक भी पहुँचे, और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वा'दा हुआ है। 15 ऐे भाइयों! मैं ईसान ियत के तौर पर कहता हूँ कि अगर आदमी ही का 'अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई हो तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। 16 पर अब्रहाम और उसकी नस्ल से वा'दे किए गए। वो ये नहीं कहता, नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है: बल्कि जैसा एक के वास्ते, तेरी नस्ल को और वो मसीह है। 17 मेरा ये मतलब है: जिस 'अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरी'अत चार सौ तीस बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वा'दा लअहासिल हो। 18 क्यूँकि अगर मीरास शरी'अत की वजह से मिली है तो वा'दे की वजह से ना हुई, मगर अब्रहाम को खुदा ने वा'दे ही की राह से बख़्शी। 19 पर शरी'अत क्या रही? वो नाफ़रमानी की वजह से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे, जिससे वा'दा किया गया था; और वो फ़रिशतों के वसीले से एक दरमियानी की मा'रिफ़त मुकर्रर की गई। 20 अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। 21 पर क्या शरी'अत खुदा के वा'दों के खिलाफ़ है? हरगिज़ नहीं! क्यूँकि अगर कोई एसी शरी'अत दी जाती जो ज़िन्दगी बख़्श सकती तो, अलबत्ता रास्तबाज़ी शरी'अत की वजह से होती। 22 मगर किताब — ए — मुक़द्दस ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया, ताकि वो वा'दा जो ईसा मसीह पर ईमान लाने पर मौक़ूफ़ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। 23 ईमान के आने से पहले शरी'अत की मातहत में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होनेवाला था, हम उसी के पाबन्द रहे। 24 पर शरी'अत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान की वजह से रास्तबाज़ ठहरे। 25 मगर जब ईमान आ चुका, तो हम उस्ताद के मातहत न रहे। 26 क्यूँकि तुम उस ईमान के वसीले से जो मसीह ईसा में है, खुदा के फ़रज़न्द हो। 27 और तुम सब, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया 28 न कोई यहदी रहा, न कोई यूनानी, न कोई गुलाम, ना आज़ाद, न कोई मर्द, न औरत, क्यूँकि तुम सब मसीह 'ईसा में एक ही हो। 29 और अगर तुम मसीह के हो तो अब्रहाम की नस्ल और वा'दे के मुताबिक वारिस हो।

**4** और मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फ़र्क नहीं। 2



बल्कि जो मि'आद बाप ने मुकर्रर की उस वक़्त तक सरपरस्तों और कोह-ए-सीना पर का जिस से गुलाम ही पैदा होते हैं, वो हाजरा है। मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। 3 इसी तरह हम भी जब बच्चे थे, 25 और हाजरा 'अरब का कोह-ए-सीना है, और मौजूदा येरुशलम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। 26 मगर 'आलम — ए — बाला का येरुशलम आज़ाद है, और वही भेजा जो 'औरत से पैदा हुआ और शरी'अत के मातहत पैदा हुआ, 5 हमारी माँ है। 27 क्योंकि लिखा है, "कि ऐ बाँझ, जिसके औलाद ताकि शरी'अत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम को नहीं होती ख़ुशी मनह, तू जो दर्द — ए — जिह से नावाक्रिफ़ है, लेपालक होने का दर्जा मिले। 6 और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए आवाज़ ऊँची करके चिल्ला; क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद ख़ुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो 'अब्बा 'यान्नी ऐ है शौहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। 28 पस ऐ भाइयों! बाप, कह कर पुकारता है। 7 पस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो ख़ुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। 8 जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही लेकिन उस वक़्त ख़ुदा से नवाक्रिफ़ होकर तुम उन मा'बूदों की अब भी होता है। 30 मगर किताब — ए — मुक़द्दस क्या कहती है? गुलामी में थे जो अपनी ज़ात से ख़ुदा नहीं, 9 मगर अब जो तुम ने ये कि "लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का ख़ुदा को पहचाना, बल्कि ख़ुदा ने तुम को पहचाना, तो उन कमज़ोर बेटा आज़ाद के साथ हरगिज़ वारिस न होगा।" 31 पस ऐ भाइयों! और निकम्मी शरूआती बातों की तरफ़ किस तरह फिर रूज़ होते हो, हम लौंडी के फ़र्ज़न्द नहीं, बल्कि आज़ाद के हैं। जिनकी दुबारा गुलामी करना चाहते हो? 10 तुम दिनों और महीनों 5 मसीह ने हमे आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है; पस काईम और मुकर्रर वक़्तों और बरसों को मानते हो। 11 मुझे तुम्हारे बारे में रहे, और दोबारा गुलामी के जुवे में न चुतो। 2 सुनो, मैं पौलुस डर लगता है, कहीं ऐसा न हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम को बेकार न हो जाए 12 ऐ भाइयों! मैं तुमसे गुज़ारिश करता हूँ कि कुछ फ़ाइदा न होगा। 3 बल्कि मैं हर एक खतना करने वाले आदमी मेरी तरह हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ; तुम ने मेरा कुछ पर फिर गवाही देता हूँ, कि उसे तमाम शरी'अत पर' अमल करना बिगाड़ा नहीं। 13 बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली बार 'जिस्म फ़र्ज़ है। 4 तुम जो शरी'अत के वसीले से रास्तबाज़ ठहरना चाहते की कमज़ोरी की वजह से तुम को खुशख़बरी सुनाई थी। 14 और हो, मसीह से अलग हो गए और फ़ज़ल से महरूम। 5 क्योंकि हम तुम ने मेरी उस जिस्मानी हालत को, जो तुम्हारी आजमाईश का पाक रूह के जरिए, इमान से रास्तबाज़ी की उम्मीद बर आने के ज़रिया थी, ना हकीर जाना, न उससे नफ़रत की; और ख़ुदा के मुतज़िर है। 6 और मसीह ईसा में न तो खतना कुछ काम का है न फ़रिश्ते बल्कि मसीह ईसा की तरह मुझे मान लिया। 7 तुम तो नामख़ूनी मगर इमान जो मुहब्बत की राह से असर करता है। 7 तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे किसने तुम्हें हक़ के मानने से रोक दिया। 8 ये तरगीब ख़ुदा जिसने तुम्हें बुलाया उस की तरफ़ से नहीं है। 9 थोड़ा सा खमीर सारे गूँधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 10 मुझे ख़ुदाबन्द में तुम पर ये भरोसा है कि तुम और तरह का खयाल न करोगे; लेकिन जो तुम्हें उलझा देता है, वो चाहे कोई हो सज़ा पाएगा। 11 और ऐ भाइयों! अगर मैं अब तक खतना का एलान अपना त'अल्लुक तोड़ लेते। 13 ऐ भाइयों! तुम आज़ादी के लिए करता हूँ, तो अब तक सताया क्यूँ जाता हूँ? इस सूरत में तो सलीब बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा न हो कि ये आज़ादी जिस्मानी बातों का की ठोकर तो जाती रही। 12 काश कि तुम्हें बेकरार करने वाले मौका, बने; बल्कि मुहब्बत की राह पर एक दूसरे की खिदमत करो। 14 क्योंकि पूरी शरी'अत पर एक ही बात से 'अमल हो जाता है, या; अपनी त'अल्लुक तोड़ लेते। 13 ऐ भाइयों! तुम आज़ादी के लिए नी इससे कि "तू अपने पड़ोसी से अपनी तरह मुहब्बत रख।" 15 बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा न हो कि ये आज़ादी जिस्मानी बातों का लेकिन अगर तुम एक दूसरे को फाड़ खाते हो, तो खबरदार रहना कि एक दूसरे को खत्म न कर दो। 16 मगर मैं तुम से ये कहता हूँ, रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा न

करोगे। 17 क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और सलीब के, जिससे दुनिया में ए'तिबार से। 15 क्योंकि न खतना कुछ रूह जिस्म के खिलाफ है, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि चीज है न नामाख्तनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। 16 और जो तुम चाहो वो न करो। 18 और अगर तुम पाक रूह की हिदायत जितने इस कर्डे पर चले उन्हें, और खुदा के इस्माइल को इत्मीनान से चलते हो, तो शरी'अत के मातहत नहीं रहे। 19 अब जिस्म के और रहम हासिल होता रहे। 17 आगे को कोई मुझे तकलीफ न दे, काम तो जाहिर है, यानी कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर मसीह के दाग लिए फिरता हूँ। 18 ऐ 20 बुत परसती, जादूगारी, अदावतें, झगडा, हसद, गुस्सा, तफ्रके, भाइयों! हमारे खुदावन्द ईसा मसीह का फजल तुम्हारे साथ रहे। जुदाइयों, बिद'अतें, 21 अदावत, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी अमीन तरह, इनके ज़रिए तुम्हें पहले से कहे देता हूँ जिसको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। 22 मगर पाक रूह का फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी 23 हलीम, परहेजगारी है; ऐसे कामों की कोई शरी; अत मुखालिफ नहीं। 24 और जो मसीह ईसा के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खीच दिया है। 25 अगर हम पाक रूह की वजह से जिंदा हैं, तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। 26 हम बेजा फ़ख़ करके न एक दूसरे को चिढ़ाएँ, न एक दूसरे से जलें।

**6** ऐ भाइयों! अगर कोई आदमी किसी कूसूर में पकडा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो, उसको नर्म मिज़ाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में न पड़ जाए। 2 तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, और यूँ मसीह की शरी'अत को पूरा करो। 3 क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी न हो, तो अपने आप को धोखा देता है। 4 पस हर शख्स अपने ही काम को आजमाले, इस सूरत में उसे अपने ही बारे में फ़ख़ करने का मौका होगा न कि दूसरे के बारे में। 5 क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। 6 कलाम की ता'लीम पानेवाला, ता'लीम देनेवाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। 7 धोखा न खाओ; खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8 जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है, वो जिस्म से हलाकत की फ़सल काटेगा; और जो रूह के लिए बोता है, वो पाक रूह से हमेशा की ज़िन्दगी की फ़सल काटेगा। (aiōnios g166) 9 हम नेक काम करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि अगर बेदिल न होंगे तो 'सही वक़्त पर काटेंगे। 10 पस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें खासकर अहले ईमान के साथ। 11 देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुम को अपने हाथ से लिखा है। 12 जितने लोग जिस्मानी जाहिर होना चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मसीह की सलीब के वजह से सताए न जाँए। 13 क्योंकि खतना कराने वाले खुदा भी शरी'अत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इस लिए कराना चाहते हैं, कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फ़ख़ करें। 14 लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख़ करूँ सिवा अपने खुदावन्द मसीह ईसा की

# इफिसियों

**1** पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से ईसा मसीह का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम खत जो इफिसुस शहर में हैं और ईसा मसीह 'में ईमानदार हैं: 2 हमारे बाप खुदा और खुदावन्द ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। 3 हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हम को मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बर्कत बरख़ी। 4 चुनौचे उसने हम को दुनियाँ बनाने से पहले उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मुहब्बत में पाक और बे'ऐब हों! 5 खुदा अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुवाफ़िक हमें अपने लिए पहले से मुक़र्र किया कि ईसा मसीह के वसीले से खुदा लेपालक बेटे हों, 6 ताकि उसके उस फ़ज़ल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस 'अज़ीज़ में मुफ़्त बरख़ा। 7 हम को उसमें 'ईसा के खून के वसीले से मख़लसी, या'नी कुसूरों की मु'आफ़ी उसके उस फ़ज़ल की दौलत के मुवाफ़िक हासिल है, 8 जो खुदा ने हर तरह की हिक्मत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाज़िल किया 9 चुनौचे उसने अपनी मर्जी के राज़ को अपने उस नेक इरादे के मुवाफ़िक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने में ठहरा लिया था 10 ताकि ज़मानो के पूरे होने का ऐसा इन्तिज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजम'आ हो जाए, चाहे वो आसमान की हों चाहे ज़मीन की। 11 उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफ़िक जो अपनी मर्जी की मसलेहत से सब कुछ करता है, पहले से मुक़र्र होकर मीरास बने। 12 ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, उसके जलाल की सिताइश का ज़रिया हो 13 और उसी में तुम पर भी, जब तुम ने कलाम — ए — हक़ को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशख़बरी है और उस पर ईमान लाए, वादा की हुई पाक रूह की मुहर लगी। 14 पाक रूह ही खुदा की मिलिकियत की मख़लसी के लिए हमारी मीरास की पेशगी है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। 15 इस वजह से मैं भी उस ईमान का, जो तुम्हारे दरमियान खुदावन्द 'ईसा' पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर। 16 तुम्हारे ज़रिए शुक़ करने से बा'ज़ नहीं आता, और अपनी दु'आओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। 17 कि हमारे खुदावन्द 'ईसा' मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिक्मत और मुकाशिफ़ा की रूह बरख़े; 18 और तुम्हारे दिल की आँखें रौशन हो जाएँ ताकि तुम को मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मीरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, 19 और हम ईमान लानेवालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही अज़ीम है। उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफ़िक, 20 जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिला कर अपनी दहनी

तरफ़ आसमानी मुकामों पर बिठाया, 21 और हर तरह की हुक्मत और इख़्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत ऊँचा किया, जो न सिर्फ़ इस जहान में बल्कि आनेवाले जहान में भी लिया जाएगा; (aion g165) 22 और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया; और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया, 23 ये 'ईसा का बदन है, और उसी की मा'मूरी जो हर तरह से सबका मा'मूर करने वाला है।

**2** और उसने तुम्हें भी जिन्दा किया जब अपने कुसूरों और गुनाहों की वजह से मुर्दा थे। 2 जिनमें तुम पहले दुनियाँ की रविश पर चलते थे, और हवा की 'अमलदारी के हाकिम या'नी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफ़रमानी के फ़रज़न्दों में तासीर करती है। (aion g165) 3 इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख़्वाहिशों में जिन्दगी गुज़ारते और जिस्म और 'अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की तरह फ़ितरत ग़ज़ब के फ़र्ज़न्द थे। 4 मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मुहब्बत की वजह से जो उसने हम से की, 5 कि अगर्चे हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे तो भी उसने हमें मसीह के साथ जिन्दा कर दिया आपको खुदा के फ़ज़ल ही से नजात मिली है 6 और मसीह 'ईसा में शामिल करके उसके साथ जिलाया, और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। 7 ताकि वो अपनी उस महरबानी से जो मसीह 'ईसा में हम पर है, आनेवाले ज़मानो में अपने फ़ज़ल की अज़ीम दौलत दिखाए। (aion g165) 8 क्योंकि तुम को ईमान के वसीले फ़ज़ल ही से नजात मिली है; और ये तुम्हारी तरफ़ से नहीं, खुदा की बाख़्शिश है, 9 और न आ'माल की वजह से है, ताकि कोई फ़ख़ न करे। 10 क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं, और 'ईसा मसीह में उन नेक आ'माल के वास्ते पैदा हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। 11 पस याद करो कि तुम जो जिस्मानी तौर से ग़ैर — कौम वाले हो (और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए ख़तने की वजह से कहलाते हैं, तुम को नामख़तन कहते हैं) 12 अगले ज़माने में मसीह से जुदा, और इस्त्राईल की सलतनत से अलग, और वा'दे के 'अहदों से नावाक़िफ़, और नाउम्मीद और दुनियाँ में खुदा से जुदा थे। 13 मगर तुम जो पहले दूर थे, अब 'ईसा मसीह' में मसीह के खून की वजह से नज़दीक हो गए हो। 14 क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, 15 चुनौचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी, या'नी वो शरी'अत जिसके हुक्म जाबितों के तौर पर थे, मौक़फ़ कर दी ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे; 16 और सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर और उसकी वजह से दोनों को एक तन बना कर खुदा से मिलाए। 17 और उसने आ कर तुम यहदी जो खुदा के नज़दीक थे, और ग़ैर यहदी जो खुदा से

दू थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। 18 क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की, एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। 19 पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। 20 और रसूलों और नबियों की नीव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद ईसा मसीह है, तामीर किए गए हो। 21 उसी में हर एक 'इमारत मिल — मिलाकर खुदावन्द में एक पाक मक्दिस बनता जाता है। 22 और तुम भी उसमें बाहम ता'मीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो।

**3** इसी वजह से मैं पौलुस जो तुम गैर — कौम वालों की खातिर ईसा मसीह का कैदी हूँ। 2 शायद तुम ने खुदा के उस फजल के इन्तजाम का हाल सुना होगा, जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। 3 या'नी ये कि वो भेद मुझे मुकाशिफा से मा'लूम हुआ। चुनौचे मैंने पहले उसका थोडा हाल लिखा है, 4 जिसे पढकर तुम मा'लूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो राज किस कदर समझता हूँ। 5 जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मा'लूम न हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर पाक रूह में अब जाहिर हो गया है; 6 या'नी ये कि ईसा मसीह में गैर — कौम खुशखबरी के वसीले से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वा'दों में दाखिल हैं। 7 और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। 8 मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, फजल हुआ कि गैर — कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूँ। 9 और सब पर ये बात रोशन करूँ कि जो राज अजल से सब चीजों के पैदा करनेवाले खुदा में छुपा रहा उसका क्या इन्तजाम है। (aiōn g165) 10 ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिक्मत उन हुकूमतवालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं, मा'लूम हो जाए। 11 उस अजली इरादे के जो उसने हमारे खुदावन्द ईसा मसीह में किया था, (aiōn g165) 12 जिसमें हम को उस पर ईमान रखने की वजह से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। 13 पस मैं गुज़ारिश करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों की वजह से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत न हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए 'इज्जत का ज़रिया हैं। 14 इस वजह से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, 15 जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामज़द है। 16 कि वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हें ये 'इनायत करे कि तुम खुदा की रूह से अपनी बातनी इंसान िःयत में बहुत ही ताकतवर हो जाओ, 17 और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मुहब्बत में जड पकड के और बुनियाद काईम करके, 18 सब मुकद्दसों समेत बखूबी मा'लूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लम्बाई और

ऊँचाई और गहराई कितनी है, 19 और मसीह की उस मुहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है ताकि तुम खुदा की सारी मा'मूरी तक मा'मूर हो जाओ। 20 अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुवाफिक जो हम में तासीर करती है, हामारी गुज़ारिश और खयाल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, 21 कलीसिया में और ईसा मसीह में पुरत — दर — पुरत और हमेशा हमेशा उसकी बड़ाई होती रहे। आमीन। (aiōn g165)

**4** पस मैं जो खुदावन्द में कैदी हूँ, तुम से गुज़ारिश करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुवाफिक चाल चलो, 2 या'नी कमाल दरियाई और नर्मदिल के साथ सब्र करके मुहब्बत से एक दूसरे की बर्दाशत करो; 3 सुलह सलामती के बंधन में रहकर रूह की सौगात काईम रखने की पूरी कोशिश करें 4 एक ही बदन है और एक ही रूह; चुनौचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। 5 एक ही खुदावन्द, है एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा, 6 और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के दर्मियान और सब के अन्दर है। 7 और हम में से हर एक पर मसीह की बाख्शिश के अंदाज़े के मुवाफिक फजल हुआ है। 8 इसी वास्ते वो फरमाता है, "जब वो 'आलम — ए — बाला पर चढा तो कैदियों को साथ ले गया, और आदमियों को इन'आम दिए।" 9 (उसके चढने से और क्या पाया जाता है? सिवा इसके कि वो ज़मीन के नीचे के 'इलाके में उतरा भी था। 10 और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ गया, ताकि सब चीजों को मा'मूर करे)। 11 और उसी ने कुछ को रसूल, और कुछ को नबी, और कुछ को मुबशिश, और कुछ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। 12 ताकि मुकद्दस लोग कामिल बनें और खिदमत गुज़ारी का काम किया जाए, और मसीह का बदन बढ जाएँ 13 जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक न हो जाएँ और पूरा इंसान न बनें, या'नी मसीह के पुरे कद के अन्दाज़े तक न पहुँच जाएँ। 14 ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाज़ीगरी और मक्कारी की वजह से उनके गुमराह करनेवाले इरादों की तरफ हर एक ता'लीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते न पिरें 15 बल्कि मुहब्बत के साथ सच्चाई पर काईम रहकर और उसके साथ जो सिर है, या; नी मसीह के साथ, पैवस्ता हो कर हर तरह से बढते जाएँ। 16 जिससे सारा बदन, हर एक जोड़ की मदद से पैवस्ता होकर और गठ कर, उस तासीर के मुवाफिक जो बकदर — ए — हर हिस्सा होती है, अपने आप को बढाता है ताकि मुहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। 17 इस लिए मैं ये कहता हूँ और खुदावन्द में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर — कौम अपने बेहदा खयालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइन्दा को उस तरह न चलना। 18 क्योंकि उनकी 'अन्नत तारीक

हो गई है, और वो उस नादानी की वजह से जो उनमें है और अपने क्या पसन्द है। 11 और अंधेरे के बे फल कामों में शरीक न हो, दिलों की सख्ती के जरिए खुदा की जिन्दगी से अलग हैं। 19 बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। 12 क्योंकि उन के छुपे हुए उन्होंने खामोशी के साथ शहवत परस्ती को इख्तियार किया, ताकि कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। 13 और जिन चीजों पर हर तरह के गन्दे काम बड़े शोक से करें। 20 मगर तुम ने मसीह की मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ ऐसी ता'लीम नहीं पाई। 21 बल्कि तुम ने उस सच्चाई के मुताबिक जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। 14 इसलिए वो कलाम जो ईसा में है, उसी की सुनी और उसमें ये ता'लीम पाई होगी। 22 में फरमाता है, “ए सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो कि तुम अपने अगले चाल — चलन की पुरानी इंसान ियत को मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा।” 15 पस गौर से देखो कि किस उतार डालो, जो धोखे की शहवतों की वजह से खराब होती जाती है तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंदों की तरह 23 और अपनी 'अक्ल की स्थानी हालात में नए बनते जाओ, 24 चलो; 16 और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17 इस और नई इंसान ियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की वजह से नादान न बनो, बल्कि खुदावन्द की मर्जी को समझो कि रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। 25 पस झूठ बोलना क्या है। 18 और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी छोड़ कर हर एक शख्स अपने पडोसी से सच बोले, क्योंकि हम पेश आती है, बल्कि पाक रूह से मा'रु होते जाओ, 19 और आपस आपस में एक दूसरे के 'बदन हैं। 26 गुस्सा तो करो, मगर गुनाह न में दु'आएँ और गीत और स्थानी गज़लें गाया करो, और दिल से करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी नाराजगी न रहे, 27 और इब्लीस ख़ुदावन्द के लिए गाते बजाते रहा करो। 20 और सब बातों में हमारे ख़ुदावन्द ईसा मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। 21 और मसीह के ख़ौफ से एक दूसरे के फ़रमाबरदार रहो। 22 ऐ देने के लिए उसके पास कुछ हो। 29 कोई गन्दी बात तुम्हारे मुँह से 23 क्योंकि शौहर बीवी की सिर है, जैसे के मसीह कलीसिया का सिर अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फ़जल हो। 30 और खुदा है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। 24 लेकिन जैसे कलीसिया के पाक रूह को गमगीन न करो, जिससे तुम पर रिहाई के दिन के मसीह की फ़रमाबरदार है, वैसे बीवियाँ भी हर बात में अपने शौहरों लिए मुहर हुईं। 31 हर तरह की गर्म मिज़ाजी, और कहर, और की फ़रमाबरदार हों। 25 ऐ शौहरो! अपनी बीवियों से मुहब्बत गुस्सा, और शोर — ओ — गुल, और बुराई, हर किस्म की बद रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मुहब्बत करके अपने आप ख़्वाही समेत तुम से दूर की जाएँ। 32 और एक दूसरे पर मेहरबान को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, 26 ताकि उसको कलाम और नर्मदिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कुसूर के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ़ करके मुक़द्दस बनाए, 27 मु'आफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कुसूर मु'आफ़ करो।

**5** पस 'अज़ीज़ बेटों की तरह खुदा की तरह बनो, 2 और मुहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुम से मुहब्बत की, और हमारे वास्ते अपने आपको खुशबू की तरह खुदा की नज़्ज करके कुर्बान किया। 3 जैसे के मुक़द्दसों को नापासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो; 4 और न बेशर्मी और बेह्दा गोई और ठग़ा बाज़ी का, क्योंकि यह लायक नहीं; बल्कि बर'अक्स इसके शुक्र गुज़ारी हो। 5 क्योंकि तुम ये ख़ुब जानते हो कि किसी हरामकार, या नापाक, या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मीरास नहीं। 6 कोई तुम को बे फ़ाइदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों की वजह से नाफ़रमानों के बेटों पर खुदा का ग़ज़ब नाज़िल होता है। 7 पस उनके कामों में शरीक न हो। 8 क्योंकि तुम पहले अंधेरे थे; मगर अब खुदावन्द में नूर हो, पस नूर के बेटे की तरह चलो, 9 **6** ऐ फ़र्ज़न्दों! खुदावन्द में अपने माँ — बाप के फ़रमाबरदार रहो, (इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और क्योंकि यह ज़रूरी है। 2 “अपने बाप और माँ की इज़्जत कर (ये पहला हुक्म है जिसके साथ वा'दा भी है) 3 ताकि तेरा भला सच्चाई है) 10 और तज़ुर्बे से मा'लूम करते रहो के खुदावन्द को

हो, और तेरी ज़मीन पर उम्र लम्बी हो।” 4 एे औलाद वालो! तुम अपने फ़र्जन्दों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावन्द की तरफ़ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। 5 एे नौकरो! जो जिस्मानी तौर से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ़ दिली से डरते और काँपते हुए उनके ऐसे फ़रमाबरदार रहो जैसे मसीह के; 6 और आदमियों को खुश करनेवालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत न करो, बल्कि मसीह के बन्दों की तरह दिल से खुदा की मज़ी पूरी करो। 7 और खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन्द की जान कर, जी से करो। 8 क्यँकि, तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे गुलाम हो या चाहे आज़ाद, खुदावन्द से वैसा ही पाएगा। 9 और एे मलिको! तुम भी धमकियाँ छोड़ कर उनके साथ ऐसा सुलूक करो; क्यँकि तुम जानते हो उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और वो किसी का तरफदार नहीं। 10 गरज़ खुदावन्द में और उसकी कुदरत के जोर में मज़बूत बनो। 11 खुदा के सब हथियार बाँध लो ताकि तुम इस्लीस के इरादों के मुकाबिले में काईम रह सको। 12 क्यँकि हमें खून और गोशत से क़रती नहीं करना है, बल्कि हुक़मतवालों और इख़्तियार वालों और इस दुनियाँ की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में है। (aiōn g165) 13 इस वास्ते खुदा के सब हथियार बाँध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबिला कर सको, और सब कामों को अंजाम देकर काईम रह सको। 14 पस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, और रास्तबाज़ी का बख़्तर लगाकर, 15 और पाँव में सुलह की खुशख़बरी की तैयारी के जूते पहन कर, 16 और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर काईम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको; 17 और नजात का टोप, और रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है ले लो; 18 और हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज़ से जागते रहो कि सब मुक़द्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, 19 और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक़्त मुझे कलाम करने की तौफ़ीक हो, जिससे मैं खुशख़बरी के राज़ को दिलेरी से ज़ाहिर करूँ, 20 जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एल्ची हूँ, और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूँ जैसा बयान करना मुझ पर फ़र्ज़ है। 21 तुख़िकुस जो प्यारा भाई खुदावन्द में दियानतदार खादिम है, तुम्हें सब बातें बता देगा ताकि तुम भी मेरे हाल से वाकिफ़ हो जाओ कि मैं किस तरह रहता हूँ। 22 उसको मैं ने तुम्हारे पास इसी वास्ते भेजा है कि तुम हमारी हालत से वाकिफ़ हो जाओ और वो तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे। 23 खुदा बाप और खुदावन्द ईसा मसीह की तरफ से भाइयों को इत्मीनान हासिल हो, और उनमें ईमान के साथ मुहब्बत हो। 24 जो हमारे खुदावन्द ईसा मसीह से लाज़वाल मुहब्बत रखते हैं, उन सब पर फ़ज़ल होता रहे।

# फिलिप्पियों

**1** मसीह ईसा के बन्दों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से, फिलिप्पियों शहर के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह ईसा में हैं; निगहबानों और खादिमों समेत खत। **2** हमारे बाप खुदा और खुदावन्द 'ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें फज़ल और इल्मीनान हासिल होता रहे। **3** मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ, तो अपने खुदा का शक्र बजा लाता हूँ; **4** और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ, हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूँ। **5** इस लिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। **6** और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस ने तुम में नेक काम शुरू किए हैं, वो उसे ईसा मसीह के आने तक पूरा कर देगा। **7** चुनौचे जरूरी है कि मैं तुम सब के बारे में ऐसा ही खयाल करूँ, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो, और कैद और खुशखबरी की जवाब दिही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फज़ल में शरीक हो। **8** खुदा मेरा गवाह है कि मैं ईसा मसीह जैसी महबूत करके तुम सब को चाहता हूँ। **9** और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मुहबूत 'इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज्यादा होती जाए, **10** ताकि 'अच्छी अच्छी बातों को पसन्द कर सको, और मसीह के दीन में पाक साफ दिल रहो, और टोकर न खाओ; **11** और रास्तबाज़ी के फल से जो ईसा मसीह के ज़रिए से है, भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। **12** ए भाइयों! मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुज़रा, वो खुशखबरी की तरक्की का ज़रिए हुआ। **13** यहाँ तक कि मैं कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ; **14** और जो खुदावन्द में भाई हैं, उनमें अक्सर मेरे कैद होने के ज़रिए से दिलेर होकर बेखौफ़ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा हिम्मत करते हैं। **15** कुछ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह का ऐलान करते हैं और कुछ नेक निती से। **16** एक तो मुहबूत की वजह से मसीह का ऐलान करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूँ। **17** अगर दूसरे तफ़्फ़े की वजह से न कि साफ़ दिली से, बल्कि इस खयाल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। **18** पस क्या हुआ? सिर्फ़ ये की हर तरह से मसीह की मनादी होती है, चाहे बहाने से हो चाहे सच्चाई से, और इस से मैं खुश हूँ और रहूँगा भी। **19** क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुः आ और 'ईसा मसीह के रूह के इन'आम से इन का अन्जाम मेरी नजात होगा। **20** चुनौचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि, मैं किसी बात में शर्मिन्दा न हूँ बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के ज़रिए जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन की वजह से हमेशा होती रही है उसी तरह अब भी होगी, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ चाहे मरूँ।

**21** क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा'। **22** लेकिन अगर मेरा जिस्म में ज़िंदा रहना ही मेरे काम के लिए फ़ाइदा है, तो मैं नहीं जानता किसे पसन्द करूँ। **23** मैं दोनों तरफ़ फँसा हुआ हूँ; मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है; **24** मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा जरूरी है। **25** और चूँकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उस में खुश रहो; **26** और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख़ है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आनेसे मसीह ईसा में ज़्यादा हो जाए **27** सिर्फ़ ये करो कि मसीह में तुम्हारा चाल चलन मसीह के खुशखबरी के मुवाफ़िक़ रहे ताकि; चाहे मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ चाहे न आऊँ, तुम्हारा हाल सुनूँ कि तुम एक रूह में काईम हो, और ईन्जील के ईमान के लिए एक जान होकर कोशिश करते हो, **28** और किसी बात में मुखालिफ़ों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ़ निशान है; लेकिन तुम्हारी नजात का और ये खुदा की तरफ़ से है। **29** क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फज़ल हुआ कि न सिर्फ़ उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुःख भी सहो; **30** और तुम उसी तरह मेहनत करते रहो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो की मैं वैसा ही करता हूँ।

**2** पर अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मुहबूत की दिलजम'ई और रूह की शराकत और रहमदिली और — दर्द मन्दी है, **2** तो मेरी खुशी पूरी करो कि एक दिल रहो, यक़्साँ मुहबूत रखो एक जान हो, एक ही खयाल रखो। **3** तफ़्फ़े और बेजा फ़ख़ के बारे में कुछ न करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। **4** हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। **5** वैसा ही मिजाज़ रखो जैसा मसीह ईसा का भी था; **6** उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े के रखने की चीज़ न समझा। **7** बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। **8** और इंसानी सूरत में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फ़रमाँबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गंवारा की। **9** इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलन्द किया और उसे वो नाम बख़्शा जो सब नामों से आ'ला है **10** ताकि 'ईसा के नाम पर हर एक घटना झुके; चाहे आसमानियों का हो चाहे ज़मीनियों का, चाहे उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। **11** और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि 'ईसा मसीह खुदावन्द है। **12** पस ए मेरे अज़ीज़ो जिस तरह तुम हमेशा से फ़रमाबरदारी करते आए हो उसी तरह न सिर्फ़ मेरी हाज़िरी में, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी ग़ैर हाज़िरी में डरते और काँपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ; **13**

क्योंकि जो तुम में नियत और 'अमल दोनों को, अपने नेक इरादे को भरोसा करने का खयाल हो, तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। अन्जाम देने के लिए पैदा करता वो खुदा है। 14 सब काम शिकायत और तक्रार बग़ैर किया करो, 15 ताकि तुम बे ऐब और भोले हो कर टेढ़े और कजरी लोगों में खुदा के बेनुक्स फ़र्ज़न्द बने रहो [जिनके बीच दुनिया में तुम चरागों की तरह दिखाई देते हो, 16 और ज़िन्दगी का कलाम पेश करते हो]; ताकि मसीह के वापस आने के दिन मुझे तुम पर फ़ख़ हो कि न मेरी दौड़ — धूप बे फ़ाइदा हुई, न मेरी मेहनत अकारत गई। 17 और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े, तो भी खुश हूँ और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। 18 तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। 19 मुझे खुदावन्द 'ईसा में खुशी है उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजँगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरयाप्त करके मेरी भी खातिर जमा हो। 20 क्योंकि कोई ऐसा हम खयाल मेरे पास नहीं, जो साफ़ दिली से तुम्हारे लिए फ़िक्रमन्द हो। 21 सब अपनी अपनी बातों के फ़िक्र में हैं, न कि ईसा मसीह की। 22 लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ़ हो कि जैसा बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशख़बरी फैलाने में खिदमत की। 23 पस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपने हाल का अन्जाम मालूम कर लूँगा तो उसे फ़ौरन भेज दूँगा। 24 और मुझे खुदावन्द पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊँगा। 25 लेकिन मैं ने ईफ़्रूदीतुस को तुम्हारे पास भेजना ज़रूरी समझा। वो मेरा भाई, और हम खिदमत, और मसीह का सिपाही, और तुम्हारा कासिद, और मेरी हाजत रफ़ा'करने के लिए खादिम है। 26 क्योंकि वो तुम सब को बहुत चाहता था, और इस वास्ते बे करार रहता था कि तूने उसकी बीमारी का हाल सुना था। 27 बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, सिर्फ़ उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी ताकि मुझे ग़म पर ग़म न हो। 28 इसी लिए मुझे उसके भेजने का और भी ज्यादा खयाल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ, और मेरा भी ग़म घट जाए। 29 पस तुम उससे खुदावन्द में कमाल खुशी के साथ मिलना, और ऐसे शख्सों की' इज़ज़त किया करो, 30 इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था, और उसने जान लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ़ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे।

**3** ग़रज़ मेरे भाइयों! खुदावन्द में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार — बार लिखने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इस में हिफ़ाज़त है। 2 कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो कटवाने वालों से खबरदार रहो। 3 क्योंकि मख़्लूत तो हम हैं जो खुदा की रूह की हिदायत से खुदा की इबादत करते हैं, और मसीह पर फ़ख़ करते हैं, और जिस्म का भरोसा नहीं करते। 4 अग़र्चे मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर

भरोसा करने का खयाल हो, तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। 5 आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राईल की कौम और बिनयामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियो, का इब्रानी और शरी'अत के ऐ'तिबार से फ़रीसी हूँ 6 जोश के ऐतबार से कलीसिया का, सतानेवाला, शरी'अत की रास्तबाज़ी के ऐतबार से बे 'ऐब था, 7 लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़े' की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुक्सान समझ लिया है। 8 बल्कि मैंने अपने खुदावन्द मसीह 'ईसा की पहचान की बड़ी खूबी की वजह से सब चीज़ों का नुक्सान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ 9 और उस में पाया जाऊँ, न अपनी उस रास्तबाज़ी के साथ जो शरी'अत की तरफ़ से है, बल्कि उस रास्तबाज़ी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने की वजह से है और खुदा की तरफ़ से ईमान पर मिलती है; 10 और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को, और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मा'लूम करूँ, और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूँ 11 ताकि किसी तरह मुर्दा में से जी उठने के दर्जे तक पहुँचूँ। 12 अग़र्चे ये नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ को पकड़ने को दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह 'ईसा' ने मुझे पकड़ा था। 13 ऐ भाइयों! मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ; बल्कि सिर्फ़ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर, आगे की चीज़ों की तरफ़ बढ़ा हुआ। 14 निशाने की तरफ़ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह 'ईसा' में ऊपर बुलाया है। 15 पस हम में से जितने कामिल हैं यही खयाल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का खयाल हो तो खुदा उस बात को तुम पर भी जाहिर कर देगा। 16 बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक़ चलें। 17 ऐ भाइयों! तुम सब मिलकर मेरी तरह बनो, और उन लोगों की पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो; 18 क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिसका जिफ़ मैंने तुम से बराबर किया है, और अब भी रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल — चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। 19 उनका अन्जाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फ़ख़ करते हैं और दुनिया की चीज़ों के खयाल में रहते हैं। 20 मगर हमारा वतन असमान पर है हम एक मुन्जी यानी खुदावन्द 'ईसा मसीह के वहाँ से आने के इन्तिज़ार में हैं। 21 वो अपनी उस ताकत की तासीर के मुवाफ़िक़, जिससे सब चीज़ें अपने ताबे'कर सकता है, हमारी पस्त हालती के बदन की शक़्त बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत बनाएगा।

**4** इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों! जिनका मैं मुश़ताक हूँ जो मेरी खुशी और ताज़ हो। ऐ प्यारो! खुदावन्द में इसी तरह काईम रहो। 2 मैं यहूदिया को भी नसीहत करता हूँ और सुनतुखे को भी



कि वो खुदावन्द में एक दिल रहे। 3 और ऐ सच्चे हमखिदमत, तुझ से भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन 'औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने खुशखबरी फैलाने में क्लेमंस और मेरे बाकी उन हम खिदमतों समेत मेहनत की, जिनके नाम किताब — ए — हयात में दर्ज हैं। 4 खुदावन्द में हर वक्त खुश रहो; मैं फिर कहता हूँ कि खुश रहो। 5 तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावन्द करीब है। 6 किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और भिन्नत के वसीले से शक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएँ। 7 तो खुदा का इल्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलो और खयालों को मसीह 'ईसा में महफूज रखेगा। 8 गरज़ ऐ भाइयों! जितनी बातें सच हैं, और जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसन्दीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं; गरज़ जो नेकी और ता 'रीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। 9 जो बातें तुमने मुझ से सीखी, और हासिल की, और सुनी, और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इल्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। 10 मैं खुदावन्द में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा खयाल मेरे लिए सरसब्ज हुआ; बेशक तुम्हें पहले भी इसका खयाल था, मगर मौका न मिला। 11 ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ; क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूँ 12 मैं पस्त होना भी जनता हूँ और बढ़ना भी जनता हूँ; हर एक बात और सब हालतों में मैंने सेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। 13 जो मुझे ताकत बाँधता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 14 तो भी तुम ने अच्छा किया जो मेरी मुसीबतों में शरीक हुए। 15 और ऐ फिलिप्पियों! तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में, जब मैं मकिदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने — देने में मेरी मदद न की। 16 चुनौचे थिस्सलुनीकियों में भी मेरी एहतियाज रफा' करने के लिए तुमने एक दफा' नहीं, बल्कि दो दफा' कुछ भेजा था। 17 ये नहीं कि मैं ईनाम चाहता हूँ बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब से ज्यादा हो जाए 18 मेरे पास सब कुछ है, बल्कि बहुतायत से है; तुम्हारी भेजी हुई चीजों इफ्रिदतुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ, वो खुशबू और मक़बूल कुर्बानी हैं जो खुदा को पसन्दीदा है। 19 मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक़ जलाल से मसीह 'ईसा में तुम्हारी हर एक कमी रफा' करेगा। 20 हमारे खुदा और बाप की हमेशा से हमेशा तक बड़ाई होती रहे आमीन (aiōn g165) 21 हर एक मुक़द्दस से जो मसीह ईसा में है सलाम कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें सलाम कहते हैं। 22 सब मुक़द्दस खुस्सन, कैसर के घर वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। 23 खुदावन्द ईसा मसीह का फज़ल तुम्हारी रूह के साथ रहे।

# कुलुस्सियों

**1** यह खत पौलुस की तरफ से है जो खुदा की मर्जी से मसीह ईसा का रसूल है। साथ ही यह भाई तीमुथियुस की तरफ से भी है। **2** मैं कुलुस्से शहर के मुकद्दस भाइयों को लिख रहा हूँ जो मसीह पर ईमान लाए हैं: खुदा हमारा बाप आप को फज़ल और सलामती बख्से। **3** जब हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो हर वक़्त खुदा अपने खुदावन्द ईसा मसीह के बाप का शुक्र करते हैं, **4** क्योंकि हमने तुम्हारे मसीह ईसा पर ईमान और तुम्हारी तमाम मुकद्दसीन से मुहब्बत के बारे में सुन लिया है। **5** तुम्हारा यह ईमान और मुहब्बत वह कुछ जाहिर करता है जिस की तुम उम्मीद रखते हो और जो आस्मान पर तुम्हारे लिए मद्फूज़ रखा गया है। और तुम ने यह उम्मीद उस वक़्त से रखी है जब से तुम ने पहली मर्तबा सचचाई का कलाम यानी खुदा की खुशख़बरी सुनी। **6** यह पैगाम जो तुम्हारे पास पहुँच गया पूरी दुनिया में फल ला रहा और बढ़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यह तुम में भी उस दिन से काम कर रहा है जब तुम ने पहली बार इसे सुन कर खुदा के फज़ल की पूरी हकीकत समझ ली। **7** तुम ने हमारे अजीज़ हमख़िदमत इपफ़्रास से इस खुशख़बरी की तालीम पा ली थी। मसीह का यह वफ़ादार खादिम हमारी जगह तुम्हारी खिदमत कर रहा है। **8** उसी ने हमें तुम्हारी उस मुहब्बत के बारे में बताया जो रूह — उल — कुद्स ने तुम्हारे दिलों में डाल दी है। **9** इस वजह से हम तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज़ नहीं आए बल्कि यह माँगते रहते हैं कि खुदा तुम को हर स्थानी हिक्मत और समझ से नवाज़ कर अपनी मर्जी के इल्म से भर दे। **10** क्योंकि फिर ही तुम अपनी जिन्दगी खुदावन्द के लायक गुज़ार सकोगे और हर तरह से उसे पसन्द आओगे। हाँ, तुम हर किस्म का अच्छा काम करके फल लाओगे और खुदा के इल्म — ओ — 'इरफ़ान में तरक्की करोगे। **11** और तुम उस की जलाली कुदरत से मिलने वाली हर किस्म की ताक़त से मज़बूती पा कर हर वक़्त साबितकदमी और सब्र से चल सकोगे। **12** और बाप का शुक्र करते रहो जिस ने तुम को उस मीरास में हिस्सा लेने के लायक बना दिया जो उसकी रोशनी में रहने वाले मुकद्दसीन को हासिल है। **13** क्योंकि वही हमें अंधेरे की गिरफ्त से रिहाई दे कर अपने प्यारे फ़र्ज़न्द की बादशाही में लाया, **14** उस एक शख्स के इख्तियार में जिस ने हमारा फ़िदया दे कर हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। **15** खुदा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम मसीह को देख सकते हैं जो खुदा की सूरत और कायनात का पहलौठा है। **16** क्योंकि खुदा ने उसी में सब कुछ पैदा किया, चाहे आस्मान पर हो या ज़मीन पर, आँखों को नज़र आए या न नज़र आएँ, चाहे शाही तख़्त, कुव्वतें, हुक्मरान या इख्तियार वाले हों। सब कुछ मसीह के ज़रिए और उसी के लिए पैदा हुआ। **17** वही

सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब कुछ काईम रहता है। **18** और वह बदन यानी अपनी जमाअत का सर भी है। वही शुरुआत है, और चूँकि पहले वही मुर्दों में से जी उठा इस लिए वही उन में से पहलौठा भी है ताकि वह सब बातों में पहले हो। **19** क्योंकि खुदा को पसन्द आया कि मसीह में उस की पूरी मामूरी सुकूनत करे **20** और वह मसीह के ज़रिए सब बातों की अपने साथ सुलह करा ले, चाहे वह ज़मीन की हों चाहे आस्मान की। क्योंकि उस ने मसीह के सलीब पर बहाए गए खून के वसीले से सुलह — सलामती काईम की। **21** तुम भी पहले खुदा के सामने अज़नबी थे और दुश्मन की तरह सोच रख कर बुरे काम करते थे। **22** लेकिन अब उस ने मसीह के इंसानी बदन की मौत से तुम्हारे साथ सुलह कर ली है ताकि वह तुमको मुकद्दस, बेदाग और बेइल्जाम हालत में अपने सामने खड़ा करे। **23** बेशक अब ज़रूरी है कि तुम ईमान में काईम रहो, कि तुम ठोस बुनियाद पर मज़बूती से खड़े रहो और उस खुशख़बरी की उम्मीद से हट न जाओ जो तुम ने सुन ली है। यह वही पैगाम है जिस का एलान दुनिया में हर मख्लूक के सामने कर दिया गया है और जिस का खादिम मैं पौलुस बन गया हूँ। **24** अब मैं उन दुखों के ज़रिए खुशी मनाता हूँ जो मैं तुम्हारी खातिर उठा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने जिस्म में मसीह के बदन यानी उस की जमाअत की खातिर मसीह की मुसीबतों की वह कमियाँ पूरी कर रहा हूँ जो अब तक रह गई हैं। **25** हाँ, खुदा ने मुझे अपनी जमाअत का खादिम बना कर यह जिम्मेदारी दी कि मैं तुम को खुदा का पूरा कलाम सुना दूँ, **26** वह बातें जो शुरू से तमाम गुज़री नसलों से छुपा रहा था लेकिन अब मुकद्दसीन पर जाहिर की गई हैं। (aiōn g165) **27** क्योंकि खुदा चाहता था कि वह जान लें कि ग़ैरयहूदियों में यह राज़ कितना बेशक़ीमती और जलाली है। और यह राज़ है क्या? यह कि मसीह तुम में है। वही तुम में है जिस के ज़रिए हम खुदा के जलाल में शरीक होने की उम्मीद रखते हैं। **28** यूँ हम सब को मसीह का पैगाम सुनाते हैं। हर मुम्किन हिक्मत से हम उन्हें समझाते और तालीम देते हैं ताकि हर एक को मसीह में कामिल हालत में खुदा के सामने पेश करें। **29** यही मक़सद पूरा करने के लिए मैं सख्त मेहनत करता हूँ। हाँ, मैं पूरे जड़ — ओ — जहद करके मसीह की उस ताक़त का सहारा लेता हूँ जो बड़े जोर से मेरे अन्दर काम कर रही है।

**2** मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर जाँफ़िशानी कर रहा हूँ — तुम्हारे लिए, लौदीकिया शहर वालों के लिए और उन तमाम ईमानदारों के लिए भी जिन की मेरे साथ मुलाक़ात नहीं हुई। **2** मेरी कोशिश यह है कि उन की दिली हौसला अफ़जाई की जाए और वह मुहब्बत में एक हो जाएँ, कि उन्हें वह ठोस भरोसा हासिल हो जाए जो पूरी समझ से पैदा होता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह खुदा का राज़ जान लें। राज़ क्या है? मसीह

खुद। 3 उसी में हिक्मत और इल्म — ओ — 'इरफान के तमाम खजाने छुपे हैं। 4 गरज खबरदार रहें कि कोई तुमको बजाहिर सही और मीठे मीठे अल्फाज़ से धोखा न दे। 5 क्योंकि गरचे मैं जिस्म के लिहाज़ से हाज़िर नहीं हूँ, लेकिन रूह में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं यह देख कर ख़ुश हूँ कि तुम कितनी मुनज़ज़म जिन्दगी गुज़ारते हो, कि तुम्हारा मसीह पर ईमान कितना पुख्ता है। 6 तुमने ईसा मसीह को खुदावन्द के तौर पर कबूल कर लिया है। अब उस में जिन्दगी गुज़ारो। 7 उस में जड़ पकड़ो, उस पर अपनी जिन्दगी तामीर करो, उस ईमान में मजबूत रहो जिस की तुमको तालीम दी गई है और शुक्रगुजारी से लबरेज़ हो जाओ। 8 होशियार रहो कि कोई तुम को फ़्लसफ़ियाना और महज़ धोखा देने वाली बातों से अपने जाल में न फँसा ले। ऐसी बातों का सरचश्मा मसीह नहीं बल्कि इंसानी रिवायतें और इस दुनियाँ की ताकतें हैं। 9 क्योंकि मसीह में खुदाइयत की सारी मामूरी मुजस्सिम हो कर सुकूनत करती है। 10 और तुम को जो मसीह में है उस की मामूरी में शरीक कर दिया गया है। वही हर हुक्मरान और इख्तियार वाले का सर है। 11 उस में आते वक़्त तुम्हारा खतना भी करवाया गया। लेकिन यह खतना इंसानी हाथों से नहीं किया गया बल्कि मसीह के वसीले से। उस वक़्त तुम्हारी पुरानी निस्वत उतार दी गई, 12 तुम को बपतिस्मा दे कर मसीह के साथ दफनाया गया और तुम को ईमान से जिन्दा कर दिया गया। क्योंकि तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाए थे, उसी कुदरत पर जिस ने मसीह को मुर्दे में से जिन्दा कर दिया था। 13 पहले तुम अपने गुनाहों और नामख़ून जिस्मानी हालत की वजह से मुर्दा थे, लेकिन अब खुदा ने तुमको मसीह के साथ जिन्दा कर दिया है। उस ने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। 14 और अहकाम की वह दस्तावेज़ जो हमारे खिलाफ़ थी उसे उस ने रद्द कर दिया। हाँ, उस ने हम से दूर करके उसे कीलों से सलीब पर जड़ दिया। 15 उस ने हुक्मरानों और इख्तियार वालों से उन का हथियार छीन कर सब के सामने उन की स्खाई की। हाँ, मसीह की सलीबी मौत से वह खुदा के कैदी बन गए और उन्हें फ़तह के जुलूस में उस के पीछे पीछे चलना पड़ा। 16 चुनौचे कोई तुमको इस वजह से मुजरिम न ठहराए कि तुम क्या क्या खाते — पीते या कौन कौन सी ईदें मनाते हो। इसी तरह कोई तुम्हारी अदालत न करे अगर तुम हक़ की ईद या सबत का दिन नहीं मनाते। 17 यह चीज़ें तो सिर्फ़ आने वाली हकीकत का साया ही हैं जबकि यह हकीकत खुद मसीह में पाई जाती है। 18 ऐसे लोग तुम को मुजरिम न ठहराएँ जो जाहिरी फ़रोतनी और फ़रिशतों की इबादत पर इसार करते हैं। बड़ी तफ़सील से अपनी रोयाओ में देखी हुई बातें बयान करते करते उन के ग़ैरस्हानी ज़हन ख्वाह — म — ख्वाह फूल जाते हैं। 19 यँ उन्हीं ने मसीह के साथ लगे रहना छोड़ दिया अगरचे वह बदन का सिर है।

वही जोड़ों और पड़ों के जरिए पूरे बदन को सहारा दे कर उस के मुख़्तलिफ़ हिस्सों को जोड़ देता है। यँ पूरा बदन खुदा की मदद से तरक्की करता जाता है। 20 तुम तो मसीह के साथ मर कर दुनियाँ की ताकतों से आज़ाद हो गए हो। अगर ऐसा है तो तुम जिन्दगी ऐसे क्यूँ गुज़ारते हो जैसे कि तुम अभी तक इस दुनिया की मिलिक्यत हो? तुम क्यूँ इस के अहकाम के ताबे रहते हो? 21 मसलन “इसे हाथ न लगाना, वह न चखना, यह न छूना।” 22 इन तमाम चीज़ों का मक़सद तो यह है कि इस्तेमाल हो कर ख़त्म हो जाएँ। यह सिर्फ़ इंसानी अहकाम और तालीमात हैं। 23 बेशक यह अहकाम जो गढे हुए मज्हबी फ़राइज़, नाम — निहाद फ़रोतनी और जिस्म के सख़्त दबाओ का तकाज़ा करते हैं हिक्मत पर मुन्हसिर तो लगते हैं, लेकिन यह बेकार हैं और सिर्फ़ जिस्म ही की ख्वाहिशात पूरी करते हैं।

**3** तुम को मसीह के साथ जिन्दा कर दिया गया है, इस लिए वह कुछ तलाश करो जो आस्मान पर है जहाँ मसीह खुदा के दहने हाथ बैठा है। 2 दुनियावी चीज़ों को अपने खयालों का मर्कज़ न बनाओ बल्कि आस्मानी चीज़ों को। 3 क्योंकि तुम मर गए हो और अब तुम्हारी जिन्दगी मसीह के साथ खुदा में छुपी है। 4 मसीह ही तुम्हारी जिन्दगी है। जब वह जाहिर हो जाएगा तो तुम भी उस के साथ जाहिर हो कर उस के जलाल में शरीक हो जाओगे। 5 चुनौचे उन दुनियावी चीज़ों को मार डालो जो तुम्हारे अन्दर काम कर रही हैं: जिनाकारी, नापाकी, शहवतपरस्ती, बुरी ख्वाहिशात और लालच (लालच तो एक किस्म की बुतपरस्ती है) 6 खुदा का ग़ज़ब ऐसी ही बातों की वजह से नाज़िल होगा। 7 एक वक़्त था जब तुम भी इन के मुताबिक़ जिन्दगी गुज़ारते थे, जब तुम्हारी जिन्दगी इन के काबू में थी। 8 लेकिन अब वक़्त आ गया है कि तुम यह सब कुछ यानी गुस्सा, तैश, बदसलूकी, बुरतान और गन्दी ज़बान खस्ताहाल कपड़े की तरह उतार कर फेंक दो। 9 एक दूसरे से बात करते वक़्त झूठ मत बोलना, क्योंकि तुमने अपनी पुरानी फ़ितरत उस की हरकतो समेत उतार दी है। 10 साथ साथ तुमने नई फ़ितरत पहन ली है, वह फ़ितरत जिस की ईजाद हमारा ख़ालिक अपनी सूत पर करता जा रहा है ताकि तुम उसे और बेहतर तौर पर जान लो। 11 जहाँ यह काम हो रहा है वहाँ लोगों में कोई फ़र्क़ नहीं है, चाहे कोई ग़ैरयहदी हो या यहदी, मख़्तून हो या नामख़ून, ग़ैरयूनानी हो या स्कूती, गुलाम हो या आज़ाद। कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, सिर्फ़ मसीह ही सब कुछ और सब में है। 12 खुदा ने तुम को चुन कर अपने लिए ख़ास — और पाक कर लिया है। वह तुम से मुहब्बत रखता है। इस लिए अब तरस, नेकी, फ़रोतनी, नर्मदिल और सन्न को पहन लो। 13 एक दूसरे को बर्दाशत करो, और अगर तुम्हारी किसी से शिकायत हो तो उसे मुआफ़ कर दो। हाँ, यँ मुआफ़ करो जिस तरह खुदावन्द ने आप को मुआफ़ कर दिया है। 14 इन के अलावा मुहब्बत भी

पहन लो जो सब कुछ बाँध कर कामिलियत की तरफ ले जाती है। 9 वह हमारे वफादार और अजीज भाई उनेसिमस के साथ 15 मसीह की सलामती तुम्हारे दिलों में हुकूमत करे। क्योंकि ख़ुदा तुम्हारे पास आ रहा है, वही जो तुम्हारी जमाअत से है। दोनों तुमको ने तुम को इसी सलामती की ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए बुला कर वह सब कुछ सुना देगे जो यहाँ हो रहा है। 10 अरिस्तरख़ुस जो मेरे एक बदन में शामिल कर दिया है। शक्रगुज़ार भी रहो। 16 तुम्हारी साथ कैद में है तुम को सलाम कहता है और इसी तरह बरनबास का ज़िन्दगी में मसीह के कलाम की पूरी दौलत घर कर जाए। एक दूसरे चचेरा भाई मरकुस भी। (तुम को उस के बारे में हिदायत दी गई है। को हर तरह की हिक्मत से तालीम देते और समझाते रहो। साथ साथ जब वह तुम्हारे पास आए तो उसे ख़ुशआमदीद कहना)। 11 ईसा जो अपने दिलों में ख़ुदा के लिए शक्रगुज़ारी के साथ ज़बूर, हम्द — ओ यूसुस कहलाता है भी तुम को सलाम कहता है। उन में से जो मेरे — सना और र्हानी गीत गाते रहो। 17 और जो कुछ भी तुम करो साथ ख़ुदा की बादशाही में ख़िदमत कर रहे है सिर्फ़ यह तीन मर्द ख़्वाह ज़बानी हो या अमली वह ख़ुदावन्द ईसा का नाम ले कर यहदी है। और यह मेरे लिए तसल्लुकी का ज़रिया रहे है। 12 मसीह करो। हर काम में उसी के वसीले से ख़ुदा बाप का शक्र करो। 18 ईसा का ख़ादिम इफ़्रास भी जो तुम्हारी जमाअत से है सलाम कहता वीवियो, अपने शौहर के ताबे रहें, क्योंकि जो ख़ुदावन्द में है उस है। वह हर वक़्त बड़ी ज़द — ओ — ज़द के साथ तुम्हारे लिए के लिए यही मुनासिब है। 19 शौहरो, अपनी वीवियों से मुहब्बत दुआ करता है। उस की ख़ास दुआ यह है कि तुम मज्बूती के साथ रखो। उन से तल्ख़ मिज़ाजी से पेश न आओ। 20 बच्चे, हर बात में खड़े रहो, कि तुम बालिग़ मसीही बन कर हर बात में ख़ुदा की अपने माँ — बाप के ताबे रहें, क्योंकि यही ख़ुदावन्द को पसन्द मज़ी के मुताबिक़ चलो। 13 मैं ख़ुद इस की तस्दीक़ कर सकता है। 21 वालिदो, अपने बच्चों को गुस्सा न करें, वर्ना वह बेदिल हूँ कि उस ने तुम्हारे लिए सख़्त मेहनत की है बल्कि लौदीकिया और हियरापुल्लिस की जमाअतों के लिए भी। 14 हमारे अजीज हो जाएँगे। 22 गुलामों, हर बात में अपने दुनियावी मालिकों के और हियरापुल्लिस की जमाअतों के लिए भी। 14 हमारे अजीज ताबे रहो। न सिर्फ़ उन के सामने ही और उन्हें ख़ुश रखने के लिए तबीब लूका और देमास तुमको सलाम कहते हैं। 15 मेरा सलाम ख़िदमत करें बल्कि ख़ुलसदिली और ख़ुदावन्द का ख़ौफ़ मान कर लौदीकिया की जमाअत को देना और इसी तरह नुम्फ़ास को उस काम करें। 23 जो कुछ भी तुम करते हो उसे पूरी लगन के साथ जमाअत समेत जो उस के घर में जमा होती है। 16 यह पढ़ने के करो, इस तरह जैसा कि तुम न सिर्फ़ इंसान ों की बल्कि ख़ुदावन्द बाद ध्यान दें कि लौदीकिया की जमाअत में भी यह ख़त पढा जाए की ख़िदमत कर रहे हो। 24 तुम तो जानते हो कि ख़ुदावन्द तुम को और तुम लौदीकिया का ख़त भी पढो। 17 अख़िंपुस को बता देना, इस के मुआवज़े में वह मीरास देगा जिस का वादा उस ने किया है। ख़बरदार कि तुम वह ख़िदमत उस पाए तक्मिल तक पहुँचाओ जो तुम को ख़ुदावन्द में सौंपी गई है। 18 मैं अपने हाथ से यह अल्फ़ाज़ लिख रहा हूँ। मेरा यानी पौलस की तरफ़ से सलाम। मेरी जंजीरों मत मिलेगा। ख़ुदा तो किसी की भी तरफ़दारी नहीं करता। भूलना! ख़ुदा का फ़जल तुम्हारे साथ होता रहे।

**4** मालिको, अपने गुलामों के साथ मलिकाना और जायज़ सुलूक करें। तुम तो जानते हो कि आस्मान पर तुम्हारा भी एक ही मालिक और वो ख़ुदा है। 2 दुआ में लगे रहो। और दुआ करते वक़्त शक्रगुज़ारी के साथ जागते रहो। 3 साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करो ताकि ख़ुदा हमारे लिए कलाम सुनाने का दरवाज़ा खोले और हम मसीह का राज़ पेश कर सकें। आख़िर मैं इसी राज़ की वजह से कैद में हूँ। 4 दुआ करो कि मैं इसे यँ पेश करूँ जिस तरह करना चाहिए, कि इसे साफ़ समझा जा सके। 5 जो अब तक ईमान न लाए हों उन के साथ अब्रलमन्दी का सुलूक करो। इस सिलसिले में हर मौक़े से फ़ाइदा उठाओ। 6 तुम्हारी बातें हर वक़्त मेहरबान हो, ऐसी कि मज़ा आए और तुम हर एक को मुनासिब जवाब दे सको। 7 जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है हमारा अजीज भाई तुख़िकुस तुमको सब कुछ बता देगा। वह एक वफ़ादार ख़ादिम और ख़ुदावन्द में हमख़िदमत रहा है। 8 मैंने उसे ख़ासकर इस लिए तुम्हारे पास भेज दिया ताकि तुम को हमारा हाल मालूम हो जाए और वह तुम्हारी हौसला अफ़ज़ाई

# 1 थिस्सलुनीकियों

**1** पौलुस और सिलास और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों शहर की कलीसिया के नाम खत, जो खुदा बाप और खुदा वन्द ईसा मसीह में है, फ़ज़ल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। 2 तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और अपनी दु'आओं में तुम्हें याद करते हैं। 3 और अपने खुदा और बाप के हज़र तुम्हारे ईमान के काम और मुहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सन्न को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावन्द ईसा मसीह की वजह से है। 4 और ऐ भाइयों! खुदा के प्यारों हम को मा'लूम है; कि तुम चुने हुए हो। 5 इसलिए कि हमारी खुशख़बरी तुम्हारे पास न फ़क़त लफ़ज़ी तौर पर पहुँची बल्कि क़दरत और रूह — उल — क़दूस और पूरे यक़ीन के साथ भी चुनाँचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे। 6 और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूह — उल — क़दूस की खुशी के साथ क़बूल करके हमारी और खुदावन्द की मानिन्द बने। 7 यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। 8 क्योंकि तुम्हारे हों से न फ़क़त मकिदुनिया और अखिया में खुदावन्द के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ ज़रत नहीं। 9 इसलिए कि वो आप हमारा जिक्क करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिर कर खुदा की तरफ़ मुखातिब हुए ताकि जिन्दा और हकीकी खुदा की बन्दगी करो। 10 और उसके बेटे के आसमान पर से आने के इन्तिज़ार में रहो, जिसे उस ने मुर्दों में से जिलाया या'नी ईसा मसीह के जो हम को आने वाले ग़ज़ब से बचाता है।

**2** ऐ भाइयों! तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफ़ाइदा न हुआ। 2 बल्कि तुम को मा'लूम ही है कि बावजूद पहले फिलिप्पी में दु: ख उठाने और बेइज़्जत होने के हम को अपने खुदा में ये दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशख़बरी बड़ी जाँफ़िशानी से तुम्हें सुनाएँ। 3 क्योंकि हमारी नसीहत न गुमराही से है न नापाकी से न धोखे के साथ। 4 बल्कि जैसे खुदा ने हम को मक़बूल करके खुशख़बरी हमारे सुपर्द की वैसे ही हम बयान करते हैं; आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। 5 क्योंकि तुम को मा'लूम ही है कि न कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई न लालच का पर्दा बना खुदा इसका गवाह है! 6 और हम न आदमियों से इज़्जत चाहते हैं न तुम से न औरों से अगरचे मसीह के रसूल होने की वजह तुम पर बोझ डाल सकते थे। 7 बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दर्मियान नमी के साथ रहे। 8 और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत अहसानमंद होकर न फ़क़त खुदा की खुशख़बरी

बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें देने को राज़ी थे; इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे! 9 क्योंकि ऐ भाइयों! तुम को हमारी मेहनत और मशक्क़त याद होगी कि हम ने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की गरज़ से रात दिन मेहनत मज़दूरी करके तुम्हें खुदा की खुशख़बरी की मनादी की। 10 तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुम से जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाज़ी और बे'ऐबी के साथ पेश आए। 11 चुनाँचे तुम जानते हो। कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे। 12 ताकि तुम्हारा चालचलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। 13 इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारे ज़रिए तुम्हारे पास पहुँचा तो तुम ने उसे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं बल्कि जैसा हकीक़त में है खुदा का कलाम जान कर क़बूल किया और वो तुम में जो ईमान लाए हो असर भी कर रहा है। 14 इसलिए कि तुम ऐ भाइयों!, खुदा की उन कलीसियाओं की तरह बन गए जो यहूदिया में मसीह ईसा में हैं क्योंकि तुम ने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफ़ उठाई जो उन्होंने यहूदियों से। 15 जिन्होंने खुदावन्द ईसा को भी मार डाला और हम को सता सता कर निकाल दिया वो खुदा को पसन्द नहीं आते और सब आदमियों के खिलाफ़ हैं। 16 और वो हमें ग़ैर कौमों को उनकी नज़ात के लिए कलाम सुनाने से मनह करते हैं ताकि उन के गुनाहों का पैमाना हमेशा भरता रहे; लेकिन उन पर इन्तिहा का ग़ज़ब आ गया। 17 ऐ भाइयों! जब हम थोड़े अर्से के लिए जाहिर में न कि दिल से तुम से जुदा हो गए तो हम ने कमाल आरज़ू से तुम्हारी सूत देखने की और भी ज़्यादा कोशिश की। 18 इस वास्ते हम ने या'नी मुज़्ज़ पौलुस ने एक दफ़ा' नहीं बल्कि दो दफ़ा' तुम्हारी पास आना चाहा मगर शैतान ने हमें रोके रखा। 19 भला हमारी उम्मीद और खुशी और फ़ख़्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावन्द के सामने उसके आने के वक़्त तुम ही न होगे। 20 हमारा जलाल और खुशी तुम्हीं तो हो।

**3** इस वास्ते जब हम ज़्यादा बर्दाश्त न कर सके तो अथेने शहर में अकेले रह जाना मन्ज़ूर किया। 2 और हम ने तीमुथियुस को जो हमारा भाई और मसीह की खुशख़बरी में खुदा का ख़ादिम है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मज़बूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे। 3 कि इन मुसीबतों के ज़रिए से कोई न घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुक़र्रर हुए हैं। 4 बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे, तो तुम से कहा करते थे; कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनाँचे ऐसा ही हुआ और तुम्हें मा'लूम भी है। 5 इस वास्ते जब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका तो तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ़्त करने को भेजा; कहीं ऐसा न हो

कि आजमाने वाले ने तुम्हें आजमाया हो और हमारी मेहनत बेफाइदा रह गई हो। 6 मगर अब जो तीमथियस ने तुम्हारे पास से हमारे पास आकर तुम्हारे ईमान और मुहब्बत की और इस बात की खुशखबरी दी कि तुम हमारा जिफ्र खैर हमेशा करते हो और हमारे देखने के ऐसे मुशताक हो जैसे कि हम तुम्हारे। 7 इसलिए ऐ भाइयों! हम ने अपनी सारी एहतियाज और मुसीबत में तुम्हारे ईमान के ज़रिए से तुम्हारे बारे में तसल्ली पाई। 8 क्योंकि अब अगर तुम खुदावन्द में काईम हो तो हम ज़िन्दा हैं। 9 तुम्हारी वजह से अपने खुदा के सामने हमें जिस कदर खुशी हासिल है, उस के बदले में किस तरह तुम्हारे ज़रिए खुदा का शुक्र अदा करें। 10 हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखें और तुम्हारे ईमान की कमी पूरी करें। 11 अब हमारा खुदा और बाप खुद हमारा खुदावन्द ईसा तुम्हारी तरफ से हमारी रहनुमाई करे। 12 और खुदावन्द ऐसा करे कि जिस तरह हम को तुम से मुहब्बत है उसी तरह तुम्हारी मुहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज़्यादा हो और बढ़े 13 ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मज़बूत कर दे कि जब हमारा खुदावन्द ईसा अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब हों।

**4** ग़रज़ ऐ भाइयों!, हम तुम से दरखास्त करते हैं और खुदावन्द ईसा में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुम ने हम से मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की ता'लीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। 2 क्योंकि तुम जानते हो कि हम ने तुम को खुदावन्द ईसा की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुँचाए। 3 चुनौचे खुदा की मज़ी ये है कि तुम पाक बनो, या'नी हरामकारी से बचे रहो। 4 और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़रफ़ को हासिल करना जाने। 5 न बुरी ख्वाहिश के जोश से उन कौमों की तरह जो खुदा को नहीं जानती 6 और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस काम में ज़्यादती और दगा न करे क्योंकि खुदावन्द इन सब कामों का बदला लेने वाला है चुनौचे हम ने पहले भी तुम को करके जता दिया था। 7 इसलिए कि खुदा ने हम को नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। 8 पस, जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुम को अपना पाक रूह देता है। 9 मगर भाई — चारे की मुहब्बत के ज़रिए तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं क्योंकि तुम ने आपस में मुहब्बत करने की खुदा से ता'लीम पा चुके हो। 10 और तमाम मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो लेकिन ऐ भाइयों! हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ। 11 और जिस तरह हम ने तुम को हुक्म दिया चुप चाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। 12 ताकि बाहर वालों के साथ संजीदगी से बरताव

करो और किसी चीज़ के मोहताज न हो। 13 ऐ भाइयों! हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनके बारे में तुम नावाकिफ़ रहो ताकि औरों की तरह जो ना उम्मीद है गम ना करो। 14 क्योंकि जब हमें ये यक़ीन है कि ईसा मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उन को भी जो सो गए हैं ईसा के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। 15 चुनौचे हम तुम से दावन्द के कलाम के मुताबिक़ कहते हैं कि हम जो ज़िन्दा हैं और दावन्द के आने तक बाक़ी रहेंगे सोए हुआँ से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे। 16 क्योंकि खुदावन्द खुद आसमान से लल्कार और ख़ास फ़रिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मरे जी उठेंगे। 17 फिर हम जो ज़िन्दा बाक़ी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएँगे; ताकि हवा में खुदावन्द का इस्तक़बाल करें और इसी तरह हमेशा दावन्द के साथ रहेंगे। 18 पस, तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो।

**5** मगर ऐ भाइयों! इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वक्तों और मौक़ों के ज़रिए तुम को कुछ लिखा जाए। 2 इस वास्ते कि तुम आप खुद जानते हो कि खुदावन्द का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। 3 जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है उस वक्त उन पर इस तरह हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द होता है और वो हरगिज़ न बचेंगे। 4 लेकिन तुम ऐ भाइयों, अंधेरे में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। 5 क्योंकि तुम सब नूर के फ़र्ज़न्द और दिन के फ़र्ज़न्द हो, हम न रात के हैं न तारीकी के। 6 पस, औरों की तरह सोते न रहो, बल्कि जागते और होशियार रहो। 7 क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। 8 मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मुहब्बत का बख़तर लगा कर और निजात की उम्मीद कि टोपी पहन कर होशियार रहें। 9 क्योंकि खुदा ने हमें ग़ज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावन्द ईसा मसीह के वसीले से नजात हासिल करें। 10 वो हमारी खातिर इसलिए मरा, कि हम जागते हों या सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएँ। 11 पस, तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की की वजह बनो चुनौचे तुम ऐसा करते भी हो। 12 और ऐ भाइयों, हम तुम से दरखास्त करते हैं, कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावन्द में तुम्हारे पेशवा हैं और तुम को नसीहत करते हैं उन्हें मानो। 13 और उनके काम की वजह से मुहब्बत के साथ उन की बड़ी इज्जत करो; आपस में मेल मिलाप रखो। 14 और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बे काइदा चलने वालों को समझाओ कम हिम्मतों को दिलासा दो कमजोरों को संभालो सब के साथ तहम्मील से पेश आओ। 15 खबरदार कोई किसी से बदी के बदले बदी न करे बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पै रहो आपस में भी और सब से। 16 हर वक्त खुश रहो।

17 बिला नागा दुआ करो। 18 हर एक बात में शुक्र गुजारी करो क्योंकि मसीह ईसा में तुम्हारे बारे में खुदा की यही मज़ी है। 19 रूह को न बुझाओ। 20 नबुव्वतों की हिकारत न करो। 21 सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। 22 हर किस्म की बदी से बचे रहो। 23 खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुम को बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। 24 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है वो ऐसा ही करेगा। 25 ऐ भाइयों! हमारे वास्ते दुआ करो। 26 पाक बोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। 27 मैं तुम्हें खुदावन्द की कसम देता हूँ, कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। 28 हमारे खुदावन्द ईसा मसीह का फ़जल तुम पर होता रहे।

## 2 थिस्सलुनीकियों

**1** पौलस, और सिलास और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों शहर की कलीसिया के नाम खत जो हमारे बाप खुदा और खुदावन्द 'ईसा मसीह में है। 2 फ़जल और इत्मीनान खुदा' बाप और खुदावन्द 'ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। 3 ऐ भाइयों! तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है, कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है; और तुम सब की मुहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। 4 यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फ़रज़ करते हैं कि जितने ज़ुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। 5 ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ़ निशान है; ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो जिस के लिए तुम तकलीफ़ भी उठाते हो। 6 क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इन्साफ़ है के बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत। 7 और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे; जब खुदावन्द 'ईसा अपने मज़बूत फ़रिशतों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। 8 और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन्द 'ईसा की खुशख़बरी को नहीं मानते उन से बदला लेगा। 9 वह खुदावन्द का चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर हो कर हमेशा हलाकत की सज़ा पाएँगे (aiōnios g166) 10 ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुक़द्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों की वजह से ता'अज्जुब का बाइस होने के लिए आएगा; क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। 11 इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख़्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। 12 ताकि हमारे खुदा और खुदावन्द 'ईसा मसीह के फ़जल के मुवाफ़िक़ हमारे खुदावन्द 'ईसा का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उस में।

**2** ऐ भाइयों! हम अपने खुदा वन्द 'ईसा मसीह के आने और उस के पास जमा होने के बारे में तुम से दरख्वास्त करते हैं। 2 कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो ये समझ कर कि खुदावन्द के वापस आने का दिन आ पहुँचा है तुम्हारी अक्ल अचानक परेशान न हो जाए और न तुम घबराओ। 3 किसी तरह से किसी के धोखे में न आना क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरग़शतगी न हो और वो गुनाह का शख्स या'नी हलाकत का फ़र्ज़न्द जाहिर न हो। 4 जो मुख़ालिफ़त करता है और हर एक से जो खुदा या मा'बूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है; यहाँ तक कि वो खुदा के मक़्दिस में बैठ कर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। 5 क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे

पास था तो तुम से ये बातें कहा करता था? 6 अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर जाहिर हो उस को तुम जानते हो। 7 क्योंकि बेदीनी का राज़ तो अब भी तासीर करता जाता है मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर न किया जाए रोके रहेगा। 8 उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदावन्द येसू अपने मुँह की फ़ूँक से हलाक और अपनी आमद के जलाल से मिटा देगा। 9 और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफ़िक़ हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ, 10 और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी इस वास्ते कि उन्हीं ने हक़ की मुहब्बत को इख़्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती। 11 इसी वजह से खुदा उन के पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जानें। 12 और जितने लोग हक़ का यक़ीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसन्द करते हैं; वो सज़ा पाएँगे। 13 लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों! खुदावन्द के प्यारों हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है क्योंकि खुदा ने तुम्हें शुरू से ही इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाकीज़ा बन कर और हक़ पर ईमान लाकर नजात पाओ। 14 जिस के लिए उस ने तुम्हें हमारी खुशख़बरी के वसीले से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदा वन्द 'ईसा मसीह का जलाल हासिल करो। 15 पस ऐ भाइयों! साबित कदम रहो, और जिन रवायतों की तुम ने हमारी ज़बानी या ख़त के ज़रिए से ता'लीम पाई है उन पर काईम रहो। 16 अब हमारा खुदावन्द 'ईसा मसीह ख़ुद और हमारा बाप खुदा जिसने हम से मुहब्बत रखी और फ़ज़ल से हमेशा तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख़्शी (aiōnios g166) 17 तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मज़बूत करे।

**3** गरज़ ऐ भाइयों और बहनों! हमारे हक़ में दुआ करो कि खुदावन्द का कलाम जल्द ऐसा फैल जाए और जलाल पाए; जैसा तुम में। 2 और कजरो और बुरे आदमियों से बचे रहें क्योंकि सब में ईमान नहीं। 3 मगर खुदावन्द सच्चा है वो तुम को मज़बूत करेगा; और उस शरीर से महफूज़ रखेगा। 4 और खुदावन्द में हमें तुम पर भरोसा है; कि जो हुक़म हम तुम्हें देते हैं उस पर अमल करते हो और करते भी रहोगे। 5 खुदावन्द तुम्हारे दिलों को खुदा की मुहब्बत और मसीह के सब्र की तरफ़ हिदायत करे। 6 ऐ भाइयों! हम अपने खुदावन्द 'ईसा मसीह के नाम से तुम्हें हुक़म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बे काइदा चलता है और उस रिवायत पर अमल नहीं करता जो उस को हमारी तरफ़ से पहुँची। 7 क्योंकि आप जानते हो कि हमारी तरह किस तरह बनना चाहिए इसलिए कि हम तुम में बे काइदा न चलते थे। 8 और किसी की रोटी मुफ़्त न खाते थे, बल्कि मेहनत और मशक्क़त से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डालें। 9 इसलिए नहीं कि हम को



इच्छित्यार न था बल्कि इसलिए कि अपने आपको तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएँ ताकि तुम हमारी तरह बनो 10 और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक़्त भी तुम को ये हुक्म देते थे; कि जिसे मेहनत करना मन्ज़ूर न हो वो खाने भी न पाए। 11 हम सुनते हैं कि तुम में कुछ बेकाइदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते; बल्कि औरों के काम में दखल अंदाज़ी करते हैं। 12 ऐसे शाख्सों को हम खुदावन्द 'ईसा मसीह में हुक्म देते और सलाह देते हैं कि चुप चाप काम कर के अपनी ही रोटी खाएँ। 13 और तुम ऐ भाइयों! नेक काम करने में हिम्मत न हारो। 14 और अगर कोई हमारे इस खत की बात को न माने तो उसे निगाह में रखो और उस से त'अल्लुक न रखो ताकि वो शर्मिन्दा हो। 15 लेकिन उसे दुश्मन न जानो बल्कि भाई समझ कर नसीहत करो। 16 अब खुदावन्द जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुम को हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख़्शे; खुदावन्द तुम सब के साथ रहे। 17 मैं, पौलूस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ; हर खत में मेरा यही निशान है; मैं इसी तरह लिखता हूँ। 18 हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह का फ़ज़ल तुम सब पर होता रहे।

# 1 तीमथियुस

**1** पौलस की तरफ से जो हमारे मुन्जी खुदा और हमारे उम्मीद गाह मसीह ईसा के हुक्म से मसीह ईसा का रसूल है, 2 तीमथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा बेटा है: फ़ज़ल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदाबन्द मसीह ईसा की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। 3 जिस तरह मैंने मकिदूनिया जाते वक़्त तुझे नसीहत की थी, कि ईफ़िसस में रह कर कुछ को शख्सों हुक्म कर दे कि और तरह की ता'लीम न दें, 4 और उन कहानियों और बे इन्तिहा नसब नामों पर लिहाज न करें, जो तकरार का जरिया होते हैं, और उस इंतज़ाम — ए — इलाही के मुवाफ़िक नहीं जो ईमान पर म्बनी है, उसी तरह अब भी करता हूँ। 5 हुक्म का मक़सद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बिना दिख़ावा ईमान से मुहब्बत पैदा हो। 6 इनको छोड़ कर कुछ शख्स बेहदा बकवास की तरफ़ मुतवज्जह हो गए, 7 और शरी'अत के मु'अल्लिम बनना चाहते हैं, हालाँकि जो बातें कहते हैं और जिनका यक़ीनी तौर से दावा करते हैं, उनको समझते भी नहीं। 8 मगर हम जानते हैं कि शरी'अत अच्छी है, बशर्ते कि कोई उसे शरी'अत के तौर पर काम में लाए। 9 या'नी ये समझकर कि शरी'अत रास्तबाज़ों के लिए मुक़र्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा' और सरकश लोगों, और बेदीनों, और गुनहगारों, और नापाक, और रिन्दों, और माँ — बाप के कातिलों, और खूनियों, 10 और हारामकारों, और लौंडे — बाज़ों, और बर्दा — गुलाम फ़रोशों, और झूठों, और झूठी कसम खानेवालों, और इनके सिवा सही ता'लीम के और बरख़िलाफ़ काम करनेवालों के वास्ते है। 11 ये खुदा — ए — मुबारिक के जलाल की उस खुशख़बरी के मुवाफ़िक है जो मेरे सुपुर्द हुई। 12 मैं अपनी ताक़त बख़्शने वाले खुदाबन्द मसीह ईसा का शुक़ करता हूँ कि उसने मुझे दियानतदार समझकर अपनी ख़िदमत के लिए मुक़र्रर किया। 13 अगरचे मैं पहले कुफ़्र बकने वाला, और सताने वाला, और बे'इज्जत करने वाला था; तोभी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। 14 और हमारे खुदाबन्द का फ़ज़ल उस ईमान और मुहब्बत के साथ जो मसीह ईसा में है बहुत ज़्यादा हुआ। 15 ये बात सच और हर तरह से कुबूल करने के लायक है कि मसीह ईसा गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, उन गुनहगारों में से सब से बड़ा मैं हूँ, 16 लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि ईसा मसीह मुझ बड़े गुनहगार में अपना सब्र जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की ज़िन्दगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उन के लिए मैं नमूना बनूँ। (aiōnios g166) 17 अब हमेशा कि बादशाही या'नी ना मिटने वाली, नादीदा, एक खुदा की 'इज्जत और बड़ाई हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। (aiōn

g165) 18 ए फ़र्ज़न्द तीमथियुस! उन पेशीनगोइयों के मुवाफ़िक जो पहले तेरे जरिए की गई थीं, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे; और ईमान और उस नेक नियत पर काईम रहे, 19 जिसको दूर करने की वजह से कुछ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। 20 उन ही में से हिमुन्युस और सिकन्दर है, जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफ़्र से बा'ज़ रहना सीखें।

**2** पस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ, कि मुनाजातों, और दू'आएँ और, इत्तिजाएँ और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएँ, 2 बादशाहों और सब बड़े मरतबे वालों के वास्ते इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और सन्जीदागी से चैन सूक़न के साथ ज़िन्दगी गुजारे। 3 ये हमारे मुन्जी खुदा के नज़दीक 'उम्दा और पसन्दीदा है। 4 वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएँ, और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। 5 क्यूँकि खुदा एक है, और खुदा और इंसान के बीच में दर्मियानी भी एक या'नी मसीह ईसा जो इंसान है। 6 जिसने अपने आपको सबके फ़िदया में दिया कि मुनासिब वक़्तों पर इसकी गवाही दी जाए। 7 मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी ग़रज़ से ऐलान करने वाला और रसूल और ग़ैर — कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुक़र्रर हुआ। 8 पस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह, बग़ैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठा कर दूआ किया करें। 9 इसी तरह 'औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आपको संवारे; न कि बाल धूँधने, और सोने और मोतियों और क्रीमती पोशाक से, 10 बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली'औरतों को मुनासिब है। 11 'औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। 12 और मैं इजाज़त नहीं देता कि 'औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। 13 क्यूँकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा; 14 और आदम ने धोखा नहीं खाया, बल्कि 'औरत धोखा खाकर गुनाह में पड़ गई; 15 लेकिन औलाद होने से नजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मुहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ काईम रहें।

**3** और ये बात सच है, कि जो शख्स निगहबान का मर्तबा चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। 2 पस निगहबान को बेइल्ज़ाम, एक बीवी का शौहर, परहेज़गार, खुदापरस्त, शाइस्ता, मुसाफ़िर परवर, और ता'लीम देने के लायक होना चाहिए। 3 नशे में शोर मचाने वाला या मार — पीट करने वाला न हो; बल्कि नर्मदिल, न तकरारी, न ज़रदोस्त। 4 अपने घर का अच्छी तरह बन्दोबस्त करता हो, और अपने बच्चों को पूरी नमी से ताबे रखता हो। 5 (जब कोई अपने घर ही का बन्दोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा

कि कलीसिया की देख भाल क्या करेगा?) 6 नया शागिर्द न हो, मेहनत और कोशिश इस लिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिन्दा ताकि घमण्ड करके कहीं इब्लीस की सी सज़ा न पाए। 7 और खुदा पर लगी हुई है, जो सब आदमियों का खास कर ईमानदारों का बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए, ताकि मलामत में मुन्जी है। 11 इन बातों का हुक्म कर और ता'लीम दे। 12 कोई और इब्लीस के फन्दे में न फँसे 8 इसी तरह खादिमों को भी नर्म तेरी ज्वानी की हिकारत न करने पाए; बल्कि तू ईमानदारों के लिए होना चाहिए दो ज़बान और शराबी और नाजायज़ नफा का लालची कलाम करने, और चाल चलन, और मुहब्बत, और पाकीज़गी में ना हो 9 और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाज़त से रखें। 10 नमूना बन। 13 जब तक मैं न आऊँ, पढ़ने और नसीहत करने और और ये भी पहले आजमाए जाएँ, इसके बाद अगर बे गुनाह ठहरें तो ता'लीम देने की तरफ़ मुतवज्जह रह। 14 उस ने'अमत से गाफ़िल ना खिदमत का काम करें। 11 इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना रह जो तुझे हासिल है, और नबुव्वत के ज़रिए से बुजुर्गों के हाथ चाहिए; तोहमत लगाने वाली न हों, बल्कि परहेज़गार और सब रखते वक्त तुझे मिली थी। 15 इन बातों की फ़िक्र रख, इन ही में बातों में ईमानदार हों। 12 खादिम एक एक बीवी के शौहर हों और मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। 16 अपना और अपने अपने बच्चों और घरों का अच्छी तरह बन्दोबस्त करते हों। अपनी ता'लीम की खबरदारी कर। इन बातों पर काईम रह, क्योंकि 13 क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं, वो अपने ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों को झूठे उस्ताद की लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह ईसा पर है, बड़ी ता'लीम से भी नजात का ज़रिया होगा। दिलेरी हासिल करते हैं। 14 मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ, 15 कि अगर मुझे आने में देर हो, तो तुझे मा'लूम हो जाए कि खुदा के घर, या'नी जिन्दा खुदा की कलीसिया में जो हक का सूतन और बुनियाद है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। 16 इस में कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, या'नी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, और रूह में रास्तबाज़ ठहरा, और फ़रिशतों को दिखाई दिया, और ग़ैर — कौमों में उसकी मनादी हुई, और दुनिया में उस पर ईमान लाए, और जलाल में ऊपर उठाया गया।

**4** लेकिन पाक रूह साफ़ फ़रमाता है कि आइन्दा ज़मानों में कुछ लोग गुमराह करनेवाली रूहों, और शयातीन की ता'लीम की तरफ़ मुतवज्जह होकर ईमान से फिर जाएँ। 2 ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के ज़रिए होगा, जिनका दिल गया गर्म लोहे से दगा गया है; 3 ये लोग शादी करने से मनह' करेंगे, और उन खानों से परहेज़ करने का हुक्म देंगे, जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएँ। 4 क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ अच्छी है, और कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं; बरतें कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, 5 इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। 6 अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा, तो मसीह ईसा का अच्छा खादिम ठहरेगा; और ईमान और उस अच्छी ता'लीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है, परवरिश पाता रहेगा। 7 लेकिन बेह्दा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर, और दीनदारी के लिए मेहनत कर। 8 क्योंकि जिस्मानी मेहनत का फ़ाइदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ाइदामन्द है, इसलिए कि अब की और आइन्दा की जिन्दगी का वा'दा भी इसी के लिए है। 9 ये बात सच है और हर तरह से कुबूल करने के लायक। 10 क्योंकि हम

**5** किसी बड़े उग्र वाले को मलामत न कर, बल्कि बाप जान कर नसीहत कर; 2 और जवानों को भाई जान कर, और बड़ी उग्र वाली 'औरतों को माँ जानकर, और जवान 'औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। 3 उन बेवाओं की, जो वाक'ई बेवा हैं इज़्जत कर। 4 और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों, तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना, और माँ — बाप का हक़ अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसन्दीदा है। 5 जो वाक'ई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात — दिन मुनाजात और दुआ में मशगूल रहती है; 6 मगर जो'एश — ओ — अशरत में पड़ गई है, वो जीते जी मर गई है। 7 इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्जाम रहें। 8 अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगामी न करे, तो ईमान का इंकार करने वाला और बे — ईमान से बदतर है। 9 वही बेवा फ़र्द में लिखी जाए जो साठ बरस से कम की न हो, और एक शौहर की बीवी हुई हो, 10 और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाज़ी की हो, मुकद्दसों के पाँच धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दरपै रही हो। 11 मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज न कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ़ नफ़स के ताबे'हो जाती है, तो शादी करना चाहती है, 12 और सज़ा के लायक ठहरती है, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। 13 और इसके साथ ही वो घर घर फिर कर बेकार रहना सीखती हैं, और सिर्फ़ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती है औरों के काम में दखल भी देती है और बेकार की बातें कहती हैं। 14 पस मैं ये चाहता हूँ कि जवान बेवाएँ शादी करें, उनके औलाद हों, घर का इन्तिज़ाम करें, और किसी मुख़ालिफ़ को बदगोई का मौक़ा न दें। 15 क्योंकि कुछ गुमराह हो कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। 16 अगर

किसी ईमानदार' औरत के यहाँ बेवाएँ हों, तो वही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ न डाला जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाक'ई बेवा है। 17 जो बुजुर्ग अच्छा इन्तिज़ाम करते हैं, खास कर वो जो कलाम सुनाने और ता'लीम देने में मेहनत करते हैं, दुगनी 'इज़्जत के लायक समझे जाएँ। 18 क्यूँकि किताब — ए — मुकद्दस ये कहती है, “दाएँ में चलते हुए बैल का मुँह न बाँधना,” और “मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है।” 19 जो दा'वा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ़ किया जाए, बग़ैर दो या तीन गवाहों के उसको न सुन। 20 गुनाह करने वालों को सब के सामने मलामत कर ताकि औरों को भी ख़ौफ़ हो। 21 खुदा और मसीह ईसा और बरगुजीदा फ़रिशतों को गवाह करके मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि इन बातों पर बिला ता'अस्सुब'अमल करना, और कोई काम तरफ़दारी से न करना। 22 किसी शरख़ पर जल्द हाथ न रखना, और दूसरों के गुनाहों में शरीक न होना, अपने आपको पाक रखना। 23 आइन्दा को सिर्फ़ पानी ही न पिया कर, बल्कि अपने में दे और अक्सर कमज़ोर रहने की वजह से ज़रा सी मय भी काम में लाया कर। 24 कुछ आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं, और पहले ही'अदालत में पहुँच जाते हैं कुछ बाद में जाते हैं। 25 इसी तरह कुछ अच्छे काम भी जाहिर होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वो भी छिप नहीं सकते।

**6** जितने नौकर जुए के नीचे हों, अपने मालिकों को कमाल 'इज़्जत के लाइक जानें, ताकि खुदा का नाम और ता'लीम बदनाम न हो। 2 और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर न जाने, बल्कि इस लिए ज़्यादातर उनकी खिदमत करें कि फ़ाइदा उठानेवाले ईमानदार और 'अज़ीज़ हैं तु इन बातों की ता'लीम दे और नसीहत कर। 3 अगर कोई शरख़ और तरह की ता'लीम देता है और सही बातों को, या'नी खुदावन्द ईसा मसीह की बातें और उस ता'लीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक़ है, 4 वो मग़रर है और कुछ नहीं जानता; बल्कि उसे बहस और लफ़्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगुमानियाँ और बदगुमानियाँ, 5 और उन आदमियों में रदो बदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो हक़ से महरूम है और दीनदारी को नफ़े ही का ज़रिया समझते हैं 6 हॉ दीनदारी सब्र के साथ बड़े नफ़े का ज़रिया है। 7 क्यूँकि न हम दुनियाँ में कुछ लाए और न कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। 8 पस अगर हमारे पास खाने पहनने को है, तो उसी पर सब्र करें। 9 लेकिन जो दौलतमन्द होना चाहते हैं, वो ऐसी आजमाइश और फन्दे और बहुत सी बेहदा और नुक़सान पहुँचाने वाली ख़्वाहिशों में फँसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। 10 क्यूँकि माल की दोस्ती हर क्रिस्म की बुराई की जड़ है जिसकी आरजू में कुछ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी

कर लिया। 11 मगर ऐ मर्द — ए — खुदा, तु इन बातों से भाग और रास्तबाज़ी, दीनदारी, ईमान, मुहब्बत, सब्र और नर्म दिली का तालिब हो। 12 ईमान की अच्छी कुशती लाइ; उस हमेशा की ज़िन्दगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तु बुलाया गया था, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। (aiōnios g166) 13 मैं उस खुदा को, जो सब चीज़ों को ज़िन्दा करता है, और मसीह ईसा को, जिसने पुनित्युस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे नसीहत करता हूँ। 14 कि हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के उस मसीह के आने तक हुक्म को बेदाग़ और बेइल्ज़ाम रख, 15 जिसे वो मुनासिब वक़्त पर नुमायाँ करेगा, जो मुबारिक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावन्दों का खुदा है; 16 बका सिर्फ़ उसकी है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की पहुँच नहीं हो सकती, न उसे किसी इंसान ने देखा और न देख सकता है; उसकी 'इज़्जत और सलतनत हमेशा तक रहे। आमीनी (aiōnios g166) 17 इस मौजूदा ज़हान के दौलतमन्दों को हुक्म दे कि मग़रर न हों और नापाएदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें बहुतायत से देता है। (aiōn g165) 18 और नेकी करें, और अच्छे कामों में दौलतमन्द बनें, और सखावत पर तैयार और इम्दाद पर मुस्त'ईद हों, 19 और आइन्दा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद काईम कर रखें ताकि हकीकी ज़िन्दगी पर कब्ज़ा करें। 20 ऐ तीमुथियुस, इस अमानत को हिफ़ाज़त से रख; और जिस'इल्म को इल्म कहना ही ग़लत है, उसकी बेहदा बकवास और मुखालिफ़त पर ध्यान न कर। 21 कुछ उसका इकरार करके ईमान से फिर गए हैं तुम पर फ़ज़ल होता रहे।

## 2 तीमुथियुस

**1** पौलुस की तरफ से जो उस जिन्दगी के वादे के मुताबिक जो मसीह ईसा में है खुदा की मर्जी से मसीह 'ईसा का रसूल' है। 2 अपने आपको दुनिया के मु'आमिलों में नहीं फँसाता ताकि अपने प्यारे बेटे तीमुथियुस के नाम खत: फज़ल रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। 3 जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ; उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ। 4 और तेरे आँसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ ताकि खुशी से भर जाऊँ। 5 और मुझे तेरा वो बे रिया इमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनीके रखती थी और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। 6 इसी वजह से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस ने'अमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के जरिए तुझे हासिल है। 7 क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मुहब्बत और तरबियत की रूह दी है। 8 पस, हमारे खुदावन्द की गवाही देने से और मुझ से जो उसका कैदी हूँ शर्म न कर बल्कि खुदा की कुदरत के मुताबिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दु: ख उठा। 9 जिस ने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया हमारे कामों के मुताबिक नहीं' बल्कि अपने खास इरादा और उस फ़ज़ल के मुताबिक जो मसीह 'ईसा में हम पर शुरू से हुआ। (aiōnios g166) 10 मगर अब हमारे मुन्जी मसीह 'ईसा के आने से जाहिर हुआ जिस ने मौत को बरबाद और बाकी जिन्दगी को उस खुशखबरी के वसीले से रौशन कर दिया। 11 जिस के लिए मैं ऐलान करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। 12 इसी वजह से मैं ये दु: ख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं क्योंकि जिसका मैं ने यकीन किया है उसे जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफ़ाज़त कर सकता है। 13 जो सही बातें तू ने मुझ से सुनी उस इमान और मुहब्बत के साथ जो मसीह ईसा में है उन का खाका याद रख। 14 रूह — उल — कुदुस के वसीले से जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी अमानत की हिफ़ाज़त कर। 15 तू ये जानता है कि आसिया सूबे के सब लोग मुझ से खफ़ा हो गए; जिन में से फ़ग़लुस और हरमुगिनेस हैं। 16 खुदावन्द उनेस्फ़िस्स के घराने पर रहम करे क्योंकि उस ने बहुत मर्तबा मुझे ताज़ा दम किया और मेरी कैद से शर्मिन्दा न हुआ। 17 बल्कि जब वो रोमा शहर में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझ से मिला। 18 खुदावन्द उसे ये बख़्शो कि उस दिन उस पर खुदावन्द का रहम हो और उस ने इफ़िसुस में जो जो खिदमतें की तू उन्हें ख़ब जानता है।

**2** पस, ऐ मेरे बेटे, तू उस फ़ज़ल से जो मसीह 'ईसा में है मज़बूत बना। 2 और जो बातें तू ने बहुत से गवाहों के सामने मुझ से सुनी

हैं उनको ऐसे इमानदार आदमियों के सुपर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। 3 पस मसीह 'ईसा के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दु: ख उठा। 4 कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आपको दुनिया के मु'आमिलों में नहीं फँसाता ताकि अपने भरती करने वाले को खुश करे। 5 दँगल में मुकाबिला करने वाला भी अगर उस ने बा' काइदा मुकाबिला न किया हो तो सेहरा नहीं पाता। 6 जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। 7 जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर क्योंकि खुदावन्द तुझे सब बातों की समझ देगा। 8 'ईसा मसीह को याद रख जो मुर्दा में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है मेरी उस खुशखबरी के मुवाफ़िक। 9 जिसके लिए मैं बदकार की तरह दु:ख उठाता हूँ यहाँ तक कि कैद हूँ मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। 10 इसी वजह से मैं नेक लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ ताकि वो भी उस नजात को जो मसीह 'ईसा में है अबदी जलाल समेत हासिल करें। (aiōnios g166) 11 ये बात सच है कि जब हम उस के साथ मर गए तो उस के साथ जिँएँ भी। 12 अगर हम दु: ख सहेंगे तो उस के साथ बादशाही भी करेंगे अगर हम उसका इन्कार करेंगे; तो वो भी हमारा इन्कार करेगा। 13 अगर हम बेवफ़ा हो जाएँगे तो भी वो वफ़ादार रहेगा, क्योंकि वो अपने आप का इन्कार नहीं कर सकता। 14 ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावन्द के सामने नसीहत कर के लफ़्ज़ी तकरार न करें जिस से कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। 15 अपने आपको खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर; जिसको शर्मिन्दा होना न पड़े, और जो हक़ के कलाम को दुस्ती से काम में लाता हो। 16 लेकिन बेकार बातों से परहेज़ कर क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। 17 और उन का कलाम सड़े घाव की तरह फैलता चला जाएगा; हुमिनयुस और फ़िलेतुस उन ही में से हैं। 18 वो ये कह कर कि कयामत हो चुकी है; हक़ से गुमराह हो गए हैं और कुछ का इमान बिगाड़ते हैं। 19 तो भी खुदा की मज़बूत बुनियाद काईम रहती है और उस पर ये मुहर है, "खुदावन्द अपनों को पहचानता है," और "जो कोई खुदावन्द का नाम लेता है नारास्ती से बाज़ रहे।" 20 बडे़ घर में न सिर्फ़ सोने चाँदी ही के बरतन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी कुछ 'इज्जत और कुछ ज़िल्लत के लिए। 21 पस, जो कोई इन से अलग होकर अपने आप को पाक करेगा वो 'इज्जत का बरतन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। 22 जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन्द से दुआ करते हैं; उन के साथ रास्तबाज़ी और इमान और मुहब्बत और मेलमिलाप की चाहत हो। 23 लेकिन बेवक़ूफी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर क्योंकि तू जानता है; कि उन

से झगड़े पैदा होते हैं। 24 और मुनासिब नहीं कि ख़ुदावन्द का बन्दा झगड़ा करे बल्कि सब के साथ रहम करे और ता'लीम देने के लायक और हलीम हो। 25 और मुखालिफों को हलीमी से सिखाया करे शायद ख़ुदा उन्हें तौबा की तौफ़िक बख़्शे ताकि वो हक़ को पहचानें 26 और ख़ुदावन्द के बन्दे के हाथ से ख़ुदा की मर्ज़ी के कैदी हो कर इब्लीस के फन्दे से छूटें।

**3** लेकिन ये जान रख कि आखिरी ज़माने में बुरे दिन आएँगे। 2 क्योंकि आदमी ख़ुदागर्ज़ एहसान फ़रामोश, शेखीबाज़, मग़स्र बदगो, माँ बाप का नाफ़रमान' नाशक़, नापाक, 3 जाती मुहब्बत से ख़ाली संगदिल तोहमत लगानेवाले बेज़ब्त तुन्द मिज़ाज नेकी के दुश्मन। 4 दगाबाज़, ढीठ, घमण्ड करने वाले, ख़ुदा की निस्वत ऐश — ओ — अशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। 5 वो दीनदारी का दिखावा तो रखेंगे मगर उस पर अमल न करेंगे ऐसों से भी किनारा करना। 6 इन ही में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पाँव घुस आते हैं और उन बद चलन 'औरतों को क़ाबू कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख़्वाहिशों के बस में हैं। 7 और हमेशा ता'लीम पाती रहती है मगर हक़ की पहचान उन तक कभी नहीं पहुँचती। 8 और जिस तरह के यन्त्रेस और यन्त्रेस ने मुसा की मुखालिफ़त की थी ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो इमान के ऐ'तिबार से ख़ाली हैं। 9 मगर इस से ज़्यादा न बढ़ सकेंगे इस वास्ते कि इन की नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उन की भी हो गई थी। 10 लेकिन तू ने ता'लीम, चाल चलन, इरादा, इमान, तहम्मील, मुहब्बत, सब, सताए जाने और दुःख उठाने में मेरी पैरवी की। 11 या'नी ऐसे दुःखों में जो अन्ताकिया और इकुनियुस और लुस्तरा शहरों में मुझ पर पड़े दीगर दुःखों में भी जो मैंने उठाए हैं मगर ख़ुदावन्द ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। 12 बल्कि जितने मसीह ईसा में दीनदारी के साथ ज़िन्दगी गुज़ारना चाहते हैं वो सब सताए जाएँगे। 13 और बुरे और धोखेबाज़ आदमी फ़रेब देते और फ़रेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएँगे। 14 मगर तू उन बातों पर जो तू ने सीखी थी, और जिनका यक़ीन तुझे दिलाया गया था, ये जान कर काईम रह कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा था। 15 और तू बचपन से उन पाक नबिशतों से वाकिफ़ है, जो तुझे मसीह 'ईसा पर इमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख़्श सकते हैं। 16 हर एक सहीफ़ा जो ख़ुदा के इल्हाम से है ता'लीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ाइदे मन्द भी है। 17 ताकि मर्द ख़ुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।

**4** ख़ुदा और मसीह 'ईसा को जो ज़िन्दों और मुर्दों की अदालत करेगा; गवाह करके और उस के ज़हर और बादशाही को याद

दिला कर मैं तुझे नसीहत करता हूँ। 2 कि तू कलाम की मनादी कर वक़्त और बे वक़्त मुस्त'इद रह, हर तरह के तहम्मील और ता'लीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। 3 क्योंकि ऐसा वक़्त आएगा कि लोग सही ता'लीम की बर्दाश्त न करेंगे; बल्कि कानों की खुजली के ज़रिए अपनी अपनी ख़्वाहिशों के मुवाफ़िक़ बहुत से उस्ताद बना लेंगे। 4 और अपने कानों को हक़ की तरफ़ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जह होंगे। 5 मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुःख उठा बशरत का काम अन्जाम दे अपनी खिदमत को पूरा कर। 6 क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, और मेरे जाने का वक़्त आ पहुँचा है। 7 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने इमान को महफूज़ रखवा। 8 आइन्दा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाज़ी का वो ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुन्सिफ़ या'नी ख़ुदावन्द मुझे उस दिन देगा और सिर्फ़ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उस के ज़हर के आरज़मन्द हों। 9 मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। 10 क्योंकि देमास ने इस मौजूदा ज़हान को पसन्द करके मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों के शहर को चला गया और क्रेसकेन्स गलतिया सबे को और तितुस दलमतिया सबे को। (aiōn g165) 11 सिर्फ़ लूका मेरे पास है मरकुस को साथ लेकर आज्ञा; क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। 12 तुखिकुस को मैं ने इफ़िसुस भेज दिया है। 13 जो चोगा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रक्क के तुमर लेता आइये। 14 सिकन्दर ठठेरे ने मुझ से बहुत बुराइयाँ की ख़ुदावन्द उसे उसके कामों के मुवाफ़िक़ बदला देगा। 15 उस से तू भी खबरदार रह, क्योंकि उस ने हमारी बातों की बड़ी मुखालिफ़त की। 16 मेरी पहली जवाबदेही के वक़्त किसी ने मेरा साथ न दिया; बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया काश कि उन्हें इसका हिसाब देना न पड़े। 17 मगर ख़ुदावन्द मेरा मददगार था, और उस ने मुझे ताक़त बख़्शी ताकि मेरे ज़रिए पैग़ाम की पूरी मनादी हो जाए और सब ग़ैर क्रौमें सुन लें और मैं शेर के मुँह से छुड़ाया गया। 18 ख़ुदावन्द मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुँचा देगा उसकी बड़ाई हमेशा से हमेशा तक होती रहे आमीन। (aiōn g165) 19 प्रिस्का और अक्विला से और अनेसफ़ुस्स के खानदान से सलाम कह। 20 इरास्तुस कुरिन्थुस शहर में रहा, और नूफ़िमस को मैंने मीलेतुस टापू में बीमार छोड़ा। 21 जाइँ से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर यूबलुस और पद्रेस और लीनुस और क्लोदिया और सब भाई तुझे सलाम कहते हैं। 22 ख़ुदावन्द तेरी रूह के साथ रहे तुम पर फ़जल होता रहे।

# तीतुस

**1** पौलुस की तरफ से तीतुस को खत, जो खुदा का बन्दा और 'ईसा मसीह का रसूल है। खुदा के बरगुजीदों के ईमान और उस हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुताबिक है। **2** उस हमेशा की जिन्दगी की उम्मीद पर जिसका वादा शुरू ही से खुदा ने किया है जो झूठ नहीं बोल सकता। (aiōnios g166) **3** और उस ने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को जो हमारे मुन्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सुपर्द हुआ। **4** ईमान की शिरकत के रूह से सच्चे फर्जन्द तीतुस के नाम फ़ज़ल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुन्जी 'ईसा मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। **5** मैंने तुझे करते में इस लिए छोड़ा था, कि तू बकिया बातों को दुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर बा शहर ऐसे बुजुर्गों को मुर्कर करे। **6** जो बे इल्ज़ाम और एक एक बीवी के शौहर हों और उन के बच्चे ईमान्दार और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों। **7** क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्ज़ाम होना चाहिए; न खुदराय हो न गुस्सावर, न नशे में गुल मचानेवाला, न मार पीट करने वाला और न नाजायज़ नफे का लालची; **8** बल्कि मुसाफ़िर परवर, खैर दोस्त, परहेज़गार, मुन्सिफ़ मिज़ाज, पाक और सब्र करने वाला हो; **9** और ईमान के कलाम पर जो इस ता'लीम के मुवाफ़िक है काईम हो ताकि सही ता'लीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफ़ों को कायल भी कर सके। **10** क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहूदा गो और दगाबाज हैं खासकर ईमानदार यहूदी मख्तूनो में से। **11** इन का मुँह बन्द करना चाहिए ये लोग नाजायज़ नफे की खातिर नशाइस्ता बातें सीखकर घर के घर तबाह कर देते हैं। **12** उन ही में से एक शख्स ने कहा है, जो खास उन का नबी था "करेती हमेशा झूठे, मूज़ी जानवर, वादा खिलाफ होते हैं।" **13** ये गवाही सच है, पस, उन्हें सख्त मलामत किया कर ताकि उन का ईमान दुस्त होजाए। **14** और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुकमों पर तवज़्जह न करें, जो हक से गुमराह होते हैं। **15** पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उन की 'अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। **16** वो खुदा की पहचान का दा'वा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इन्कार करते हैं क्योंकि वो मकरूह और नाफ़रमान हैं, और किसी नेक काम के काबिल नहीं।

**2** और तू वो बातें बयान कर जो सही ता'लीम के मुनासिब हैं। **2** या'नी ये कि बूढ़े मर्द परहेज़गार, सन्जीदा और मुहाबती हों और उन का ईमान और मुहब्बत और सब्र दुस्त हो। **3** इसी तरह बूढ़ी 'औरतों की भी वज़'अ मुकद्दसों सी हों, इल्ज़ाम लगाने वाली और

ज्यादा मय पीने में मशगूल न हों, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों; **4** ताकि जवान 'औरतों को सिखाएँ कि अपने शौहरों को प्यार करें बच्चों को प्यार करें; **5** और परहेज़गार और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली, और मेहरबान हों अपने और अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम न हो। **6** जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत कर कि परहेज़गार बनें। **7** सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना तेरी ता'लीम में सफ़ाई और सन्जीदगी **8** और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक न हो ताकि मुखालिफ़ हम पर 'ऐब लगाने की कोई वजह न पाकर शर्मिन्दा होजाए। **9** नौकरों को नसीहत कर कि अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें, और उनके हुक्म से कुछ इन्कार न करें, **10** चोरी चालाकी न करें बल्कि हर तरह की ईमानदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि उन से हर बात में हमारे मुन्जी खुदा की ता'लीम को रौनक हो। **11** क्योंकि खुदा का वो फ़ज़ल जाहिर हुआ है, जो सब आदमियों की नजात का जरिया है, **12** और हमें तालीम देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इन्कार करके इस मौजूदा जहान में परहेज़गारी और रास्तबाज़ी और दीनदारी के साथ जिन्दगी गुज़ारें; (aiōn g165) **13** और उस मुबारिक उम्मीद या'नी अपने बुजुर्ग खुदा और मुन्जी 'ईसा मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुन्तज़िर रहें। **14** जिस ने अपने आपको हमारे लिए दे दिया, ताकि फ़िदया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुडाते, और पाक करके अपनी खास मिलिकियत के लिए ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगम हो। **15** पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मलामत कर। कोई तेरी हिकारत न करने पाए।

**3** उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियारवालों के ताबे रहें और उनका हुक्म मानें, और हर नेक काम के लिए मुस्त'इद रहें, **2** किसी की बुराई न करें तकरारी न हों; बल्कि नर्म मिज़ाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएँ। **3** क्योंकि हम भी पहले नादान नाफ़रमान फ़रेब खाने वाले रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐश — ओ — अशरत के बन्दे थे, और बदख्वाही और हसद में जिन्दगी गुज़ारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में जलन रखते थे। **4** मगर जब हमारे मुन्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फ़त जाहिर हुई। **5** तो उस ने हम को नजात दी; मगर रास्तबाज़ी के कामों के ज़रिए से नहीं जो हम ने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक पैदाइश के गुस्ल और रूह — उल — क़ुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। **6** जिसे उस ने हमारे मुन्जी 'ईसा मसीह के ज़रिए हम पर इफ़रत से नाज़िल किया, **7** ताकि हम उसके फ़ज़ल से रास्तबाज़ ठहर कर हमेशा की जिन्दगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बनें। (aiōnios g166) **8** ये बात सच

है, और मैं चाहता हूँ, कि तू इन बातों का याक़ीनी तौर से दावा कर ताकि जिन्होंने ख़ुदा का यक़ीन किया है, वो अच्छे कामों में लगे रहने का खयाल रखें ये बातें भली और आदमियों के लिए फ़ाइदामन्द हैं। 9 मगर बेवक़्फ़ी की हुज्जतों और नसबनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरी'अत के बारे में हों परहेज़ करे इसलिए कि ये ला हासिल और बेफ़ाइदा हैं। 10 एक दो बार नसीहत करके झूठी ता'लीम देने वाले शख्स से किनारा कर, 11 ये जान कर कि ऐसा शख्स मुड गया है और अपने आपको मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। 12 जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुखिकुस को भेजूँ तो मेरे पास नीकुपुलिस शहर आने की कोशिश करना क्यूँकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का इरादा कर लिया है। 13 जेनास आलिम — ए — शरा और अपुल्लोस को कोशिश करके रवाना कर दे इस तौर पर कि उन को किसी चीज़ की कमी न रही। 14 और हमारे लोग भी ज़रूरतों को रफ़ा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि बेफल न रहें। 15 मेरे सब साथी तुझे सलाम कहते हैं। जो ईमान के रूह से हमें 'अज़ीज़ रखते हैं उन से सलाम कह। तुम सब पर फ़ज़ल होता रहे।



# फिलेमोन

**1** पौलुस की तरफ से जो मसीह ईसा का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से अपने 'अज़ीज़ और हम खिदमत फिलेमोन, 2 और बहन अफिया, और अपने हम सफर आखिप्पुस और फिलेमोन के घर की क्लीसिया के नाम खत: 3 फज़ल और इत्मीनान हमारे बाप खुदा और खुदावन्द 'ईसा मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। 4 मैं तेरी उस मुहब्बत का और ईमान का हाल सुन कर, जो सब मुकद्दसों के साथ और खुदावन्द ईसा पर है' 5 हमेशा अपने खुदा का शक्र करता हूँ, और अपनी दु'आओं में तुझे याद करता हूँ। 6 ताकि तेरे ईमान की शिराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मु'अस्सिर हो। 7 क्योंकि ऐ भाई! मुझे तेरी मुहब्बत से बहुत खुशी और तसल्ली हुई, इसलिए कि तेरी वजह से मुकद्दसों के दिल ताज़ा हुए हैं। 8 पस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दिलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूँ। 9 मगर मुझे ये ज़्यादा पसन्द है कि मैं बूढ़ा पौलुस, बल्कि इस वक़्त मसीह 'ईसा का कैदी भी होकर मुहब्बत की राह से इल्तिमास करूँ। 10 सो अपने फ़र्ज़न्द उनेसिमस के बारे में जो कैद की हालत में मुझ से पैदा हुआ, तुझसे इल्तिमास करता हूँ। 11 पहले तो तेरे कुछ काम का ना था मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। 12 खुद उसी को या'नी अपने कलेजे के टुकड़े को, मैंने तेरे पास वापस भेजा है। 13 उसको मैं अपने ही पास रखना चाहता था, ताकि तेरी तरफ से इस कैद में जो खुशख़बरी के जरिए है मेरी खिदमत करे। 14 लेकिन तेरी मर्जी के बग़ैर मैंने कुछ करना न चाहा, ताकि तेरे नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हों। 15 क्योंकि मुम्किन है कि वो तुझ से इसलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुआ हो कि हमेशा तेरे पास रहे। (aiōnios g166) 16 मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बेहतर होकर या'नी ऐसे भाई की तरह रहे जो जिस्म में भी और खुदावन्द में भी मेरा निहायत 'अज़ीज़ हो और तेरा इससे भी कहीं ज़्यादा। 17 पस अगर तू मुझे शरीक जानता है, तो उसे इस तरह कुबूल करना जिस तरह मुझे। 18 और अगर उस ने तेरा कुछ नुक़सान किया है, या उस पर तेरा कुछ आता है, तो उसे मेरे नाम से लिख ले। 19 मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि खुद अदा करूँगा, इसके कहने की कुछ ज़रूरत नहीं कि मेरा कर्ज़ जो तुझ पर है वो तू खुद है 20 ऐ भाई! मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरी तरफ से खुदावन्द में खुशी हासिल हो। मसीह में मेरे दिल को ताज़ा कर। 21 मैं तेरी फ़रमाँबरदारी का यकीन करके तुझे लिखता हूँ, और जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ, तू उस से भी ज़्यादा करेगा। 22 इसके सिवा मेरे लिए उठरने की जगह तैयार कर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी दु'आओं के वसीले से तुम्हें बाख़शा जाऊँगा। 23 इफ़्रास जो मसीह ईसा में

मेरे साथ कैद है, 24 और मरकुस और अरिस्तरखुस और दोमास और लुका, जो मेरे हम खिदमत हैं तुझे सलाम कहते हैं। 25 हमारे खुदावन्द ईसा मसीह का फ़ज़ल तुम्हारी रूह पर होता रहे। आमीन।

# इब्रानियों

**1** पुराने जमाने में ख़ुदा ने बाप — दादा से हिस्सा — ब — हिस्सा और तरह — ब — तरह नबियों के जरिए कलाम करके, **2** इस जमाने के आखिर में हम से बेटे के जरिए कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। (aiōn g165) **3** वो उसके जलाल की रोशनी और उसकी ज्ञात का नक्शा होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर 'आलम — ए — बाला पर ख़ुदा की दहनी तरफ़ जा बैठा, **4** और फ़रिशतों से इस कदर बड़ा हो गया, जिस कदर उसने मीरास में उनसे अफ़ज़ल नाम पाया। **5** क्योंकि फ़रिशतों में से उसने कब किसी से कहा, “तू मेरा बेटा है, आज तू मुझ से पैदा हुआ?” और फिर ये, “मैं उसका बाप हूँगा?” **6** और जब पहलौठे को दुनियाँ में फिर लाता है, तो कहता है, “ख़ुदा के सब फ़रिशते उसे सिज्दा करें।” **7** और वो अपने फ़रिशतों के बारे में ये कहता है, “वो अपने फ़रिशतों को हवाएँ, और अपने खादिमों को आग के शो'ले बनाता है।” **8** मगर बेटे के बारे में कहता है, “ऐ ख़ुदा, तेरा तख़्त हमेशा से हमेशा तक रहेगा, और तेरी बादशाही की 'लाठी रास्तबाजी की 'लाठी है। (aiōn g165) **9** तू ने रास्तबाजी से मुहब्बत और बदकारी से 'अदावत रखी, इसी वजह से ख़ुदा, यानी तेरे ख़ुदा ने ख़ुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज़्यादा मसह किया।” **10** और ये कि, “ऐ ख़ुदावन्द! तू ने शुरू में ज़मीन की नीव डाली, और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। **11** वो मिट जाएँगे, मगर तू बाक़ी रहेगा; और वो सब पोशाक की तरह पुराने हो जाएँगे। **12** तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा, और वो पोशाक की तरह बदल जाएँगे: मगर तू वही रहेगा और तेरे साल ख़त्म न होंगे।” **13** लेकिन उसने फ़रिशतों में से किसी के बारे में कब कहा, “तू मेरी दहनी तरफ़ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव तले की चौकी न कर दूँ?” **14** क्या वो सब खिदमत गुज़ार रूहे नहीं, जो नजात की मीरास पानेवालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है?

**2** इसलिए जो बातें हम ने सुनी, उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहक कर उनसे दूर न चले जाएँ। **2** क्योंकि जो कलाम फ़रिशतों के जरिए फ़रमाया गया था, जब वो काईम रहा और हर कुसूर और नाफ़रमानी का ठीक ठीक बदला मिला, **3** तो इतनी बड़ी नजात से गाफ़िल रहकर हम क्यूँकर चल सकते हैं? जिसका बयान पहले ख़ुदावन्द के वसीले से हुआ, और सुनने वालों से हमें पूरे — सबूत को पहुँचा। **4** और साथ ही ख़ुदा भी अपनी मज़ी के मुवाफ़िक़ निशानों, और 'अजीब कामों, और तरह तरह के मोजिज़ों, और रूह — उल — कुदूस की नेमतों के जरिए से

उसकी गवाही देता रहा। **5** उसने उस आनेवाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं, फ़रिशतों के ताबे' नहीं किया। **6** बल्कि किसी ने किसी मौक़े पर ये बयान किया है, “इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका खयाल करता है? या आदमज़ाद क्या है जो तू उस पर निगाह करता है? **7** तू ने उसे फ़रिशतों से कुछ ही कम किया; तू ने उस पर जलाल और 'इज़्जत का ताज रखवा, और अपने हाथों के कामों पर उसे इख़्तियार बख़्शा। **8** तू ने सब चीज़ें ताबे' करके उसके क़दमों तले कर दी हैं।” पस जिस सूत्र में उसने सब चीज़ें उसके ताबे' कर दीं, तो उसने कोई चीज़ ऐसी न छोड़ी जो उसके ताबे, न हो। मगर हम अब तक सब चीज़ें उसके ताबे' नहीं देखते। **9** अलबत्ता उसको देखते हैं जो फ़रिशतों से कुछ ही कम किया गया, यानी ईसा को मौत का दुःख सहने की वजह से जलाल और 'इज़्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि ख़ुदा के फ़ज़ल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखे। **10** क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे, तो उनकी नजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। **11** इसलिये कि पाक करने वाला और पाक होनेवाला सब एक ही नस्ल से हैं, इसी ज़रिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शरमाता। **12** चुनौचे वो फ़रमाता है, “तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूँगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊँगा।” **13** और फिर ये, “देख मैं उस पर भरोसा रखूँगा।” और फिर ये, “देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें ख़ुदा ने मुझे दिया।” **14** पस जिस सूत्र में कि लड़के खून और गोशत में शरीक हैं, तो वो ख़ुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को, तबाह कर दे; **15** और जो अग्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ़्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। **16** क्यूँकि हकीकत में वो फ़रिशतों का नहीं, बल्कि अब्रहाम की नस्ल का साथ देता है। **17** पस उसको सब बातों में अपने भाइयों की तरह बनना जरूरी हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफ़फ़ारा देने के वास्ते, उन बातों में जो ख़ुदा से ता'अल्लुक रखती है, एक रहम दिल और दियातदार सरदार काहिन बने। **18** क्यूँकि जिस सूत्र में उसने ख़ुद की आजमाइश की हालत में दुःख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है।

**3** पस ऐ पाक भाइयों! तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन ईसा पर गौर करो जिसका हम करते हैं; **2** जो अपने मुक़र्रर करनेवाले के हक में दियातदार था, जिस तरह मूसा ख़ुदा के सारे घर में था। **3** क्यूँकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा 'इज़्जत के लायक समझा गया, जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज़्जतदार होता है। **4** चुनौचे हर एक

घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाईं वो खुदा है। 5 मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दियानतदार रहा, ताकि आइन्दा बयान होनेवाली बातों की गवाही दे। 6 लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मालिक है, और उसका घर हम हैं; बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फरख आखिर तक मजबूती से काईम रखें। 7 पस जिस तरह कि पाक रूह कलाम में फरमाता है, “अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, 8 तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आज़माइश के दिन जंगल में किया था। 9 जहाँ तुम्हारे बाप — दादा ने मुझे जाँचा और आज़माया और चालीस बरस तक मेरे काम देखे। 10 इसलिए मैं उस पीढ़ी से नाराज़ हुआ, और कहा, 'इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं, और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। 11 चुनौचे मैंने अपने गुस्से में क्रसम खाई, 'ये मेरे आराम में दाखिल न होने पाएँगे।'” 12 ए भइयों! खबरदार! तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बे — ईमान दिल न हो, जो जिन्दा खुदा से फिर जाए। 13 बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के धोखे में आकर सख्त दिल न हो जाए। 14 क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने शुरूआत के भरोसे पर आखिर तक मजबूती से काईम रहें। 15 चुनौचे कलाम में लिखा है “अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह कि गुस्सा दिलाने के वक्त किया था।” 16 किन लोगों ने आवाज सुन कर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? 17 और वो किन लोगों से चालीस बरस तक नाराज़ रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया, और उनकी लाशें वीराने में पड़ी रहीं? 18 और किनके बारे में उसने क्रसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल न होने पाएँगे, सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की? 19 गरज़ हम देखते हैं कि वो बे — ईमानी की वजह से दाखिल न हो सके।

**4** पस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए ऐसा न हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो 2 क्योंकि हमें भी उन ही की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फाइदा न दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ न बैठा। 3 और हम जो ईमान लाए, उस आराम में दाखिल होते हैं; जिस तरह उसने कहा, “मैंने अपने गुस्से में क्रसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल न होने पाएँगे।” अगरचे दुनिया बनाने के वक्त उसके काम हो चुके थे। 4 चुनौचे उसने सातवें दिन के बारे में कलाम में इस तरह कहा, “खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके, सातवें दिन आराम किया।” 5 और फिर इस मुक़ाम पर है, “वो मेरे आराम में दाखिल न होने पाएँगे।” 6

पस जब ये बात बाकी है कि कुछ उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी की वजह से दाखिल न हुए, 7 तो फिर एक खास दिन ठहर कर इतनी मुद्दत के बाद दाखिल की किताब में उसे आज का दिन कहता है। जैसा पहले कहा गया, “और आज तुम उसकी आवाज सुनो, तो अपने दिलों को सख्त न करो।” 8 और अगर ईसा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता, तो वो उसके बाद दुसरे दिन का जिक्र न करता। 9 पस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है” 10 क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ, उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। 11 पस आओ, हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी कर के कोई शख्स गिर न पड़े। 12 क्योंकि खुदा का कलाम जिन्दा, और अस्सरदार, और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज़ है; और जान और रूह और बन्द, बन्द और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के खयालों और इरादों को जाँचता है। 13 और खुदा की नज़र में मख्लूक़ात की कोई चीज़ छिपी नहीं, बल्कि जिससे हम को काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। 14 पस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, या'नी खुदा का बेटा ईसा, तो आओ हम अपने इकरार पर काईम रहें। 15 क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द न हो सके; बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आज़माया गया, तोभी बेगुनाह रहा। 16 पस आओ, हम फ़ज़ल के तख़्त के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और फ़ज़ल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे।

**5** अब ईसान ों में से चुने गए इमाम — ए — आजम को इस लिए मुकर्रर किया जाता है कि वह उन की खातिर खुदा की खिदमत करे, ताकि वह गुनाहों के लिए नज़राने और कुर्बानियाँ पेश करे। 2 वह जाहिल और आवारा लोगों के साथ नर्म सुलूक रख सकता है, क्योंकि वह खुद कई तरह की कमज़ोरियों की गिरफ्त में होता है। 3 यही वजह है कि उसे न सिर्फ़ क़ौम के गुनाहों के लिए बल्कि अपने गुनाहों के लिए भी कुर्बानियाँ चढ़ानी पड़ती हैं। 4 और कोई अपनी मज़ी से इमाम — ए — आजम का 'इज़्जत वाला ओहदा नहीं अपना सकता बल्कि ज़रूरी है कि खुदा उसे हास्न की तरह बुला कर मुकर्रर करे। 5 इसी तरह मसीह ने भी अपनी मज़ी से इमाम — ए — आजम का 'इज़्जत वाला ओहदा नहीं अपनाया। इस के बजाए खुदा ने उस से कहा, “तू मेरा बेटा है आज तू मुझसे पैदा हुआ है।” 6 कहीं और वह फरमाता है, “तू अबद तक इमाम है, ऐसा इमाम जैसा मलिक — ए — सिद्क़ था।” (aiōn g165) 7 जब ईसा इस दुनिया में था तो उस ने जोर जोर से पुकार कर और आँसू बहा बहा कर उसे दुआएँ और इल्तिजाएँ पेश की जो उसको

मौत से बचा सकता था और खुदा तरसी की वजह से उसकी सुनी गई। 8 वह खुदा का फ़र्ज़न्द तो था, तो भी उस ने दुःख उठाने से फ़रमौबंदारी सीखी। 9 जब वह कामिलियत तक पहुँच गया तो वह उन सब की अबदी नजात का सरचश्मा बन गया जो उस की सुनते हैं। (aiōnios g166) 10 उस वक़्त खुदा ने उसे इमाम — ए — आज़म भी मुतअय्युन किया, ऐसा इमाम जैसा मलिक — ए — सिद्क़ था। 11 इस के बारे में हम ज़्यादा बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम मुश्किल से इस का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि आप सुनने में सुस्त हैं। 12 असल में इतना वक़्त गुज़र गया है कि अब आप को खुद उस्ताद होना चाहिए। अफ़सोस कि ऐसा नहीं है बल्कि आप को इस की ज़रूरत है कि कोई आप के पास आ कर आप को खुदा के कलाम की बुनियादी सच्चाइयाँ दुबारा सिखाए। आप अब तक सख़्त ग़िज़ा नहीं खा सकते बल्कि आप को दूध की ज़रूरत है। 13 जो दूध ही पी सकता है वह अभी छोटा बच्चा ही है और वह रास्तबाज़ी की तालीम से ना समझ है। 14 इस के मुकाबिले में सख़्त ग़िज़ा बालिगों के लिए है जिन्होंने अपनी बलूग़त के ज़रिए अपनी स्थानी ज़िन्दगी को इतनी तर्बियत दी है कि वह भलाई और बुराई में पहचान कर सकते हैं।

**6** इस लिए आँ, हम मसीह के बारे में बुनियादी तालीम को छोड़ कर बलूग़त की तरफ़ आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जिन से ईमान की बुनियाद रखी जाती है, मसलन मौत तक पहुँचाने वाले काम से तौबा, 2 बपतिस्मा क्या है, किसी पर हाथ रखने की तालीम, मुर्दों के जी उठने और हमेशा सज़ा पाने की तालीम। (aiōnios g166) 3 चुनौचे खुदा की मज़ी हुई तो हम यह छोड़ कर आगे बढ़ेंगे। 4 नामुमकिन है कि उन्हें बहाल करके दुबारा तौबा तक पहुँचाया जाए जिन्होंने अपना ईमान छोड़ दिया हो। उन्हें तो एक बार खुदा के नूर में लाया गया था, उन्होंने ने आसमान की ने'अमत का मज़ा चख़ लिया था, वह रूह — उल — कुद्स में शरीक हुए, 5 उन्होंने ने खुदा के कलाम की भलाई और आने वाले ज़माने की ताकतों का तज़ुर्बा किया था। (aiōn g165) 6

और फिर उन्होंने ने अपना ईमान छोड़ दिया! ऐसे लोगों को बहाल करके दुबारा तौबा तक पहुँचाना नामुमकिन है। क्योंकि ऐसा करने से वह खुदा के फ़र्ज़न्द को दुबारा मस्तूब करके उसे लान — तान का निशाना बना देते हैं। 7 खुदा उस ज़मीन को बर्क़त देता है जो अपने पर बार बार पड़ने वाली बारिश को ज़ब्ब करके ऐसी फ़सल पैदा करती है जो खेतीबाड़ी करने वाले के लिए फ़ाइदामन्द हो। 8 लेकिन अगर वह सिर्फ़ कांटे दार पौदे और ऊँटकटारे पैदा करे तो वह बेकार है और इस ख़तरे में है कि उस पर लान'त भेजी जाए। अन्जाम — ए — कार उस पर का सब कुछ जलाया जाएगा। 9 लेकिन ऐ अज़ीज़ो! अगरचे हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भी

हमारा भरोसा यह है कि आप को वह बेहतरीन बर्क़तें हासिल हैं जो नजात से मिलती हैं। 10 क्योंकि खुदा बेइन्साफ़ नहीं है। वह आप का काम और वह मुहब्बत नहीं भूलेगा जो आप ने उस का नाम ले कर जाहिर की जब आप ने पाक लोगों की खिदमत की बल्कि आज तक कर रहे हैं। 11 लेकिन हमारी बड़ी ख्वाहिश यह है कि आप में से हर एक इसी सरगमी का इज़हार आखिर तक करता रहे ताकि जिन बातों की उम्मीद आप रखते हैं वह हक़ीक़त में पूरी हो जाएँ। 12 हम नहीं चाहते कि आप सुस्त हो जाएँ बल्कि यह कि आप उन के नमूने पर चलें जो ईमान और सब्र से वह कुछ मीरास में पा रहे हैं जिस का वादा खुदा ने किया है। 13 जब खुदा ने क़सम खा कर अब्रहाम से वादा किया तो उस ने अपनी ही क़सम खा कर यह वादा किया। क्योंकि कोई और नहीं था जो उस से बड़ा था जिस की क़सम वह खा सकता। 14 उस वक़्त उस ने कहा, “मैं ज़रूर तुझे बहुत बर्क़त दूँगा, और मैं यकीनन तुझे ज़्यादा औलाद दूँगा।” 15 इस पर अब्रहाम ने सब्र से इन्तिज़ार करके वह कुछ पाया जिस का खुदा ने वादा किया था। 16 क़सम खाते वक़्त लोग उस की क़सम खाते हैं जो उन से बड़ा होता है। इस तरह से क़सम में बयानकरदा बात की तस्दीक़ बहस — मुबाहसा की हर गुन्जाइश को ख़त्म कर देती है। 17 खुदा ने भी क़सम खा कर अपने वादे की तस्दीक़ की। क्योंकि वह अपने वादे के वारिसों पर साफ़ जाहिर करना चाहता था कि उस का इरादा कभी नहीं बदलेगा। 18 गरज़, यह दो बातें काईम रही हैं, खुदा का वादा और उस की क़सम। वह इन्हें न तो बदलेगा न इन के बारे में झूठ बोलेगा। यूँहम जिन्होंने उस के पास पनाह ली है बड़ी तसल्ली पा कर उस उम्मीद को मज़बूती से थामे रख सकते हैं जो हमें पेश की गई है। 19 क्योंकि यह उम्मीद हमारी जान के लिए मज़बूत लंगर है। और यह आसमानी बैत — उल — मुक़द्दस के पाकतरीन कमरे के पर्दे में से गुज़र कर उस में दाख़िल होती है। 20 वहीं ईसा हमारे आगे आगे जा कर हमारी ख़ातिर दाख़िल हुआ है। यूँ वह मलिक — ए — सिद्क़ की तरह हमेशा के लिए इमाम — ए — आज़म बन गया है। (aiōn g165)

**7** यह मलिक — ए — सिद्क़, सालिम का बादशाह और खुदा — ए — तआला का इमाम था। जब अब्रहाम चार बादशाहों को शिक़स्त देने के बाद वापस आ रहा था तो मलिक — ए — सिद्क़ उस से मिला और उसे बर्क़त दी। 2 इस पर अब्रहाम ने उसे तमाम लूट के माल का दसवाँ हिस्सा दे दिया। अब मलिक — ए — सिद्क़ का मतलब रास्तबाज़ी का बादशाह है। दूसरे, सालिम का बादशाह का मतलब सालामती का बादशाह। 3 न उस का बाप या माँ है, न कोई नसबनामा। उसकी ज़िन्दगी की न तो शुर्आत है, न ख़ातिमा। खुदा के फ़र्ज़न्द की तरह वह हमेशा तक इमाम रहता है। 4 गौर करें कि वह कितना अज़ीम था। हमारे बापदादा अब्रहाम ने

उसे लटे हुए माल का दसवाँ हिस्सा दे दिया। 5 अब शरी'अत मौँग करती है कि लावी की वह औलाद जो इमाम बन जाती है कौम यानी अपने भाइयों से पैदावार का दसवाँ हिस्सा ले, हालाँकि उन के भाई अब्रहाम की औलाद हैं। 6 लेकिन मलिक — ए — सिद्क लावी की औलाद में से नहीं था। तो भी उस ने अब्रहाम से दसवाँ हिस्सा ले कर उसे बर्कत दी जिस से खुदा ने वादा किया था। 7 इस में कोई शक नहीं कि कम हैसियत शख्स को उस से बर्कत मिलती है जो ज्यादा हैसियत का हो। 8 जहाँ लावी इमामों का ताल्लुक है खत्म होने वाले इंसान दसवाँ हिस्सा लेते हैं। लेकिन मलिक — ए — सिद्क के मु'आमले में यह हिस्सा उस को मिला जिस के बारे में गवाही दी गई है कि वह ज़िन्दा रहता है। 9 यह भी कहा जा सकता है कि जब अब्रहाम ने माल का दसवाँ हिस्सा दे दिया तो लावी ने उस के ज़रिए भी यह हिस्सा दिया, हालाँकि वह खुद दसवाँ हिस्सा लेता है। 10 क्योंकि अगरचे लावी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था तो भी वह एक तरह से अब्रहाम के जिस्म में मौजूद था जब मलिक — ए — सिद्क उस से मिला। 11 अगर लावी की कहानित (जिस पर शरी'अत मुन्हसिर थी) कामिलियत पैदा कर सकती तो फिर एक और किस्म के इमाम की क्या ज़रूरत होती, उस की जो हासन जैसा न हो बल्कि मलिक — ए — सिद्क जैसा? 12 क्योंकि जब भी कहानित बदल जाती है तो लाज़िम है कि शरी'अत में भी तब्दीली आए। 13 और हमारा खुदावन्द जिस के बारे में यह बयान किया गया है वह एक अलग कबीले का फ़र्द था। उस के कबीले के किसी भी फ़र्द ने इमाम की खिदमत अदा नहीं की। 14 क्योंकि साफ़ मालूम है कि खुदावन्द मसीह यहदाह कबीले का फ़र्द था, और मूसा ने इस कबीले को इमामों की खिदमत में शामिल न किया। 15 मुआमला ज्यादा साफ़ हो जाता है। एक अलग इमाम जाहिर हुआ है जो मलिक — ए — सिद्क जैसा है। 16 वह लावी के कबीले का फ़र्द होने से इमाम न बना जिस तरह शरी'अत की चाहत थी, बल्कि वह न खत्म होने वाली ज़िन्दगी की कुव्वत ही से इमाम बन गया। 17 क्योंकि कलाम — ए — सुक़इस फ़रमाता है, कि तू मलिक — ए — सिद्क के तौर पर अबद तक काहिन है। (aiōn g165) 18 यँ पुराने हुक्म को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि वह कमज़ोर और बेकार था 19 (मूसा की शरी'अत तो किसी चीज़ को कामिल नहीं बना सकती थी) और अब एक बेहतर उम्मीद मुहय्या की गई है जिस से हम खुदा के करीब आ जाते हैं। 20 और यह नया तरीका खुदा की कसम से काईम हुआ। ऐसी कोई कसम न खाई गई जब दूसरे इमाम बने। 21 लेकिन ईसा एक कसम के ज़रिए इमाम बन गया जब खुदा ने फ़रमाया। “खुदा ने कसम खाई है और वो इससे अपना मन नहीं बदलेगा: तुम अबद तक के लिये इमाम है।” (aiōn g165) 22 इस कसम की वजह से ईसा एक बेहतर

अहद की ज़मानत देता है। 23 एक और बदलाव, पुराने निज़ाम में बहुत से इमाम थे, क्योंकि मौत ने हर एक की खिदमत महदूद किए रखी। 24 लेकिन चूँकि ईसा हमेशा तक ज़िन्दा है इस लिए उस की कहानित कभी भी खत्म नहीं होगी। (aiōn g165) 25 यँ वह उन्हें अबदी नजात दे सकता है जो उस के वसीले से खुदा के पास आते हैं, क्योंकि वह अबद तक ज़िन्दा है और उन की शफ़ाअत करता रहता है। 26 हमें ऐसे ही इमाम — ए — आज़म की ज़रूरत थी। हॉ, ऐसा इमाम जो मुक़इस, बेकुसूर, बेदाग, गुनाहगारों से अलग और आसमानों से बुलन्द हुआ है। 27 उसे दूसरे इमामों की तरह इस की ज़रूरत नहीं कि हर रोज़ कुर्बानियाँ पेश करे, पहले अपने लिए फिर कौम के लिए। बल्कि उस ने अपने आप को पेश करके अपनी इस कुर्बानी से उन के गुनाहों को एक बार सदा के लिए मिटा दिया। 28 मूसा की शरी'अत ऐसे लोगों को इमाम — ए — आज़म मुक़रर करती है जो कमज़ोर हैं। लेकिन शरी'अत के बाद खुदा की कसम फ़र्ज़न्द को इमाम — ए — आज़म मुक़रर करती है, और यह खुदा का फ़र्ज़न्द हमेशा तक कामिल है। (aiōn g165)

**8** जो कुछ हम कह रहे हैं उस की खास बात यह है, हमारा एक ऐसा इमाम — ए — आज़म है जो आसमान पर जलाली खुदा के तख्त के दहने हाथ बैठा है। 2 वहाँ वह मक्बिदस में खिदमत करता है, उस हकीकी मुलाकात के खेमे में जिसे इसानी हाथों ने खड़ा नहीं किया बल्कि खुदा ने। 3 हर इमाम — ए — आज़म को नज़राने और कुर्बानियाँ पेश करने के लिए मुक़रर किया जाता है। इस लिए लाज़िम है कि हमारे इमाम — ए — आज़म के पास भी कुछ हो जो वह पेश कर सके। 4 अगर यह दुनिया में होता तो इमाम — ए — आज़म न होता, क्योंकि यहाँ इमाम तो हैं जो शरी'अत के लिहाज़ से नज़राने पेश करते हैं। 5 जिस मक्बिदस में वह खिदमत करते हैं वह उस मक्बिदस की सिर्फ़ नक़ली सूरत और साया है जो आसमान पर है। यही वजह है कि खुदा ने मूसा को मुलाकात का खेमा बनाने से पहले आगाह करके यह कहा, “गौर कर कि सब कुछ बिल्कुल उस नमूने के मुताबिक बनाया जाए जो मैं तुझे यहाँ पहाड़ पर दिखाता हूँ।” 6 लेकिन जो खिदमत ईसा को मिल गई है वह दुनिया के इमामों की खिदमत से कहीं बेहतर है, उतनी बेहतर जितना वह अहद जिस का दरमियानी ईसा है पुराने अहद से बेहतर है। क्योंकि यह अहद बेहतर वादों की बुनियाद पर बाँधा गया। 7 अगर पहला अहद बेइल्ज़ाम होता तो फिर नए अहद की ज़रूरत न होती। 8 लेकिन खुदा को अपनी कौम पर इल्ज़ाम लगाना पड़ा। उस ने कहा, “खुदावन्द फ़रमाता है कि देख! वो दिन आते हैं कि मैं इस्राइल के घराने और यहदाह के घराने से एक नया 'अहद बाँधूंगा। 9 यह उस अहद की तरह नहीं होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बाँधा था, जब मुल्क — ए — मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ

पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर काईम नहीं रहे और खुदा वन्द फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जह न की। 10 खुदावन्द फरमाता है कि, जो अहद इस्लाम के घराने से उनदिनों के बाद बाँधूंगा, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूँगा, और उनके दिलों पर लिखूँगा, और मैं उनका खुदा हूँगा, और वो मेरी उम्मत होंगे। 11 और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम न देगा कि तू खुदावन्द को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। 12 क्योंकि मैं उन का कुसूर मुआफ करूँगा। और मैं उनके गुनाहों को याद ना रखूँगा।” 13 इन अल्फाज़ में खुदा एक नए अहद का जिक्र करता है और यँ पुराने अहद को रद्द कर देता है। और जो रद्द किया और पुराना है उस का अन्जाम करीब ही है।

**9** जब पहला अहद बाँधा गया तो इबादत करने के लिए हिदायत दी गई। जमीन पर एक मक़्दिस भी बनाया गया, 2 एक खेमा जिस के पहले कमरे में शमादान, मेज़ और उस पर पड़ी मख़्सूस की गई रोटियाँ थीं। उस का नाम “मुक़द्दस कमरा” था। 3 उस के पीछे एक और कमरा था जिस का नाम “पाक़तरीन कमरा” था। पहले और दूसरे कमरे के दरमियान बाक़ी दरवाज़े पर पर्दा लगा था। 4 इस पिछले कमरे में बख़ूर जलाने के लिए सोने की कुर्बानगाह और अहद का सन्दूक था। अहद के सन्दूक पर सोना मढ़ा हुआ था और उस में तीन चीज़ें थीं: सोने का मर्तबान जिस में मन भरा था, हारून की वह लाठी जिस से कोपलें फूट निकली थीं और पल्थर की वह दो तख़्तियाँ जिन पर अहद के अहकाम लिखे थे। 5 सन्दूक पर इलाही जलाल के दो क़रबी फ़रिशते लगे थे जो सन्दूक के ढकने को साया देते थे जिस का नाम “कफ़फ़ारा का ढकना” था। लेकिन इस जगह पर हम सब कुछ मज़ीद तफ़सील से बयान नहीं करना चाहते। 6 यह चीज़ें इसी तरतीब से रखी जाती हैं। जब इमाम अपनी ख़िदमत के फ़राइज़ अदा करते हैं तो बाक़ाइदगी से पहले कमरे में जाते हैं। 7 लेकिन सिर्फ़ इमाम — ए — आज़म ही दूसरे कमरे में दाख़िल होता है, और वह भी साल में सिर्फ़ एक दफ़ा। जब भी वह जाता है वह अपने साथ ख़ून ले कर जाता है जिसे वह अपने और क़ौम के लिए पेश करता है ताकि वह गुनाह मिट जाँएँ जो लोगों ने भूलचूक में किए होते हैं। 8 इस से रूह — उल — कुद्स दिखाता है कि पाक़तरीन कमरे तक रसाई उस वक़्त तक जाहिर नहीं की गई थी जब तक पहला कमरा इस्तेमाल में था। 9 यह मिजाज़न मौज़्दा ज़माने की तरफ़ इशारा है। इस का मतलब यह है कि जो नज़राने और कुर्बानियाँ पेश की जा रही हैं वह इबादत गुज़ार दिल को पाक — साफ़ करके कामिल नहीं बना सकती। 10 क्योंकि इन का ताल्लुक़ सिर्फ़ खाने — पीने वाली चीज़ों और गुस्ल की मुख़्तलिफ़ रस्मों से होता है, ऐसी ज़ाहिरी हिदायत जो सिर्फ़ नए निज़ाम के आने

तक लागू हैं। 11 लेकिन अब मसीह आ चुका है, उन अच्छी चीज़ों का इमाम — ए — आज़म जो अब हासिल हुई हैं। जिस ख़ेमे में वह ख़िदमत करता है वह कहीं ज़्यादा अज़ीम और कामिल है। यह खेमा इंसानी हाथों से नहीं बनाया गया यानी यह इस कायनात का हिस्सा नहीं है। 12 जब मसीह एक बार सदा के लिए ख़ेमे के पाक़तरीन कमरे में दाख़िल हुआ तो उस ने कुर्बानियाँ पेश करने के लिए बक़रों और बख़डों का ख़ून इस्तेमाल न किया। इस के बजाए उस ने अपना ही ख़ून पेश किया और यँ हमारे लिए हमेशा की नज़ात हासिल की। (aiōnios g166) 13 पुराने निज़ाम में बैल — बक़रों का ख़ून और जवान गाय की राख नापाक लोगों पर छिड़के जाते थे ताकि उन के जिस्म पाक — साफ़ हो जाँएँ। 14 अगर इन चीज़ों का यह असर था तो फिर मसीह के ख़ून का क्या ज़बरदस्त असर होगा! अज़ली रूह के ज़रिए उस ने अपने आप को बेदाग़ कुर्बानी के तौर पर पेश किया। यँ उस का ख़ून हमारे ज़मीर को मौत तक पहुँचाने वाले कामों से पाक — साफ़ करता है ताकि हम ज़िन्दा खुदा की ख़िदमत कर सकें। (aiōnios g166) 15 यही वजह है कि मसीह एक नए अहद का दरमियानी है। मख़सद यह था कि जितने लोगों को खुदा ने बुलाया है उन्हें खुदा की वादा की हुई और हमेशा की मीरास मिले। और यह सिर्फ़ इस लिए मुम्किन हुआ है कि मसीह ने मर कर फ़िदया दिया ताकि लोग उन गुनाहों से छुटकारा पाँएँ जो उन से उस वक़्त सरज़द हुए जब वह पहले अहद के तहत थे। (aiōnios g166) 16 जहाँ वसीयत है वहाँ ज़रूरी है कि वसीयत करने वाले की मौत की तस्दीक की जाए। 17 क्योंकि जब तक वसीयत करने वाला ज़िन्दा हो वसीयत बे असर होती है। इस का असर वसीयत करने वाले की मौत ही से शुरू होता है। 18 यही वजह है कि पहला अहद बाँधते वक़्त भी ख़ून इस्तेमाल हुआ। 19 क्योंकि पूरी क़ौम को शरी'अत का हर हुक्म सुनाने के बाद मूसा ने बख़डों का ख़ून पानी से मिला कर उसे जूफ़े के गुच्छे और किरमिज़ी रंग के धागे के ज़रिए शरी'अत की किताब और पूरी क़ौम पर छिड़का। 20 उस ने कहा, “यह ख़ून उस अहद की तस्दीक करता है जिस की पैरवी करने का हुक्म खुदा ने तुम्हें दिया है।” 21 इसी तरह मूसा ने यह ख़ून मुलाकात के ख़ेमे और इबादत के तमाम सामान पर छिड़का। 22 न सिर्फ़ यह बल्कि शरी'अत तकाज़ा करती है कि तकरीबन हर चीज़ को ख़ून ही से पाक — साफ़ किया जाए बल्कि खुदा के हज़ूर ख़ून पेश किए बग़ैर मुआफी मिल ही नहीं सकती। 23 गरज़, ज़रूरी था कि यह चीज़ें जो आसमान की असली चीज़ों की नक़ली सूरतें हैं पाक — साफ़ की जाँएँ। लेकिन आसमानी चीज़ें खुद ऐसी कुर्बानियों की तलब करती हैं जो इन से कहीं बेहतर हों। 24 क्योंकि मसीह सिर्फ़ इंसानी हाथों से बने मक़्दिस में दाख़िल नहीं हुआ जो असली मक़्दिस की सिर्फ़ नक़ली सूरत थी बल्कि वह आसमान में

ही दाखिल हुआ ताकि अब से हमारी खातिर खुदा के सामने हाज़िर हो। 25 दुनिया का इमाम — ए — आजम तो सालाना किसी और (यानी जानवर) का खून ले कर पाकतरीन कमरे में दाखिल होता है। लेकिन मसीह इस लिए आसमान में दाखिल न हुआ कि वह अपने आप को बार बार कुर्बानी के तौर पर पेश करे। 26 अगर ऐसा होता तो उसे दुनिया की पैदाइश से ले कर आज तक बहुत बार दुःख सहना पडता। लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि अब वह ज़मानो के खातिमें पर एक ही बार सदा के लिए जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को दूर करे। (aiōn g165) 27 एक बार मरना और खुदा की अदालत में हाज़िर होना हर इंसान के लिए मुकर्रर है। 28 इसी तरह मसीह को भी एक ही बार बहुतों के गुनाहों को उठा कर ले जाने के लिए कुर्बान किया गया। दूसरी बार जब वह जाहिर होगा तो गुनाहों को दूर करने के लिए जाहिर नहीं होगा बल्कि उन्हें नजात देने के लिए जो शिद्दत से उस का इन्तिज़ार कर रहे हैं।

**10** मूसा की शरी'अत आने वाली अच्छी और असली चीज़ों की सिर्फ़ नकली सूरत और साया है। यह उन चीज़ों की असली शकल नहीं है। इस लिए यह उन्हें कभी भी कामिल नहीं कर सकती जो साल — ब — साल और बार बार खुदा के हज़ूर आ कर वही कुर्बानियाँ पेश करते रहते हैं। 2 अगर वह कामिल कर सकती तो कुर्बानियाँ पेश करने की ज़रूरत न रहती। क्योंकि इस सूरत में इबादत करने से एक बार सदा के लिए पाक — साफ़ हो जाते और उन्हें गुनाहगार होने का शऊर न रहता। 3 लेकिन इस के बजाए यह कुर्बानियाँ साल — ब — साल लोगों को उन के गुनाहों की याद दिलाती हैं। 4 क्योंकि मुम्किन ही नहीं कि बैल — बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। 5 इस लिए मसीह दुनिया में आते वक़्त खुदा से कहता है, कि तूने "कुर्बानी और नज़र को पसन्द ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। 6 राख होने वाली कुर्बानियाँ और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ।" 7 फिर मैं बोल उठा, ऐ खुदा, मैं हाज़िर हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। 8 पहले मसीह कहता है, "न तू कुर्बानियाँ, नज़रें, राख होने वाली कुर्बानियाँ या गुनाह की कुर्बानियाँ चाहता था, न उन्हें पसन्द करता था।" अगरचे शरी'अत इन्हें पेश करने का मुतालबा करती है। 9 फिर वह फ़रमाता है, "मैं हाज़िर हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ।" यँ वह पहला निज़ाम ख़तम करके उस की जगह दूसरा निज़ाम काइम करता है। 10 और उस की मर्ज़ी पूरी हो जाने से हमें ईसा मसीह के बदन के वसीले से ख़ास — ओ — मुक़द्दस किया गया है। क्योंकि उसे एक ही बार सदा के लिए हमारे लिए कुर्बान किया गया। 11 हर इमाम रोज़ — ब — रोज़ मक्दि़स में खड़ा अपनी खिदमत के फ़राइज़ अदा करता है। रोज़ाना और बार बार वह वही कुर्बानियाँ पेश करता रहता है जो कभी भी गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। 12 लेकिन

मसीह ने गुनाहों को दूर करने के लिए एक ही कुर्बानी पेश की, एक ऐसी कुर्बानी जिस का असर सदा के लिए रहेगा। फिर वह खुदा के दहने हाथ बैठ गया। 13 वही वह अब इन्तिज़ार करता है जब तक खुदा उस के दुश्मनों को उस के पाँओ की चौकी न बना दे। 14 यँ उस ने एक ही कुर्बानी से उन्हें सदा के लिए कामिल बना दिया है जिन्हें पाक किया जा रहा है। 15 रूह — उल — कुद्स भी हमें इस के बारे में गवाही देता है। पहले वह कहता है, 16 "खुदा फ़रमाता है कि, जो 'अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बाँधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उन के दिलों पर लिखूँगा और उनके जहन में डालूँगा।" 17 फिर वह कहता है, "उस वक़्त से मैं उन के गुनाहों और बुराइयों को याद नहीं करूँगा।" 18 और जहाँ इन गुनाहों की मुआफ़ी हुई है वहाँ गुनाहों को दूर करने की कुर्बानियों की ज़रूरत ही नहीं रही। 19 चुनौचे भाइयों, अब हम ईसा के खून के वसीले से पूरे यक़ीन के साथ पाकतरीन कमरे में दाखिल हो सकते हैं। 20 अपने बदन की कुर्बानी से ईसा ने उस कमरे के पर्दे में से गुज़रने का एक नया और जिन्दगीबख़्श रास्ता खोल दिया। 21 हमारा एक अज़ीम इमाम — ए — आजम है जो खुदा के घर पर मुकर्रर है। 22 इस लिए आँ, हम खुलूसदिली और इमान के पूरे यक़ीन के साथ खुदा के हज़ूर आँ। क्योंकि हमारे दिलों पर मसीह का खून छिड़का गया है ताकि हमारे मुजरिम दिल साफ़ हो जाएँ। और, हमारे बदनो को पाक — साफ़ पानी से धोया गया है। 23 आँ, हम मजबूती से उस उम्मीद को थामे रखें जिस का इकरार हम करते हैं। हम लडखड़ा न जाएँ, क्योंकि जिस ने इस उम्मीद का वादा किया है वह वफ़ादार है। 24 और आँ, हम इस पर ध्यान दें कि हम एक दूसरे को किस तरह मुहब्बत दिखाने और नेक काम करने पर उभार सकें। 25 हम एकसाथ जमा होने से बाज़ न आँ, जिस तरह कुछ की आदत बन गई है। इस के बजाए हम एक दूसरे की हौसला अफ़जाई करें, ख़ासकर यह बात मद — ए — नज़र रख कर कि खुदावन्द के दिन के आने तक। 26 खबरदार! अगर हम सच्चाई जान लेने के बाद भी जान — बूझ कर गुनाह करते रहें तो मसीह की कुर्बानी इन गुनाहों को दूर नहीं कर सकेगी। 27 फिर सिर्फ़ खुदा की अदालत की हौलनाक उम्मीद बाक़ी रहेगी, उस भडकती हुई आग की जो खुदा के मुख़ालिफ़ों को ख़तम कर डालेगी। 28 जो मूसा की शरी'अत रद करता है उस पर रहम नहीं किया जा सकता बल्कि अगर दो या इस से ज़्यादा लोग इस जुर्म की गवाही दें तो उसे सज़ा — ए — मौत दी जाए। 29 तो फिर क्या खयाल है, वह कितनी सख़्त सज़ा के लायक होगा जिस ने खुदा के फ़र्ज़न्द को पाँओ तले रौंदा? जिस ने अहद का वह खून हकीर जाना जिस से उसे ख़ास — ओ — मुक़द्दस किया गया था? और जिस ने फ़ज़ल के रूह की बेइज़्जती की? 30 क्योंकि हम उसे जानते हैं जिस ने फ़रमाया,

“इन्तिकाम लेना मेरा ही काम है, मैं ही बदला लूँगा।” उस ने यह भी कहा, “खुदा अपनी कौम का इन्साफ करेगा।” 31 यह एक हैलनाक बात है अगर जिन्दा खुदा हमें सजा देने के लिए पकड़े। 32 ईमान के पहले दिन याद करें जब खुदा ने आप को रौशन कर दिया था। उस वक्त के सख्त मुकाबिले में आप को कई तरह का दुःख सहना पड़ा, लेकिन आप साबितकदम रहे। 33 कभी कभी आप की बेइज्जती और अवागम के सामने ही ईजा रसानी होती थी, कभी कभी आप उन के साथी थे जिन से ऐसा सुलूक हो रहा था। 34 जिन्हें जेल में डाला गया आप उन के दुःख में शरीक हुए और जब आप का माल — ओ — जेवर लूटा गया तो आप ने यह बात खुशी से बर्दाश्त की। क्योंकि आप जानते थे कि वह माल हम से नहीं छीन लिया गया जो पहले की तरह कहीं बेहतर है और हर सूरत में काईम रहेगा। 35 चुनौचे अपने इस भरोसे को हाथ से जाने न दें क्योंकि इस का बड़ा अज्र मिलेगा। 36 लेकिन इस के लिए आप को साबित कदमी की जरूरत है ताकि आप खुदा की मर्जी पूरी कर सकें और यूँ आप को वह कुछ मिल जाए जिस का वादा उस ने किया है। 37 और कलाम में लिखा है “अब बहुत ही थोड़ा वक्त बाक़ी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। 38 लेकिन मेरा रास्तबाज़ ईमान ही से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश न होगा।” 39 लेकिन हम उन में से नहीं हैं जो पीछे हट कर तबाह हो जाएँ बल्कि हम उन में से हैं जो ईमान रख कर नजात पाते हैं।

**11** ईमान क्या है? यह कि हम उस में काईम रहें जिस पर हम उम्मीद रखते हैं और कि हम उस का यकीन रखें जो हम नहीं देख सकते। 2 ईमान ही से पुराने ज़माने के लोगों को खुदा की कबूलियत हासिल हुई। 3 ईमान के ज़रिए हम जान लेते हैं कि कायनात को खुदा के कलाम से पैदा किया गया, कि जो कुछ हम देख सकते हैं नज़र आने वाली चीज़ों से नहीं बना। (aiōn g165) 4 यह ईमान का काम था कि हाबिल ने खुदा को एक ऐसी कुर्बानी पेश की जो काइन की कुर्बानी से बेहतर थी। इस ईमान की बिना पर खुदा ने उसे रास्तबाज़ ठहरा कर उस की अच्छी गवाही दी, जब उस ने उस की कुर्बानियों को कबूल किया। और ईमान के ज़रिए वह अब तक बोलता रहता है हालाँकि वह मुर्दा है। 5 यह ईमान का काम था कि हनूक न मरा बल्कि जिन्दा हालत में आसमान पर उठाया गया। कोई भी उसे ढूँड कर पा न सका क्योंकि खुदा उसे आसमान पर उठा ले गया था। वजह यह थी कि उठाए जाने से पहले उसे यह गवाही मिली कि वह खुदा को पसन्द आया। 6 और ईमान रखे बगैर हम खुदा को पसन्द नहीं आ सकते। क्योंकि ज़रूरी है कि खुदा के हुज़ूर आने वाला ईमान रखे कि वह है और कि वह उन्हें अज्र देता है जो उस के तालिब हैं। 7 यह ईमान का काम था कि नूह

ने खुदा की सुनी जब उस ने उसे आने वाली बातों के बारे में आगाह किया, ऐसी बातों के बारे में जो अभी देखने में नहीं आई थीं। नूह ने खुदा का खौफ मान कर एक नाव बनाई ताकि उस का खानदान बच जाए। यूँ उस ने अपने ईमान के ज़रिए दुनिया को मुजरिम करार दिया और उस रास्तबाज़ी का वारिस बन गया जो ईमान से हासिल होती है। 8 यह ईमान का काम था कि अब्रहाम ने खुदा की सुनी जब उस ने उसे बुला कर कहा कि वह एक ऐसे मुल्क में जाए जो उसे बाद में मीरास में मिलेगा। हाँ, वह अपने मुल्क को छोड़ कर रवाना हुआ, हालाँकि उसे मालूम न था कि वह कहाँ जा रहा है। 9 ईमान के ज़रिए वह वादा किए हुए मुल्क में अजनबी की हैसियत से रहने लगा। वह खेमों में रहता था और इसी तरह इज्हाक और याकूब भी जो उस के साथ उसी वादे के वारिस थे। 10 क्योंकि अब्रहाम उस शहर के इन्तिज़ार में था जिस की मज़बूत बुनियाद है और जिस का नक्शा बनाने और तामीर करने वाला खुद खुदा है। 11 यह ईमान का काम था कि अब्रहाम बाप बनने के काबिल हो गया, हालाँकि वह बुढ़ापे की वजह से बाप नहीं बन सकता था। इसी तरह सारा भी बच्चे जन नहीं सकती थी। लेकिन अब्रहाम समझता था कि खुदा जिस ने वादा किया है वफ़ादार है। 12 अगरचे अब्रहाम तकरीबन मर चुका था तो भी उसी एक शख्स से बेशमार औलाद निकली, तहदाद में आसमान पर के सितारों और साहिल पर की रेत के ज़रों के बराबर। 13 यह तमाम लोग ईमान रखते रखते मर गए। उन्हें वह कुछ न मिला जिस का वादा किया गया था। उन्होंने ने उसे सिर्फ़ दूर ही से देख कर खुश हुए। 14 जो इस किस्म की बातें करते हैं वह जाहिर करते हैं कि हम अब तक अपने वतन की तलाश में हैं। 15 अगर उन के ज़हन में वह मुल्क होता जिस से वह निकल आए थे तो वह अब भी वापस जा सकते थे। 16 इस के बजाए वह एक बेहतर मुल्क यानी एक आसमानी मुल्क की तमन्ना कर रहे थे। इस लिए खुदा उन का खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, क्योंकि उस ने उन के लिए एक शहर तैयार किया है। 17 यह ईमान का काम था कि अब्रहाम ने उस वक्त इज्हाक को कुर्बानी के तौर पर पेश किया जब खुदा ने उसे आजमाया। हाँ, वह अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार था अगरचे उसे खुदा के वादे मिल गए थे 18 “कि तेरी नस्त इज्हाक ही से काईम रहेगी।” 19 अब्रहाम ने सोचा, खुदा मुर्दों को भी जिन्दा कर सकता है, और तबियत के लिहाज़ से उसे वाक'ई इज्हाक मुर्दों में से वापस मिल गया। 20 यह ईमान का काम था कि इज्हाक ने आने वाली चीज़ों के लिहाज़ से याकूब और 'ऐसव को बर्कत दी। 21 यह ईमान का काम था कि याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों को बर्कत दी और अपनी लाठी के सिरे पर टेक लगा कर खुदा को सिज्दा किया। 22 यह ईमान का काम था कि यूसुफ ने मरते वक्त यह पेशगोई की कि



इस्राईली मिश्र से निकलेंगे बल्कि यह भी कहा कि निकलते वक्त मेरी हड्डियाँ भी अपने साथ ले जाओ। 23 यह ईमान का काम था कि मूसा के माँ — बाप ने उसे पैदाइश के बाद तीन माह तक छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने ने देखा कि वह खूबसूरत है। वह बादशाह के हुक्म की खिलाफ वरज़ी करने से न डरे। 24 यह ईमान का काम था कि मूसा ने परवान चढ़ कर इन्कार किया कि उसे फिर 'औन की बेटी का बेटा ठहराया जाए। 25 आरिज़ी तौर पर गुनाह से लुफ अन्दोज होने के बजाए उस ने खुदा की क्रौम के साथ बदसलूकी का निशाना बनने को तर्ज़ीह दी। 26 वह समझा कि जब मेरी मसीह की खातिर स्वाई की जाती है तो यह मिश्र के तमाम खज़ानों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि उस की आँखें आने वाले अज़्र पर लगी रहीं। 27 यह ईमान का काम था कि मूसा ने बादशाह के गुस्से से डरे बग़ैर मिश्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह गोया अनदेखे खुदा को लगातार अपनी आँखों के सामने रखता रहा। 28 यह ईमान का काम था कि उस ने फ़सह की ईद मनह कर हुक्म दिया कि खून को चौखटों पर लगाया जाए ताकि हलाक करने वाला फ़रिशता उन के पहलौठे बेटों को न छुए। 29 यह ईमान का काम था कि इस्राईली बहर — ए — कुलज़ूम में से यूँ गुज़र सके जैसे कि यह ख़ुशक ज़मीन थी। जब मिश्रियों ने यह करने की कोशिश की तो वह डूब गए। 30 यह ईमान का काम था कि सात दिन तक यरीह शहर की फ़सील के गिर्द चक्कर लगाने के बाद पूरी दीवार गिर गई। 31 यह भी ईमान का काम था कि राहब फ़ाहिशा अपने शहर के बाकी नाफ़रमान रहने वालों के साथ हलाक न हुई, क्योंकि उस ने इस्राईली जासूसों को सलामती के साथ ख़ुशआमदीद कहा था। 32 मैं ज़्यादा क्या कुछ कहूँ? मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं जिदाऊन, बरक, सम्सून, इफ़ताह, दारूद, समूल और नबियों के बारे में सुनाता रहूँ। 33 यह सब ईमान की वजह से ही कामियाब रहे। वह बादशाहों पर ग़ालिब आए और इन्साफ़ करते रहे। उन्हें खुदा के वादे हासिल हुए। उन्होंने ने शेर बबरों के मुँह बन्द कर दिए। 34 और आग के भड़कते शोलों को बुझा दिया। वह तलवार की ज़द से बच निकले। वह कमज़ोर थे लेकिन उन्हें ताकत हासिल हुई। जब जंग छिड़ गई तो वह इतने ताकतवर साबित हुए कि उन्होंने ने ग़ैरमुल्की लश्करों को शिकस्त दी। 35 ईमान रखने के ज़रिए से औरतों को उन के मुर्दा अज़ीज़ जिन्दा हालत में वापस मिले। 36 कुछ को लान — तान और कोड़ों बल्कि जंजीरों और कैद का भी सामना करना पड़ा। 37 उनपर पथराव किया गया, उन्हें आरे से चीरा गया, उन्हें तलवार से मार डाला गया। कुछ को भेड़ — बकरियों की खालों में घूमना फिरना पड़ा। ज़रूरतमन्द हालत में उन्हें दबाया और उन पर ज़ुल्म किया जाता रहा। 38 दुनिया उन के लायक नहीं थी! वह वीरान जगहों में, पहाड़ों पर, ग़ारों और ग़ड्डों में आबारा फिरते रहे। 39 इन सब

को ईमान की वजह से अच्छी गवाही मिली। तो भी इन्हें वह कुछ हासिल न हुआ जिस का वादा खुदा ने किया था। 40 क्योंकि उस ने हमारे लिए एक ऐसा मन्सूबा बनाया था जो कहीं बेहतर है। वह चाहता था कि यह लोग हमारे बग़ैर कामिलियत तक न पहुँचें।

**12** गरज़, हम गवाहों के इतने बड़े लश्कर से घिरे रहते हैं, इस लिए आँ, हम सब कुछ उतारें जो हमारे लिए स्कावट का ज़रिया बन गया है, हर गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। आँ, हम साबितकदमी से उस दौड़ में दौड़ते रहे जो हमारे लिए मुर्कर की गई है। 2 और दौड़ते हुए हम ईसा को तकते रहे, उसे जो ईमान का बानी भी है और उसे पाए तक्मील तक पहुँचाने वाला भी। याद रहे कि गो वह ख़ुशी हासिल कर सकता था तो भी उस ने सलीबी मौत की शर्मनाक बेइज़्जती की परवाह न की बल्कि उसे बर्दाशत किया। और अब वह खुदा के तख़्त के दहने हाथ जा बैठा है! 3 उस पर ग़ौर करें जिस ने गुनाहगारों की इतनी मुखालिफ़त बर्दाशत की। फिर आप थकते थकते बेदिल नहीं हो जाएँगे। 4 देखें, आप गुनाह से लड़े तो हैं, लेकिन अभी तक आप को जान देने तक इस की मुखालिफ़त नहीं करनी पड़ी। 5 क्या आप कलाम — ए — मुक़द्दस की यह हिम्मत बढ़ाने वाली बात भूल गए हैं जो आप को खुदा के फ़र्ज़न्द ठहरा कर बयान करती है, 6 क्योंकि जो खुदा को प्यारा है उस की वह हिदायत करता है, क्योंकि जिसको फ़रज़न्द बनालेता है उसके कोड़े भी लगाता है 7 अपनी मुसीबतों को इलाही तर्बियत समझ कर बर्दाशत करें। इस में खुदा आप से बेटों का सा सलूक कर रहा है। क्या कभी कोई बेटा था जिस की उस के बाप ने तर्बियत न की? 8 अगर आप की तर्बियत सब की तरह न की जाती तो इस का मतलब यह होता कि आप खुदा के हकीकी फ़र्ज़न्द न होते बल्कि नाजायज़ औलाद। 9 देखो, जब हमारे इंसानी बाप ने हमारी तर्बियत की तो हम ने उस की इज़्जत की। अगर ऐसा है तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्थानी बाप के ताबे हो कर ज़िन्दगी पाएँ। 10 हमारे इंसानी बापों ने हमें अपनी समझ के मुताबिक थोड़ी देर के लिए तर्बियत दी। लेकिन खुदा हमारी ऐसी तर्बियत करता है जो फ़ाइदे का ज़रिया है और जिस से हम उस की कुदूसियात में शरीक होने के काबिल हो जाते हैं। 11 जब हमारी तर्बियत की जाती है तो उस वक्त हम ख़ुशी महसूस नहीं करते बल्कि ग़म। लेकिन जिन की तर्बियत इस तरह होती है वह बाद में रास्तबाज़ी और सलामती की फ़सल काटते हैं। 12 चुनौचे अपने थके हारे बाजू और कमज़ोर घुटनों को मज़बूत करें। 13 अपने रास्ते चलने के काबिल बना दें ताकि जो अज्व लंगड़ा है उस का जोड़ उतर न जाए 14 सब के साथ मिल कर सुलह — सलामती और कुदूसियात के लिए जिद्द — ओ — जहद करते रहें, क्योंकि जो पाक नहीं है वह खुदाबन्द को कभी नहीं देखेगा। 15 इस पर ध्यान

देना कि कोई खुदा के फ़ज़ल से महसूस न रहे। ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूट निकले और बढ़ कर तकलीफ का ज़रिया बन जाए और बहुतों को नापाक कर दे। 16 गौर करें कि कोई भी ज़िनाकार या 'ऐसव' जैसा दुनियावी शख्स न हो जिस ने एक ही खाने के बदले अपने वह मौसूसी हकूक बेच डाले जो उसे बड़े बेटे की हैसियत से हासिल थे। 17 आप को भी मालूम है कि बाद में जब वह बर्कत विरासत में पाना चाहता था तो उसे रद्द किया गया। उस वक़्त उसे तौबा का मौका न मिला हालाँकि उस ने आँसू बहा बहा कर यह बर्कत हासिल करने की कोशिश की। 18 आप उस तरह खुदा के हज़ूर नहीं आए जिस तरह इस्राईली जब वह सीना पहाड़ पर पहुँचे, उस पहाड़ के पास जिसे छुआ जा सकता था। वहाँ आग भड़क रही थी, अँधेरा ही अँधेरा था और आँधी चल रही थी। 19 जब नरसिंगे की आवाज़ सुनाई दी और खुदा उन से हमकलाम हुआ तो सुनने वालों ने उस से गुज़ारिश की कि हमें ज्यादा कोई बात न बता। 20 क्योंकि वह यह हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि "अगर कोई जानवर भी पहाड़ को छू ले तो उसपर पथराव करना है।" 21 यह मन्ज़र इतना डरावना था कि मूसा ने कहा, "मैं ख़ौफ के मोरे काँप रहा हूँ।" 22 नहीं, आप सिय्यून पहाड़ के पास आ गए हैं, यानी ज़िन्दा खुदा के शहर आसमानी येरूशलेम के पास। आप बेशुमार फ़रिशतों और ज़न्न मनाने वाली जमाअत के पास आ गए हैं, 23 उन पहलौठों की जमाअत के पास जिन के नाम आसमान पर दर्ज किए गए हैं। आप तमाम इंसानों के मुन्सिफ़ खुदा के पास आ गए हैं और कामिल किए गए रास्तबाज़ों की रूहों के पास। 24 नेज़ आप नए अहद के बीच ईसा के पास आ गए हैं और उस छिड़के गए खून के पास जो हाबिल के खून की तरह बदला लेने की बात नहीं करता बल्कि एक ऐसी मुआफ़ी देता है जो कहीं ज्यादा असरदार है। 25 चुनाँचे खबरदार रहें कि आप उस की सुनने से इन्कार न करें जो इस वक़्त आप से हमकलाम हो रहा है। क्योंकि अगर इस्राईली न बचे जब उन्होंने ने दुनियावी पैग़म्बर मूसा की सुनने से इन्कार किया तो फिर हम किस तरह बचेंगे अगर हम उस की सुनने से इन्कार करें जो आसमान से हम से हमकलाम होता है। 26 जब खुदा सीना पहाड़ पर से बोल उठा तो ज़मीन काँप गई, लेकिन अब उस ने वादा किया है, "एक बार फिर मैं न सिर्फ़ ज़मीन को हिला दूँगा बल्कि आसमान को भी।" 27 "एक बार फिर" के अलफ़ाज़ इस तरफ़ इशारा करते हैं कि पैदा की गई चीज़ों को हिला कर दूर किया जाएगा और नतीजे में सिर्फ़ वह चीज़ें क़ाईम रहेंगी जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। 28 चुनाँचे आँ, हम शुक़गुज़ार हों। क्योंकि हमें एक ऐसी बादशाही हासिल हो रही है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। हाँ, हम शुक़गुज़ारी की इस रूह में एहतियाम और ख़ौफ़ के साथ खुदा की पसन्दीदा

इबादत करें, 29 क्योंकि हमारा खुदा हक़ीक़तन राख कर देने वाली आग है।

**13** एक दूसरे से भाइयों की सी मुहब्बत रखते रहें। 2 मेहमान — नवाज़ी मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने से कुछ ने अनजाने तौर पर फ़रिशतों की मेहमान — नवाज़ी की है। 3 जो कैद में हैं, उन्हें यूँ याद रखना जैसे आप खुद उन के साथ कैद में हों। और जिन के साथ बदसलूकी हो रही है उन्हें यूँ याद रखना जैसे आप से यह बदसलूकी हो रही हो। 4 ज़स्री है कि सब के सब मिली हुई जिन्दगी का एहतियाम करें। शौहर और बीवी एक दूसरे के वफ़ादार रहें, क्योंकि खुदा ज़िनाकारों और शादी का बंधन तोड़ने वालों की अदालत करेगा। 5 आप की जिन्दगी पैसों के लालच से आज़ाद हो। उसी पर इकतियाफ़ करें जो आप के पास है, क्योंकि खुदा ने फ़रमाया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा, "मैं तुझे कभी तर्क नहीं करूँगा।" 6 इस लिए हम यकीन से कह सकते हैं "कि खुदावन्द मेरा मददगार है, मैं ख़ौफ़ न करूँगा इंसान मेरा क्या करेगा?" 7 अपने राहनुमाओं को याद रखें जिन्होंने आप को खुदा का कलाम सुनाया। इस पर गौर करें कि उन के चाल — चलन से कितनी भलाई पैदा हुई है, और उन के इमान के नमूने पर चलें। 8 ईसा मसीह कल और आज और हमेशा तक यक़्सौ है। (aiōn g165) 9 तरह तरह की और बेगाना तालीमात आप को इधर उधर न भटकाएँ। आप तो खुदा के फ़ज़ल से ताक़त पाते हैं और इस से नहीं कि आप मुख़्तलिफ़ खानों से परहेज़ करते हैं। इस में कोई खास फ़ाइदा नहीं है। 10 हमारे पास एक ऐसी कुर्बानगाह है जिस की कुर्बानी खाना मुलाकात के खेमे में खिदमत करने वालों के लिए मनह है। 11 क्योंकि अगरचे इमाम — ए — आज़म जानवरों का खून गुनाह की कुर्बानी के तौर पर पाक तरीन कमरे में ले जाता है, लेकिन उन की लाशों को खेमागाह के बाहर जलाया जाता है। 12 इस वजह से ईसा को भी शहर के बाहर सलीबी मौत सहनी पड़ी ताकि कौम को अपने खून से खास — ओ — पाक करे। 13 इस लिए आँ, हम खेमागाह से निकल कर उस के पास जाएँ और उस की बेइज़्ज़ती में शरीक हो जाएँ। 14 क्योंकि यहाँ हमारा कोई क़ाईम रहने वाला शहर नहीं है बल्कि हम आने वाले शहर की शदीद आरज़ु रखते हैं। 15 चुनाँचे आँ, हम ईसा के वसीले से खुदा को हम्द — ओ — सना की कुर्बानी पेश करें, यानी हमारे होंटों से उस के नाम की तारीफ़ करने वाला फल निकले। 16 नेज़, भलाई करना और दूसरों को अपनी बर्कतों में शरीक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कुर्बानियाँ खुदा को पसन्द हैं। 17 अपने राहनुमाओं की सुनें और उन की बात मानें। क्योंकि वह आप की देख — भाल करते करते जागते रहते हैं, और इस में वह खुदा के सामने जवाबदेह हैं। उन की बात मानें ताकि वह खुशी से अपनी खिदमत सरअन्जाम दें। वर्ना वह कराहते

कराहते अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे, और यह आप के लिए मुफ़ीद नहीं होगा। 18 हमारे लिए दुआ करें, गरचे हमें यक़ीन है कि हमारा ज़मीर साफ़ है और हम हर लिहाज़ से अच्छी ज़िन्दगी गुज़ारने के ख्वाहिशमन्द हैं। 19 मैं खासकर इस पर जोर देना चाहता हूँ कि आप दुआ करें कि ख़ुदा मुझे आप के पास जल्द वापस आने की तौफ़ीक़ बरख़ो। 20 अब सलामती का ख़ुदा जो अबदी 'अहद के खून से हमारे ख़ुदावन्द और भेड़ों के अज़ीम चरवाहे ईसा को मुर्दों में से वापस लाया (aiōnios g166) 21 वह आप को हर अच्छी चीज़ से नवाज़े ताकि आप उस की मज़ीं पूरी कर सकें। और वह ईसा मसीह के ज़रिए हम में वह कुछ पैदा करे जो उसे पसन्द आए। उस का जलाल शुरू से हमेशा तक होता रहे! आमीन। (aiōn g165) 22 भाइयों! मेहरबानी करके नसीहत की इन बातों पर सन्जीदगी से गौर करें, क्योंकि मैंने आप को सिर्फ़ चन्द अल्फ़ाज़ लिखे हैं। 23 यह बात आप के इल्म में होनी चाहिए कि हमारे भाई तीमुथियुस को रिहा कर दिया गया है। अगर वह जल्दी पहुँचे तो उसे साथ ले कर आप से मिलने आऊँगा। 24 अपने तमाम राहनुमाओं और तमाम मुक़द्दसीन को मेरा सलाम कहना। इतालिया मुल्क के ईमानदार आप को सलाम कहते हैं। 25 ख़ुदा का फ़ज़ल आप सब के साथ रहे।

# याकूब

**1** खुदा के और खुदावन्द 'ईसा मसीह के बन्दे याकूब की तरफ से उन बारह ईमानदारों के कबीलों को जो जगह — ब — जगह रहते हैं सलाम पहुँचे। 2 ऐ, मेरे भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। 3 तो इसको ये जान कर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब पैदा करती है। 4 और सब को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। 5 लेकिन अगर तुम में से किसी में हिक्मत की कमी हो तो खुदा से माँगे जो बगैर मलामत किए सब को बहुतायत के साथ देता है। उसको दी जाएगी। 6 मगर ईमान से माँगे और कुछ शक न करे क्योंकि शक करने वाला समुन्दर की लहरों की तरह होता है जो हवा से बहती और उछलती है। 7 ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन्द से कुछ मिलेगा। 8 वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। 9 अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे। 10 और दौलतमन्द अपनी हलीमी हालत पर इसलिए कि घास के फूलों की तरह जाता रहेगा। 11 क्योंकि सूरज निकलते ही सब्ज धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है इस तरह दौलतमन्द भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। 12 मुबारिक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिनदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन्द ने अपने मुहब्बत करने वालों से वादा किया है 13 जब कोई आजमाया जाए तो ये न कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है क्यों कि न तो खुदा बर्दा से आजमाया जा सकता है और न वो किसी को आजमाता है। 14 हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिचकर और फँस कर आजमाया जाता है। 15 फिर ख्वाहिश हामिला हो कर गुनाह को पैदा करती है और गुनाह जब बढ़ गया तो मौत पैदा करता है। 16 ऐ, मेरे प्यारे भाइयों धोखा न खाना। 17 हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है जिस में न कोई तब्दीली हो सकती है और न गरदिश के वजह से उस पर साया पड़ता है। 18 उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम — ऐ — हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मुखालिफत में से हम एक तरह के फल हो। 19 ऐ, मेरे प्यारे भाइयों ये बात तुम जानते हो; पस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीमा और कहने में धीमा हो। 20 क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। 21 इसलिए सारी नजासत और बर्दा की गंदगी को दूर करके उस कलाम को नर्मदिल से कुबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। 22 लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज

सुनने वाले जो अपने आपको धोखा देते हैं। 23 क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला न हो वो उस शख्स की तरह है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। 24 इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25 लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरी'अत पर गौर से नज़र करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बर्कत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। 26 अगर कोई अपने आपको दीनदार समझे और अपनी ज़बान को लगाम न दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। 27 हमारे खुदा और बाप के नज़दीक ख़ालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक़्त उनकी खबर लें; और अपने आप को दुनिया से बे'दाग रखें।

**2** ऐ, मेरे भाइयों; हमारे खुदावन्द जुलजलाल 'ईसा मसीह का ईमान तुम पर तरफ़दारी के साथ न हो। 2 क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अँगूठी और 'उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमाअत में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचले पहने हुए आए। 3 और तुम उस 'उम्दा पोशाक वाले का लिहाज़ कर के कहो तू यहाँ अच्छी जगह बैठ और उस गरीब शख्स से कहो तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ। 4 तो क्या तुम ने आपस में तरफ़दारी न की और बद नियत मुन्सिफ न बने? 5 ऐ, मेरे प्यारे भाइयों सुनो; क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमन्द और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगुज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मुहब्बत करने वालों से वादा किया है। 6 लेकिन तुम ने गरीब आदमी की बे'इज़्जती की; क्या दौलतमन्द तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें आदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते। 7 क्या वो उस बुर्जुग नाम पर कुफ़्र नहीं बकते जिससे तुम नाम ज़द हो। 8 तोभी अगर तुम इस लिखे हुए के मुताबिक अपने पड़ोसी से अपनी तरह मुहब्बत रखो उस बादशाही शरी'अत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। 9 लेकिन अगर तुम तरफ़दारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरी'अत तुम को कसूरवार ठहराती है 10 क्योंकि जिसने सारी शरी'अत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। 11 इसलिए कि जिसने ये फ़रमाया कि जिना न कर उसी ने ये भी फ़रमाया कि खून न कर पस अगर तू ने जिना तो न किया मगर खून किया तोभी तू शरी'अत का इन्कार करने वाला ठहरा। 12 तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरी'अत के मुवाफिक इन्साफ होगा। 13 क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इन्साफ बगैर रहम के होगा रहम इन्साफ पर गालिब आता है। 14 ऐ, मेरे भाइयों; अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल न करता हो तो क्या फ़ाइदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है। 15 अगर

कोई भाई या बहन नंगे हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो। 16 देते हैं। 10 एक ही मुँह से सुबारिक बाद और बड़ुआ निकलती है! ऐ मेरे भाइयों; ऐसा न होना चाहिए। 11 क्या चश्मे के एक ही मुँह से मीठा और खारा पानी निकलता है। 12 ऐ, मेरे भाइयों! क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अँगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारे चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। 13 तुम में दाना और फ़हीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हलीमी के साथ जाहिर करें जो हिक्मत से पैदा होता है। 14 लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफ़्क़े रखते हो तो हक के खिलाफ़ न शेखी मारो न झूठ बोलो। 15 ये हिक्मत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है बल्कि दुनियावी और नफ़सानी और शैतानी है। 16 इसलिए कि जहाँ हसद और तफ़्क़ा होता है फ़साद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। 17 मगर जो हिक्मत ऊपर से आती है अब्बल तो वो पाक होती है फिर मिलनसार नर्मदिल और तरबियत पज़ीर रहम और अच्छे फलों से लदी हुई बेतरफ़दार और बे — रिया होती है। 18 और सुलह करने वालों के लिए रास्तबाज़ी का फल सुलह के साथ बोया जाता है।

**3** ऐ, मेरे भाइयों; तुम में से बहुत से उस्ताद न बनें क्यूँकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सज़ा पाएँगे। 2 इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं; कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है; 3 देखो हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुँह में लगाव देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। 4 और जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं तोभी एक निहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए मौँड़ी की मज़ी के मुवाफ़िक़ घुमाए जाते हैं। 5 इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा 'उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। 6 ज़बान भी एक आग है ज़बान हमारे आज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दाइरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। (Geenna g1067) 7 क्यूँकि हर किस्म के चौपाए और परिन्दे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। 8 मगर ज़बान को कोई काबू में नहीं कर सकता वो एक बला है जो कभी स्कती ही नहीं ज़हर — ऐ — कातिल से भरी हुई है। 9 इसी से हम ख़ुदावन्द अपने बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो ख़ुदा की सूत पर पैदा हुए हैं बड़ुआ

**4** तुम में लडाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे आज़ा में फ़साद करती हैं। 2 तुम ख्वाहिश करते हो, और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते; तुम लडते और झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि माँगते नहीं। 3 तुम माँगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नियत से माँगते हो: ताकि अपनी ऐश — ओ — अशरत में खर्च करो। 4 ऐ, नाफरमानी करने वालो क्या तुम्हें नहीं मा'लूम कि दुनिया से दोस्ती रखना ख़ुदा से दुश्मनी करना है? पस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को ख़ुदा का दुश्मन बनाता है। 5 क्या तुम ये समझते हो कि किताब — ऐ — मुक़द्दस बे'फ़ाइदा कहती है? जिस पाक रूह को उसने हमारे अन्दर बसाया है क्या वो ऐसी अगर ज़ू करती है जिसका अन्जाम हसद हो। 6 वो तो ज्यादा तौफ़ीक़ बख़्शाता है इसी लिए ये आया है कि ख़ुदा मग़स्रों का मुक़ाबिला करता है मगर फ़िरोतनों को तौफ़ीक़ बख़्शाता है। 7 पस ख़ुदा के ताबे हो जाओ और इबलीस का मुक़ाबिला करो तो वो तुम से भाग जाएगा। 8 ख़ुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा; ऐ, गुनाहगारो अपने हाथों को साफ़ करो और ऐ, दो दिलो अपने दिलों को पाक करो। 9 अफ़सोस करो और रोओ तुम्हारी हँसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। 10 ख़ुदावन्द के सामने फ़िरोतनी करो, वो तुम्हें सरबलन्द करेगा। 11 ऐ, भाइयों एक दूसरे की बुराई न करो जो अपने भाई की बुराई करता या भाई पर इल्ज़ाम लगाता है; वो शरी'अत की बुराई करता और शरी'अत पर इल्ज़ाम लगाता है और अगर तू शरी'अत पर इल्ज़ाम लगाता है तो शरी'अत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर

हाकिम ठहरा। 12 शरी'अत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है। 13 तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलों शहर में जा कर वहाँ एक बरस ठहरेगे और सौदागरी करके नफा उठाएँगे। 14 और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा; जरा सुनो तो; तुम्हारी जिन्दगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है अभी नजर आए अभी गायब हो गए। 15 यूँ कहने की जगह है तुम्हें ये कहना चाहिए अगर खुदावन्द चाहे तो हम जिन्दा भी रहेंगे और ये और वो काम भी करेंगे। 16 मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो; ऐसा सब फख्र बुरा है। 17 पस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है।

**5** ऐ, दौलतमन्दों जरा सुनो; तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रोओ; और मातम करो; 2 तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। 3 तुम्हारे सोने चाँदी को जँग लग गया और वो जँग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोशत खाएगा; तुम ने आखिर ज़माने में ख़जाना जमा किया है। 4 देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुम ने धोखा करके रख छोड़ी चिल्लाती है और फ़सल काटने वालों की फ़रियाद रब्ब'उल अफ़वाज के कानों तक पहुँच गई है। 5 तुम ने ज़मीन पर ऐश'ओ — अशरत की और मज़े उड़ाए तुम ने अपने दिलों को जबह के दिन मोटा ताजा किया। 6 तुम ने रास्तबाज़ शख्स को कुसूरवार ठहराया और क़त्ल किया वो तुम्हारा मुक़ाबिला नहीं करता। 7 पस, ऐ भाइयों; खुदावन्द की आमद तक सब्र करो देखो किसान ज़मीन की क़ीमती पैदावार के इन्तज़ार में पहले और पिछले बारिश के बरसने तक सब्र करता रहता है। 8 तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मज़बूत रखो, क्योंकि खुदावन्द की आमद करीब है। 9 ऐ, भाइयों! एक दूसरे की शिकायत न करो ताकि तुम सज़ा न पाओ, देखो मुन्सिफ़ दरवाज़े पर खड़ा है। 10 ऐ, भाइयों! जिन नबियों ने खुदावन्द के नाम से क़लाम किया उनको दुः ख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। 11 देखो सब्र करने वालों को हम मुबारिक कहते हैं; तुम ने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है और खुदावन्द की तरफ़ से जो इसका अन्जाम हुआ उसे भी मा'लूम कर लिया जिससे खुदावन्द का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। 12 मगर ऐ, मेरे भाइयों; सब से बढ़कर ये है क़सम न खाओ, न आसमान की न ज़मीन की न किसी और चीज़ की बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं ताकि सज़ा के लायक न ठहरो। 13 अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। 14 अगर तुम में कोई बीमार हो तो क़लीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन्द के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुः आ करें। 15 जो दुः आ ईमान के साथ

होगी उसके ज़रिए बीमार बच जाएगा; और खुदावन्द उसे उठा कर खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों, तो उनकी भी मु'आफी हो जाएगी। 16 पस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुः आ करो ताकि शिफ़ा पाओ रास्तबाज़ की दुः आ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। 17 एलियाह हमारी तरह इंसान था, उसने बड़े जोश से दुः आ की कि पानी न बरसे, चुनौचे साढे तीन बरस तक ज़मीन पर पानी न बरसा। 18 फिर उसी ने दुः आ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। 19 ऐ, मेरे भाइयों! अगर तुम में कोई राहे हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको वापस लाए। 20 तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा; वो एक जान को मौत से बचा लेगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा।

# 1 पतरस

**1** पतरस की तरफ से जो ईसा मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम खत, जो पुन्तस, गलतिया, क्पन्दुकिया, असिया और बीथुइनिया सबे में जा बजा रहते हैं, **2** और खुदा बाप के 'इल्म — ए — साबिक के मुवाफिक रह के पाक करने से फरमाँबरदार होने और ईसा मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए है। फ़जल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। **3** हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के खुदा और बाप की हन्द हो, जिसने ईसा मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ज़रिए, अपनी बडी रहमत से हमे जिन्दा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, **4** ताकि एक गैरफानी और बेदाग और लाज़वाल मीरास को हासिल करें; **5** जो तुम्हारे वास्ते [जो खुदा की क़दरत से ईमान के वसीले से, उस नजात के लिए जो आख़री वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफ़ाज़त किए जाते हो] आसमान पर महफूज़ है। **6** इस की वजह से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चन्द रोज़ के लिए ज़रत की वजह से, तरह तरह की आजमाइशों की वजह से गमज़दा हो; **7** और ये इस लिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमती है, ईसा मसीह के ज़हर के वक्त तारीफ और जलाल और 'इज़्जत का जरिया ठहरे। **8** उससे तुम अनदेखी मुहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है; **9** और अपने ईमान का मकसद यानी स्हों की नजात हासिल करते हो। **10** इसी नजात के बारे में नबियों ने बडी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फ़जल के बारे में जो तुम पर होने को था नबुव्वत की। **11** उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रह जो उस में था, और पहले मसीह के दुखों और उनके जिन्दा हो उठने के बाद उसके के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। **12** उन पर ये जाहिर किया गया कि वो न अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुम को उनके ज़रिए मिली जिन्होंने रह — उल — क़दुस के वसीले से, जो आसमान पर से भेजा गया तुम को खुशखबरी दी; और फ़रिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुशताक हैं। **13** इस वास्ते अपनी 'अक्ल की कमर बाँधकर और होशियार होकर, उस फ़जल की पूरी उम्मीद रखवो जो ईसा मसीह के ज़हर के वक्त तुम पर होने वाला है। **14** और फ़रमाँबरदार बेटा होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो। **15** बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलानेवाला पाक, है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल — चलन में पाक बनो; **16** क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, "पाक हो,

इसलिए कि मैं पाक हूँ।" **17** और जब कि तुम 'बाप' कह कर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुवाफिक़ बग़ैर तरफ़दारी के इन्साफ़ करता है, तो अपनी मुसाफ़िरत का ज़माना ख़ौफ़ के साथ गुज़ारो। **18** क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल — चलन जो बाप — दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी ख़लासी फ़ानी चीज़ों या'नी सोने चाँदी के ज़रिए से नहीं हुई; **19** बल्कि एक बे'ऐब और बेदाग बर्न, यानी मसीह के बेश कीमत खून से। **20** उसका 'इल्म तो दुनियाँ बनाने से पहले से था, मगर ज़हर आख़री ज़माने में तुम्हारी खातिर हुआ, **21** कि उस के वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उस को मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख़शा ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। **22** चूँकि तुम ने हक़ की ताबे 'दारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बे'रिया मुहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिल — ओ — जान से आपस में बहुत मुहब्बत रखवो। **23** क्योंकि तुम मिटने वाले बीज से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से, जो जिंदा और काईम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। (aiōn g165) **24** चुनाँचे हर आदमी घास की तरह है, और उसकी सारी शान — ओ — शौकत घास के फूल की तरह। घास तो सूख जाती है, और फूल गिर जाता है। **25** लेकिन खुदावन्द का कलाम हमेशा तक काईम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। (aiōn g165)

**2** पस हर तरह की बद्'ख्वाही और सारे फ़रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बद्गोई को दूर करके, **2** पैदाइशी बच्चों की तरह ख़ालिस स्थानी दूध के इतज़ार में रहो, ताकि उसके ज़रिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, **3** अगर तुम ने खुदावन्द के मेहरबान होने का मज़ा चखा है। **4** उसके यानी आदमियों के रड़ किए हुए, पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिन्दा पत्थर के पास आकर, **5** तुम भी जिन्दा पत्थरों की तरह स्थानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुक़द्दस फिरका बनकर ऐसी स्थानी कुबानियाँ चढ़ाओ जो ईसा मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मक़बूल होती है। **6** चुनाँचे किताब — ए — मुक़द्दस में आया है: देखो, मैं सिध्दून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिन्दा न होगा। **7** पस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान न लाने वालों के लिए जिस पत्थर को राजगीरों ने रड़ किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। **8** और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफ़रमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुक़रर भी हुए थे। **9** लेकिन तुम एक चुनी हुई नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुक़द्दस क्रौम, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिलिक़यत है ताकि उसकी ख़ुबियाँ जाहिर करो जिसने तुम्हें अंधेरे से अपनी 'अजीब

रौशनी में बुलाया है। 10 पहले तुम कोई उम्मत न थे मगर अब तुम खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत न हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। 11 ऐ प्यारों! मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जान कर, उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रह से लड़ाई रखती हैं। 12 और गैर — कौमों में अपना चाल — चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देख कर उन्हीं की वजह से मुलाहिजा के दिन खुदा की बड़ाई करें। 13 खुदावन्द की खातिर इंसान के हर एक इन्तिजाम के ताबे' रहो; बादशाह के इसलिए कि वो सब से बुजुर्ग है, 14 और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों को सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। 15 क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बन्द कर दो। 16 और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा न बनाओ; बल्कि अपने आप को खुदा के बन्दे जानो। 17 सबकी 'इज्जत करो, बिरादरी से मुहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की 'इज्जत करो। 18 ऐ नौकरों! बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे' रहो, न सिर्फ नेकों और हलीमों ही के बल्कि बद मिजाजों के भी। 19 क्योंकि अगर कोई खुदा के खयाल से बेइन्साफी के बा'इस दुःख उठाकर तकलीफों को बर्दाश्त करे तो ये पसन्दीदा है। 20 इसलिए कि अगर तुम ने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया, तो कौन सा फ़ख्र है? हाँ, अगर नेकी करके दुःख पाते और सब्र करते हो, तो ये खुदा के नज़दीक पसन्दीदा है। 21 और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुःख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्श — ए — कदम पर चलो। 22 न उसने गुनाह किया और न ही उसके मुँह से कोई मक्क की बात निकली, 23 न वो गालियाँ खाकर गाली देता था और न दुःख पाकर किसी को धमकाता था; बल्कि अपने आप को सच्चे इन्साफ करने वाले खुदा के सुपुर्द करता था। 24 वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के ऐतबार से जिएँ; और उसी के मार खाने से तुम ने शिफा पाई। 25 अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है, अगर कोई खिदमत करे तो उस ताक़त के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में ईसा मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत हमेशा से हमेशा उसी की है। आमीन।

**3** ऐ बीवियों! तुम भी अपने शौहर के ताबे' रहो, 2 इसलिए कि अगर कुछ उन्में से कलाम को न मानते हों, तोभी तुम्हारे पाकीजा चाल — चलन और खौफ को देख कर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल — चलन से खुदा की तरफ खिंच जाँ। 3 और तुम्हारा सिंगार जाहिरी न हो, यानी सर गँधना और सोने

के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, 4 बल्कि तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसान िश्वत, हलीम और नर्म मिजाज की गुरबत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कद्र है। 5 और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखनेवाली मुकद्दस 'औरतें, अपने आप को इसी तरह संवारी और अपने अपने शौहर के ताबे' रहती थीं। 6 चुनौचे सारह अब्रहाम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन्द कहती थी। तुम भी अगर नेकी करो और किसी के डराने से न डरो, तो उसकी बेटीयाँ हुई। 7 ऐ शौहरों! तुम भी बीवियों के साथ 'अक्लमन्दी से बसर करो, और 'औरत को नाजूक जर्फ जान कर उसकी 'इज्जत करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िन्दगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दु'आएँ स्क न जाएँ। 8 गरज सब के सब एक दिल और हमदर्द रहो, बिरादराना मुहब्बत रखो, नर्म दिल और फ़रोतन बनो। 9 बदी के 'बदले बदी न करो और गाली के बदले गाली न दो, बल्कि इसके बर'अक्स बर्कत चाहो, क्योंकि तुम बर्कत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 10 चुनौचे "जो कोई ज़िन्दगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और होंटों को मक्क की बात कहने से बाज़ रखे। 11 बदी से किनारा करे और नेकी को 'अमल में लाए, सुलह का तालिब हो, और उसकी कोशिश में रहे। 12 क्योंकि खुदावन्द की नज़र रास्तबाजों की तरफ है, और उसके कान उनकी दु'आ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावन्द की निगाह में हैं।" 13 अगर तुम नेकी करने में सरगम हो, तो तुम से बदी करनेवाला कौन है? 14 और अगर रास्तबाज़ी की खातिर दुःख सहा भी तो तुम मुबारक हो, न उनके डराने से डरो और न चबराओ; 15 बल्कि मसीह को खुदावन्द जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो; और जो कोई तुम से तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्त'ईद रहो, मगर हलीमी और खौफ के साथ। 16 और नियत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है, उन्हीं में वो लोग शर्मिन्दा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल — चलन पर ला'न ता'न करते हैं। 17 क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने की वजह से दुःख उठाओ, तो ये बदी करने की वजह से दुःख उठाने से बेहतर है। 18 इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज़ ने नारास्तों के लिए, गुनाहों के बा'इस एक बार दुःख उठाया ताकि हम को खुदा के पास पहुँचाए; वो जिस्म के ऐतबार से मारा गया, लेकिन रह के ऐतबार से तो ज़िन्दा किया गया। 19 इसी में से उसने जा कर उन कैदी रूहों में मनादी की, 20 जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थीं जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मिल करके ठहरा रहा था और वो नाव तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी आठ जानें पानी के वसीले से बचीं। 21 और उसी पानी का मुशाबह भी यानी बपतिस्मा, ईसा मसीह के जी उठने



के वसीले से अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नियत से ख़ुदा का तालिब होना मुराद है। 22 वो आसमान पर जाकर ख़ुदा की दहनी तरफ़ बैठा है, और फ़रिश्ते और इख़्तियारात और कुदरतों उसके ताबे' की गई हैं।

**4** पस जबकि मसीह ने जिस्म के ऐ'तिबार से दुःख उठाया, तो

तुम भी ऐसे ही मिजाज इख़्तियार करके हथियारबन्द बनो; क्योंकि जिसने जिस्म के ऐ'तबार से दुःख उठाया उसने गुनाह से छुटकारा पाया। 2 ताकि आइन्दा को अपनी बाकी जिस्मानी जिन्दगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक न गुज़ारे बल्कि ख़ुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। 3 इस वास्ते कि ग़ैर — कौमों की मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मयख़्वारी, नाचरंग, नशेबाज़ी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हम ने पहले वक़्त गुज़ारा वही बहुत है। 4 इस पर वो ताअ'ज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख़्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और ला'न ता'न करते हैं, 5 उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिन्दों और मुर्दों का इन्साफ़ करने को तैयार है। 6 क्योंकि मुर्दों को भी ख़ुशख़बरी इसलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज़ से तो आदमियों के मुताबिक़ उनका इन्साफ़ हो, लेकिन रूह के लिहाज़ से ख़ुदा के मुताबिक़ जिन्दा रहें। 7 सब चीज़ों का ख़ातिमा जल्द होने वाला है, पस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। 8 सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मुहब्बत रखवो, क्योंकि मुहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। 9 बौरे बड़बड़ाए आपस में मुसाफ़िर परवरी करो। 10 जिनको जिस जिस कदर ने'मत मिली है, वो उसे ख़ुदा की मुख़्तलिफ़ ने'मतों के अच्छे मुख़्तारों की तरह एक दूसरे की ख़िदमत में सर्फ़ करें। 11 अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया ख़ुदा का कलाम है, अगर कोई ख़िदमत करे तो उस ताक़त के मुताबिक़ करे जो ख़ुदा दे, ताकि सब बातों में ईसा मसीह के वसीले से ख़ुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सलतनत हमेशा से हमेशा उसी की है। आमीन। (aiōn g165) 12 ऐ प्यारो! जो मुसीबत की आग़ तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझ कर उससे ता'ज्जुब न करो कि ये एक अनोखी बात हम पर ज़ाहिर हुई है। 13 बल्कि मसीह के दुखों में जूँ जूँ शरीक हो ख़ुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हर के वक़्त भी निहायत ख़ुश — ओ — खुर्द हो। 14 अगर मसीह के नाम की वजह से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारिक़ हो, क्योंकि जलाल का रूह या'नी ख़ुदा का रूह तुम पर साया करता है। 15 तुम में से कोई शख्स ख़ूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दखल अन्दाज़ होकर दुःख न पाए। 16 लेकिन अगर मसीही होने की वजह से कोई शख्स पाए तो शरमाए नहीं, बल्कि इस नाम की वजह से ख़ुदा की बड़ाई करे। 17 क्योंकि वो वक़्त आ पहुँचा है कि ख़ुदा के घर से 'अदालत शुरू' हो, और जब हम ही से शुरू' होगी तो

उन्का क्या अन्जाम होगा जो ख़ुदा की ख़ुशख़बरी को नहीं मानते? 18 और "जब रास्तबाज़ ही मुश्किल से नजात पाएगा, तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना?" 19 पस जो ख़ुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ दुःख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफ़ादार ख़ालिक़ के सुपर्द करें।

**5** तुम में जो बुजुर्ग़ हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग़ और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। 2 कि ख़ुदा के उस गल्ले की गल्लेबानी करो जो तुम में है; लाचारी से निगहबानी न करो, बल्कि ख़ुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ ख़ुशी से और नाजायज़ नफ़े' के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। 3 और जो लोग तुम्हारे सुपर्द हैं उन पर हुकूमत न जताओ, बल्कि गल्ले के लिए नमूना बनो। 4 और जब सरदार गल्लेबान ज़ाहिर होगा, तो तुम को जलाल का ऐसा सहारा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। 5 ऐ जवानो! तुम भी बुजुर्ग़ों के ताबे' रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की ख़िदमत के लिए फ़रोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि "ख़ुदा मग़फ़्रो का मुकाबिला करता है, मगर फ़रोतनों को तौफ़ीक़ बख़्शता है।" 6 पस ख़ुदा के मजबूत हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सरबलन्द करे। 7 अपनी सारी फ़िक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। 8 तुम होशियार और बेदार रहो; तुम्हारा मुख़्तलिफ़ इब्लीस गरजने वाले शेर — ए — बबर की तरह ढूँडता फिरता है कि किसको फाड़ जाए। 9 तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबिला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुःख उठा रहे हैं 10 अब ख़ुदा जो हर तरह के फ़ज़ल का चश्मा है, जिसने तुम को मसीह ईसा में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुःख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और काईम और मजबूत करेगा। (aiōnios g166) 11 हमेशा से हमेशा तक उसी की सलतनत रहे। आमीन। (aiōn g165) 12 मैंने सिलवानुस के ज़रिए, जो मेरी दानिस्त में दियातदार भाई है, मुख़्तसर तौर पर लिख कर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि ख़ुदा का सच्चा फ़ज़ल यही है, इसी पर काईम रहो। 13 जो बाबुल में तुम्हारी तरह बरगुज़ीदा है, वो और मेरा मरक़ुस तुम्हें सलाम कहते हैं। 14 मुहब्बत से बोसा ले लेकर आपस में सलाम करो। तुम सबको जो मसीह में हो, इत्मीनान हासिल होता रहे।

## 2 पतरस

**1** शमौन पतरस की तरफ से, जो ईसा मसीह का बन्दा और रसूल है, उन लोगों के नाम खत, जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी ईसा मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। **2** खुदा और हमारे खुदावन्द ईसा की पहचान की वजह से फज़ल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। **3** क्योंकि खुदा की इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िन्दगी और दीनदारी के मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से 'इनायत की, जिसने हम को अपने खास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। **4** जिनके ज़रिए उसने हम से कीमती और निहायत बड़े वादे किए; ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर, जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश की वजह से है, ज्ञात — ए — इलाही में शरीक हो जाओ। **5** पस इसी ज़रिए तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अपने ईमान से नेकी, और नेकी से मा'रिफ़त, **6** और मा'रिफ़त से परहेज़गारी, और परहेज़गारी से सब्र और सब्र सेदीनदारी, **7** और दीनदारी से बिरादराना उल्फ़त, और बिरादराना उल्फ़त से मुहब्बत बढ़ाओ। **8** क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएँ, तो तुम को हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के पहचानने में बेकार और बेफ़ल न होने देंगी। **9** और जिसमें ये बातें न हों, वो अन्धा है और कोताह नज़र अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। **10** पस ऐ भाइयों! अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे; **11** बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन्द और मुन्जी ईसा मसीह की हमेशा बादशाही में बड़ी 'इज़्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। (aiōnios g166) **12** इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्त'इद रहूँगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ़ और उस हक़ बात पर काईम हो जो तुम्हें हासिल है। **13** और जब तक मैं इस ख़ेमे में हूँ, तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। **14** क्योंकि हमारे खुदावन्द ईसा मसीह के बताने के मुवाफ़िक़, मुझे मा'लूम है कि मेरे ख़ेमे के गिराए जाने का वक़्त जल्द आनेवाला है। **15** पस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इन्तकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। **16** क्योंकि जब हम ने तुम्हें अपने खुदा वन्द ईसा मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था, तो दागाबाजी की ग़द्दी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी बल्कि खुद उस कि अज़मत को देखा था **17** कि उसने खुदा बाप से उस वक़्त 'इज़्जत और जलाल पाया, जब उस अफ़ज़ल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई, "ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ।" **18** और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे, तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी। **19** और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो

ज्यादा मौ'तबर ठहरा। और तुम अच्छा करते हो, जो ये समझ कर उसी पर गौर करते हो कि वो एक चराग़ है जो अन्धेरी जगह में रौशनी बख़्शता है, जब तक सुबह की रौशनी और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में न चमके। **20** और पहले ये जान लो कि किताब — ए — मुक़द्दस की किसी नबुव्वत की बात की तारीख़ किसी के ज्ञाती इख़्तियार पर मौक़फ़ नहीं, **21** क्योंकि नबुव्वत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह — उल — कुद्स की तहरीक की वजह से खुदा की तरफ़ से बोलते थे।

**2** जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक़ करने वाली नई — नई बातें निकालेंगे, और उस मालिक का इन्कार करेंगे जिसने उन्हें ख़रीद लिया था, और अपने आपको जल्द हलाक़त में डालेंगे। **2** और बहुत सारे उनकी बुरी आदतों की पैरवी करेंगे, जिनकी वजह से राह — ए — हक़ की बदनामी होगी। **3** और वो लालच से बातें बनाकर तुम को अपने नफ़े की वजह ठहराएँगे, और जो ज़माने से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाक़त सोती नहीं। **4** क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फ़रिश्तों को न छोड़ा, बल्कि जहन्नुम भेज कर तारीक़ गारों में डाल दिया ताकि 'अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, (Tartaroo g5020) **5** और न पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेजकर रास्तबाजी के ऐलान करने वाले नूह समेत सात आदमियों को बचा लिया; **6** और सदूम और 'अम्मूरा के शहरों को मिट्टी में मिला दिया और उन्हें हलाक़त की सज़ा दी और आइन्दा ज़माने के बेदीनों के लिए जा — ए — 'इब्रत बना दिया, **7** और रास्तबाज़ लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल — चलन से बहुत दुख़ी था रिहाई बख़्शी। **8** [चुनौचे वो रास्तबाज़ उनमें रह कर और उनके बेशरा'कामों को देख देख कर और सुन सुन कर, गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था।] **9** तो खुदावन्द दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को 'अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, **10** खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुक्मत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख़ और नाफ़रमान हैं, और 'इज़्जतदारों पर ला'न ता'न करने से नहीं डरते, **11** बावजूद ये कि फ़रिश्ते जो ताक़त और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदावन्द के सामने उन पर ला'न ता'न के साथ नालिश नहीं करते। **12** लेकिन ये लोग बे'अक्ल जानवरों की तरह हैं, जो पकड़े जाने और हलाक़ होने के लिए हैवान — ए — मुताल्लिक पैदा हुए हैं, जिन बातों से नावाकिफ़ हैं उनके बारे में औरों पर ला'न ता'न करते हैं, अपनी ख़राबी में खुद ख़राब किए जाएँगे। **13** दूसरों को बुरा करने के बदले इन ही का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मज़ा आता है। ये दागा बाज़

और ऐबदार हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तो अपनी तरफ से अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं; बल्कि मुहब्बत की ज़ियाफ़त करके 'ऐश — ओ — अशरत करते हैं। 14 तुम्हारे बारे में हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी उनकी आँखें जिनमें ज़िनाकार 'औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से स्क नहीं तौबा तक नौबत पहुँचे। 10 लेकिन खुदावन्द का दिन चोर की तरह सकती; वो बे कयाम दिलों को फँसाते हैं। उनका दिल लालच आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर — ओ — गुल के साथ का मुशताक है, वो ला'नत की औलाद हैं। 15 वो सीधी राह छोड़ बरबाद हो जाएँगे, और अजराम — ए — फ़लक हरात की शिदत कर गुमराह हो गए हैं, और बऊर के बेटे बिल'आम की राह से पिघल जाएँगे, और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएँगे। 11 हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मज़दूरी को 'अज़ीज़ जाना; 16 जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल — मगर अपने कुसूर पर ये मलामत उठाई कि एक बेज़बान गधी ने चलन और दीनदारी में कैसे कुछ होना चाहिए, 12 और खुदा की आदमी की तरह बोल कर उस नबी को दीवानगी से बाज़ रखे। 'अदालत के दिन के आने का कैसा कुछ मुन्तज़िर और मुशताक 17 वो अन्धे कुँए हैं, और ऐसे बादल हैं जिसे आँधी उड़ाती है; उनके रहना चाहिए, जिसके ज़रिए आसमान आग से पिघल जाएँगे, और लिए बेहद तारीकी घिरी है। 18 वो घमण्ड की बेहदा बातें बक बक अजराम — ए — फ़लक हरात की शिदत से गल जाएँगे। 13 कर बुरी आदतों के ज़रिए से, उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों लेकिन उसके वादे के मुवाफ़िक हम नए आसमान और नई ज़मीन में फँसाते हैं जो गुमराही में से निकल ही रहे हैं। 19 जो उनसे तो का इन्तज़ार करते हैं, जिनमें रास्तबाज़ी बसी रहेगी। 14 पस ए आज़ादी का वा'दा करते हैं और आप ख़राबी के गुलाम बने हुए 'अज़ीज़ो! चूँकि तुम इन बातों के मुन्तज़िर हो, इसलिए उसके सामने हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। 20 इत्मीनान की हालत में बेदाग और बे — ऐब निकलने की कोशिश जब वो खुदावन्द और मुन्जी ईसा मसीह की पहचान के वसीले से करो, 15 और हमारे खुदावन्द के तहम्मिल को नजात समझो, चुनौचे दुनिया की आलदगी से छूट कर, फिर उनमें फँसे और उनसे मगलूब हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिक्मत के मुवाफ़िक जो उसे हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। 21 क्योंकि 'इनायत हुई, तुम्हें यही लिखा है 16 और अपने सब खतों में इन रास्तबाज़ी की राह का न जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि बातों का ज़िक्र किया है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना उसे जान कर उस पाक हुक्म से फिर जाते, जो उन्हें सौंपा गया था। मुश्किल है, और जाहिल और बे — कयाम लोग उनके मा'नों को 22 उन पर ये सच्ची मिसाल सादिक आती है, कुत्ता अपनी कै की और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते तरफ रू' करता है, और नहलाई हुई सूअरनी दलदल में लोटने की हैं। 17 पस ए 'अज़ीज़ो! चूँकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बे — दीनों की गुमराही की तरफ खिंच कर अपनी मज़बूती को छोड़ न दो। 18 बल्कि हमारे खुदावन्द और मुन्जी ईसा मसीह के फ़ज़ल और 'इफ़ान में बढ़ते जाओ। उसी की बड़ाई अब भी हो, और हमेशा तक होती रहे। आमीन। (aiōn g165)

**3** ए 'अज़ीज़ो! अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ, और याद दिलाने के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ, 2 कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पहले कही, और खुदावन्द और मुन्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की ज़रिए आया था। 3 और पहले जान लो कि आखिरी दिनों में ऐसी हँसी ठग़ा करनेवाले आएँगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफ़िक चलेंगे, 4 और कहेंगे, “उसके आने का वा'दा कहाँ गया? क्योंकि जब से बाप — दादा सोए हैं, उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा दुनिया के शुस्' से था।” 5 वो तो जानबूझ कर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए से आसमान पहले से मौजूद है, और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में काईम है; 6 इन ही के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूब कर हलाक हुई। 7 मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएँ; और वो बेदीन आदमियों की 'अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज़ रहेंगे 8 ए 'अज़ीज़ो! ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावन्द के नज़दीक एक दिन हज़ार बरस के बराबर है, और हज़ार बरस एक दिन के बराबर। 9 खुदावन्द

# 1 यूहन्ना

**1** उस जिन्दगी के कलाम के बारे में जो शुरू से था, और जिस हम ने सुना और अपनी आँखों से देखा बल्कि, गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। 2 [ये जिन्दगी जाहिर हुई और हम ने देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इस हमेशा की जिन्दगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई है]। (aiōnios g166) 3 जो कुछ हम ने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारा मेल मिलाप बाप के साथ और उसके बेटे ईसा मसीह के साथ है। 4 और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खूबी पूरी हो जाए। 5 उससे सुन कर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं, वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। 6 अगर हम कहें कि हमारा उसके साथ मेल मिलाप है और फिर तारीकी में चलें, तो हम झूठे हैं और हक पर 'अमल नहीं करते। 7 लेकिन जब हम नूर में चलें जिस तरह कि वो नूर में है, तो हमारा आपस में मेल मिलाप है, और उसके बेटे ईसा का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। 8 अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आपको धोखा देते हैं, और हम में सच्चाई नहीं। 9 अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों को मु'आफ करने और हमें सारी नारास्ती से पाक करने में सच्चा और 'आदिल है। 10 अगर कहें कि हम ने गुनाह नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है।

**2** ऐ मेरे बच्चों! ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ तुम गुनाह न करो; और अगर कोई गुनाह करे, तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, या'नी ईसा मसीह रास्तबाज; 2 और वही हमारे गुनाहों का कफ़रारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। 3 अगर हम उसके हुक्मों पर 'अमल करेंगे, तो इससे हमें मौ'लूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। 4 जो कोई ये कहता है, मैं उसे जान गया हूँ "और उसके हुक्मों पर" अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। 5 हाँ, जो कोई उसके कलाम पर 'अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मुहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मा'लूम होता है कि हम उसमें हैं: 6 जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें काईम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। 7 ऐ 'अजीजो! मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है; ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुम ने सुना है। 8 फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, ये बात उस पर और तुम पर सच्ची आती है; क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। 9 जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से 'दुश्मनी रखता है, वो अभी तक अंधेरे ही में है। 10

जो कोई अपने भाई से मुहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाता। 11 लेकिन जो अपने भाई से 'दुश्मनी रखता है वो अंधेरे में है और अंधेरे ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि अंधेरे ने उसकी आँखें अन्धी कर दी हैं। 12 ऐ बच्चों! मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मु'आफ हुए। 13 ऐ बच्चों! मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानो! मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शैतान पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों! मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो 14 ऐ बच्चों! मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो शुरू से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानो! मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मज़बूत हो, उसे खुदा का कलाम तुम में काईम रहता है, और तुम उस शैतान पर गालिब आ गए हो। 15 न दुनिया से मुहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनियाँ में हैं। जो कोई दुनिया से मुहब्बत रखता है, उसमें बाप की मुहब्बत नहीं। 16 क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, या'नी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और जिन्दगी की शोखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। 17 दुनियाँ और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक काईम रहेगा। (aiōn g165) 18 ऐ लड़कों! ये आखिरी वक़्त है; जैसा तुम ने सुना है कि मुखालिफ़ — ए — मसीह आनेवाला है, उसके मुवाफ़िक़ अब भी बहुत से मुखालिफ़ — ए — मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं ये आखिरी वक़्त है 19 वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं। इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इस लिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। 20 और तुम को तो उस कूदूस की तरफ से मसह किया गया है, और तुम सब कुछ जानते हो। 21 मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। 22 कौन झूठा है? सिवा उसके जो ईसा के मसीह होने का इन्कार करता है। मुखालिफ़ — ए — मसीह वही है जो बाप और बेटे का इन्कार करता है। 23 जो कोई बेटे का इन्कार करता है उसके पास बाप भी नहीं: जो बेटे का इन्कार करता है उसके पास बाप भी है। 24 जो तुम ने शुरू से सुना है अगर वो तुम में काईम रहे, तो तुम भी बेटे और बाप में काईम रहोगे। 25 और जिसका उसने हम से वा'दा किया, वो हमेशा की जिन्दगी है। (aiōnios g166) 26 मैंने ये बातें तुम्हें उनके बारे में लिखी हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं; 27 और तुम्हारा वो मसह जो उसकी तरफ से किया गया, तुम में काईम रहता है; और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसह जो उसकी तरफ से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है और

सच्चा है और झूठा नहीं; और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें काईम रहते हो। 28 गरज ऐ बच्चो! उसमें काईम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिन्दा न हों। 29 अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज़ है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाज़ी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है।

**3** देखो, बाप ने हम से कैसी मुहब्बत की है कि हम खुदा के फ़र्ज़न्द कहलाए, और हम हैं भी! दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। 2 'अज़ीज़ो! हम इस वक़्त खुदा के फ़र्ज़न्द हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे! इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी तरह होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। 3 और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आपको वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। 4 जो कोई गुनाह करता है, वो शरी'अत की मुखालिफ़त करता है; और गुनाह शरी'अत' की मुखालिफ़त ही है। 5 और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। 6 जो कोई उसमें काईम रहता है वो गुनाह नहीं करता; जो कोई गुनाह करता है, न उसने उसे देखा है और न जाना है। 7 ऐ बच्चो! किसी के धोखे में न आना। जो रास्तबाज़ी के काम करता है, वही उसकी तरह रास्तबाज़ है। 8 जो शख्स गुनाह करता है वो शैतान से है, क्योंकि शैतान शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि शैतान के कामों को मिटाए। 9 जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है; बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। 10 इसी से खुदा के फ़र्ज़न्द और शैतान के फ़र्ज़न्द जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाज़ी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मुहब्बत नहीं रखता। 11 क्योंकि जो पैग़ाम तुम ने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मुहब्बत रखें। 12 और क्राइन की तरह न बनें जो उस शरीर से था, और जिसने अपने भाई को क़त्ल किया; और उसने किस वास्ते उसे क़त्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम रास्ती के थे। 13 ऐ भाइयों! अगर दुनिया तुम से 'दुश्मनी रखती है तो ताअ'ज्जुब न करो। 14 हम तो जानते हैं कि मौत से निकलकर ज़िन्दगी में दाख़िल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मुहब्बत रखते हैं। जो मुहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। 15 जो कोई अपने भाई से 'दुश्मनी रखता है, वो ख़ूनी है और तुम जानते हो कि किसी ख़ूनी में हमेशा की ज़िन्दगी मौजूद नहीं रहती। (aiōnios g166) 16 हम ने मुहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। 17 जिस किसी

के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में देर करे, तो उसमें खुदा की मुहब्बत क्यूँकर काईम रह सकती है? 18 ऐ बच्चो! हम कलाम और ज़बान ही से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मुहब्बत करें। 19 इससे हम जानेंगे कि हक़ के हैं, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा, उसके बारे में हम उसके हज़ूर अपनी दिलजम'ई करेंगे; 20 क्यूँकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। 21 ऐ 'अज़ीज़ो! जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है; 22 और जो कुछ हम माँगते हैं वो हमें उसकी तरफ़ से मिलता है, क्यूँकि हम उसके हुक़मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसन्द करता है उसे बजा लाते हैं। 23 और उसका हुक़म ये है कि हम उसके बेटे ईसा मसीह के नाम पर ईमान लाएँ, जैसा उसने हमें हुक़म दिया उसके मुवाफ़िक़ आपस में मुहब्बत रखें। 24 और जो उसके हुक़मों पर 'अमल करता है, वो इस में और ये उसमें काईम रहता है; और इसी से या'नी उस पाक रू से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में काईम रहता है।

**4** ऐ 'अज़ीज़ो! हर एक रू का यक़ीन न करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ़ से हैं या नहीं; क्यूँकि बहुत से झूठे नबी दुनियाँ में निकल खड़े हुए हैं। 2 खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि ईसा मसीह मुजस्सिम होकर आया है, वो खुदा की तरफ़ से है; 3 और जो कोई रूह ईसा का इकरार न करे, वो खुदा की तरफ़ से नहीं और यही मुखालिफ़ — ऐ — मसीह की रूह है; जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आनेवाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। 4 ऐ बच्चों! तुम खुदा से हो और उन पर ग़ालिब आ गए हो, क्यूँकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। 5 वो दुनिया से है इस वास्ते दुनियाँ की सी कहते हैं, और दुनियाँ उनकी सुनती है। 6 हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है, वो हमारी सुनता है; जो खुदा से नहीं, वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक़ की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। 7 ऐ अज़ीज़ो! हम इस वक़्त खुदा के फ़र्ज़न्द हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे! इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी तरह होंगे, क्यूँकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। 8 जो मुहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्यूँकि खुदा मुहब्बत है। 9 जो मुहब्बत खुदा को हम से है, वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इक़लैते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके वसीले से ज़िन्दा रहें। 10 मुहब्बत इस में नहीं कि हम ने खुदा से मुहब्बत की, बल्कि इस में है कि उसने हम से मुहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। 11 ऐ 'अज़ीज़ो! जब खुदा ने हम से ऐसी मुहब्बत की, तो हम पर भी एक दूसरे से मुहब्बत रखना फ़र्ज़

है। 12 ख़ुदा को कभी किसी ने नहीं देखा; अगर हम एक दूसरे से बेटे के हक में दी है, ईमान नहीं लाया 11 और वो गवाही ये है, कि मुहब्बत रखते हैं, तो ख़ुदा हम में रहता है और उसकी मुहब्बत हमारे ख़ुदा ने हमेशा की ज़िन्दगी बख़्शी, और ये ज़िन्दगी उसके बेटे में दिल में कामिल हो गई है। 13 चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। (aiōnios g166) 12 जिसके पास बेटा है, उसके पास ज़िन्दगी है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें काईम रहते हैं और वो हम में। 14 और हम ने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को नहीं। 13 मैंने तुम को जो ख़ुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये दुनिया का मुन्जी करके भेजा है। 15 जो कोई इकरार करता है कि बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मा'लूम हो कि हमेशा की ज़िन्दगी ईसा ख़ुदा का बेटा है, ख़ुदा उसमें रहता है और वो ख़ुदा में। 16 जो रखते हो।। (aiōnios g166) 14 और हमे जो उसके सामने दिलेरी है, मुहब्बत ख़ुदा को हम से है उसको हम जान गए और हमें उसका उसकी वजह ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ कुछ माँगते यकीन है। ख़ुदा मुहब्बत है, और जो मुहब्बत में काईम रहता है वो हैं, तो वो हमारी सुनता है। 15 और जब हम जानते हैं कि जो कुछ ख़ुदा में काईम रहता है, और ख़ुदा उसमें काईम रहता है। 17 इसी हम माँगते हैं, वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हम वजह से मुहब्बत हम में कामिल हो गई, ताकि हमें 'अदालत के दिन ने उससे माँगा है वो पाया है। 16 अगर कोई अपने भाई को ऐसा दिलेरी हो; क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी है। 18 गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत न हो तो दुआ करे ख़ुदा उसके मुहब्बत में ख़ौफ़ नहीं होता, बल्कि कामिल मुहब्बत ख़ौफ़ को वसीले से ज़िन्दगी बख़्शेगा। उन्ही को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं दूर कर देती है; क्योंकि ख़ौफ़ से 'अज़ाब होता है और कोई ख़ौफ़ किया जिसका नतीजा मौत हो, गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा करनेवाला मुहब्बत में कामिल नहीं हुआ। 19 हम इस लिए मुहब्बत मौत है; इसके बारे में दुआ करने को मैं नहीं कहता। 17 है तो हर रखते हैं कि पहले उसने हम से मुहब्बत रखी। 20 अगर कोई कहे, तरह की नारास्ती गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत "मैं ख़ुदा से मुहब्बत रखता हूँ" और वो अपने भाई से 'दुश्मनी रखे नहीं करता; बल्कि उसकी हिफ़ाज़त वो करता है जो ख़ुदा से पैदा तो झूठा है: क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मुहब्बत हुआ और शैतान उसे छूने नहीं पाता। 19 हम जानते हैं कि हम ख़ुदा नहीं रखता, वो ख़ुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मुहब्बत नहीं रख सकता। 21 और हम को उसकी तरफ से ये हुक़म मिला है कि जो से हैं, और सारी दुनिया उस शैतान के कब्ज़े में पड़ी हुई है। 20 ख़ुदा से मुहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मुहब्बत रखे। और ये भी जानते हैं कि ख़ुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमे समझ बख़्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जानें और हम उसमें जो हकीकी है, या'नी उसके बेटे ईसा मसीह में हैं। हकीकी ख़ुदा और हमेशा की ज़िन्दगी यही है। (aiōnios g166) 21 ऐ बच्चों! अपने आपको बुतों से बचाए रखवो।

**5** जिसका ये ईमान है कि ईसा ही मसीह है, वो ख़ुदा से पैदा हुआ है; और जो कोई बाप से मुहब्बत रखता है, वो उसकी औलाद से भी मुहब्बत रखता है। 2 जब हम ख़ुदा से मुहब्बत रखते और उसके हुक़मों पर 'अमल करते हैं, तो इससे मा'लूम हो जाता है कि ख़ुदा के फ़र्ज़न्दों से भी मुहब्बत रखते हैं। 3 और ख़ुदा की मुहब्बत ये है कि हम उसके हुक़मों पर 'अमल करें, और उसके हुक़म सख़्त नहीं। 4 जो कोई ख़ुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गल्बा जिससे दुनिया मगलूब हुई है, हमारा ईमान है। 5 दुनिया को हराने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि ईसा ख़ुदा का बेटा है। 6 यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया था, या'नी ईसा मसीह: वो न फ़क़त पानी के वसीले से, बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। 7 और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। 8 और गवाही देनेवाले तीन है: रूह पानी और खून; ये तीन एक बात पर मुताफ़िक़ हैं। 9 जब हम आदमियों की गवाही कुबूल कर लेते हैं, तो ख़ुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है; और ख़ुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। 10 जो ख़ुदा के बेटे पर ईमान रखता है, वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने ख़ुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो ख़ुदा ने अपने

## 2 यूहन्ना

**1** मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगुज़ीदा बीवी और उसके फर्ज़न्दों के नाम रखत, जिनसे मैं उस सच्चाई की वजह से सच्ची मुहब्बत रखता हूँ, जो हम में काईम रहती है, और हमेशा तक हमारे साथ रहेगी, **2** और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सब भी मुहब्बत रखते हैं, जो हक से वाकिफ हैं। (aiōn g165) **3** खुदा बाप और बाप के बेटे 'ईसा मसीह की तरफ से फ़ज़ल और रहम और इल्मीनान, सच्चाई और मुहब्बत समेत हमारे शामिल — ए — हाल रहेंगे। **4** मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे कुछ लडकों को उस हुक्म के मुताबिक, जो हमें बाप की तरफ से मिला था, हकीकत में चलते हुए पाया। **5** अब ऐ बीवी! मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं, बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझ से मिन्नत करके कहता हूँ कि आओ, हम एक दूसरे से मुहब्बत रखें। **6** और मुहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुम ने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए। **7** क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं, जो 'ईसा मसीह के मुजस्सिम होकर आने का इक्करार नहीं करते। गुमराह करनेवाला मुखालिफ — ए — मसीह यही है। **8** अपने आप में खबरदार रहो, ताकि जो मेहनत हम ने की है वो तुम्हारी वजह से जाया न हो जाए, बल्कि तुम को पूरा अज़्र मिले। **9** जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की ता'लीम पर काईम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस ता'लीम पर काईम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। **10** अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये ता'लीम न दे, तो न उसे घर में आने दो और न सलाम करो। **11** क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है, वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। **12** मुझे बहुत सी बातें तुम को लिखना है, मगर कागज़ और स्याही से लिखना नहीं चाहता; बल्कि तुम्हारे पास आने और रू — ब — रू बातचीत करने की उम्मीद रखता हूँ, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। **13** तेरी बरगुज़ीदा बहन के लडके तुझे सलाम कहते हैं।

### 3 यूहन्ना

**1** मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गियुस के नाम खत, जिससे मैं सच्ची मुहब्बत रखता हूँ। **2** ऐ प्यारे! मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तन्दस्तर रहे। **3** क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी, जिस पर तू हकीकत में चलता है, तो मैं निहायत खुश हुआ। **4** मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने बेटों को हक पर चलते हुए सुँ। **5** ऐ प्यारे! जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो ईमानदारी से करता है। **6** उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मुहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा, जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा। **7** क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं, और गैर — कौमों से कुछ नहीं लेते। **8** पस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है, ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हों। **9** मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें कुबूल नहीं करता। **10** पस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है, याद दिलाऊँगा, कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है; और इन पर सब्र न करके खुद भी भाइयों को कुबूल नहीं करता, और जो कुबूल करना चाहते हैं उनको भी मनह' करता है और कलीसिया से निकाल देता है। **11** ऐ प्यारे! बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करनेवाला खुदा से है; बदी करनेवाले ने खुदा को नहीं देखा। **12** देमेत्रियुस के बारे में सब ने और खुद हक ने भी गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। **13** मुझे लिखना तो तुझे को बहुत कुछ था, मगर स्याही और कलम से तुझे लिखना नहीं चाहता। **14** बल्कि तुझे से जल्द मिलने की उम्मीद रखता हूँ, उस वक्त हम रू — ब — रू बातचीत करेंगे। तुझे इत्मीनान हासिल होता रहे। यहाँ के दोस्त तुझे सलाम कहते हैं। तू वहाँ के दोस्तों से नाम — ब — नाम सलाम कह।



# यहदाह

**1** यहदाह की तरफ से जो मसीह 'ईसा का बन्दा और या'कूब का भाई, और उन बुलाए हुआओं के नाम जो खुदा बाप में प्यारे और 'ईसा मसीह के लिए महफूज हैं। 2 रहम, इत्मीनान और मुहब्बत तुम को ज्यादा हासिल होती रहे। 3 ऐ प्यारों! जिस वक्त मैं तुम को उस नजात के बारे में लिखने में पूरी कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शामिल हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते मेहनत करो जो मुक़द्दसों को एक बार सौंपा गया था। 4 क्यूँकि कुछ ऐसे शख्स चूपके से हम में आ मिले हैं, जिनकी इस सज़ा का जिक्र पाक कलाम में पहले से लिखा गया था: ये बेदीन हैं, और हमारे खुदा के फज़ल को बुरी आदतों से बदल डालते हैं, और हमारे वाहिद मालिक और खुदावन्द ईसा मसीह का इन्कार करते हैं। 5 पस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तोभी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन्द ने एक उम्मत को मुल्क — ए — मिस्र में से छुड़ाने के बा'द, उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए। 6 और जिन फ़रिशतों ने अपनी हुकूमत को काईम न रखवा बल्कि अपनी खास जगह को छोड़ दिया, उनको उसने हमेशा की कैद में अंधेरे के अन्दर रोज़ — ए — 'अज़ीम की 'अदालत तक रखवा है (aidios g126) 7 इसी तरह सदूम और 'अमुरा और उसके आसपास के शहर, जो इनकी तरह जिनाकारी में पड़ गए और ग़ैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ़्तार होकर जा — ए — 'इब्रत ठहरे हैं। (aiōnios g166) 8 तोभी ये लोग अपने वहमों में मशगूल होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते, और हुकूमत को नाचीज़ जानते, और 'इज़्जतदारों पर ला'न ता'न करते हैं। 9 लेकिन मुक़र्रब फ़रिशते मीकाईल ने मूसा की लाश के बारे में इब्लीस से बहस — ओ — तकरार करते वक्त, ला'न ता'न के साथ उस पर नालिश करने की हिम्मत न की, बल्कि ये कहा, “'खुदावन्द तुझे मलामत करे।” 10 मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर ला'न ता'न करते हैं, और जिनको बे अक्ल जानवरों की तरह मिज़ाजी तौर पर जानते हैं, उनमें अपने आप को ख़राब करते हैं। 11 इन पर आफ़सोस! कि ये क्राईन की राह पर चले, और मज़दूरी के लिए बडी लालच से बिल'आम की सी गुमराही इख्तियार की, और कोरह की तरह मुख़ालिफ़त कर के हलाक हुए। 12 ये तुम्हारी मुहब्बत की दावतों में तुम्हारे साथ खाते — पीते वक्त, गोया दरिया की छिपी चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरनेवाले चरवाहे हैं। ये बे — पानी के बादल हैं, जिन्हें हवाएँ उडा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बे — फल दरख़्त हैं, जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए 13 ये समुन्दर की पुर जोश मौजें, जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं, जिनके लिए हमेशा तक

बेहद तारीकी धरी है। (aiōn g165) 14 इनके बारे में हनुक ने भी, जो आदम से सातवीं पुत्र में था, ये पेशनिगोई की थी, “देखो, खुदावन्द अपने लाखों मुक़द्दसों के साथ आया, 15 ताकि सब आदमियों का इन्साफ़ करे, और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के ज़रिए से, जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, और उन सब सरख़्त बातों की वजह से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुख़ालिफ़त में कही हैं कुसूरवार ठहराए।” 16 ये बड़बड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं, और अपनी ख़्वाहिशों के मुवाफ़िक़ चलते हैं, और अपने मुँह से बड़े बोल बोलते हैं, और फ़ाइद' के लिए लोगों की तारीफ़ करते हैं। 17 लेकिन ऐ प्यारों! उन बातों को याद रखवो जो हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। 18 वो तुम से कहा करते थे कि, “आखिरी ज़माने में ऐसे ठग़ा करने वाले होंगे, जो अपनी बेदीनी की ख़्वाहिशों के मुवाफ़िक़ चलेगें।” 19 ये वो आदमी हैं जो फूट डालते हैं, और नफ़सानी हैं और रूह से बे — बहरा। 20 मगर तुम ऐ प्यारों! अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह — उल — कुदूस में दुआ करके, 21 अपने आपको 'खुदा' की मुहब्बत में काईम रखवो; और हमेशा की ज़िन्दगी के लिए हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह की रहमत के इन्तिज़ार में रहो। (aiōnios g166) 22 और कुछ लोगों पर जो शक में हैं रहम करो; 23 और कुछ को झपट कर आग में से निकालो, और कुछ पर ख़ौफ़ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफ़रत करो जो जिस्म की वजह से दागी हो गई हो। 24 अब जो तुम को ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपने पुर जलाल हुज़ूर में कमाल ख़ुशी के साथ बे'ऐब करके खड़ा कर सकता है, 25 उस खुदा — ए — वाहिद का जो हमारा मुन्जी है, जलाल और 'अज़मत और सल्तनत और इख्तियार, हमारे खुदावन्द 'ईसा मसीह के वसीले से, जैसा पहले से है, अब भी हो और हमेशा रहे। आमीन। (aiōn g165)

# मुकाशफ़ा

**1** ईसा मसीह का मुकाशफ़ा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बन्दों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूरी है; और उसने अपने फ़रिश्ते को भेज कर उसकी मारिफ़त उन्हें अपने अपने बन्दे युहन्ना पर ज़ाहिर किया। 2 युहन्ना ने खुदा का कलाम और ईसा मसीह की गवाही की यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थीं गवाही दी। 3 इस नबुव्वत की किताब का पढ़ने वाले और उसके सुनने वाले और जो कुछ इस में लिखा है, उस पर अमल करने वाले मुबारिक हैं; क्योंकि वक्त नज़दीक है। 4 युहन्ना की जानिब से उन सात कलीसियाओं के नाम जो आसिया सूबा में हैं। उसकी तरफ से जो हैं, और जो था, और जो आनेवाला है, और उन सात स्त्रों की तरफ से जो उसके तख़्त के सामने हैं। 5 और ईसा मसीह की तरफ से जो सच्चे गवाह और मुर्दों में से जी उठनेवालों में पहलौठा और दुनियाँ के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हम से मुहब्बत रखता है, और जिसने अपने खून के वसीले से हम को गुनाहों से मु'आफ़ी बाख़्शी, 6 और हम को एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और बादशाही हमेशा से हमेशा तक रहे। आमीन। (aiōn g165) 7 देखो, वो बादलों के साथ आनेवाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, और उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसकी वजह से सीना पीटेंगे। बेशक। आमीन। 8 खुदावन्द खुदा जो है और जो था और जो आनेवाला है, यानी कादिर — ए — मुल्क फ़रमाता है, 'मैं अल्फा और ओमेगा हूँ।' 9 मैं युहन्ना, जो तुम्हारा भाई और ईसा की मुसीबत और बादशाही और सज़ में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और ईसा के बारे में गवाही देने के ज़रिए उस टापू में था, जो पत्मुस कहलाता है, कि 10 खुदावन्द के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी, 11 "जो कुछ तू देखता है उसे एक किताब में लिख कर उन सातों शहरों की सातों कलीसियाओं के पास भेज दे यानी इफ़िसस, और सुमरना, और परिगमुन, और थुवातीरा, और सरदीस, और फ़िलदिल्फ़िया, और लौदीकिया में।" 12 मैंने उस आवाज़ देनेवाले को देखने के लिए मुँह फेरा, जिसने मुझ से कहा था; और फिर कर सोने के सात चिरागदान देखे, 13 और उन चिरागदानों के बीच में आदमज़ाद सा एक आदमी देखा, जो पाँव तक का जामा पहने हुए था। 14 उसका सिर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, और उसकी आँखें आग के शोले की तरह थीं। 15 और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। 16 और उसके दहने हाथ में सात सितारे थे,

और उसके मुँह में से एक दोधारी तेज़ तलवार निलकती थी; और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफ़ताब। 17 जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दहना हाथ रखवा, "ख़ौफ़ न कर; मैं अब्वल और आख़िर, 18 और जिन्दा हूँ। मैं मर गया था, और देख हमेशा से हमेशा तक रहूँगा; और मौत और 'आलम — ए — अर्वाह की कुन्जियाँ मेरे पास हैं। (aiōn g165, Hadēs g86) 19 पस जो बातों तू ने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। 20 यानी उन सात सितारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे दहने हाथ में देखा था, और उन सोने के सात चिरागदानों का: वो सात सितारे तो सात कलीसियाओं के फ़रिश्ते हैं, और वो सात चिरागदान कलीसियाएँ हैं।"

**2** "इफ़िसस की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख: जो अपने दहने हाथ में सितारे लिए हुए है, और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फ़रमाया है कि। 2 मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सज़ तो जानता हूँ; और ये भी कि तू बंदियों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तू ने उनको आज़मा कर झूठा पाया। 3 और तू सज़ करता है, और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। 4 मगर मुझ को तुझ से ये शिकायत है कि तू ने अपनी पहली सी मुहब्बत छोड़ दी। 5 पस खयाल कर कि तू कहाँ से गिरा। और तौबा न करेगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूँगा। 6 अलबन्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियोंके कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। 7 जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फ़रमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिन्दगी के दरख़्त में से जो खुदा की जन्नत में है, फल खाने को दूँगा।" 8 "और सुमरना की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख: जो अब्वल — ओ — आख़िर है, और जो मर गया था और जिन्दा हुआ, वो ये फ़रमाता है कि, 9 मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ (मगर तू दौलतमन्द है), और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, और हैं नहीं बल्कि शैतान के गिरोह हैं, उनके ला'न ता'न को भी जानता हूँ। 10 जो दु:ख तुझे सहने होंगे उनसे ख़ौफ़ न कर, देखो शैतान तुम में से कुछ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आज़माइश पूरी हो और दस दिन तक मुसीबत उठाओगे जान देने तक वफ़ादार रहो तो मैं तुझे जिन्दगी का ताज़ दूँगा। 11 जिसके कान हों वो सुने कि पाक रूह कलीसियाओं से क्या फ़रमाता है। जो गालिब आए, उसको दूसरी मौत से नुक़सान न पहुँचेगा।" 12 "और परिगमुन की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख: जिसके पास दोधारी तेज़ तलवार है, वो फ़रमाता है कि 13 मैं ये तो जानता हूँ कि शैतान की तख़्त गाह में सुकूनत रखता है, और मेरे नाम पर काईम

रहता है; और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इन्तपास तुम में उस रहता, और उन चीजों को जो बाक़ी है और जो मिटने को थी जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तू ने मुझ मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। 14 लेकिन मुझे चन्द बातों पूरा नहीं पाया। 3 पस याद कर कि तू ने किस तरह ता'लीम पाई की तुझ से शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ कुछ लोग बिल'आम और सुनी थी, और उस पर क्राईम रह और तौबा कर। और अगर तू की ता'लीम माननेवाले हैं, जिसने बलक को बनी — इस्राइल के जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊँगा, और तुझे हरगिज़ सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की ता'लीम दी, या'नी ये मा'लूम न होगा कि किस वक़्त तुझ पर आ पड़ेगा। 4 अलबता, कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएँ और हरामकारी करें। 15 चुनौचे तेरे सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्हें ने अपनी पोशाक यहाँ भी कुछ लोग इसी तरह नीकुलियों की ता'लीम के माननेवाले आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, हैं। 16 पस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुँह क्योंकि वो इस लायक हैं। 5 जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 17 जिसके कान हों वो सुने कि पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब — ए — हयात पाक रूह कलीसियाओं से क्या फ़रमाता है। जो गालिब आएगा, मैं से हरगिज़ न काटूँगा, बल्कि अपने बाप और उसके फ़रिश्तों के उसे आसमानी खाने में से दूँगा, और एक सफेद पत्थर दूँगा। उस सामने उसके नाम का इकरार करूँगा। 6 जिसके कान हों वो सुने कि पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे पानेवाले के सिवा रूह कलीसियाओं से क्या फ़रमाता है।” 7 “और फ़िलदिल्फिया कोई न जानेगा।” 18 “और थुवातीरा की कलीसिया के फ़रिश्ते को की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख: जो कूदूस और बरहक ये लिख: खुदा का बेटा जिसकी आँखें आग के शोले की तरह और है, और दाऊद की कुन्जी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई पाँव खालिस पीतल की तरह हैं, ये फ़रमाता है कि 19 मैं तेरे कामों बन्द नहीं करता और बन्द किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये और मुहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, फ़रमाता है कि 8 मैं तेरे कामों को जानता हूँ (देख, मैंने तेरे सामने और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। 20 पर एक दरवाज़ा खोल रखवा है, कोई उसे बन्द नहीं कर सकता) कि मुझे तुझ से ये शिकायत है कि तू ने उस औरत ईज़बिल को रहने तुझ में थोड़ा सा जोर है और तू ने मेरे कलाम पर अमल किया और दिया है जो अपने आपको नबिया कहती है, और मेरे बन्दों को मेरे नाम का इन्कार नहीं किया। 9 देख, मैं शैतान की उन जमा'त हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की ता'लीम देकर वालों को तेरे काबू में कर दूँगा, जो अपने आपको यहदी कहते हैं गुमराह करती है 21 मैंने उसको तौबा करने की मुहलत दी, मगर वो और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं — देख, मैं ऐसा करूँगा कि वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। 22 देख, मैं उसको आकर तेरे पाँव में सिज्दा करेंगे, और जानेगे कि मुझे तुझ से मुहब्बत बिस्तर पर डालता हूँ; और जो जिना करते हैं अगर उसके से कामों है। 10 चूँकि तू ने मेरे सब्र के कलाम पर 'अमल किया है, इसलिए से तौबा न करें, तो उनको बड़ी मुसीबत में फँसाता हूँ; 23 और उसके मैं भी आजमाइश के उस वक़्त तेरी हिफाज़त करूँगा जो ज़मीन के मानने वालों को जान से मारूँगा, और सब कलीसियाओं को मा'लूम रहनेवालों के आजमाने के लिए तमाम दुनियाँ पर आनेवाला है। 11 होगा कि गुर्दों और दिलों का जॉचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में मैं जल्द आनेवाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। 12 जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मक्ब्रिस में एक सुतून बनाऊँगा। वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर, या'नी उस नए येरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। 13 जिसके कान और जो मेरे कामों के जैसा आखिर तक 'अमल करे, मैं उसे क्रौमों हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फ़रमाता है।” 14 “और पर इख्तियार दूँगा; 27 और वो लोहे के 'असा से उन पर हुकूमत लौदीकिया की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख: जो आमीन और करेगा, जिस तरह कि कुम्हार के बरतन चकना चूर हो जाते हैं: सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की कायनात की शरूआत है, वो चुनौचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, 28 और मैं ये फ़रमाता है कि 15 मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू सर्द है न उसे सबह का सितारा दूँगा। 29 जिसके कान हों वो सुने कि रूह गर्म। काश कि तू सर्द या गर्म होता! 16 पस चूँकि तू न तो गर्म है न सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुँह से निकाल फेंकने कलीसियाओं से क्या फ़रमाता है।” 17 और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमन्द हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं; और ये नहीं जानता

**3** “और सरदीस की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की सात रूहें और सात सितारे हैं” 2 “जागता

कि तू कमबख्त और आवारा और गरीब और अन्धा और गंगा है। 18 इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझ से आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू उसे पहन कर नंगे पन के जाहिर होने की शर्मिन्दगी न उठाए; और आँखों में लगाने के लिए सुर्मा ले, ताकि तू बीना हो जाए। 19 मैं जिन जिन को 'अज़ीज़ रखता हूँ, उन सब को मलामत और हिदायत करता हूँ; पस सरगर्म हो और तौबा कर। 20 देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ; अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजा खोलेंगा, तो मैं उसके पास अन्दर जाकर उसके साथ खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ। 21 जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊँगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। 22 जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।”

**4** इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले नरसिंगो की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है, “यहाँ ऊपर आ जा; मैं तुझे वो बातें दिखाऊँगा, जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है।” 2 फ़ौरन मैं रूह में आ गया; और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है। 3 और जो उस पर बैठा है वो संग — ए — यशब और 'अक्रीक सा मा'लूम होती है, और उस तख्त के गिर्द ज़मर्द की सी एक धनुक मा'लूम होता है। 4 उस तख्त के पास चौबीस बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के ताज हैं। 5 उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के सात चिराग जल रहे हैं; ये ख़ुदा की साथ रहें हैं, 6 और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुन्दर बिल्लौर की तरह है। और तख्त के बीच में और तख्त के पास चार जानवर हैं, जिनके आगे — पीछे आँखें ही आँखें हैं। 7 पहला जानवर बबर की तरह है, और दूसरा जानदार बछड़े की तरह, और तीसरे जानदार का इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए 'उकाब की तरह है। 8 और इन चारों जानदारों के छः छः पर हैं; और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, “कुदूस, कुदूस, कुदूस, ख़ुदावन्द ख़ुदा कादिर — ए — मुतल्लिक, जो था और जो है और जो आनेवाला है!” 9 और जब वो जानदार उसकी बड़ाई — ओ — 'इज़्जत और तम्जीद करेंगे, जो तख्त पर बैठा है और हमेशा से हमेशा जिन्दा रहेगा; (aiōn g165) 10 तो वो चौबीस बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिज्दा करेंगे, जो हमेशा हमेशा जिन्दा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे, (aiōn g165) 11 “एे हमारे ख़ुदावन्द और ख़ुदा, तू ही बड़ाई और 'इज़्जत और कुदरत के लायक है; क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थी और पैदा हुई।”

**5** जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दहने हाथ में एक किताब देखी जो अन्दर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे सात मुहरों लगाकर बन्द किया गया था 2 फिर मैंने एक ताकतवर फ़रिश्ते को ऊँची आवाज़ से ये ऐलान करते देखा, “कौन इस किताब को खोलने और इसकी मुहरों तोड़ने के लायक है?” 3 और कोई शख्स, आसमान पर या ज़मीन के नीचे, उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल न निकला। 4 और मैं इस बात पर ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने और उस पर नज़र करने के लायक न निकला। 5 तब उन बुजुर्गों में से एक ने कहा मत रो, यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की नस्ल है उस किताब और उसकी सातों मुहरों को खोलने के लिए गालिब आया। 6 और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में, गोया ज़बह किया हुआ एक बर्ग खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आँखें थीं; ये ख़ुदा की सातों रूहें हैं जो तमाम रू — ए — ज़मीन पर भेजी गई हैं। 7 उसने आकर तख्त पर बैठे हुए दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। 8 जब उसने उस किताब को लिया, तो वो चारों जानदार और चौबीस बुजुर्ग उस बर्ग के सामने गिर पड़े; और हर एक के हाथ में बर्बत और 'ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे, ये मुक़द्दसों की दू'आएँ हैं। 9 और वो ये नया गीत गाने लगे, “तू ही इस किताब को लेने, और इसकी मुहरों खोलने के लायक है; क्योंकि तू ने ज़बह होकर अपने खून से हर कबीले और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से ख़ुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। 10 और उनको हमारे ख़ुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं।” 11 और जब मैंने निगाह की, तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के आस पास बहुत से फ़रिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शमार लाखों और करोड़ों था, 12 और वो ऊँची आवाज़ से कहते थे, “जबह किया हुआ बर्ग की कुदरत और दौरलत और हिक्मत और ताकत और 'इज़्जत और बड़ाई और तारीफ़ के लायक है!” 13 फिर मैंने आसमान और ज़मीन और ज़मीन के नीचे की, और समुन्दर की सब मख़्लूकत को या'नी सब चीज़ों को उनमें हैं ये कहते सुना, “जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्ग की, तारीफ़ और इज़्जत और बड़ाई और बादशाही हमेशा हमेशा रहे!” (aiōn g165) 14 और चारों जानदारों ने आमीन कहा, और बुजुर्गों ने गिर कर सिज्दा किया।

**6** फिर मैंने देखा कि बर्ग ने उन सात मुहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक गरजने कि सी ये आवाज़ सुनी, आ! 2 और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया, और वो फ़तह करता हुआ निकला ताकि और भी फ़तह करे। 3 जब उसने दूसरी मुहर खोली, तो मैंने दुसरे जानदार को ये कहते

सुना, “आ!” 4 फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। समुन्दर को तकलीफ पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, ऊँची उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दुसरे को कत्ल करें; और उसको एक बड़ी के माथे पर मुहर न कर लें, ज़मीन और समुन्दर और दरख्तों को तलवार दी गई। 5 जब उसने तीसरी मुहर खोली, तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना, “आ!” और मैंने निगाह की तो क्या देखा तू हूँ कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तलवार है। 6 और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी, गेहूँ दीनार के सेर भर, और जौ दीनार के तीन सेर, और तेल और मय का नुकसान न कर। 7 जब उन्होंने चौथी मुहर खोली, तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना, “आ!” 8 मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम ‘मौत’ है और ‘आलम — ए — अर्वाह उसके पीछे पीछे है; और उनको चौथाई ज़मीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिन्दों से लोगों को हलाक करें। (Hades g86) 9 जब उसने पाँचवीं मुहर खोली, तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूँहे देखी जो खुदा के कलाम की वजह से और गवाही पर काईम रहने के ज़रिए मारे गए थे। 10 और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर बोली, ए मालिक, “ए कुदूस — ओ — बरहक, तू कब तक इन्साफ न करेगा और ज़मीन के रहनेवालों से चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से!” 11 और हमारे खून का बदला न लेगा?” 11 और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्त आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हमखिदमत और भाइयों का भी शमार पूरा न हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होनेवाले हैं। 12 जब उसने छठी मुहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भुन्चाल आया, और सूज़ कम्मल की तरह काला और सारा चाँद खून सा हो गया। 13 और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े, जिस तरह जोर की आँधी से हिल कर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। 14 और आसमान इस तरह सरक गया, जिस तरह खत लपेटने से सरक जाता है; और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। 15 और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार, और मालदार और ताकतवर, और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे, 16 और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, “हम पर गिर पड़ो, और हमें उनकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर् के गज़ब से छिपा लो। 17 क्योंकि उनके गज़ब का दिन ‘अज़ीम आ पहुँचा, अब कौन ठहर सकता है?”

**7** इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर चार फरिशते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि ज़मीन या समुन्दर या किसी दरख्त पर हवा न चले। 2 फिर मैंने एक और फरिशते को, जिन्दा खुदा की मुहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा; उसने उन चारों फरिशतों से, जिन्हें ज़मीन और

समुन्दर को तकलीफ पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, ऊँची आवाज़ से पुकार कर कहा, 3 “जब तक हम अपने खुदा के बन्दों के माथे पर मुहर न कर लें, ज़मीन और समुन्दर और दरख्तों को तकलीफ न पहुँचाना।” 4 और जिन पर मुहर की गई उनका शमार सुना, कि बनी — इस्राइल के सब कबीलों में से एक लाख चवालीस हजार पर मुहर की गई: 5 यहूदाह के कबीले में से बारह हजार पर मुहर की गई: रोबिन के कबीले में से बारह हजार पर, जद के कबीले में से बारह हजार पर, 6 आशर के कबीले में से बारह हजार पर, नफताली के कबीले में से बारह हजार पर, मनस्सी के कबीले में से बारह हजार पर, 7 शमीन के कबीले में से बारह हजार पर, लावी के कबीले में से बारह हजार पर, इश्कार के कबीले में से बारह हजार पर, 8 ज़बलून के कबीले में से बारह हजार पर, युसूफ के कबीले में से बारह हजार पर, बिनयामीन के कबीले में से बारह हजार पर मुहर की गई। 9 इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहल — ए ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई शमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर् के आगे खड़ी है, 10 और बड़ी आवाज़ से सब फरिशते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के पास खड़े है, फिर वो तख्त के आगे मुँह के बल गिर पड़े और खुदा को सिज्दा कर के 12 कहा, आमीन! तारीफ और बड़ाई और हिक्मत और शुक्र और ‘इज़ज़त और कुदरत और ताकत हमेशा से हमेशा हमारे खुदा की हो! आमीन। (aiōn g165) 13 और बुजुर्गों में से एक ने मुझ से कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं, और कहाँ से आए हैं?” 14 मैंने उससे कहा, “ए मेरे खुदावन्द, तू ही जानता है।” उसने मुझ से कहा, ये वही हैं; उन्होंने अपने जामे बर् के कुर्बानी के खून से धो कर सफेद किए हैं। 15 “इसी वजह से ये खुदा के तख्त के सामने हैं, और उसके मक्दिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है, वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। 16 इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी न प्यास और न धूप सताएगी न गर्मी। 17 क्योंकि जो बरी तख्त के बीच में है, वो उनकी देखभाल करेगा, और उन्हें आब — ए — हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आँखों के सब आँसू पोंछ देगा।”

**8** जब उसने सातवीं मुहर खोली, तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। 2 और मैंने उन सातों फरिशतों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें सात नसिंगे दीए गए। 3 फिर एक और फरिशता सोने का ‘बखूरदान लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ‘ऊद दिया गया, ताकि अब मुकद्दसों की दु’आओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए

जो तख्त के सामने है। 4 और उस 'ऊद का धुवाँ फरिशते के सामने है। 5 और फरिशते ने 'बखूरदान को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी, और गरजें और आवाज़ें और बिजलियाँ पैदा हुईं और भुन्चाल आया। 6 और वो सातों फरिशते जिनके पास वो सात नरसिंगे थे, फूँकने को तैयार हुए। 7 जब पहले ने नरसिंगा फूँका, तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुईं और ज़मीन जल गई, और तिहाई दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। 8 जब दूसरे फरिशते ने नरसिंगा फूँका, गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुन्दर में डाला गया; और तिहाई समुन्दर खून हो गया। 9 और समुन्दर की तिहाई जानदार मखलूकत मर गई, और तिहाई जहाज़ तबाह हो गए। 10 जब तीसरे फरिशते ने नरसिंगा फूँका, तो एक बड़ा सितारा मशा'ल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा, और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। 11 उस सितारे का नाम नागदौना कहलाता है; और तिहाई पानी नागदौने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वे हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। 12 जब चौथे फरिशते ने नरसिंगा फूँका, तो तिहाई सूरज चाँद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुँचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया, और तिहाई दिन में रौशनी न रही, और इसी तरह तिहाई रात में भी। 13 जब मैंने फिर निगाह की, तो आसमान के बीच में एक 'उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना, "उन तीन फरिशतों के नरसिंगे की आवाज़ों की वजह से, जिनका फूँकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहनेवालों पर अफ़सोस, अफ़सोस, अफ़सोस!"

**9** जब पाँचवें फरिशते ने नरसिंगा फूँका, तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह गूँघे की कूज़ी दी गई। (Abyssos g12) 2 और जब उसने अथाह गूँघे को खोला तो गूँघे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुवाँ उठा, और गूँघे के धुँवे के ज़रिए से सूरज और हवा तारीक हो गई। (Abyssos g12) 3 और उस धुँवे में से ज़मीन पर टिट्टियाँ निकल पड़ी, और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। 4 और उससे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मुहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियाली या किसी दरख्त को तकलीफ न पहुँचे। 5 और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि पाँच महीने तक लोगों को तकलीफ देने का इख्तियार दिया गया; और उनकी तकलीफ ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। 6 उन दिनों में आदमी मौत ढूँढेंगे मगर हरगिज़ न पाएँगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। 7 उन टिट्टियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सिरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चहरे आदमियों के से थे, 8 और बाल 'औरतों के से थे, और दाँत बबर के से। 9 उनके पास लोहे के से

बख़्तर थे, और उनके परो की आवाज़ ऐसी थी रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। 10 और उनकी दुमों में बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में पाँच महीने तक आदमियों को तकलीफ पहुँचाने की ताकत थी। 11 अथाह गूँघे का फरिशता उन पर बादशाह था; उसका नाम 'इब्नानी अबदून और यूनानी में अपुल्ल्योन है। (Abyssos g12) 12 पहला अफ़सोस तो हो चुका, देखो, उसके बाद दो अफ़सोस और होने हैं। 13 जब छठे फरिशते ने नरसिंगा फूँका, तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के चारों कोनों के सींगों में से जो खुदा के सामने है, ऐसी आवाज़ सुनी 14 कि उस छठे फरिशते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है, बड़े दरिया, "या'नी फुरात के पास जो चार फरिशते बँधे हैं उन्हें खोल दे।" 15 पस वो चारों फरिशते खोल दिए गए, जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे; 16 और फ़ौजों के सवार में बीस करोड़ थे; मैंने उनका शुमार सुना। 17 और मुझे उस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख़्तर से आग और धुँवाँ और गंधक निकलती थी। 18 इन तीनों आफ़तों यानी आग, धुँवाँ, और गंधक, सी जो उनके मुँह से निकलती थी, तिहाई लोग मारे गए। 19 क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुँह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमों साँपों की तरह थीं और दुमों में सिर भी थे, उन्हीं से वो तकलीफ पहुँचाते थे। 20 और बाक़ी आदमियों ने जो इन आफ़तों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा न की, कि शयातीन की और सोने और चाँदी और पीतल और पत्थर लकड़ी के बुतों की इबादत करने से बा'ज़ आते, जो न देख सकती हैं न सुन सकती हैं न चल सकती हैं; 21 और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा न की।

**10** फिर मैंने एक और ताकतवर फरिशते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सिर पर धनुक थी, और उसका चेहरा आफ़ताब की तरह था, और उसका पाँव आग के सुतनों की तरह। 2 और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दहना पैर तो समुन्दर पर रखवा और बायाँ ख़श्की पर। 3 और ऐसी ऊँची आवाज़ से चिल्लाया जैसे बबर चिल्लाता है और जब वो चिल्लाया तो सात आवाज़ें सुनाई दीं 4 जब गरज की सात आवाज़ें सुनाई दे चुकीं तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी, जो बातें गरज की इन सात आवाज़ों से सुनी हैं, उनको छुपाए रख और लिख मत। 5 और जिस फरिशते को मैंने समुन्दर और ख़श्की पर खड़े देखा था उसने अपना दहना हाथ आसमान की तरफ़ उठाया 6 जो हमेशा से हमेशा जिन्दा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अन्दर की चीज़ें, और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें, और समुन्दर और

उसके अन्दर की चीजें, पैदा की हैं, उसकी क्रम खाकर कहा कि अब और देर न होगी। (aiōn g165) 7 बल्कि सातवें फ़रिश्ते की आवाज़ देने के ज़माने में, जब वो नरसिंगा फूँकने को होगा, तो खुदा का छुपा हुआ मतलब उस खुशख़बरी के जैसा, जो उसने अपने बन्दों, नबियों को दी थी पूरा होगा। 8 और जिस आवाज़ देनेवाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझ से मुख़ातिब होकर कहा, जा, “उस फ़रिश्ते के हाथ में से जो समुन्दर और खुशकी पर खड़ा है, वो खुली हुई किताब ले ले।” 9 तब मैंने उस फ़रिश्ते के पास जाकर कहा, ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझ से कहा, “ले, इसे खाले; ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, मगर तेरे मुँह में शहद की तरह मीठी लगेगी।” 10 पस मैं वो छोटी किताब उस फ़रिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुँह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। 11 और मुझ से कहा गया, “तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहल — ए — ज़बान और बादशाहों पर फिर नबुव्वत करना ज़रूर है।”

**11** और मुझे 'लाठी की तरह एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा, उठकर खुदा के मक़्दिस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। 2 और उस सहन को जो मक़्दिस के बाहर है अलग कर दे, और उसे न नाप क्योंकि वो गैर — कौमों को दे दिया गया है; वो मुक़द्दस शहर को बयालीस महीने तक पामाल करेंगी। 3 “और मैं अपने दो गवाहों को इख़्तियार दूँगा, और वो टाट ओढ़े हुए एक हज़ार दो सौ साठ दिन तक नबुव्वत करेंगे।” 4 ये वही ज़ैतून के दो दरख़्त और दो चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावन्द के सामने खड़े हैं। 5 और अगर कोई उन्हें तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है, तो उनके मुँह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है; और अगर कोई उन्हें तकलीफ़ पहुँचाना चाहेगा, तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। 6 उनको इख़्तियार है आसमान को बन्द कर दें, ताकि उनकी नबुव्वत के ज़माने में पानी न बरसे, और पानियों पर इख़्तियार है कि उनको खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफ़त लाएँ। 7 जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वो हैवान जो अथाह गह्वे से निकलेगा, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। (Abysso g12) 8 और उनकी लाशें उस येरूशलेम के बाज़ार में पड़ी रहेंगी, जो रूहानी ऐतिबार से सदूम और मिश्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावन्द भी मस्तूल हुआ था। 9 उम्मतों और कबीलों और अहल — ए — ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे। 10 और ज़मीन के रहनेवाले उनके मरने से खुशी मनाएँगे और शादियाने बजाएँगे, और आपस में तुहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों

नबियों ने ज़मीन के रहनेवालों को सताया था। 11 और साढ़े तीन दिन के बाद खुदा की तरफ़ से उनमें ज़िन्दगी की रूह दाख़िल हुई, और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखनेवालों पर बड़ा खौफ़ छा गया। 12 और उन्हें आसमान पर से एक ऊँची आवाज़ सुनाई दी, “यहाँ ऊपर आ जाओ!” पस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। 13 फिर उसी वक़्त एक बड़ा भुन्चाल आ गया, और शहर का दसवाँ हिस्सा गिर गया, और उस भुन्चाल से सात हज़ार आदमी मरे और बाकी डर गए, और आसमान के खुदा की बड़ाई की। 14 दूसरा अफ़सोस हो चुका; देखो, तीसरा अफ़सोस जल्द होने वाला है। 15 जब सातवें फ़रिश्ते ने नरसिंगा फूँका, तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मज़मून की पैदा हुई: “दुनियाँ की बादशाही हमारे खुदावन्द और उसके मसीह की हो गई, और वो हमेशा बादशाही करेगा।” (aiōn g165) 16 और चौबीसों बुज़ुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख़्त पर बैठे थे, मुँह के बल गिर कर खुदा को सिज़्दा किया। 17 और कहा, “ऐ खुदावन्द खुदा, कादिर — ए — मुतल्लिक! जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। 18 और कौमों को गुस्सा आया, और तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ, और वो वक़्त आ पहुँचा है कि मुर्दा का इन्साफ़ किया जाए, और तेरे बन्दों, नबियों और मुक़द्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए।” 19 और खुदा का जो मक़्दिस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मक़्दिस में उसके 'अहद का सन्दूक दिखाई दिया; और बिजलियों और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई, और भुन्चाल आया और बड़े ओले पड़े।

**12** फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, या'नी एक 'औरत नज़र आई जो अफ़ताब को ओढ़े हुए थी, और चाँद उसके पाँव के नीचे था, और बारह सितारों का ताज़ उसके सिर पर। 2 वो हामिला थी और दर्द — ए — ज़ेह में चिल्लाती थी, और बच्चा जनने की तकलीफ़ में थी। 3 फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, या'नी एक बड़ा लाल अज़दहा, उसके सात सिर और दस सींग थे, और उसके सिरों पर सात ताज़; 4 और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे खींच कर ज़मीन पर डाल दिए। और वो अज़दहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। 5 और वो बेटा जनी, या'नी वो लड़का जो लोहे के 'लाठी से सब कौमों पर हकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख़्त के पास तक पहुँचा दिया गया; 6 और वो 'औरत उस जंगल को भाग गई, जहाँ खुदा की तरफ़ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई

थी, ताकि वहाँ एक हजार दो सौ साठ दिन तक उसकी परवरिश की जाए। 7 फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले; और अज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, 8 लेकिन गालिब न आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। 9 और बड़ा अज़दहा, या'नी वही पुराना साँप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे दुनियाँ को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। 10 फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी, अब हमारे ख़ुदा की नज़ात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख़्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे ख़ुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। 11 और वो बर् के खून और अपनी गवाही के ज़रिए उस पर गालिब आए; और उन्होंने अपनी जान को 'अज़ीज़ न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गंवारा की। 12 "पस ऐ आसमानों और उनके रहनेवालों, खुशी मनाओ। ऐ ख़ुशकी और तरी, तुम पर अफ़सोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्रत बाक़ी है।" 13 और जब अज़दहा ने देखा कि मैं ज़मीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस 'औरत को सताया जो बेटा जनी थी। 14 और उस 'औरत को बड़े; उकाब के दो पर दिए गए, ताकि साँप के सामने से उड़ कर वीराने में अपनी उस जगह पहुँच जाए, जहाँ एक ज़माना और ज़मानो और आधे ज़माने तक उसकी परवरिश की जाएगी। 15 और साँप ने उस 'औरत के पीछे अपने मुँह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे। 16 मगर ज़मीन ने उस 'औरत की मदद की, और अपना मुँह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अज़दहा ने अपने मुँह से बहाई थी। 17 और अज़दहा को 'औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाक़ी औलाद से, जो ख़ुदा के हुक्मों पर 'अमल करती है और ईसा की गवाही देने पर काईम है, लड़ने को गया और समुन्दर की रेत पर जा खड़ा हुआ।

**13** और मैंने एक हैवान को समुन्दर में से निकलते हुए, देखा, उसके दस सींग और सात सिर थे; और उसके सींगों पर दस ताज और उसके सिरों पर कुफ़्र के नाम लिखे हुए थे। 2 और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक़्त तेन्दवे की सी थी, और पाँव रीछ के से और मुँह बबर का सा, और उस अज़दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख़्त और बड़ा इख़्तियार उसे दे दिया। 3 और मैंने उसके सिरों में से एक पर गोया ज़ख़म — ए — कारी अच्छा हो गया, और सारी दुनियाँ ता'ज्ज़ुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। 4 और चूँकि उस अज़दहा ने अपना इख़्तियार उस हैवान को दे दिया था इस लिए उन्होंने अज़दहे की इबादत की और उस हैवान

की भी ये कहकर इबादत की कि इस के बराबर कौन है कौन है जो इस से लड़ सकता है। 5 और बड़े बोल बोलने और कुफ़्र बकने के लिए उसे एक मुँह दिया गया, और उसे बयालीस महीने तक काम का इख़्तियार दिया गया। 6 और उसने ख़ुदा की निस्बत कुफ़्र बकने के लिए मुँह खोला कि उसके नाम और उसके ख़ेमे, या'नी आसमान के क़बीले और उम्मत और अहल — ए — ज़बान और क्रौम पर इख़्तियार दिया गया। 8 और ज़मीन के वो सब रहनेवाले जिनका नाम उस बर् की किताब — ए — हयात में लिखे नहीं गए जो दुनियाँ बनाने के वक़्त से ज़बह हुआ है, उस हैवान की इबादत करेंगे 9 जिसके कान हों वो सुने। 10 जिसको कैद होने वाली है, वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से क़त्ल करेगा, वो ज़स्र तलवार से क़त्ल किया जाएगा। पाक लोग के सब्र और ईमान का यही मौका है। 11 फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर् के से दो सींग थे और वो अज़दहा की तरह बोलता था। 12 और ये पहले हैवान का सारा इख़्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन और उसके रहनेवालों से उस पहले हैवान की इबादत कराता था, जिसका ज़ख़म — ए — कारी अच्छा हो गया था। 13 और वो बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाज़िल कर देता था। 14 और ज़मीन के रहनेवालों को उन निशानों की वजह से, जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख़्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहनेवालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिन्दा हो गया, उसका बुत बनाओ। 15 और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूँकने का इख़्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की इबादत न करें उनको क़त्ल भी कराए। 16 और उसने सब छोटे — बड़ों, दौलतमन्दों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दहने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, 17 ताकि उसके सिवा जिस पर निशान, या'नी उस हैवान का नाम या उसके नाम का 'अदद हो, न कोई ख़रीद — ओ — फ़रोख़्त न कर सके। 18 हिक्मत का ये मौका है: जो समझ रखता है वो आदमी का 'अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का 'अदद है, और उसका 'अदद छः सौ छियासठ है।

**14** फिर मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ कि वो बरा कोहे सियून पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख चवालीस हजार शख़्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। 2 और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी



थी जैसी बर्बत नवाज़ बर्बत बजाते हों। 3 वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे; और उन एक लाख चवालीस हजार शख्सों के सिवा जो दुनियाँ में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को न सीख सका। 4 ये वो हैं जो 'औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, बल्कि कुँवारे हैं। ये वो हैं जो बर्बत के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ कहीं वो जाता है; ये खुदा और बर्बत के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। 5 और उनके मुँह से कभी झूठ न निकला था, वो बे'ऐब हैं। 6 फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहनेवालों की हर कौम और कबिली और अहल — ए — ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए हमेशा की ख़ुशख़बरी थी। (aiōnios g166) 7 और उसने बड़ी आवाज़ से कहा, "ख़ुदा से डरो और उसकी बड़ाई करो, क्योंकि उसकी 'अदालत का वक़्त आ पहुँचा है; और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुन्दर और पानी के चश्मे पैदा किए।" 8 फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता आया, "गिर पड़ा, वह बड़ा शहर बाबूल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गज़बनाक मय तमाम कौमों को पिलाई है।" 9 फिर इन के बाद एक और, तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा, "जो कोई उस हैवान और उसके बूत की इबादत करे, और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले; 10 वो ख़ुदा के क्रहर की उस खालिस मय को पिएगा जो उसके गुस्से के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्बत के सामने आग और गन्धक के 'अज़ाब में मुक़्तिला होगा। 11 और उनके 'अज़ाब का धुँवाँ हमेशा ही उठता रहेगा, और जो उस हैवान और उसके बूत की इबादत करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा।" (aiōn g165) 12 मुक़द्दसों या'नी ख़ुदा के हुक्मों पर 'अमल करनेवालों और ईसा पर ईमान रखनेवालों के सब्र का यही मौक़ा है। 13 फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी, "लिख! मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से ख़ुदावन्द में मरते हैं।" रूह फ़रमाता है, "बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएँगे, और उनके आ'माल उनके साथ साथ होते हैं।" 14 फिर मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है, और उस बादल पर आदमज़ाद की तरह कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का ताज और हाथ में तेज़ दरान्ती है। 15 फिर एक और फरिश्ते ने मक़्दिस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए एक बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा, "अपनी दरान्ती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक़्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फ़सल बहुत पक गई।" 16 पस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरान्ती ज़मीन पर डाल दी, और ज़मीन की फ़सल कट गई। 17 फिर एक और फरिश्ता उस मक़्दिस में से निकला जो आसमान पर है, उसके

पास भी तेज़ दरान्ती थी। 18 फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला, जिसका आग पर इख़्तियार था; उसने तेज़ दरान्ती वाले से बड़ी आवाज़ से कहा, अपनी तेज़ दरान्ती चलाकर ज़मीन के अंगूर के दरख़्त के गुच्छे काट ले जो बिल्कुल पक गए हैं। 19 और उस फरिश्ते ने अपनी दरान्ती ज़मीन पर डाली, और ज़मीन के अंगूर के दरख़्त की फ़सल काट कर ख़ुदा के क्रहर के बड़े हौज़ में डाल दी; 20 और शहर के बाहर उस हौज़ में अंगूर रौंदे गए, और हौज़ में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुँच गया, और 300 सौ किलो मीटर तक वह निकाला।

**15** फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और 'अजीब निशान, या'नी सात फरिश्ते सातों पिछली आफ़तों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफ़तों पर ख़ुदा का क्रहर ख़त्म हो गया है। 2 फिर मैंने शीशे का सा एक समुन्दर देखा जिसमें आग मिली हुई थी; और जो उस हैवान और उसके बूत और उसके नाम के 'अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशे के समुन्दर के पास ख़ुदा की बर्बतों लिए खड़े हुए देखा। 3 और वो ख़ुदा के बन्दे मूसा का गीत, और बर्बतों का गीत गा गा कर कहते थे, "ए ख़ुदा! कादिर — ए — मुतल्लिक! तेरे काम बड़े और 'अजीब हैं। ए अज़ली बादशाह! तेरी राहें रास्त और दुस्त हैं।" 4 "ए ख़ुदावन्द! कौन तुझ से न डरेगा? और कौन तेरे नाम की बड़ाई न करेगा? क्योंकि सिर्फ़ तू ही कुदूस है; और सब कौमों आकर तेरे सामने सिज़्दा करेंगी, क्योंकि तेरे इन्साफ़ के काम जाहिर हो गए हैं।" 5 इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खेमे का मक़्दिस आसमान में खोला गया; 6 और वो सातों फरिश्ते जिनके पास सातों आफ़तों थीं, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बन्द बाँधे हुए मक़्दिस से निकले। 7 और उन चारों जानदारों में से एक ने सात सोने के प्याले, हमेशा जिन्दा रहनेवाले ख़ुदा के क्रहर से भरे हुए, उन सातों फरिश्तों को दिए; (aiōn g165) 8 और ख़ुदा के जलाल और उसकी कुदुरत की वजह से मक़्दिस धुँप से भर गया और जब तक उन सातों फरिश्तों की सातों मुसीबतों ख़त्म न हों चुकी कोई उस मक़्दिस में दाख़िल न हो सका

**16** फिर मैंने मक़्दिस में से किसी को बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना, जाओ! ख़ुदा के क्रहर के सातों प्यालों को ज़मीन पर उलट दो। 2 पस पहले ने जाकर अपना प्याला ज़मीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बूत की इबादत करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ़ देनेवाला नासूर पैदा हो गया। 3 दूसरे ने अपना प्याला समुन्दर में उलटा, और वो मुर्दे का सा खून बन गया, और समुन्दर के सब जानदार मर गए। 4 तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उलटा और वो खून बन गया। 5 और मैंने पानी के फरिश्ते

को ये कहते सुना, “ऐ कूट्स! जो है और जो था, तू 'आदिल है कि तू ने ये इन्साफ़ किया। 6 क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था, और तू ने उन्हें खून पिलाया; वो इसी लायक है।” 7 फिर मैंने कुर्बानगाह में से ये आवाज़ सुनी, “ए खुदावन्द खुदा!, कादिर — ए — मुतल्लिक! बेशक तेरे फैसले दुस्त और रास्त हैं।” 8 चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उलटा, और उसे आदमियों को आग से झूलस देने का इख्तियार दिया गया। 9 और आदमी सख्त गर्मी से झूलस गए, और उन्होंने खुदा के नाम के बारे में कुफ़्र बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा न की कि उसकी बड़ाई करते। 10 पाँचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उलटा, और लोग अपनी ज़बाने काटने लगे, 11 और अपने दुबों और नासूरों के जरिए आसमान के खुदा के बारे में कुफ़्र बकने लगे, और अपने कामों से तौबा न की। 12 छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया या'नी फुरात पर पलटा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए रास्ता तैयार हो जाए। 13 फिर मैंने उस अज़दहा के मुँह से, और उस हैवान के मुँह से, और उस झूठे नबी के मुँह से तीन बदस्हें मेंढकों की सूरत में निकलती देखीं। 14 ये शयातीन की निशान दिखानेवाली रूहें हैं, जो कादिर — ए — मुतल्लिक खुदा के रोज़ — ए — 'अज़ीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए, सारी दुनियाँ के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। 15 “(देखो, मैं चोर की तरह आता हूँ; मुबारिक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाज़त करता है ताकि गंगा न फिरे, और लोग उसका नंगापन न देखें)” 16 और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया, जिसका नाम 'इब्रानी में हरमज्ज़ेन है। 17 सातवें ने अपना प्याला हवा पर उलटा, और मक्दिस के तख्त की तरफ़ से बड़े जोर से ये आवाज़ आई, “हो चूका!” 18 फिर बिजलियों और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं, और एक ऐसा बड़ा भुन्चाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भुन्चाल कभी न आया था। 19 और उस बड़े शहर के तीन टुकड़े हो गए, और कौमों के शहर गिर गए; और बड़े शहर — ए — बाबुल की खुदा के यहाँ याद हुईं ताकि उसे अपने सख्त गुम्से की मय का जाम पिलाए। 20 और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। 21 और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और चूँकि ये आफ़त निहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने ओलों की आफ़त के जरिए खुदा की निस्बत कुफ़्र बका।

**17** और सातों फ़रिशतों में से, जिनके पास सात प्याले थे, एक ने आकर मुझ से ये कहा, इधर आ! मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सज़ा दिखाऊँ, जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है; 2 और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और ज़मीन के रहनेवाले उसकी हरामकारी की मय से मतवाले हो गए थे। 3 पस

वो मुझे पाक रूह में जंगल को ले गया, वहाँ मैंने किरमिज़ी रंग के सिर और दस सींग थे, एक 'औरत को बैठे हुए देखा। 4 ये औरत इर्शानी और किरमिज़ी लिबास पहने हुए सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी और एक सोने का प्याला मक़ूहात का जो उसकी हरामकारी की नापकियों से भरा हुआ था उसके हाथ में था। 5 और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था “राज़; बड़ा शहर — ए — बाबुल कस्बियों और ज़मीन की मक़रूहात की माँ।” 6 और मैंने उस 'औरत को मुकद्दसों का खून और ईसा के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। 7 उस फ़रिशते ने मुझ से कहा, “तू हैरान क्यों हो गया मैं इस औरत और उस हैवान का, जिस पर वो सवार है जिसके सात सिर और दस सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। 8 ये जो तू ने हैवान देखा है, ये पहले तो था मगर अब नहीं है; और आइन्दा अथाह गहू से निकलकर हलाकत में पड़ेगा, और ज़मीन के रहनेवाले जिनके नाम दुनियाँ बनाने से पहले के वक़्त से किताब — ए — हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ता'अज्ज़ुब करेंगे। (Abysos g12) 9 यही मौक़ा' है उस ज़हन का जिसमें हिक़मत है: वो सातों सिर पहाड़ हैं, जिन पर वो 'औरत बैठी हुई है। 10 और वो सात बादशाह भी हैं, पाँच तो हो चुके हैं, और एक मौजूद, और एक अभी आया भी नहीं और जब आया तो कुछ 'अरसे तक उसका रहना ज़रूर है। 11 और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो आठवाँ है और उन सातों में से पैदा हुआ, और हलाकत में पड़ेगा। 12 और वो दस सींग जो तू ने देखे दस बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएँगे। 13 इन सब की एक ही राय होगी, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे।” 14 “वो बर्र से लडेंगे और बर्रा उन पर गालिब आया, क्योंकि वो खुदावन्दों का खुदावन्द और बादशाहों का बादशाह है; और जो बुलाए हुए और चुने हुए और वफ़ादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएँगे।” 15 फिर उसने मुझ से कहा, जो पानी तू ने देखा जिन पर कस्बी बैठी है, वो उम्में और गिरोह और कौमों और अहले ज़बान हैं। 16 और जो दस सींग तू ने देखे, वो और हैवान उस कस्बी से 'अदावत रखेंगे, और उसे बेबस और नंगा कर देंगे और उसका गोशत खा जाएँगे, और उसको आग में जला डालेंगे। 17 “क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की राय पर चलें, वो एक — राय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें। 18 और वो 'औरत जिसे तू ने देखा, वो बड़ा शहर है जो ज़मीन के बादशाहों पर हुक़मत करता है।”

**18** इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था; और ज़मीन उसके जलाल से रौशन हो गई। 2 उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, “गिर पडा, बड़ा शहर बाबूल गिर पडा! और शयातीन का मस्कन और हर नापाक और मकसूह परिन्दे का अंडा हो गया। 3 क्योंकि उसकी हरामकारी की गज़बनाक मय के जरिए तमाम क्रौमों गिर गई हैं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनियाँ के सौदागर उसके 'ऐशो — ओ — अशरत की बदौलत दौलतमन्द हो गए।’ 4 फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, “ऐ मेरी उम्मत के लोगो! उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक न हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर न आ जाए। 5 क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुँच गए हैं, और उसकी बदकारियाँ खुदा को याद आ गई हैं। 6 जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, और उसे उसके कामों का दो चन्द बदला दो, जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। 7 जिस कदर उसने अपने आपको शानदार बनाया, और अय्याशी की थी, उसी कदर उसको 'अज़ाब और गम में डाल दो; क्योंकि वो अपने दिल में कहती है, 'मैं मलिका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं; और कभी गम न देखूँगी।’ 8 इसलिए उस एक ही दिन में आफतें आँगी, यानी मौत और गम और काल; और वो आग में जलकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इन्साफ करनेवाला खुदावन्द खुदा ताकतवर है।’ 9 “और उसके साथ हरामकारी और 'अय्याशी करनेवाले ज़मीन के बादशाह, जब उसके जलने का धुवाँ देखेंगे तो उसके लिए रोएँगे और छाती पीटेंगे। 10 और उसके 'अज़ाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, 'ऐ बड़े शहर! अफसोस! अफसोस! घड़ी ही भर में तुझे सज़ा मिल गई।’ 11 “और दुनियाँ के सौदागर उसके लिए रोएँगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का; 12 और वो माल ये है: सोना, चाँदी, जवाहर, मोती, और महीन कतानी, और इर्गवानी और रेशमी और किरमिज़ी कपड़े, और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियाँ, और हाथीदाँत की तरह की चीज़ें, और निहायत बेशक्रीमती लकड़ी, और पीतल और लोहे और संग — ए — मरमर की तरह तरह की चीज़ें, 13 और दाल चीनी और मसाले और 'ऊद और 'इत्र और लुबान, और मय और तेल और मैदा और गेहूँ, और मवेशी और भेड़ें और घोड़े, और गाड़ियाँ और गुलाम और आदमियों की जानें। 14 अब तैरे दिल पसन्द मेवे तैरे पास से दूर हो गए, और सब लज़ीज़ और तोहफा चीज़ें तुझ से जाती रहीं, अब वो हरगिज़ हाथ न आएँगी। 15 इन दिनों के सौदागर जो उसके वजह से मालदार बन गए थे, उसके 'अज़ाब ले खौफ से दूर खड़े हुए रोएँगे और गम करेंगे। 16 और कहेंगे, अफसोस! अफसोस! वो बड़ा शहर जो महीन कतानी, और इर्गवानी और किरमिज़ी कपड़े पहने हुए, और सोने और जवाहर और मोतियों से सजा हुआ था। 17 घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बरबाद हो गई, और सब नाखुदा और जहाज़ के सब मुसाफ़िर, ” “और मल्लाह और जितने समुन्दर का काम करते हैं, 18 जब उसके जलने का धुवाँ देखेंगे, तो दूर खड़े हुए चिल्लाएँगे और कहेंगे, 'कौन सा शहर इस बड़े शहर की तरह है? 19 और अपने सिरों पर खाक डालेंगे, और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, 'अफसोस! अफसोस! वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुन्दर के सब जहाज़ वाले दौलतमन्द हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया।’ 20 ऐ आसमान, और ऐ मुकद्दसों और रसूलों और नबियों! उस पर ख़ुशी करो, क्योंकि खुदा ने इन्साफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया!” 21 फिर एक ताकतवर फरिश्ते ने बड़ी चक्की के पाट की तरह एक पत्थर उठाया, और ये कहकर समुन्दर में फेंक दिया, “बाबूल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। 22 और बर्बत नवाज़ों, और मूतरिबों, और बाँसूरी बजानेवालों और नरसिंगा फूँकने वालों की आवाज़ फिर कभी तुझ में न सुनाई देगी; और किसी काम का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया न जाएगा। और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी न सुनाई देगी। 23 और चिराग की रौशनी तुझ में फिर कभी न चमकेगी, और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ फिर कभी सुनाई न देगी; क्योंकि तैरे सौदागर ज़मीन के अमीर थे, और तैरी जादूरी से सब क्रौमों गुमराह हो गई। 24 और नबियों और मुकद्दसों, और ज़मीन के सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया।”

**19** इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमा'अत को ऊँची आवाज़ से ये कहते सुना, “हालेलूया! नजात और जलाल और क़ुदरत हमारे खुदा की है। 2 क्योंकि उसके फ़ैसले सहीह और दमस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कस्बी का इन्साफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनियाँ को खराब किया था, और उससे अपने बन्दों के खून का बदला लिया।” 3 फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, “हल्लेलुइया! और उसके जलने का धुवाँ हमेशा उठता रहेगा।” (aiōn g165) 4 और चौबीसों बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिर कर खुदा को सिज्दा किया, जो तख़्त पर बैठा था और कहा, “आमीन! हल्लेलुइया!” 5 और तख़्त में से ये आवाज़ निकली, “ऐ उससे डरनेवाले बन्दो! हमारे खुदा की तम्ज़ीद करो! चाहे छोटे हो चाहे बड़े!” 6 फिर मैंने बड़ी जमा'अत की सी आवाज़, और जोर की सी आवाज़, और सख़्त गरजने की सी आवाज़ सुनी: “हल्लेलुइया! इसलिए के खुदावन्द हमारा खुदा कादिर — ए — मुतल्लिक बादशाही करता है। 7 आओ, हम ख़ुशी करें और निहायत शादमान हों, और उसकी बड़ाई करें; इसलिए कि बर्ब की शादी आ पहुँची, और उसकी बीवी ने अपने आपको तैयार कर लिया; 8

और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया,” क्योंकि महीन कतानी कपड़ों से मुकद्दस लोगों की रास्तबाज़ी के काम मुराद हैं। 9 और उसने मुझ से कहा, “लिख, मुबारिक हैं वे जो बर्न की शादी की दावत में बुलाए गए हैं।” फिर उसने मुझ से कहा, “ये खुदा की सच्ची बातें हैं।” 10 और मैं उसे सिज्दा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझ से कहा, “खबरदार! ऐसा न कर। मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हमखिदमत हूँ, जो ईसा की गवाही देने पर काईम हैं। खुदा ही को सिज्दा कर।” क्योंकि ईसा की गवाही नबूवत की रूह है। 11 फिर मैंने आसमान को खुला हुआ, देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है; और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो सच्चाई के साथ इन्साफ और लड़ाई करता है। 12 और उसकी आँखें आग के शोले हैं, और उसके सिर पर बहुत से ताज हैं। और उसका एक नाम लिखा हुआ है, जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। 13 और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम — ए — खुदा कहलाता है। 14 और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। 15 और कौमों के मारने के लिए उसके मुँह से एक तेज तलवार निकलती है; और वो लोहे की 'लाठी से उन पर हुक्मत करेगा, और कादिर — ए — मुतल्लिक खुदा के तख्त गज़ब की मय के हौज़ में अंगूर रौंदेगा। 16 और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है: “बादशाहों का बादशाह और खुदावन्दों का खुदावन्द।” 17 फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा। और उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर आसमान में के सब उडनेवाले परिन्दों से कहा, “आओ, खुदा की बड़ी दावत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ; 18 ताकि तुम बादशाहों का गोश्त, और फौजी सरदारों का गोश्त, और ताकतवरों का गोश्त, और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त, और सब आदमियों का गोश्त खाओ; चाहे आज़ाद हों चाहे गुलाम, चाहे छोटे हों चाहे बड़े।” 19 फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फौजों को, उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। 20 और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिनसे उसने हैवान की छाप लेनेवालों और उसके बुत की इबादत करनेवालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिन्दा डाले गए, जो गंधक से जलती है। (Limnē Pyr g3041 g4442) 21 और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से, जो उसके मुँह से निकलती थी कल्ल किए गए; और सब परिन्दे उनके गोश्त से सेर हो गए।

**20** फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गद्दे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी।


(Abyssos g12) 2 उसने उस अज़दहा, या'नी पुराने सौंप को जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ कर हजार बरस के लिए बाँधा, 3 और उसे अथाह गद्दे में डाल कर बन्द कर दिया और उस पर मुहर कर दी, ताकि वो हजार बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े 'अरसे के लिए खोला जाए। (Abyssos g12) 4 फिर मैंने तख्त देखे, और लोग उन पर बैठ गए और 'अदालत उनके सुपुर्द की गई; और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सिर ईसा की गवाही देने और खुदा के कलाम की वजह से काटे गए थे, और जिन्होंने न उस हैवान की इबादत की थी न उसके बुत की, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिन्दा होकर हजार बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। 5 और जब तक ये हजार बरस पूरे न हो गए बाकी मुर्दे जिन्दा न हुए। पहली कयामत यही है। 6 मुबारिक और मुकद्दस वो है, जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ हजार बरस तक बादशाही करेंगे। 7 जब हजार बरस पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8 और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, या'नी जूज़ और माजूज़ को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकाले; उनका शमार समुन्दर की रेत के बराबर होगा। 9 और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएँगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और 'अज़ीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी। 10 और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा; और रात दिन हमेशा से हमेशा तक 'अज़ाब में रहेंगे। (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) 11 फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए, और उन्हें कहीं जगह न मिली। 12 फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताब खोली गई, या'नी किताब — ए — हयात; और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके आ'माल के मुताबिक मुर्दों को दे इन्साफ किया गया। 13 और समुन्दर ने अपने अन्दर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के आ'माल के मुताबिक उसका इन्साफ किया गया। (Hadēs g86) 14 फिर मौत और 'आलम — ए — अर्वाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील आखरी मौत है, (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442) 15 और जिस किसी का नाम किताब — ए — हयात में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। (Limnē Pyr g3041 g4442)

**21** फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि मुताबिक नापा, तो एक सौ चवालीस हाथ निकली। 18 और उसकी पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी, और शहरपनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का समुन्दर भी न रहा। 2 फिर मैंने शहर — ए — मुकद्दस नए येरुशलेम था जो साफ शीशे की तरह हो। 19 और उस शहर की शहरपनाह की को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी; पहली बुनियाद यशब की तरह सजा था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। 3 की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, चौथी ज़मुर्द की, फिर मैंने तख्त में से किसी को उनको ऊँची आवाज़ से ये कहते सुना, 20 पाँचवीं 'आक्रीक की, छठी ला'ल की, सातवीं सुन्हे पत्थर की, "देख, खुदा का खेमा आदमियों के दर्मियान है। और वो उनके आठवीं फ़ीरोज़ की, नवीं ज़बरजद की, और बारहवीं याकूत की। साथ सुकूनत करेगा, और वो उनके साथ रहेगा और उनका खुदा 21 और बारह दरवाज़े बारह मोतियों के थे; हर दरवाज़ा एक मोती होगा। 4 और उनकी आँखों के सब आँसू पोंछ देगा; इसके बाद न का था, और शहर की सड़क साफ शीशे की तरह खालिस सोने की मौत रहेगी, और न मातम रहेगा, न आह — ओ — नाला न दर्द; थी। 22 और मैंने उसमें कोई मक्दिस न देखे, इसलिए कि खुदाबन्द खुदा कादिर — ए — मुतल्लिक और बर्रा उसका मक्दिस हैं। 23 पहली चीज़े जाती रही।" 5 और जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने और उस शहर में सूरज या चाँद की रौशनी की कुछ हाजत नहीं, कहा, "देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ।" फिर उसने कहा, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रौशन कर रखवा है, और बर्रा उसका "लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं।" 6 फिर उसने मुझ चिराग है। 24 और क्रौमों उसकी रौशनी में चले फिरंगी, और ज़मीन से कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा, या'नी शुरू के बादशाह अपनी शान — ओ — शौकत का सामान उसमें लाएँगे। और आखिर हूँ। मैं प्यासे को आब — ए — हयात के चश्मे से 25 और उसके दरवाज़े दिन को हरगिज़ बन्द न होंगे, और रात वहाँ मुफ्त पिलाऊँगा। 7 जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस न होगी। 26 और लोग क्रौमों की शान — ओ — शौकत और होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। 8 मगर इज़ज़त का सामान उसमें लाएँगे। 27 और उसमें कोई नापाक या बुज़दिलों, और बेईमान लोगों, और धिनौने लोगों, और खूनियों, झूठी बातें घढता है, हरगिज़ दाखिल न होगा, मगर वही जिनके नाम और हरामकारों, और जादूगारों, और बुत परस्तों, और सब झूठों का बर्रे की किताब — ए — हयात में लिखे हुए हैं। हिस्सा आग और गन्धक से जलने वाली झील में होगा; ये दूसरी 22 फिर उसने मुझे बिल्लौर की तरह चमकता हुआ आब — मौत है। (Limnē Pyr g3041 g4442) 9 फिर इन सात फ़रिश्तों में से ए — हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के जिनके पास प्याले थे, एक ने आकर मुझ से कहा, "इधर आ, मैं तख्त से निकल कर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। 2 और तुझे दुल्हन, या'नी बर्रे की बीवी दिखाऊँ।" 10 और वो मुझे रूह में और दरिया के पार ज़िन्दगी का दरख्त था। उसमें बारह क्रिस्म के एक बड़े और ऊँचे पहाड़ पर ले गया, और शहर — ए — मुकद्दस फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों येरुशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें बारह क्रिस्म के पत्तों से क्रौमों को शिफा होती थी। 3 और फिर ला'नत न होगी, और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बन्दे उसकी इबादत करेंगे। 4 और वो उसका मुँह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। 5 और फिर रात न होगी, और वो खुदा उनको रौशन करेगा और वो हमेशा से हमेशा तक बादशाही चिराग और सूरज की रौशनी के मुहताज न होंगे, क्योंकि खुदाबन्द करेंगे। (aiōn g165) 6 फिर उसने मुझ से कहा, "ये बातें सच और खुदा है, अपने फ़रिश्ते को इसलिए भेजा कि अपने बन्दों को वो बातें दिखाए बरहक हैं; चुनाँचे खुदाबन्द ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, जिनका जल्द होना ज़रूर है।" 7 "और देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारिक है वो जो इस किताब की नबुव्वत की बातों पर 'अमल करता है।" 8 मैं वही युहन्ना हूँ, जो इन बातों को सुनता और देखता था; और जब मैंने सुना और देखा, तो जिस फ़रिश्ते ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पैर पर सिज्दा करने को गिरा। 9 उसने मुझ से कहा, खबरदार! ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे नबियों और इस

किताब की बातों पर 'अमल करनेवालों का हम खिदमत हैं। खुदा ही को सिज्दा कर। 10 फिर उसने मुझ से कहा, इस किताब की नबुव्वत की बातों को छुपाए न रख; क्योंकि वक्त्र नज़दीक है, 11 “जो बुराई करता है, वो बुराई ही करता जाए; और जो नजिस है, वो नजिस ही होता जाए; और जो रास्तबाज़ है, वो रास्तबाज़ी करता जाए; और जो पाक है, वो पाक ही होता जाए।” 12 “देख, मैं जल्द आने वाला हूँ; और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए बदला मेरे पास है। 13 मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिर, इब्तिदा और इन्तिहा हूँ। 14 मुबारिक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिन्दगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएँगे, और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। 15 मगर कुत्ते, और जादूगर, और हरामकार, और खूनी, और बुत परस्त, और झूठी बात का हर एक पसन्द करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। 16 मुझ ईसा ने, अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्त — ओ — नस्त और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ।” 17 और रूह और दुल्हन कहती हैं, “आ!” और सुननेवाला भी कहे, “आ!” “आ!” और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब — ए — हयात मुफ्त ले। 18 मैं हर एक आदमी के आगे, जो इस किताब की नबुव्वत की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ: अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए, तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। 19 और अगर कोई इस नबुव्वत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो खुदा उस जिन्दगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से, जिनका इस किताब में जिक्र है, उसका हिस्सा निकाल डालेगा। 20 जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, “बेशक, मैं जल्द आने वाला हूँ।” आमीन! ऐ खुदावन्द ईसा आ!

21 खुदावन्द ईसा का फज़ल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।





फिर मैंने शहर — ए — मुकद्दस नए येरूशलेम को आसमान पर से ख़ुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की तरह सजा था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख़्त में से किसी को उनको ऊँची आवाज़ से ये कहते सुना, “देख, ख़ुदा का खेमा आदमियों के दर्मियान है। और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उनके साथ रहेगा और उनका ख़ुदा होगा।

मुकाशफ़ा 21:2-3



# रीडर्स गाईड

उद् at [AionianBible.org/Readers-Guide](http://AionianBible.org/Readers-Guide)

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are added to help your study. The notes show the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, *"As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you remain in him."* Every Christian is qualified to interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn God's word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good. However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible with God's help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, *"And we speak of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned."* So we cannot understand in our natural self, but we can with God's help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions, conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, *"Do your best to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed, properly handling the word of truth."* 2 Timothy 2:15. *"God has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,"* 2 Peter 1:4-8.

# लगत

उद् at [AionianBible.org/Glossary](http://AionianBible.org/Glossary)

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven special words to help us better understand the extent of God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the Strong's Concordance and Glossary definitions.

## **Abyssos** g12

*Greek:* proper noun, place

*Usage:* 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses

*Meaning:*

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

## **aidios** g126

*Greek:* adjective

*Usage:* 2 times in Romans 1:20 and Jude 6

*Meaning:*

Lasting, enduring forever, eternal.

## **aiōn** g165

*Greek:* noun

*Usage:* 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses

*Meaning:*

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns, Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

## **aiōnios** g166

*Greek:* adjective

*Usage:* 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses

*Meaning:*

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

## **eleēsē** g1653

*Greek:* verb, aorist tense, active voice, subjunctive mood, 3rd person singular

*Usage:* 1 time in this conjugation, Romans 11:32

*Meaning:*

To have pity on, to show mercy. Typically, the subjunctive mood indicates possibility, not certainty. However, a subjunctive in a purpose clause is a resulting action as certain as the causal action. The subjunctive in a purpose clause functions as an indicative, not an optative. Thus, the grand conclusion of grace theology in Romans 11:32 must be clarified. God's mercy on all is not a possibility, but a certainty. See [ntgreek.org](http://ntgreek.org).

**Geenna** g1067

*Greek:* proper noun, place

*Usage:* 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses

*Meaning:*

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

**Hadēs** g86

*Greek:* proper noun, place

*Usage:* 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses

*Meaning:*

Synonymous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for deceased believers.

**Limnē Pyr** g3041 g4442

*Greek:* proper noun, place

*Usage:* Phrase 5 times in the New Testament

*Meaning:*

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for the Devil and his angels, Matthew 25:41.

**Sheol** h7585

*Hebrew:* proper noun, place

*Usage:* 66 times in 17 books, 50 chapters, and 64 verses

*Meaning:*

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing and unbelieving, until the general resurrection.

**Tartaroō** g5020

*Greek:* proper noun, place

*Usage:* 1 time in 2 Peter 2:4

*Meaning:*

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.

# लगत +

[AionianBible.org/Bibles/Urdu---Urdu-Bible/Noted](http://AionianBible.org/Bibles/Urdu---Urdu-Bible/Noted)

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not contain Aionian Glossary words and may wrongly imply *eternal* or *Hell*. \* The note placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

## **Abyssos**

लूका 8:31  
रोमियो 10:7  
मुकाशाफा 9:1  
मुकाशाफा 9:2  
मुकाशाफा 9:11  
मुकाशाफा 11:7  
मुकाशाफा 17:8  
मुकाशाफा 20:1  
मुकाशाफा 20:3

## **aidios**

रोमियो 1:20  
यहूदाह 1:6

## **aiōn**

मती 12:32  
मती 13:22  
मती 13:39  
मती 13:40  
मती 13:49  
मती 21:19  
मती 24:3  
मती 28:20  
मरकुस 3:29  
मरकुस 4:19  
मरकुस 10:30  
मरकुस 11:14  
लूका 1:33  
लूका 1:55  
लूका 1:70  
लूका 16:8  
लूका 18:30  
लूका 20:34  
लूका 20:35  
यहून्ना 4:14  
यहून्ना 6:51  
यहून्ना 6:58  
यहून्ना 8:35  
यहून्ना 8:51  
यहून्ना 8:52  
यहून्ना 9:32  
यहून्ना 10:28  
यहून्ना 11:26  
यहून्ना 12:34  
यहून्ना 13:8  
यहून्ना 14:16

आमाल 3:21  
आमाल 15:18  
रोमियो 1:25  
रोमियो 9:5  
रोमियो 11:36  
रोमियो 12:2  
रोमियो 16:27  
1 कुरिन्थियो 1:20  
1 कुरिन्थियो 2:6  
1 कुरिन्थियो 2:7  
1 कुरिन्थियो 2:8  
1 कुरिन्थियो 3:18  
1 कुरिन्थियो 8:13  
1 कुरिन्थियो 10:11  
2 कुरिन्थियो 4:4  
2 कुरिन्थियो 9:9  
2 कुरिन्थियो 11:31  
गलातियो 1:4  
गलातियो 1:5  
इफिसियो 1:21  
इफिसियो 2:2  
इफिसियो 2:7  
इफिसियो 3:9  
इफिसियो 3:11  
इफिसियो 3:21  
इफिसियो 6:12  
फिलिपियो 4:20  
कुलस्सियो 1:26  
1 तीमुथियुस 1:17  
1 तीमुथियुस 6:17  
2 तीमुथियुस 4:10  
2 तीमुथियुस 4:18  
तीतुस 2:12  
इब्रानियो 1:2  
इब्रानियो 1:8  
इब्रानियो 5:6  
इब्रानियो 6:5  
इब्रानियो 6:20  
इब्रानियो 7:17  
इब्रानियो 7:21  
इब्रानियो 7:24  
इब्रानियो 7:28  
इब्रानियो 9:26  
इब्रानियो 11:3  
इब्रानियो 13:8  
इब्रानियो 13:21  
1 पतरस 1:23

1 पतरस 1:25  
1 पतरस 4:11  
1 पतरस 5:11  
2 पतरस 3:18  
1 यहून्ना 2:17  
2 यहून्ना 1:2  
यहूदाह 1:13  
यहूदाह 1:25  
मुकाशाफा 1:6  
मुकाशाफा 1:18  
मुकाशाफा 4:9  
मुकाशाफा 4:10  
मुकाशाफा 5:13  
मुकाशाफा 7:12  
मुकाशाफा 10:6  
मुकाशाफा 11:15  
मुकाशाफा 14:11  
मुकाशाफा 15:7  
मुकाशाफा 19:3  
मुकाशाफा 20:10  
मुकाशाफा 22:5

## **aiōnios**

मती 18:8  
मती 19:16  
मती 19:29  
मती 25:41  
मती 25:46  
मरकुस 3:29  
मरकुस 10:17  
मरकुस 10:30  
लूका 10:25  
लूका 16:9  
लूका 18:18  
लूका 18:30  
यहून्ना 3:15  
यहून्ना 3:16  
यहून्ना 3:36  
यहून्ना 4:14  
यहून्ना 4:36  
यहून्ना 5:24  
यहून्ना 5:39  
यहून्ना 6:27  
यहून्ना 6:40  
यहून्ना 6:47  
यहून्ना 6:54  
यहून्ना 6:68

यहन्ना 10:28  
यहन्ना 12:25  
यहन्ना 12:50  
यहन्ना 17:2  
यहन्ना 17:3  
आमाल 13:46  
आमाल 13:48  
रोमियो 2:7  
रोमियो 5:21  
रोमियो 6:22  
रोमियो 6:23  
रोमियो 16:25  
रोमियो 16:26  
2 कुरिन्थियों 4:17  
2 कुरिन्थियों 4:18  
2 कुरिन्थियों 5:1  
गलातियों 6:8  
2 थिस्सलुनीकियों 1:9  
2 थिस्सलुनीकियों 2:16  
1 तीमुथियुस 1:16  
1 तीमुथियुस 6:12  
1 तीमुथियुस 6:16  
2 तीमुथियुस 1:9  
2 तीमुथियुस 2:10  
तीतुस 1:2  
तीतुस 3:7  
फिलेमोन 1:15  
इब्रानियों 5:9  
इब्रानियों 6:2  
इब्रानियों 9:12  
इब्रानियों 9:14  
इब्रानियों 9:15  
इब्रानियों 13:20  
1 पतरस 5:10  
2 पतरस 1:11  
1 यहन्ना 1:2  
1 यहन्ना 2:25  
1 यहन्ना 3:15  
1 यहन्ना 5:11  
1 यहन्ना 5:13  
1 यहन्ना 5:20  
यह्दाह 1:7  
यह्दाह 1:21  
मुकाशफा 14:6

## **eleēsē**

रोमियो 11:32

## **Geenna**

मती 5:22  
मती 5:29  
मती 5:30  
मती 10:28  
मती 18:9  
मती 23:15  
मती 23:33  
मरकुस 9:43

मरकुस 9:45  
मरकुस 9:47  
लुका 12:5  
याकूब 3:6

## **Hadēs**

मती 11:23  
मती 16:18  
लुका 10:15  
लुका 16:23  
आमाल 2:27  
आमाल 2:31  
1 कुरिन्थियों 15:55  
मुकाशफा 1:18  
मुकाशफा 6:8  
मुकाशफा 20:13  
मुकाशफा 20:14

## **Limnē Pyr**

मुकाशफा 19:20  
मुकाशफा 20:10  
मुकाशफा 20:14  
मुकाशफा 20:15  
मुकाशफा 21:8

## **Sheol**

पैदाइश 37:35  
पैदाइश 42:38  
पैदाइश 44:29  
पैदाइश 44:31  
गिन 16:30  
गिन 16:33  
इस्त 32:22  
1 समु 2:6  
2 समु 22:6  
1 सला 2:6  
1 सला 2:9  
अय्यू 7:9  
अय्यू 11:8  
अय्यू 14:13  
अय्यू 17:13  
अय्यू 17:16  
अय्यू 21:13  
अय्यू 24:19  
अय्यू 26:6  
जबूर 6:5  
जबूर 9:17  
जबूर 16:10  
जबूर 18:5  
जबूर 30:3  
जबूर 31:17  
जबूर 49:14  
जबूर 49:15  
जबूर 55:15  
जबूर 86:13  
जबूर 88:3  
जबूर 89:48


जबूर 116:3  
जबूर 139:8  
जबूर 141:7  
अम्सा 1:12  
अम्सा 5:5  
अम्सा 7:27  
अम्सा 9:18  
अम्सा 15:11  
अम्सा 15:24  
अम्सा 23:14  
अम्सा 27:20  
अम्सा 30:16  
वाइज़ 9:10  
गजलुल 8:6  
यसा 5:14  
यसा 7:11  
यसा 14:9  
यसा 14:11  
यसा 14:15  
यसा 28:15  
यसा 28:18  
यसा 38:10  
यसा 38:18  
यसा 57:9  
हिज़ि 31:15  
हिज़ि 31:16  
हिज़ि 31:17  
हिज़ि 32:21  
हिज़ि 32:27  
होसी 13:14  
आम् 9:2  
यूना 2:2  
हबक् 2:5

## **Tartaroō**


2 पतरस 2:4

## **Questioned**


None yet noted



यह ईमान का काम था कि अब्राहाम ने खुदा की सुनी जब उस ने उसे बुला कर कहा कि वह एक ऐसे मुल्क में जाए जो उसे बाद में मीरास में मिलेगा। हाँ, वह अपने मुल्क को छोड़ कर खाना हुआ, हालाँकि उसे मालूम न था कि वह कहाँ जा रहा है। - इब्रानियों 11:8




और जब फिर 'औम ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो ख़ुदा इनको फ़िलिस्तिनों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अग़ाचे उधर से नज़दीक़ पड़ता; क्यूँकि ख़ुदा ने कहा, ऐसा न हो कि यह लोग लड़ाई — भिड़ाई देख कर पछताने लगेँ और भिष्य को लौट जाएँ - ख़ुर्क 13:17



## Jesus' Journeys

क्यूंकि इन्हन — ए आदम भी इसलिये नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिये कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदया में दे। - मत्कुस 10:45





पौलुस की तर्फ से जो ईसा मसीह का बन्दा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए अलग किया गया। - रोमियो 1:1

# Creation 4004 B.C.

Adam and Eve created	4004
Tubal-cain forges metal	3300
Enoch walks with God	3017
Methuselah dies at age 969	2349
God floods the Earth	2349
Tower of Babel thwarted	2247
Abraham sojourns to Canaan	1922
Jacob moves to Egypt	1706
Moses leads Exodus from Egypt	1491
Gideon judges Israel	1245
Ruth embraces the God of Israel	1168
David installed as King	1055
King Solomon builds the Temple	1018
Elijah defeats Baal's prophets	896
Jonah preaches to Nineveh	800
Assyrians conquer Israelites	721
King Josiah reforms Judah	630
Babylonians capture Judah	605
Persians conquer Babylonians	539
Cyrus frees Jews, rebuilds Temple	537
Nehemiah rebuilds the wall	454
Malachi prophecies the Messiah	416
Greeks conquer Persians	331
Seleucids conquer Greeks	312
Hebrew Bible translated to Greek	250
Maccabees defeat Seleucids	165
Romans subject Judea	63
Herod the Great rules Judea	37

(The Annals of the World, James Uusher)

## Jesus Christ born 4 B.C.

# New Heavens and Earth



- 1956 Christ returns for his people
- 1956 Jim Elliot martyrd in Ecuador
- 1830 John Williams reaches Polynesia
- 1731 Zinzendorf leads Moravian mission
- 1614 Japanese kill 40,000 Christians
- 1572 Jesuits reach Mexico
- 1517 Martin Luther leads Reformation
- 1455 Gutenberg prints first Bible
- 1323 Franciscans reach Sumatra
- 1276 Ramon Llull trains missionaries
- 1100 Crusades tarnish the church
- 1054 The Great Schism
- 997 Adalbert martyrd in Prussia
- 864 Bulgarian Prince Boris converts
- 716 Boniface reaches Germany
- 635 Alopen reaches China
- 569 Longinus reaches Alodia / Sudan
- 432 Saint Patrick reaches Ireland
- 397 Carthage ratifies Bible Canon
- 341 Ulfilas reaches Goth / Romania
- 325 Niceae proclaims God is Trinity
- 250 Denis reaches Paris, France
- 197 Tertullian writes Christian literature
- 70 Titus destroys the Jewish Temple
- 61 Paul imprisoned in Rome, Italy
- 52 Thomas reaches Malabar, India
- 39 Peter reaches Gentile Cornelius
- 33 Holy Spirit empowers the Church

(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

## Resurrected 33 A.D.

<b>What are we?</b> ▶			Genesis 1:26 - 2:3	
<b>How are we sinful?</b> ▶			Romans 5:12-19	
<b>Where are we?</b> ◀			Innocence	
			Eternity Past	Creation 4004 B.C.
<b>Who are we?</b> ▶	God	Father	John 10:30	Genesis 1:31 God's perfect fellowship with Adam in The Garden of Eden
		Son	God's perfect fellowship	
		Holy Spirit		
	Mankind	Living	Genesis 1:1 No Creation No people	Genesis 1:31 No Fall No unholy Angels
		Deceased believing		
		Deceased unbelieving		
	Angels	Holy	Genesis 1:1 No Creation No people	Genesis 1:31 No Fall No unholy Angels
		Imprisoned		
		Fugitive		
		First Beast		
		False Prophet		
		Satan		
<b>Why are we?</b> ▶			Romans 11:25-36, Ephesian 2:7	

Mankind is created in God's image, male and female He created us

Sin entered the world through Adam and then death through sin

## When are we?



Fallen				Glory
Fall to sin No Law	Moses' Law 1500 B.C.	Christ 33 A.D.	Church Age Kingdom Age	New Heavens and Earth
1 Timothy 6:16 Living in unapproachable light				Acts 3:21 Philippians 2:11 Revelation 20:3  God's perfectly restored fellowship with all Mankind praising Christ as Lord in the Holy City
John 8:58 Pre-incarnate	John 1:14 Incarnate	Luke 23:43 Paradise		
Psalm 139:7 Everywhere	John 14:17 Living in believers			
Ephesians 2:1-5 Serving the Savior or Satan on Earth				
Luke 16:22 Blessed in Paradise				
Luke 16:23, Revelation 20:5,13 Punished in Hades until the final judgment				
Hebrews 1:14 Serving mankind at God's command				
2 Peter 2:4, Jude 6 Imprisoned in Tartarus				
			Revelation 20:13 Thalaasa	Matthew 25:41 Revelation 20:10
1 Peter 5:8, Revelation 12:10  Rebelling against Christ Accusing mankind			Revelation 19:20 Lake of Fire	Lake of Fire prepared for the Devil and his Angels
			Revelation 20:2 Abyss	

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

# मुकरर

उद् at [AionianBible.org/Destiny](http://AionianBible.org/Destiny)

The Aionian Bible shows the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically translated as *Hell* show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell. Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament *Sheol* and New Testament *Hadēs*, 2) *Geenna*, 3) *Tartaroō*, 4) *Abyssos*, 5) *Limnē Pyr*, 6) *Paradise*, 7) *The New Heaven*, and 8) *The New Earth*. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter 2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, *"the gates of Hades will not prevail,"* Matthew 16:18. Paul asks, *"Hades where is your victory?"* 1 Corinthians 15:55. John wrote, *"Hades gives up,"* Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, *"Do not be afraid,"* because he holds the keys to *unlock* death and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our *Good News* sounds like a warning to *"be afraid"* because Jesus holds the keys to *lock* Hades! Wow, we have it backwards! Hades will be evacuated! And to guarantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation 21:1-8. So are those evacuated from Hades then, *"out of the frying pan, into the fire?"* Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead, read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the Goats, *"Then he will say also to those on the left hand, 'Depart from me, you cursed, into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,'"* Matthew 25:41. Bad news for the Devil. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in Heaven. Jesus said, *"You did not choose me, but I chose you,"* John 15:16. Though unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.



## World Nations

पस तुम जा कर सब कौमों को शांति बनाओ और उन को बाप और बेटे और स्ह — उल — कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। - मती 28:19

